



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 4
PART I—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]
No. 1]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 26, 2010/माघ 6, 1931
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 26, 2010/MAGHA 6, 1931

रक्षा मंत्रालय
(सेना विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2010

सं. 1(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2010.—राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अवैतनिक लै/जे सी ओज को सेना विनियमावली 1987 के पैरा 177 के अधीन उनको अवैतनिक कप्तान व अवैतनिक लै. का पद 26 जनवरी, 2010 से सहर्ष प्रदान करते हैं :—
अवैतनिक कप्तान के रूप में

65 आर्मड रेजीमेंट

1	जेसी	239922
2	जेसी	241002
3	जेसी	240752
4	जेसी	241125

एच	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.
के	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.
डब्ल्यू	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.
डब्ल्यू	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.

भंवर सिंह
किशुन सिंह कुशवाह
मनफूल सिंह
राजवीर सिंह

75 आर्मड रेजीमेंट

5	जेसी	240512
---	------	--------

वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.
-----	--------------------------

राधा कृष्णन एम

82 आर्मड रेजीमेंट

6	जेसी	239014
---	------	--------

ए	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.
---	-------------------------------

रिदमल सिंह राठौर

85 आर्मड रेजीमेंट

7	जेसी	239103
---	------	--------

वाइ	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.
-----	-------------------------------

राज नंदन राय

आर्टिलरी रेजीमेंट

8	जेसी	257941
9	जेसी	226992
10	जेसी	259169
11	जेसी	256127
12	जेसी	259650
13	जेसी	225916
14	जेसी	256508
15	जेसी	257513
16	जेसी	258854
17	जेसी	255994

डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.
एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.
डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.
वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.
पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.
के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.
ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.
एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.
पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.
डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.

अजय कुमार सिंह
अर्जुन सिंह
बिरेन्द्र
दर्शन सिंह
गुब्बेला वेंकटेश्वर रेड्डी
कर्म सिंह
कं मोनीर बाबू सिंघा
नरेंद्र कुभार
ओम प्रकाश शर्मा
राज करन

(1)

18	जेसी 257790 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रमन्ना नाइक
19	जेसी 259979 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	वालसालान एम
20	जेसी 263816 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बलबीर सिंह
21	जेसी 263520 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बलविन्दर सिंह
22	जेसी 265600 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	नार सिंह
23	जेसी 267037 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	फूल सिंह
24	जेसी 267854 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रघुबीर सिंह
25	जेसी 267460 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राजेंद्रा प्रसाद नैटियाल
26	जेसी 265706 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सतबीर

सेना वायू सुरक्षा

27	जेसी 297194 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मोहन सिंह
28	जेसी 296089 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सतींद्र कुमार
29	जेसी 296321 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सोहन सिंह राना
30	जेसी 298722 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	झारी लाल
31	जेसी 255298 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	कमलजीत चौधरी
32	जेसी 298689 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	नोमल गोगोई

मद्रास इंजीनियर समूह

33	जेसी 305693 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सी गोविंदन
34	जेसी 305399 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मनोहरन के
35	जेसी 305690 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	वी राजाकुमार
36	जेसी 307393 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	ए अरोकियादास
37	जेसी 308040 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	ए मुरुज्ञान
38	जेसी 306170 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	चंद्रा सेकार जी. ए
39	जेसी 307599 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	देवदाथन के
40	जेसी 307456 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	देवेन्द्र कुमार के
41	जेसी 307768 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	के थिरुनावुकारसु
42	जेसी 306050 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मुरलीधरन सी
43	जेसी 307094 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रामप्पा थिरलापुर
44	जेसी 307095 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सौन्दराराजन एम
45	जेसी 307769 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	एस सेकार
46	जेसी 307855 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुद्धाला आदिनारायण

बंगाल इंजीनियर समूह

47	जेसी 326962 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जगबीर सिंह
48	जेसी 326799 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कृष्णा बहादुर
49	जेसी 325290 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मनजीत सिंह
50	जेसी 327225 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	पियू कान्ति बरोई
51	जेसी 325857 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सीजी कुमार एस

52	जेसी 329040 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अमरीक सिंह
53	जेसी 328927 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दलीप कुमार सिंह
54	जेसी 215957 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दीना मनी सिंघा
55	जेसी 328452 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	गनेश सिंह बोहरा
56	जेसी 328975 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम सिंह रौतेला

बोम्बे इंजीनियर समूह

57	जेसी 347824 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गुरचरण सिंह
58	जेसी 349280 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बलविन्दर सिंह
59	जेसी 348341 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	धन्न लाल जाट
60	जेसी 349350 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	हरबंस सिंह
61	जेसी 349017 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	हरद्ययाल सिंह
62	जेसी 349742 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	ललित मोहन
63	जेसी 349367 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मिलिंद अरुण नाइक
64	जेसी 349334 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	निकम श्री रंग निवरुति

सिग्नल्स कोर

65	जेसी 368149 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जगदीश प्रसाद सिंह
66	जेसी 368588 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रमेश चंद्रा महतो
67	जेसी 370694 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रोशन सिंह
68	जेसी 368190 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	संत राम वर्मा
69	जेसी 368429 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	त्रिलोकी नाथ उपाध्याय
70	जेसी 372703 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अजीत सिंह
71	जेसी 372916 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	भीम सिंह
72	जेसी 373457 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	गुलाब चन्द्र
73	जेसी 371877 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मधुसूधन्न नायर डी.
74	जेसी 374366 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	प्रवीन सिंह ठाकुर
75	जेसी 374509 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	प्रकाश चंद्र सिंह
76	जेसी 372984 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राकेश कुमार
77	जेसी 375310 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	त्यागराजन के

गार्ड्स

78	जेसी 402531 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	परदुमन सिंह पठानिया
79	जेसी 403254 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	इन्द्रा सिंह
80	जेसी 403451 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	पृथ्वी सिंह

पैराशूट रेजीमेन्ट

81	जेसी 412101 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रवीन्द्र सिंह पवार
82	जेसी 412224 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	उत्तातम चन्द्र
83	जेसी 412420 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	भरत सिंह

84	जेसी 412620 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दीप कुमार
85	जेसी 412547 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मालवा राम गुज्जर

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

86	जेसी 418624 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	भगत सिंह
87	जेसी 418398 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मुख्त्यार सिंह
88	जेसी 418576 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुरेन्द्रा पाल सिंह
89	जेसी 419391 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	कष्णन पाल सिंह

पंजाब रेजीमेन्ट

90	जेसी 428201 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बलबीर सिंह पन्नू
91	जेसी 428280 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बलविन्दर सिंह
92	जेसी 428258 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	ज्ञान सिंह राना
93	जेसी 428537 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	प्रेम चन्द शर्मा
94	जेसी 429721 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	हेम राज
95	जेसी 429759 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	जगदीश सिंह
96	जेसी 429781 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मोहिन्दर सिंह
97	जेसी 429829 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	प्रमोद सिंह
98	जेसी 429540 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राजेंद्र सिंह
99	जेसी 429316 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सूरत सिंह,

मद्रास रेजीमेन्ट

100	जेसी 438184 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	के उन्नीर्कशन्न, एसएम
101	जेसी 439402 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	आइ मदलाई मुथूराजू
102	जेसी 438475 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राजशेखरन नायर एस
103	जेसी 433978 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रवि छलापपुराथ पईयन विन्ट्रिल

ग्रेनेडियर्स

104	जेसी 448341 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गोरख रामचंद्र सोनवने
105	जेसी 448886 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	राम निवास
106	जेसी 450031 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	खेम सिंह
107	जेसी 449841 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राजेंद्र प्रसाद

मराठा लघु सेना

108	जेसी 458479 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	इश्वर लक्ष्मन पाटिल
109	जेसी 459247 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	हरिश्चंद्र पारसराम बारबुधे
110	जेसी 458714 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	जयवंत तुकाराम पाटिल
111	जेसी 458974 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुरेश राय जाधव

राजपूताना राईफल्स

112	जेसी 468032 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	भंवर सिंह भाटी
113	जेसी 128620 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हरी दत्त जोशी आर टी
114	जेसी 468647 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुभाष चन्द्र पानाघल
115	जेसी 469354 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बलजीत सिंह
116	जेसी 469701 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दशरथ सिंह
117	जेसी 469076 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	कैलाश सिंह शेखावत
118	जेसी 469417 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम निवास
119	जेसी 469729 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सूबे सिंह यादव

राजपूत रेजीमेन्ट

120	जेसी 478271 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	धन राज
121	जेसी 478534 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	प्रभु दयाल
122	जेसी 479615 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	चैन सिंह
123	जेसी 479351 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	जगदीश सिंह
124	जेसी 479167 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सत्य पाल सिंह

जाट रेजीमेन्ट

125	जेसी 488366 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	नफे सिंह राठी
126	जेसी 488210 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	विक्रमजीत सिंह
127	जेसी 489424 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	विजय सिंह

सिख रेजीमेन्ट

128	जेसी 498214 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जोगिंदर सिंह
129	जेसी 498320 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रतन सिंह
130	जेसी 498313 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुरजीत सिंह
131	जेसी 498942 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बलकार सिंह
132	जेसी 499196 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	देकवंदर सिंह

सिख लघु पैदल सेना

133	जेसी 508185 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	माखन सिंह
134	जेसी 508567 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	त्रिलोक सिंह

डोगरा रेजीमेन्ट

135	जेसी 518847 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	काबल सिंह
136	जेसी 519212 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	लेख राज
137	जेसी 519876 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	देव राज डोगरा
138	जेसी 519916 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राज कुमार
139	जेसी 519918 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रतन सिंह

गढवाल राईफल्स

140	जेसी 109487 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	तोता राम	आर टी
141	जेसी 529822 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	भगवान सिंह,	
142	जेसी 529512 एकस	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	चंद्रा सिंह,	
143	जेसी 529692 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	महीपाल सिंह	
144	जेसी 529628 एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	साबर सिंह	
145	जेसी 529625 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सरदार सिंह पनवर	
146	जेसी 529555 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	ठाकुर सिंह	

कुमाँउ रेजीमेन्ट

147	जेसी 538121 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दीवान सिंह	
148	जेसी 538221 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	कुंदन सिंह	
149	जेसी 538195 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सत्यपाल यादव	
150	जेसी 539325 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बहादुर सिंह	
151	जेसी 539593 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दीवान सिंह	
152	जेसी 539583 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	गोविंद सिंह	
153	जेसी 539800 एकस	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	हरीश चंद्रा कंदपाल	
154	जेसी 539336 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम बाबू सिंह	
155	जेसी 539681 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	शिव करन सिंह	
156	जेसी 539452 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुरेश चंद्र	

आसाम रेजीमेन्ट

157	जेसी 548178 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	लेन्खोपाऔ,	
158	जेसी 548213 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	नित्या नंदा गोगोई	
159	जेसी 548284 पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सनासम मनियाई सिंह	

बिहार रेजीमेन्ट

160	जेसी 558492 एकस	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जितेन्द्रा प्रसाद	
161	जेसी 113695 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	करुणा शंकर मिश्रा	आर टी
162	जेसी 227015 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सरत कुमार नायक	

महार रेजीमेन्ट

163	जेसी 568183 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बनामबर स्वेन	
164	जेसी 568361 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	बिक्रम सिंह	
165	जेसी 568288 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रबीन्द्र नाथ स्वेन	
166	जेसी 569791 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	देव राज	
167	जेसी 568859 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	जितेन्द्रा तिवारी	
168	जेसी 569642 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राम लाल	

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

169	जेसी 579165 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जोगिंदर पौल
170	जेसी 578919 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जोगिंदर सिंह स्लथिया
171	जेसी 578833 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	पवित्रा सिंह
172	जेसी 578519 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	प्रेम सिंह
173	जेसी 118616 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रमेश चन्द शर्मा आर टी
174	जेसी 579043 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	शिव कुमार
175	जेसी 579880 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बलदेव सिंह
176	जेसी 579669 एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दलजीत सिंह
177	जेसी 579812 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	पदम बहादुर थापा
178	जेसी 579793 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रघबीर सिंह
179	जेसी 579690 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रंजीत सिंह
180	जेसी 579763 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रोमेश कुमार
181	जेसी 579729 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सतपाल सिंह
182	जेसी 580062 एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	विजय कुमार

लद्दाख स्काउट

183	जेसी 588188 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	नवंग योन्टोन शौरया चर्का
-----	----------------	--------------------------	--------------------------

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल

184	जेसी 592363 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दलबाग सिंह
185	जेसी 592573 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	फारुक हुसैन किचलू
186	जेसी 592403 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	जोगिंदर सिंह
187	जेसी 592185 एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	करन सिंह
188	जेसी 592422 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मोहम्मद तुफेल
189	जेसी 592993 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बलवंत सिंह
190	जेसी 592999 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	लकूटे अली
191	जेसी 592767 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मोहम्मद असलम
192	जेसी 592626 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मोहम्मद बशीर
193	जेसी 593086 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सोम नाथ
194	जेसी 593286 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	त्रिलोक सिंह

1 गोरखा राईफल्स

195	जेसी 602131 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हेम नारायण प्रधान
-----	----------------	-------------------------------	-------------------

3 गोरखा राईफल्स

196	जेसी 607278 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बिजय सिंह थापा
-----	----------------	--------------------------	----------------

4 गोरखा राईफल्स

197 जेसी 612107 वाइ सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. दुर्गा बहादुर गुरंग

5 गोरखा राईफल्स

198 जेसी 617142 एल सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. चंद्रा बीर थापा

8 गोरखा राईफल्स

199 जेसी 623058 एफ सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. दामर बहादुर थापा

200 जेसी 623096 एक्स सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. दिल सिंह थापा

9 गोरखा राईफल्स

201 जेसी 629647 एन सुबेदार एवं अवैतनिक लैं. रूद्रा बहादुर थापा

11 गोरखा राईफल्स

202 जेसी 634181 ए सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. लखपा शिरिंग शेरपा

203 जेसी 218091 एफ सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. नंदा कुमार लिम्बू

सेना सेवा कोर दक्षिण

204 जेसी 661246 एम सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. अजनी कुमार

205 जेसी 640811 एल सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. इन्द्रजीत सिंह

206 जेसी 661283 ए सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. कारे सिंह

207 जेसी 640544 पी सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. मगुलुरी डेविड

208 जेसी 661196 एम सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. सम्भू नाथ शर्मा

209 जेसी 642621 एक्स सुबेदार एवं अवैतनिक लैं. प्रणय कुमार दत्ता

210 जेसी 663288 एक्स सुबेदार एवं अवैतनिक लैं. शिव चरण

211 जेसी 662773 ए सुबेदार एवं अवैतनिक लैं. सूबे सिंह सैनी

212 जेसी 642718 एच सुबेदार एवं अवैतनिक लैं. सुधांगशू रंजन नाथ

213 जेसी 662798 एम सुबेदार एवं अवैतनिक लैं. तरुण कुमार सरकार

214 जेसी 662923 एल सुबेदार एवं अवैतनिक लैं. उदय भान

215 जेसी 641280 एल सुबेदार एवं अवैतनिक लैं. उमेश महतो

सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

216 जेसी 680282 एम रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. अलेकजेन्डर थामस

217 जेसी 680236 एक्स रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. हेम राज

218 जेसी 680325 डब्ल्यू रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. उपेंद्र चन्द कटोच

सेना चिकित्सा कोर

219 जेसी 692939 एल सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. अशोक कुमार

220 जेसी 692865 एफ सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं. सी कन्नयन

221	जेसी 692731 एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दलीप सिंह मील
222	जेसी 690737 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	ललन कुमार सिंह
223	जेसी 214873 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	श्रीकांत शर्मा
224	जेसी 216980 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	विस्वनाथन वयाक्काथा माताथील
225	जेसी 695108 एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अंजन कुमार आइच

सेना आयुध कोर

226	जेसी 723157 वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दूध नाथ पाल
227	जेसी 723165 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मनजीत कुमार
228	जेसी 723161 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	रवि प्रकाश
229	जेसी 724193 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	अवधेश बहादुर सिंह
230	जेसी 725276 एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	डेविड डी.
231	जेसी 723271 डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	राजबीर सिंह
232	जेसी 723882 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	शशि कुमार सिंह

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

233	जेसी 753266 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	अशोक कुमार
234	जेसी 749478 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	अवध किशोर सिंह
235	जेसी 748830 ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	भागवान प्रसाद नायक
236	जेसी 748397 एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	दयानन्द उप्रेती
237	जेसी 749037 एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	घान श्याम दत्ता कापरी
238	जेसी 747924 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मोहम्मद अखतर हुसैन
239	जेसी 747049 एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	मोहन लाल
240	जेसी 748398 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	नीलकांत मत्तिकोप
241	जेसी 749379 एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	सुसीलन नायर आर
242	जेसी 759128 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बलराम चंद्रा सरकार
243	जेसी 758291 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	दुरई स्वामी
244	जेसी 755469 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	गगन कुमार बेउरा
245	जेसी 753853 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	हरी लाल
246	जेसी 759127 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	जयपाल सिंह
247	जेसी 759396 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	कमलेश कुमार पांडे
248	जेसी 752483 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	प्यारे लाल सिंह यादव
249	जेसी 164246 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रमा कांत दुबे आर टी
250	जेसी 760502 वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रमा कांत पांडे
251	जेसी 751522 एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	रामाचरित्रा प्रसाद चौरसिया
252	जेसी 753101 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	यशवंत सिंह रावत

सेना शिक्षा कोर

253	जेसी 214300 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	गुरमेल सिंह गुमन
254	जेसी 802480 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	प्रेम सिंह सोलंकी

255	जेसी 802258 एन रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	विनोद प्रेवाल
256	जेसी 797197 पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं.	गुलाब सिंह
257	जेसी 797214 के आसुचना कोर	रिसालदार एवं अवैतनिक लैं.	विद्या नन्द
258	जेसी 810023 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	लीलाधरन पिल्लई सी
259	जेसी 218741 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	शेर सिंह
260	जेसी 810387 एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	बलदेव सिंह
261	जेसी 810312 एल सेना पुलिस कोर	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सोहन सिंह कश्यप
262	जेसी 818366 एफ रक्षा सुरक्षा कोर	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	वेद प्रकाश
263	जेसी 206214 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	ब्रिसवर हज़ारिका
264	जेसी 840854 के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लैं.	हाकम सिंह गिल
265	जेसी 841200 एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	कृष्णन रमन
266	जेसी 841176 एफ प्रदेशिक सेना	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	नगेन्द्रा उपाध्या
267	टिजे 4304 पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	धन सिंह बिष्ट
268	टिजे 4363 एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मनोहर लाल
269	टिजे 3859 के	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	मनोहर शिवापा दाद्रीकर
270	टिजे 4077 ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लैं.	सुभाष कुमार

क्योत्तिर मंजूरी 15 अगस्त 1992 से अवैतनिक कप्तान के रूप में

सेना आयुध कोर

- जेसी 90686 एल सेवानिवृत्त सुबेदार मेजर सिया राम शर्मा
एवं अवैतनिक लैं.

क्योत्तिर मंजूरी 15 अगस्त 2009 से अवैतनिक कप्तान के रूप में

राजपूत रेजीमेंट

- जेसी 478318 एक्स सेवानिवृत्त सुबेदार मेजर दाधीची राय
एवं अवैतनिक लैं.

अवैतनिक लेफिटनेन्ट के रूप मेंराष्ट्रपति अंगरक्षक

- | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | जेसी 235008 पी | रिसालदार मेजर श्री भगवान |
| <u>7 केवेलरी</u> | | |
| 2 | जेसी 238023 पी | रिसालदार मेजर राजबीर सिंह |
| <u>8 केवेलरी</u> | | |
| 3 | जेसी 240998 पी | रिसालदार शाम सिंह |
| <u>2 लार्न्सस</u> | | |
| 4 | जेसी 237889 एक्स | रिसालदार मेजर अशोक कुमार सिंह |
| <u>9 होर्स</u> | | |
| 5 | जेसी 240389 एल | रिसालदार युद्धवीर सिंह |
| <u>62 केवेलरी</u> | | |
| 6 | जेसी 238751 पी | रिसालदार मेजर हीरा सिंह |
| <u>20 लार्न्सस</u> | | |
| 7 | जेसी 238472 के | रिसालदार मेजर बलविन्दर सिंह |
| <u>63 केवेलरी</u> | | |
| 8 | जेसी 238757 डब्ल्यू | रिसालदार मेजर धर्म पाल सिंह |
| 9 | जेसी 241028 वाइ | रिसालदार राजेंद्रा सिंह |
| 10 | जेसी 240880 एन | रिसालदार सुभाश चन्द |
| <u>65 आर्मड रेजीमेंट</u> | | |
| 11 | जेसी 241003 एम | रिसालदार दिनेश सिंह बघेल |
| 12 | जेसी 240760 पी | रिसालदार नरिंदर सिंह |
| 13 | जेसी 239849 पी | रिसालदार राम किशोर |
| <u>67 आर्मड रेजीमेंट</u> | | |
| 14 | जेसी 238018 के | रिसालदार मेजर रोशन लाल शर्मा |
| <u>69 आर्मड रेजीमेंट</u> | | |
| 15 | जेसी 237786 वाइ | रिसालदार मेजर सुरेश मिश्रा |

70 आर्मड रेजीमेंट

16 जेसी 238382 एच रिसालदार मेजर गुरनाम सिंह भाटी
72 आर्मड रेजीमेंट

17 जेसी 238738 एल रिसालदार मेजर बलबीर सिंह
88 आर्मड रेजीमेंट

18 जेसी 238828 एम रिसालदार अनिल कुमार महतो
19 जेसी 241190 डब्ल्यू रिसालदार राज आर
89 आर्मड रेजीमेंट

20 जेसी 237689 एफ रिसालदार मेजर देस राज
41 आर्मड रेजीमेंट

21 जेसी 238053 एम रिसालदार मेजर बचित्तर सिंह
44 आर्मड रेजीमेंट

22 जेसी 242007 पी रिसालदार नन्देश्वर सिंह
46 आर्मड रेजीमेंट

23 जेसी 237158 के रिसालदार मेजर अमृतपौल सिंह
49 आर्मड रेजीमेंट

24 जेसी 241319 वाइ रिसालदार चको के सी
6 आर्मड रेजीमेंट

25 जेसी 236889 एल रिसालदार मेजर शिवराज सिंह पनवर
26 जेसी 237576 वाइ रिसालदार जलसेन सिंह
27 जेसी 241172 एम रिसालदार साजन सिंह
आर्मड कोर

28 जेसी 239985 एल रिसालदार बचन सिंह
आर्टिलरी रेजीमेंट

29 जेसी 255453 पी सुबेदार मेजर ए मुरुगन
30 जेसी 260177 एफ सुबेदार मेजर भूला सिंह
31 जेसी 255245 ए सुबेदार मेजर चन्दन कुमार सामंत
32 जेसी 256549 के सुबेदार मेजर चंद्र मोहन
33 जेसी 258857 एच सुबेदार मेजर गंगाधर मार्या

34	जेसी 257332 एम	सुबेदार मेजर	जसबीर सिंह
35	जेसी 256058 एन	सुबेदार मेजर	जसबीर सिंह
36	जेसी 255950 वाइ	सुबेदार मेजर	जोगिंदर पाल कत्तना
37	जेसी 262144 पी	सुबेदार मेजर	कटारे नामदेव सुर्याबा
38	जेसी 256960 पी	सुबेदार मेजर	लख्मी सिंह
39	जेसी 256059 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	महावीर प्रसाद
40	जेसी 255578 एम	सुबेदार मेजर	महेंद्र सिंह भाकुनी
41	जेसी 257208 एल	सुबेदार मेजर	महेंद्र कुमार नाई
42	जेसी 256562 एन	सुबेदार मेजर	मनबीर सिंह
43	जेसी 255625 वाइ	सुबेदार मेजर	नन्द किशोर सिंह
44	जेसी 260559 एल	सुबेदार मेजर	नरेंद्र पाल सिंह
45	जेसी 255972 एक्स	सुबेदार मेजर	प्रेम नाथ
46	जेसी 259243 एम	सुबेदार मेजर	प्रीतम सिंह सोनी
47	जेसी 255390 एक्स	सुबेदार मेजर	रमेश चंद्र शर्मा
48	जेसी 259443 एच	सुबेदार मेजर	सर्वाजीत सिंह यादव
49	जेसी 118178 एन	सुबेदार मेजर	सतानंद दीक्षित
50	जेसी 259441 एक्स	सुबेदार मेजर	शिव नाथ प्रसाद यादव
51	जेसी 259143 एफ	सुबेदार मेजर	सुग्रीव प्रसाद
52	जेसी 257921 एच	सुबेदार मेजर	उदय नारायण दीक्षित
53	जेसी 257437 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	विजय कुमार
54	जेसी 266632 पी	सुबेदार	अखिलेश कुमार अवस्थी
55	जेसी 265122 एफ	सुबेदार	अमरीक सिंह
56	जेसी 265189 ए	सुबेदार	अरविन्दाक्षन पी के
57	जेसी 266733 एच	सुबेदार	अशोके कुमार घोष
58	जेसी 257767 पी	सुबेदार	बाबू लाल
59	जेसी 268868 एच	सुबेदार	बाबू लाल मीना,
60	जेसी 266415 वाइ	सुबेदार	बाबू सिंह लंगे
61	जेसी 263141 एन	सुबेदार	बच्छन बाबू
62	जेसी 264546 एल	सुबेदार	बलबीर सिंह
63	जेसी 262305 एम	सुबेदार	बलवान सिंह,
64	जेसी 268580 एच	सुबेदार	बोध राज,
65	जेसी 268262 वाइ	सुबेदार	चिन्थाला चंद्रा शेखर
66	जेसी 262962 डब्ल्यू	सुबेदार	दलेल सिंह
67	जेसी 265546 एक्स	सुबेदार	डी. साउदारा राजन
68	जेसी 269468 एच	सुबेदार	गनेश दास
69	जेसी 267322 डब्ल्यू	सुबेदार	गुरबक्श सिंह
70	जेसी 268108 ए	सुबेदार	गुरदीप सिंह
71	जेसी 266436 पी	सुबेदार	हरबंस लाल
72	जेसी 267223 एन	सुबेदार	हरी सिंह यादवा
73	जेसी 267060 एल	सुबेदार	हरलाल सिंह

आर टी

74	जेसी	267438	एम	सुबेदार	हौसेला प्रसाद सिंह	
75	जेसी	266980	डब्ल्यू	सुबेदार	कमला कांता बाईलुंग	
76	जेसी	266470	पी	सुबेदार	करुण कुमार सिंह	
77	जेसी	266095	पी	सुबेदार	कुंदन सिंह	
78	जेसी	267366	एन	सुबेदार	महेंद्र सिंह	
79	जेसी	268393	के	सुबेदार	मनिकांत झा	
80	जेसी	263947	एन	सुबेदार	मोहन सिंह जयास	
81	जेसी	269088	के	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	
82	जेसी	268441	वाइ	सुबेदार	नवल सिंह	
83	जेसी	267718	ए	सुबेदार	एन पांडु	
84	जेसी	266054	एल	सुबेदार	पी चंद्रा राय	
85	जेसी	267996	एन	सुबेदार	प्यार सिंह	
86	जेसी	266249	डब्ल्यू	सुबेदार	प्रेम कुमार ब्रमा	
87	जेसी	263666	एक्स	सुबेदार	प्रेम सिंह	
88	जेसी	268642	एक्स	सुबेदार	परुसोतम मिश्रा	
89	जेसी	160789	के	सुबेदार	रघु नंदन सिंह	आर टी
90	जेसी	258049	एल	सुबेदार	रघुनाथ ओरान	
91	जेसी	266018	ए	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	
92	जेसी	266902	वाइ	सुबेदार	राम आसरे	
93	जेसी	266474	एल	सुबेदार	राम अवतार	
94	जेसी	268608	एक्स	सुबेदार	रमेश बाबू यादव	
95	जेसी	266878	एन	सुबेदार	राम किशन	
96	जेसी	268266	पी	सुबेदार	राम नरेश कन्नौजिया	
97	जेसी	261666	वाइ	सुबेदार	राम फल	
98	जेसी	263884	डब्ल्यू	सुबेदार	राना देवानंद सिंह	
99	जेसी	266729	ए	सुबेदार	रोशन लाल	
100	जेसी	150004	एफ	सुबेदार	साहा डियु तिवारी	आर टी
101	जेसी	264517	डब्ल्यू	सुबेदार	सतबीर सिंह	
102	जेसी	263538	ए	सुबेदार	शिव पूजन सिंह	
103	जेसी	260609	एल	सुबेदार	एस नवनीथा बालाकृष्णन	
104	जेसी	266127	एम	सुबेदार	सूबे सिंह	
105	जेसी	266146	एक्स	सुबेदार	सुल्तान सिंह	
106	जेसी	267284	एल	सुबेदार	सुंदरन के	
107	जेसी	265844	एन	सुबेदार	सुरेश कुमार	
108	जेसी	264505	एफ	सुबेदार	सुरेश प्रसाद सिंह	
109	जेसी	269460	डब्ल्यू	सुबेदार	सूर्या नाथ सिंह	
110	जेसी	267161	वाइ	सुबेदार	तिलक राज	
111	जेसी	266755	एफ	सुबेदार	उधम सिंह	
112	जेसी	265881	एफ	सुबेदार	उपेंद्र प्रसाद सिंह	
113	जेसी	267109	डब्ल्यू	सुबेदार	वेद प्रकाश	

114	जेसी 265489 एफ	सुबेदार	वीर सिंह
115	जेसी 269330 एन	सुबेदार	विरेन्द्र सिंह
<u>सेना वायू सुरक्षा</u>			
116	जेसी 296673 एन	सुबेदार मेजर	बस्ती राम
117	जेसी 296615 के	सुबेदार मेजर	जयवीर सिंह
118	जेसी 297051 वाइ	सुबेदार मेजर	महेन्द्र सिंह
119	जेसी 297068 एम	सुबेदार मेजर	मोहम्मद खुशीद आलम
120	जेसी 256137 एच	सुबेदार मेजर	प्रथिबान एन
121	जेसी 296197 ए	सुबेदार मेजर	राज पाल गन्गोरिया
122	जेसी 296731 एम	सुबेदार मेजर	राम स्नेही
123	जेसी 296962 एच	सुबेदार मेजर	विजय कुमार समकरिया
124	जेसी 296855 एफ	सुबेदार	बाबूलाल यादव
125	जेसी 297532 एल	सुबेदार	बाल किशुन शर्मा
126	जेसी 296932 एल	सुबेदार	बिरेन्द्र कुमार
127	जेसी 298936 ए	सुबेदार	गिरीश चंद्रा बी
128	जेसी 299101 एक्स	सुबेदार	हरी राम यादव
129	जेसी 298387 एल	सुबेदार	जगदीश स्वरूप
130	जेसी 299056 डब्ल्यू	सुबेदार	जनार्दन मिश्रा
131	जेसी 297228 एफ	सुबेदार	जसवंत सिंह
132	जेसी 297143 एल	सुबेदार	लखन लाल
133	जेसी 299024 एन	सुबेदार	नाथी सिंह
134	जेसी 298696 एन	सुबेदार	सत्य प्रकाश
135	जेसी 298439 डब्ल्यू	सुबेदार	शेक दस्तागिरी साहेब
136	जेसी 299026 वाइ	सुबेदार	शंकर सिंह
137	जेसी 298742 एक्स	सुबेदार	यशवंत सिंह
138	जेसी 298145 एच	सुबेदार	जिले सिंह जसपाल

मद्रास इंजीनियर समूह

139	जेसी 306388 एल	सुबेदार मेजर	बसवन्तराए एस मुदनूर
140	जेसी 305728 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सी अनंता राजन
141	जेसी 305331 के	सुबेदार मेजर	देवैया एम एस
142	जेसी 219357 पी	सुबेदार मेजर	जी. साउदारा राज
143	जेसी 224777 वाइ	सुबेदार मेजर	कुट्टप्पा एम के
144	जेसी 306030 एम	सुबेदार मेजर	माधवन वीएम
145	जेसी 226135 एच	सुबेदार मेजर	मेथ्यू टिजे
146	जेसी 305730 एन	सुबेदार मेजर	एम पनीर सेलवम
147	जेसी 305338 एन	सुबेदार मेजर	प्रसन्ना कुमार वी
148	जेसी 305588 पी	सुबेदार मेजर	पी सन्तनातन
149	जेसी 305580 एच	सुबेदार मेजर	राजेन्द्रन ए

150	जेसी 305578	एल	सुबेदार मेजर	रामकृष्ण ए पी
151	जेसी 305601	एन	सुबेदार मेजर	सुरेसन पी
152	जेसी 305699	एम	सुबेदार मेजर	विजयाकुमारन नायर एस
153	जेसी 307225	के	सुबेदार	अन्बू
154	जेसी 306119	वाइ	सुबेदार	बेबी के.जे
155	जेसी 307810	के	सुबेदार	बामनीदी नारायना राव
156	जेसी 306053	एन	सुबेदार	धाना एस बी
157	जेसी 307100	एम	सुबेदार	जी. वेंकट रामी रेडी
158	जेसी 307199	एन	सुबेदार	गणेशन जे
159	जेसी 305293	वाइ	सुबेदार	गवैनी छेन्नहइया
160	जेसी 307340	के	सुबेदार	जी. महालिंगम
161	जेसी 307605	एच	सुबेदार	करुनागरन के
162	जेसी 307661	एफ	सुबेदार	के पांडि
163	जेसी 307669	एन	सुबेदार	के राजेंद्रा मूर्ती
164	जेसी 307298	डब्ल्यू	सुबेदार	के राजेन्द्रन
165	जेसी 306167	वाइ	सुबेदार	मधुसूधन्न पिल्लई एस
166	जेसी 307455	एक्स	सुबेदार	एम लौरुधू
167	जेसी 307798	एन	सुबेदार	मुदुगूला बासी रेडी
168	जेसी 307573	एल	सुबेदार	मुरलीधरन पिल्लई वी
169	जेसी 307909	ए	सुबेदार	नंदगोपाल ई
170	जेसी 307805	वाइ	सुबेदार	नरासेन्दरन एन
171	जेसी 307778	ए	सुबेदार	पीताम्बरन पीएस
172	जेसी 307598	एक्स	सुबेदार	राजेन्द्रन वी
173	जेसी 307422	एम	सुबेदार	रमेश चामुराव पाटिल
174	जेसी 307438	एक्स	सुबेदार	आर पलानी
175	जेसी 308218	ए	सुबेदार	सदाशिव जोशी
176	जेसी 306803	एफ	सुबेदार	विजयाकुमार के जी.
177	जेसी 307731	पी	सुबेदार	विजयन ए एम
178	जेसी 307638	एन	सुबेदार	वाइ अब्दुल डब्ल्यू

बंगाल इंजीनियर समूह

179	जेसी 325273	एम	सुबेदार मेजर	अतुल चेतिया
180	जेसी 327994	पी	सुबेदार मेजर	अगरिस्टयन खर्सयानटिव
181	जेसी 326718	ए	सुबेदार मेजर	भूपेंद्र सिंह
182	जेसी 326166	एक्स	सुबेदार मेजर	बृज भूषण चंद्रा
183	जेसी 327502	एल	सुबेदार मेजर	गंगा सहाय
184	जेसी 327948	ए	सुबेदार मेजर	गोधा राम
185	जेसी 325723	वाइ	सुबेदार मेजर	हरी चन्द
186	जेसी 327020	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	हरी दत्त जोशी
187	जेसी 327092	एच	सुबेदार मेजर	हिमत सिंह

188	जेसी 120471 के	सुबेदार मेजर	जगदीश प्रसाद	आर टी
189	जेसी 326949 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कुलबीर सिंह	
190	जेसी 327098 एफ	सुबेदार मेजर	कुलविन्दर सिंह	
191	जेसी 326989 एक्स	सुबेदार मेजर	महेश चंद्र	
192	जेसी 327928 एम	सुबेदार मेजर	पप्पी	
193	जेसी 325343 ए	सुबेदार मेजर	पी सुब्रमनिअन	
194	जेसी 326899 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राज पाल सिंह	
195	जेसी 327088 एक्स	सुबेदार मेजर	राम ईश्वर राय	
196	जेसी 325261 एक्स	सुबेदार मेजर	रेनू पाडा दास	
197	जेसी 327941 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सुरजीत सिंह	
198	जेसी 329057 डब्ल्यू	सुबेदार	आनंद सिंह बाफिला	
199	जेसी 329233 एच	सुबेदार	अवतार सिंह	
200	जेसी 328925 एल	सुबेदार	भागिन चंद्रा नाथ	
201	जेसी 328384 पी	सुबेदार	देवेन्द्र सिंह	
202	जेसी 328921 पी	सुबेदार	धन्य चंद्रा रौय	
203	जेसी 328668 वाइ	सुबेदार	दीवान सिंह	
204	जेसी 328562 एम	सुबेदार	गनेश सिंह	
205	जेसी 329012 डब्ल्यू	सुबेदार	गुरनाम सिंह	
206	जेसी 328908 एल	सुबेदार	हरे कुर्णा मोहंती	
207	जेसी 329207 एफ	सुबेदार	जय राम सिंह	
208	जेसी 328958 डब्ल्यू	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	
209	जेसी 328961 डब्ल्यू	सुबेदार	माधो सिंह	
210	जेसी 329016 एम	सुबेदार	मोहन चंद्र	
211	जेसी 328395 एफ	सुबेदार	निर्मल सिंह	
212	जेसी 329171 एन	सुबेदार	प्रीतम चन्द्र	
213	जेसी 328880 डब्ल्यू	सुबेदार	रामायण सिंह	
214	जेसी 328745 एच	सुबेदार	राम बाबू सिंह	
215	जेसी 329238 एफ	सुबेदार	शम्भू नाथ कुंवर	
216	जेसी 328947 के	सुबेदार	श्याम सिंह	
217	जेसी 329136 एल	सुबेदार	सुदर्शन सिंह	
218	जेसी 328881 वाइ	सुबेदार	सुदर्शन यादव	
219	जेसी 329036 ए	सुबेदार	सुशान्ता कुमार पौल	
220	जेसी 328963 एफ	सुबेदार	तारा सिंह	
221	जेसी 328695 एच	सुबेदार	त्रिलोचन सिंह	
222	जेसी 328484 ए	सुबेदार	वीजेन्द्र कुमार वर्मा	

बोम्बे इंजीनियर समूह

223	जेसी 347889 ए	सुबेदार मेजर	बलविन्दर सिंह
224	जेसी 347332 एन	सुबेदार मेजर	दस्तगीर मियां
225	जेसी 347721 एन	सुबेदार मेजर	गेयुर अहमद खान

226	जेसी 347432	वाइ	सुबेदार	मेजर	हंस नाथ सिंह
227	जेसी 347874	एक्स	सुबेदार	मेजर	हरिओम सिंह
228	जेसी 348110	एल	सुबेदार	मेजर	इश्वर सिंह शर्मा
229	जेसी 347333	डब्ल्यू	सुबेदार	मेजर	जोगिंदर सिंह संधू
230	जेसी 347244	एक्स	सुबेदार	मेजर	रमेश कुमार
231	जेसी 348778	पी	सुबेदार		आशीश कुमार शर्मा
232	जेसी 348166	एक्स	सुबेदार		चरण सिंह
233	जेसी 349068	के	सुबेदार		हरभजन सिंह
234	जेसी 349067	एफ	सुबेदार		हरचरन सिंह
235	जेसी 349535	डब्ल्यू	सुबेदार		ईशान खान
236	जेसी 349734	के	सुबेदार		जरनैल सिंह
237	जेसी 348919	वाइ	सुबेदार		कोकिथार सूर्यकांत लक्ष्मन
238	जेसी 349080	एल	सुबेदार		मोहम्मद मुरसेलीन
239	जेसी 349533	एल	सुबेदार		मोहम्मद मुनीर
240	जेसी 349818	एक्स	सुबेदार		राजबीर सिंह
241	जेसी 347945	एन	सुबेदार		राज सिंह ढल्लों
242	जेसी 349808	एन	सुबेदार		सत पाल
243	जेसी 348591	एच	सुबेदार		सुधाकरन ए
244	जेसी 349030	ए	सुबेदार		सुख बीर सिंह

सिग्नल्स कोर

245	जेसी 370602	के	सुबेदार	मेजर	अदुरती आर के पी सत्यनारायना	
246	जेसी 370599	पी	सुबेदार	मेजर	अर्जुन बेहेरा	
247	जेसी 369941	एक्स	सुबेदार	मेजर	अशवनी कुमार श्रीवास्तव	
248	जेसी 370696	एम	सुबेदार	मेजर	बचन सिंह	
249	जेसी 367256	एन	सुबेदार	मेजर	ब्रजलाल प्रसाद	
250	जेसी 368116	एन	सुबेदार	मेजर	छोटा प्रसाद	
251	जेसी 369339	एक्स	सुबेदार	मेजर	देव प्रकाश शर्मा	
252	जेसी 370470	एफ	सुबेदार	मेजर	धर्म पाल	
253	जेसी 368512	के	सुबेदार	मेजर	गुरमेल सिंह	
254	जेसी 131987	एम	सुबेदार	मेजर	हर्ष सिंह डंगवाल	आर टी
255	जेसी 370732	एम	सुबेदार	मेजर	जयवीर	
256	जेसी 368434	एक्स	सुबेदार	मेजर	जयप्रकाश के एम	
257	जेसी 370651	एम	सुबेदार	मेजर	मिसाल सहाजी गोविंद	
258	जेसी 370582	एफ	सुबेदार	मेजर	मिथलेश्वर चौधरी	
259	जेसी 370593	एन	सुबेदार	मेजर	नबीन कुमार अम्बरथा	
260	जेसी 368191	एक्स	सुबेदार	मेजर	निमाइ चंद्रा पाल	
261	जेसी 370687	एल	सुबेदार	मेजर	रघबीर सिंह	
262	जेसी 124891	एफ	सुबेदार	मेजर	रमा कांत द्विवेदी	आर टी
263	जेसी 370369	एफ	सुबेदार	मेजर	रमेश	

264	जेसी 370728 के	सुबेदार मेजर	राम लाल जूद	
265	जेसी 130070 एच	सुबेदार मेजर	राम नाथ मिश्रा	आर टी
266	जेसी 368199 के	सुबेदार मेजर	राम राज गुप्ता	
267	जेसी 370615 एफ	सुबेदार मेजर	श्याम सुंदर	
268	जेसी 367097 एफ	सुबेदार मेजर	सुरजीत सिंह	
269	जेसी 368657 पी	सुबेदार मेजर	उत्तातम चन्द	
270	जेसी 372899 पी	सुबेदार	ए शानमुगा सुंदरम	
271	जेसी 374198 एक्स	सुबेदार	बाबू के	
272	जेसी 374178 के	सुबेदार	बिधि सिंह राना	
273	जेसी 374888 एफ	सुबेदार	बिजेन्द्र सिंह	
274	जेसी 375813 डब्ल्यू	सुबेदार	दर्शन कुमार	
275	जेसी 374963 ए	सुबेदार	दयाराम प्रसाद	
276	जेसी 371698 के	सुबेदार	हवा सिंह नेहरा	
277	जेसी 374570 के	सुबेदार	जगन नाथ रौय	
278	जेसी 372555 डब्ल्यू	सुबेदार	जोगिंदर पाल	
279	जेसी 374527 एच	सुबेदार	काशी नाथ सिंह	
280	जेसी 372972 एच	सुबेदार	काशीनाथ सिंह	
281	जेसी 371648 वाइ	सुबेदार	कृष्णा मिश्रा	
282	जेसी 375557 एम	सुबेदार	कुलदीप सिंह	
283	जेसी 375106 एम	सुबेदार	मान मोहन सिंह	
284	जेसी 374585 एम	सुबेदार	मोहीउद्दीन अजमेरी	
285	जेसी 373521 पी	सुबेदार	मुकुल चंद्रा शुक्ला बैद्य	
286	जेसी 374569 पी	सुबेदार	नारान्त सिंह राना	
287	जेसी 375212 एल	सुबेदार	नरेंद्र सिंह	
288	जेसी 374761 वाइ	सुबेदार	नरेश कुमार	
289	जेसी 374334 एच	सुबेदार	परिमल डे	
290	जेसी 373164 एक्स	सुबेदार	प्रफुल्ल कुमार दास	
291	जेसी 374281 पी	सुबेदार	पी कुमार	
292	जेसी 373499 पी	सुबेदार	राजेंद्रा कुमार राना	
293	जेसी 372981 के	सुबेदार	राजेश कुमार सिंह	
294	जेसी 374222 एच	सुबेदार	राम बहादुर सिंह	
295	जेसी 372552 एच	सुबेदार	राम गोपाल द्विवेदी	
296	जेसी 371866 एक्स	सुबेदार	राम नरेश कुमार	
297	जेसी 372087 एफ	सुबेदार	रवीन्द्रन आर	
298	जेसी 374239 डब्ल्यू	सुबेदार	रवि कांत सिंह	
299	जेसी 372735 वाइ	सुबेदार	एस कुमार	
300	जेसी 368442 डब्ल्यू	सुबेदार	श्याम नाथ तिवारी	
301	जेसी 371649 एफ	सुबेदार	सुब्बुराज ए	
302	जेसी 372926 एन	सुबेदार	एस सिंह बरवाल	
303	जेसी 375165 वाइ	सुबेदार	सूरज दीप सिंह	

304	जेसी 374738	एल	सुबेदार	विशामबर सिंह
<u>गार्ड्स</u>				
305	जेसी 402211	पी	सुबेदार मेजर	अमरजीत सिंह
306	जेसी 402503	एक्स	सुबेदार मेजर	अनिरुध दुबे
307	जेसी 402035	एच	सुबेदार मेजर	ध्यान सिंह
308	जेसी 402631	पी	सुबेदार मेजर	कुंवर सिंह
309	जेसी 402460	एन	सुबेदार मेजर	राम औतार सिंह चौहान
310	जेसी 402725	एम	सुबेदार मेजर	सत्येंद्र कुमार शुक्ला
311	जेसी 402594	एम	सुबेदार मेजर	शेश नाथ सिंह
312	जेसी 402658	एम	सुबेदार मेजर	विनोद कुमार
313	जेसी 403236	एन	सुबेदार	अजंत सिंह
314	जेसी 403341	के	सुबेदार	बिपुल कुमार गोगोई
315	जेसी 403411	एक्स	सुबेदार	दान सिंह
316	जेसी 403302	एल	सुबेदार	हरी कष्णन
317	जेसी 403528	डब्ल्यू	सुबेदार	मोहन सिंह भेहरा
318	जेसी 403481	डब्ल्यू	सुबेदार	पदम नारायन
319	जेसी 402938	ए	सुबेदार	रामाश्रया यादव
320	जेसी 403395	एल	सुबेदार	राम पाल

पैराशूट रेजीमेन्ट

321	जेसी 412303	पी	सुबेदार मेजर	भगवाना राम गूजर
322	जेसी 412210	ए	सुबेदार मेजर	दिलीप सिंह
323	जेसी 412128	एल	सुबेदार मेजर	हरी राम यादव
324	जेसी 412115	एन	सुबेदार मेजर	हेम राज सिंह वालदिया
325	जेसी 412127	एच	सुबेदार मेजर	जग राम
326	जेसी 412126	ए	सुबेदार मेजर	कष्णन कुमार
327	जेसी 412468	एन	सुबेदार	बहादुर सिंह,
328	जेसी 412841	एच	सुबेदार	बलकार सिंह
329	जेसी 412513	पी	सुबेदार	जगमोहन सिंह,
330	जेसी 412743	एच	सुबेदार	जय राम सिंह
331	जेसी 412733	वाइ	सुबेदार	जशपाल सिंह
332	जेसी 412469	डब्ल्यू	सुबेदार	कश्मीर सिंह
333	जेसी 412947	पी	सुबेदार	पेमा राम
334	जेसी 412678	एन	सुबेदार	प्रदीपन पीसी
335	जेसी 412979	एक्स	सुबेदार	राम किशन लक्ष्मन शिंदे
336	जेसी 412805	एक्स	सुबेदार	राम सिंह
337	जेसी 412765	एफ	सुबेदार	सुरेश राम

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

338	जेसी 418074 एल	सुबेदार मेजर	जोथीन्द्रा नाथन टी पी
339	जेसी 418875 एम	सुबेदार मेजर	कृष्णापाल सिंह पठानिया
340	जेसी 216441 के	सुबेदार मेजर	मोहानन पिल्लई
341	जेसी 418583 के	सुबेदार मेजर	पुशकर सिंह कंधारी
342	जेसी 418640 ए	सुबेदार मेजर	राजेंद्रा सिंह
343	जेसी 418539 ए	सुबेदार मेजर	रमेश कुमार
344	जेसी 418653 एक्स	सुबेदार मेजर	एस सिंह
345	जेसी 419186 एक्स	सुबेदार	धीर सिंह
346	जेसी 419296 एम	सुबेदार	जय कष्णन
347	जेसी 419719 पी	सुबेदार	जोगिंदर सिंह
348	जेसी 419813 वाइ	सुबेदार	खजान सिंह
349	जेसी 419119 एम	सुबेदार	महीपाल सिंह
350	जेसी 420058 एम	सुबेदार	राम अवतार सिंह बघेल
351	जेसी 418553 एम	सुबेदार	राम सरूप
352	जेसी 419540 एफ	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह

पंजाब रेजीमेंट

353	जेसी 428886 एम	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार	
354	जेसी 428272 के	सुबेदार मेजर	गुरदयाल सिंह	
355	जेसी 127466 एफ	सुबेदार मेजर	गुर्वक्स सिंह	आर टी
356	जेसी 428689 के	सुबेदार मेजर	जायशी राम	
357	जेसी 428555 एल	सुबेदार मेजर	जसविन्दर सिंह	
358	जेसी 428690 वाइ	सुबेदार मेजर	लखविन्दर सिंह	
359	जेसी 428070 एच	सुबेदार मेजर	पलपिन्दर सिंह	
360	जेसी 428769 एफ	सुबेदार मेजर	राजेंद्र कुमार	
361	जेसी 428871 के	सुबेदार मेजर	तेजा सिंह	
362	जेसी 113694 वाइ	सुबेदार मेजर	वासु देव शर्मा	आर टी
363	जेसी 429954 एफ	सुबेदार	बलबीर सिंह	
364	जेसी 429386 एफ	सुबेदार	बाल कष्णन	
365	जेसी 429541 एक्स	सुबेदार	बिशन दास	
366	जेसी 429408 पी	सुबेदार	दलबीर सिंह	
367	जेसी 429911 एम	सुबेदार	दुर्गा दास	
368	जेसी 428837 के	सुबेदार	गुलाब सिंह	
369	जेसी 429669 एच	सुबेदार	गुरमेज सिंह	
370	जेसी 429481 एन	सुबेदार	हरभजन सिंह	
371	जेसी 430188 एच	सुबेदार	जगदेव सिंह	
372	जेसी 429743 वाइ	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	
373	जेसी 429401 एल	सुबेदार	केहर सिंह	

374	जेसी 430050	एन	सुबेदार	लोक राज
375	जेसी 429419	एफ	सुबेदार	मदन गोपाल
376	जेसी 429582	एफ	सुबेदार	मोहन सिंह
377	जेसी 429387	के	सुबेदार	मोहन सिंह
378	जेसी 429627	डब्ल्यू	सुबेदार	राय सिंह
379	जेसी 429587	ए	सुबेदार	राजिन्दर कुमार
380	जेसी 429612	एन	सुबेदार	राजू राम
381	जेसी 429728	के	सुबेदार	रतन चन्द
382	जेसी 429445	एच	सुबेदार	सतीश कुमार राना
383	जेसी 429362	एक्स	सुबेदार	शाम सिंह
384	जेसी 429507	एक्स	सुबेदार	सुरूदेव एस
385	जेसी 429392	पी	सुबेदार	विजय कुमार

मद्रास रेजीमेन्ट

386	जेसी 438183	वाइ	सुबेदार मेजर	ए वासुदेवन	
387	जेसी 438290	ए	सुबेदार मेजर	देवेन्द्र राजपूत	
388	जेसी 438141	एम	सुबेदार मेजर	हंसा कुंजू एम	
389	जेसी 438163	एल	सुबेदार मेजर	जनार्दनन एमएम	
390	जेसी 438070	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	एम मुनिराज,	
391	जेसी 438483	ए	सुबेदार मेजर	एम वासुदेवन	
392	जेसी 438124	एम	सुबेदार मेजर	राजेन्द्रन आर	
393	जेसी 438456	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	थोमस बैनाडिक्ट	
394	जेसी 112814	ए	सुबेदार मेजर	वल्लबन के वी	आर टी
395	जेसी 438766	एफ	सुबेदार	बसवराज वाली	
396	जेसी 439240	एफ	सुबेदार	जी. रमन	
397	जेसी 438428	के	सुबेदार	आइ अरुल सामी	
398	जेसी 438693	ए	सुबेदार	कटारी सत्य राव	
399	जेसी 438989	वाइ	सुबेदार	मायिनकुट्टी के	
400	जेसी 439516	एम	सुबेदार	एम सुन्दरा राज	
401	जेसी 439351	वाइ	सुबेदार	एम येशुपातम	
402	जेसी 438313	डब्ल्यू	सुबेदार	नलिनाकशन एम	
403	जेसी 439078	पी	सुबेदार	एनएस विवेकानन्द	
404	जेसी 439070	एच	सुबेदार	प्रभाकरण डब्ल्यू	
405	जेसी 439253	वाइ	सुबेदार	राजन के.डी.	
406	जेसी 438826	एल	सुबेदार	राजन केके,	
407	जेसी 439248	एन	सुबेदार	रवि ए	
408	जेसी 438931	एफ	सुबेदार	ससिधरन नायर जी.	
409	जेसी 438553	एन	सुबेदार	शशि कुमार के	
410	जेसी 438933	एम	सुबेदार	एस पाथिएनाथन	
411	जेसी 438512	के	सुबेदार	एस राधाकृष्ण	

412	जेसी 439075 एफ	सुबेदार	उन्नीकशन्न के	
	<u>ग्रेनेडियर्स</u>			
413	जेसी 114242 एच	सुबेदार मेजर	अब्दुल रहमान ठाकुर	आर टी
414	जेसी 448884 एच	सुबेदार मेजर	अख्तर अली	
415	जेसी 216747 एम	सुबेदार मेजर	कासम अली कईयाम खानी	
416	जेसी 448504 वाइ	सुबेदार मेजर	मंगेश सिंह	
417	जेसी 449906 एच	सुबेदार	बाबू लाल	
418	जेसी 449681 एल	सुबेदार	बलजीत सिंह	
419	जेसी 449542 एफ	सुबेदार	बृज लाल मीना	
420	जेसी 449642 एम	सुबेदार	चेन सिंह	
421	जेसी 449867 पी	सुबेदार	दलीप सिंह	
422	जेसी 449497 ए	सुबेदार	फतेह चन्द मीना	
423	जेसी 449982 पी	सुबेदार	मोहन सिंह भारद्वाज	
424	जेसी 449845 डब्ल्यू	सुबेदार	नारायण सिंह	
425	जेसी 450145 पी	सुबेदार	राजेश कुमार अत्री	
426	जेसी 449745 एल	सुबेदार	राम कुंवर मीना	
427	जेसी 449842 एच	सुबेदार	रामनाथ सिंह	
428	जेसी 449560 के	सुबेदार	राम निवास	
429	जेसी 449834 के	सुबेदार	सब्बीर अली	
430	जेसी 449670 वाइ	सुबेदार	एस प्रसाद सिंह	
431	जेसी 450122 एन	सुबेदार	वागदावत सिंह	

मराठा लघु सेना

432	जेसी 458150 पी	सुबेदार मेजर	अर्जुन मलप्पा टी	
433	जेसी 226181 एक्स	सुबेदार मेजर	अरुण सावंत	
434	जेसी 458293 पी	सुबेदार मेजर	औतादे राधाकिशना गोविंदराव	
435	जेसी 212545 एन	सुबेदार मेजर	बाबू डागु जाधव	
436	जेसी 222660 एफ	सुबेदार मेजर	बालासाहेब बाबू कटाकर	
437	जेसी 458510 ए	सुबेदार मेजर	भवकर प्रकाश गणपति	
438	जेसी 458049 पी	सुबेदार मेजर	भोरे लक्ष्मण गोविंदराव	
439	जेसी 216492 एक्स	सुबेदार मेजर	बोरकर सुरेश एकनाथ	
440	जेसी 222658 के	सुबेदार मेजर	बुद्धप्पा निंगप्पा बेनी	
441	जेसी 458410 पी	सुबेदार मेजर	माने किसान केशव	
442	जेसी 458261 एम	सुबेदार मेजर	मोंकाशी सरदारसाहिब अल्लीसाहिब	
443	जेसी 458182 एक्स	सुबेदार मेजर	पाटिल भारामाना लक्ष्मण	
444	जेसी 201832 एक्स	सुबेदार मेजर	सूर्यवंशी विलास सोपानराव	
445	जेसी 458019 एक्स	सुबेदार मेजर	वी विठल आनंदा	
446	जेसी 458958 ए	सुबेदार	अमब्रे यू तानाजी	
447	जेसी 458913 ए	सुबेदार	अर्जुन सिदू अम्बेवादकर	

448	जेसी 458093	वाइ	सुबेदार	बडके भीमा दशरथ
449	जेसी 458429	एन	सुबेदार	बीलासाब
450	जेसी 459077	एन	सुबेदार	काकडे दयान्देओ मुरलीधर
451	जेसी 458779	ए	सुबेदार	कमीनासे गोवर्धन विठल
452	जेसी 459425	के	सुबेदार	नारायण मारूति पाटिल
453	जेसी 458388	पी	सुबेदार	पाटिल सुरेश भारामु
454	जेसी 459258	वाइ	सुबेदार	पवार विथल भीका
455	जेसी 458915	एल	सुबेदार	प्रहलाद
456	जेसी 458487	एक्स	सुबेदार	राधे श्याम
457	जेसी 458651	पी	सुबेदार	राजेंद्रा नागोराव सालुंके
458	जेसी 459390	वाइ	सुबेदार	आर बापू बालाभाई एम
459	जेसी 458887	के	सुबेदार	उतेकार सूर्यकांत दादा

राजपूताना राईफल्स

460	जेसी 468300	एन	सुबेदार	मेजर	भूपेंद्र सिंह
461	जेसी 468534	एक्स	सुबेदार	मेजर	धर्म पाल सिंह,
462	जेसी 468323	पी	सुबेदार	मेजर	प्रहलाद सिंह
463	जेसी 468295	एन	सुबेदार	मेजर	साधु सिंह
464	जेसी 469057	एन	सुबेदार		अजय कुमार
465	जेसी 469754	एन	सुबेदार		अख्तर खान,
466	जेसी 468678	ए	सुबेदार		अमर सिंह
467	जेसी 469056	एल	सुबेदार		अशोक कुमार
468	जेसी 469460	ए	सुबेदार		भीम सिंह
469	जेसी 469493	एल	सुबेदार		डूंगर मल
470	जेसी 469453	के	सुबेदार		गिरधारी लाल
471	जेसी 469498	के	सुबेदार		गोविंद सिंह
472	जेसी 469838	एफ	सुबेदार		हरपाल सिंह
473	जेसी 469844	पी	सुबेदार		जबार सिंह
474	जेसी 469759	एम	सुबेदार		जोगिंदर सिंह
475	जेसी 469678	एम	सुबेदार		कष्णन कुमार
476	जेसी 469142	डब्ल्यू	सुबेदार		लून सिंह
477	जेसी 469779	ए	सुबेदार		मोती राम
478	जेसी 469434	वाइ	सुबेदार		मुकेश कुमार
479	जेसी 469476	एल	सुबेदार		प्रीतम सिंह
480	जेसी 469518	एम	सुबेदार		राम फूल सिंह
481	जेसी 469182	एक्स	सुबेदार		सत्य पाल
482	जेसी 469533	एफ	सुबेदार		सत्य प्रकाश
483	जेसी 469746	पी	सुबेदार		सोहन सिंह
484	जेसी 196205	वाइ	सुबेदार		विजया कुमारी बी
485	जेसी 469736	एल	सुबेदार		विजेन्द्र कुमार

राजपूत रेजीमेन्ट

486	जेसी 478608 पी	सुबेदार मेजर	अजीत सिंह
487	जेसी 478668 के	सुबेदार मेजर	भरत सिंह
488	जेसी 478554 वाइ	सुबेदार मेजर	द्वारिका प्रसाद तिवारी
489	जेसी 478679 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राज बहादुर शर्मा
490	जेसी 478377 के	सुबेदार मेजर	राज कुमार
491	जेसी 478415 पी	सुबेदार मेजर	राम गुणी
492	जेसी 211057 वाइ	सुबेदार मेजर	राम सिंह गुर्जर
493	जेसी 478541 एफ	सुबेदार मेजर	श्री पाल गूजर
494	जेसी 479209 एक्स	सुबेदार	अंग्रेज सिंह
495	जेसी 479321 के	सुबेदार	बाल बीर सिंह राजपूत
496	जेसी 479437 ए	सुबेदार	घान श्याम सिंह
497	जेसी 479004 एच	सुबेदार	जगदीश प्रसाद गूजर
498	जेसी 479034 ए	सुबेदार	जयपान सिंह
499	जेसी 479166 एन	सुबेदार	कैलाश चन्द
500	जेसी 478920 एक्स	सुबेदार	कंवर सिंह
501	जेसी 479514 एच	सुबेदार	कष्णन सिंह
502	जेसी 479286 एम	सुबेदार	महाबल सिंह
503	जेसी 479480 एफ	सुबेदार	मुजफर खान
504	जेसी 479146 ए	सुबेदार	ओमकार सिंह
505	जेसी 479411 एल	सुबेदार	पेहल सिंह
506	जेसी 479530 एफ	सुबेदार	राजबीर
507	जेसी 479397 के	सुबेदार	राजेंद्रा कुमार शर्मा
508	जेसी 479389 एल	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह
509	जेसी 479280 एल	सुबेदार	रमेश सिंह
510	जेसी 479489 डब्ल्यू	सुबेदार	राम मेहर
511	जेसी 479313 एल	सुबेदार	राम निहोर सिंह
512	जेसी 479409 एन	सुबेदार	समुंद्र सिंह
513	जेसी 478881 के	सुबेदार	शीश राम गुर्जर
514	जेसी 479087 वाइ	सुबेदार	शिव राम सिंह तनवर
515	जेसी 478775 एल	सुबेदार	स्वाई सिंह

जाट रेजीमेन्ट

516	जेसी 111751 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अजब लाल शर्मा
517	जेसी 488645 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	ब्रम प्रकाश
518	जेसी 488442 एम	सुबेदार मेजर	दलबीर सिंह
519	जेसी 488338 वाइ	सुबेदार मेजर	जयबीर सिंह
520	जेसी 488325 एफ	सुबेदार मेजर	लाल सिंह
521	जेसी 488395 ए	सुबेदार मेजर	नेत राम

आर टी

522	जेसी 488268	एल	सुबेदार मेजर	विजय सिंह
523	जेसी 489116	डब्ल्यू	सुबेदार	चांदी राम
524	जेसी 489352	एक्स	सुबेदार	देवेन्द्र
525	जेसी 489260	एल	सुबेदार	देवी राम
526	जेसी 489613	ए	सुबेदार	धर्मबीर
527	जेसी 489847	के	सुबेदार	करन सिंह
528	जेसी 489824	एच	सुबेदार	नाहर सिंह,
529	जेसी 489445	एम	सुबेदार	पाले राम
530	जेसी 489486	डब्ल्यू	सुबेदार	राजबीर सिंह
531	जेसी 489338	एल	सुबेदार	राजेंद्रा कुमार
532	जेसी 489347	एम	सुबेदार	रामेश्वर लाल
533	जेसी 489363	के	सुबेदार	राम सिंह सिद्धू
534	जेसी 489404	एच	सुबेदार	श्री कृष्णन
535	जेसी 489744	एल	सुबेदार	सुख लाल

सिख रेजीमेन्ट

536	जेसी 498583	पी	सुबेदार मेजर	दीदार सिंह
537	जेसी 498347	एन	सुबेदार मेजर	गनेश कुमार
538	जेसी 498616	पी	सुबेदार मेजर	गुरवैल सिंह
539	जेसी 498270	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	लखविन्दर सिंह
540	जेसी 498259	एक्स	सुबेदार मेजर	आर सिंह
541	जेसी 499006	पी	सुबेदार	अमरीक सिंह
542	जेसी 498863	एच	सुबेदार	बलबीर सिंह
543	जेसी 499066	के	सुबेदार	भुपिन्द्र सिंह
544	जेसी 499128	वाइ	सुबेदार	ज्ञान सिंह
545	जेसी 499111	एल	सुबेदार	इकबाल सिंह,
546	जेसी 499415	एच	सुबेदार	किशन सिंह
547	जेसी 498854	एफ	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह
548	जेसी 499308	एफ	सुबेदार	रंजीत सिंह
549	जेसी 499072	एक्स	सुबेदार	एस सिंह
550	जेसी 498399	के	सुबेदार	सतपाल सिंह

सिख लघु पैदल सेना

551	जेसी 508466	ए	सुबेदार मेजर	मनजीत सिंह
552	जेसी 508464	पी	सुबेदार मेजर	परमजीत सिंह
553	जेसी 508509	के	सुबेदार मेजर	प्रीतम सिंह
554	जेसी 508313	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	वरयम सिंह
555	जेसी 509002	पी	सुबेदार	अमरजीत सिंह
556	जेसी 509032	एम	सुबेदार	अमरीक सिंह
557	जेसी 509240	एफ	सुबेदार	बलदेव सिंह

558	जेसी 508959 एफ	सुबेदार	बलदेव सिंह
559	जेसी 509056 डब्ल्यू	सुबेदार	बावा सिंह
560	जेसी 508479 एक्स	सुबेदार	दलबीर सिंह
561	जेसी 508672 के	सुबेदार	गुरदेव सिंह
562	जेसी 508549 एल	सुबेदार	हरबंस सिंह
563	जेसी 508179 डब्ल्यू	सुबेदार	जगदीश सिंह
564	जेसी 508518 एल	सुबेदार	जसवंत सिंह
565	जेसी 509281 एल	सुबेदार	जसविन्दर सिंह
566	जेसी 508409 वाइ	सुबेदार	कर्मजीत सिंह
567	जेसी 508611 एम	सुबेदार	लक्खा सिंह
568	जेसी 508447 पी	सुबेदार	सुखविन्दर सिंह

डोगरा रेजीमेन्ट

569	जेसी 519085 वाइ	सुबेदार मेजर	अमर सिंह
570	जेसी 518980 एक्स	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह क9शल
571	जेसी 118400 के	सुबेदार मेजर	बृज मोहन शर्मा
572	जेसी 518992 एम	सुबेदार मेजर	दलजीत सिंह
573	जेसी 518590 पी	सुबेदार मेजर	दामोदर दत्ता शर्मा
574	जेसी 519213 एल	सुबेदार मेजर	दर्शन सिंह
575	जेसी 519084 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	दयाल सिंह,
576	जेसी 518976 पी	सुबेदार मेजर	हेम राज
577	जेसी 519280 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कपूर सिंह
578	जेसी 518657 एच	सुबेदार मेजर	केवल सिंह धीमान
579	जेसी 519110 एम	सुबेदार मेजर	प्रकाश चन्द
580	जेसी 519284 एम	सुबेदार मेजर	राजिन्दर सिंह
581	जेसी 519165 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	एस सिंह गोंदल
582	जेसी 519154 के	सुबेदार मेजर	सुख राम
583	जेसी 519743 ए	सुबेदार	अशोक कुमार
584	जेसी 520246 एच	सुबेदार	अशोक कुमार
585	जेसी 520138 वाइ	सुबेदार	बलबीर सिंह
586	जेसी 520276 ए	सुबेदार	बंसी लाल
587	जेसी 519818 एम	सुबेदार	चेत राम
588	जेसी 519915 के	सुबेदार	होशियार सिंह
589	जेसी 520301 एन	सुबेदार	कश्मीर सिंह
590	जेसी 520313 एच	सुबेदार	कुलदीप सिंह
591	जेसी 519949 एक्स	सुबेदार	कुलदीप सिंह
592	जेसी 520156 एफ	सुबेदार	रमेश सिंह
593	जेसी 520164 ए	सुबेदार	रवीन्द्र कुमार
594	जेसी 520229 एच	सुबेदार	संतोष चन्द
595	जेसी 519778 डब्ल्यू	सुबेदार	एस लाल

आर टी

596	जेसी 519785 एम	सुबेदार	सुरेश कुमार राना
597	जेसी 519897 एम	सुबेदार	तिलक राज

गढ़वाल राईफल्स

598	जेसी 528708 वाइ	सुबेदार मेजर	बलबीर सिंह
599	जेसी 528849 एन	सुबेदार मेजर	बिरेन्द्र सिंह,
600	जेसी 529089 एच	सुबेदार मेजर	दरमयान सिंह
601	जेसी 528820 एल	सुबेदार मेजर	दीवान सिंह
602	जेसी 528846 ए	सुबेदार मेजर	हरीश चंद्रा
603	जेसी 528470 के	सुबेदार मेजर	हयात सिंह
604	जेसी 528417 वाइ	सुबेदार मेजर	कलाम सिंह
605	जेसी 528650 एम	सुबेदार मेजर	सुरेन्द्रा सिंह
606	जेसी 529854 एल	सुबेदार	आनंद सिंह
607	जेसी 529979 एच	सुबेदार	बलवंत सिंह
608	जेसी 529803 एक्स	सुबेदार	भरत सिंह नेगी
609	जेसी 529576 एच	सुबेदार	बिमल सिंह
610	जेसी 529493 एक्स	सुबेदार	दलवीर सिंह
611	जेसी 530353 एक्स	सुबेदार	दान सिंह
612	जेसी 529546 एल	सुबेदार	धर्म पाल सिंह
613	जेसी 529651 एफ	सुबेदार	हर्ष मनी
614	जेसी 529562 एच	सुबेदार	कुंदन सिंह
615	जेसी 529411 के	सुबेदार	लखपत सिंह
616	जेसी 529649 के	सुबेदार	लखपत सिंह
617	जेसी 529240 एच	सुबेदार	मोहन सिंह
618	जेसी 528905 एफ	सुबेदार	पूरन सिंह
619	जेसी 529846 एम	सुबेदार	राकेश राउथान
620	जेसी 529637 पी	सुबेदार	शर्बेश्वर प्रसाद
621	जेसी 529433 एच	सुबेदार	श्री कष्णन
622	जेसी 529781 के	सुबेदार	सोबन सिंह,
623	जेसी 529565 डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेशा नन्द
624	जेसी 529757 एन	सुबेदार	सुरजीत सिंह

कुमाँउ रेजीमेन्ट

625	जेसी 538182 एल	सुबेदार मेजर	दलीप सिंह
626	जेसी 538691 के	सुबेदार मेजर	दीवानी राम
627	जेसी 538869 पी	सुबेदार मेजर	घमंडी लाल यादव
628	जेसी 538112 एम	सुबेदार मेजर	खुशाल सिंह गरिया
629	जेसी 158231 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कुशल नन्द बहुगुणा
630	जेसी 538545 के	सुबेदार मेजर	नारायण सिंह दिअप्पा
631	जेसी 539033 के	सुबेदार मेजर	पदम सिंह

आर टी

बीएम

632	जेसी 538654	एक्स	सुबेदार	मेजर	प्रताप सिंह
633	जेसी 539635	एक्स	सुबेदार		अभेय सिंह यादव
634	जेसी 539382	एन	सुबेदार		भगत सिंह
635	जेसी 540007	पी	सुबेदार		धन सिंह काकी
636	जेसी 539726	एफ	सुबेदार		धर्मेन्द्र कुमार
637	जेसी 539644	वाइ	सुबेदार		गोर्धन सिंह राठोर
638	जेसी 539512	एल	सुबेदार		हरी भगवान
639	जेसी 539331	ए	सुबेदार		हरीश सिंह
640	जेसी 539257	के	सुबेदार		होशियार राम
641	जेसी 539444	एच	सुबेदार		जय करन सिंह
642	जेसी 539609	डब्ल्यू	सुबेदार		केशर सिंह
643	जेसी 539441	पी	सुबेदार		किशन सिंह
644	जेसी 539864	एच	सुबेदार		महेंद्र सिंह
645	जेसी 539396	एन	सुबेदार		मोहन सिंह
646	जेसी 539426	ए	सुबेदार		मोहन सिंह
647	जेसी 539410	पी	सुबेदार		राधे श्याम
648	जेसी 539765	ए	सुबेदार		रामेश्वर
649	जेसी 538872	पी	सुबेदार		राम सरन
650	जेसी 539494	एन	सुबेदार		सत्य नारायण
651	जेसी 539391	पी	सुबेदार		शंकर सिंह चूफाल
652	जेसी 539791	एफ	सुबेदार		शेर सिंह कापकोटी
653	जेसी 539738	डब्ल्यू	सुबेदार		त्रिलोक सिंह

आसाम रेजीमेन्ट

654	जेसी 548255	ए	सुबेदार	मेजर	बुधेश्वर सिन्हा	
655	जेसी 548171	एम	सुबेदार	मेजर	जमखोथंग	
656	जेसी 548303	पी	सुबेदार	मेजर	जनार्दन सिन्हा	
657	जेसी 130065	एक्स	सुबेदार	मेजर	खुम्लो जेन्सन अनल	आर टी
658	जेसी 548286	ए	सुबेदार	मेजर	मदन मोहन सिंह	
659	जेसी 114063	एच	सुबेदार	मेजर	रतन चन्द शर्मा	आर टी
660	जेसी 548322	ए	सुबेदार	मेजर	उपअनंदा मुखर्जी	
661	जेसी 548788	एच	सुबेदार		अन्नेसवर सेकिआ	
662	जेसी 548948	एक्स	सुबेदार		चिनिओ लोथा,	
663	जेसी 548949	ए	सुबेदार		एच आर रामकटिन्ग	
664	जेसी 548939	डब्ल्यू	सुबेदार		हरका बहादुर दारजी	
665	जेसी 548893	वाइ	सुबेदार		के.एच एस सिंह	
666	जेसी 549182	एल	सुबेदार		लालेंगजउवा	
667	जेसी 549003	ए	सुबेदार		मनिन्द्र चंद्रा रौय	
668	जेसी 549058	के	सुबेदार		मोहन कुमार श्रेष्ठा	
669	जेसी 548838	एच	सुबेदार		राजेन पीडी बोराह	

670	जेसी 548803 एम	सुबेदार	रामेश्वर कुनवर
671	जेसी 549180 ए	सुबेदार	रंजु कुमार सिंघा
672	जेसी 548789 एल	सुबेदार	सुरेन ठाकुरिया
673	जेसी 548805 एक्स	सुबेदार	टी च. दास

बिहार रेजीमेन्ट

674	जेसी 558458 एक्स	सुबेदार मेजर	चंदेश्वर सिंह
675	जेसी 558392 एम	सुबेदार मेजर	किस्टोफर लकरा
676	जेसी 558546 एन	सुबेदार मेजर	गोबरधन सिंह
677	जेसी 558561 एच	सुबेदार मेजर	लव कुमार
678	जेसी 558693 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	नबीन कुमार प्रधान,
679	जेसी 558257 वाइ	सुबेदार मेजर	राज नाथ गिरि
680	जेसी 558411 एम	सुबेदार मेजर	राकेश चंद्रा ढोंडियाल
681	जेसी 558385 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राम लंगन महाले
682	जेसी 558467 वाइ	सुबेदार मेजर	राना विजय सिंह
683	जेसी 558468 एफ	सुबेदार मेजर	सरयुग यादव
684	जेसी 558692 एन	सुबेदार मेजर	सुरेन्द्र कुजुर
685	जेसी 558299 एल	सुबेदार मेजर	तुराम पूर्ति
686	जेसी 558387 एफ	सुबेदार मेजर	उपेंद्र प्रसाद महतो
687	जेसी 558535 ए	सुबेदार मेजर	वीरेंद्र प्रसाद सिंह
688	जेसी 559574 एम	सुबेदार	बिहारी तिवारी
689	जेसी 558647 एफ	सुबेदार	हरी राम भगत
690	जेसी 559247 एफ	सुबेदार	जग मोहन सिंह
691	जेसी 559255 ए	सुबेदार	कुंज बिहारी किसान
692	जेसी 559000 ए	सुबेदार	महेश प्रसाद
693	जेसी 559270 पी	सुबेदार	महेश राय
694	जेसी 558973 के	सुबेदार	परमानंद यादव
695	जेसी 559444 के	सुबेदार	राम बाबू ठाकुर
696	जेसी 559234 के	सुबेदार	राम पुकार साह
697	जेसी 559002 एल	सुबेदार	शिव शंकर दयाल
698	जेसी 558887 वाइ	सुबेदार	सुरेश यादव
699	जेसी 559324 एल	सुबेदार	टी सिंह

महार रेजीमेन्ट

700	जेसी 568504 पी	सुबेदार मेजर	बिजेन्द्र सिंह
701	जेसी 568593 वाइ	सुबेदार मेजर	चव्हाण सुरेश गोविंद
702	जेसी 568580 एफ	सुबेदार मेजर	जोरा
703	जेसी 568303 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कुलदीप सिंह
704	जेसी 568464 वाइ	सुबेदार मेजर	माखन सिंह
705	जेसी 568090 एन	सुबेदार मेजर	ओम नारायण

706	जेसी 568401 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राम चंद्र
707	जेसी 568489 एल	सुबेदार मेजर	राम निवास
708	जेसी 568379 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रोहताश सिंह यादव
709	जेसी 569331 पी	सुबेदार	आलम सिंह
710	जेसी 568929 एन	सुबेदार	बहादुर सिंह
711	जेसी 569415 एच	सुबेदार	बलवंत सिंह
712	जेसी 569718 एक्स	सुबेदार	चेत राम
713	जेसी 569644 एन	सुबेदार	दरवान सिंह
714	जेसी 569595 डब्ल्यू	सुबेदार	जयराज भट्ट
715	जेसी 569804 एच	सुबेदार	कमल चंद्रा राय,
716	जेसी 569199 ए	सुबेदार	राम चन्द्र यादव
717	जेसी 569400 ए	सुबेदार	रमेश चंद्रा
718	जेसी 569721 एक्स	सुबेदार	रंजीत सिंह
719	जेसी 568762 पी	सुबेदार	सुरेन्द्र प्रसाद
720	जेसी 568757 के	सुबेदार	तपन कुमार साहा

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

721	जेसी 578823 पी	सुबेदार मेजर	बलवान सिंह
722	जेसी 578999 ए	सुबेदार मेजर	भगवान दास
723	जेसी 578488 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	भीम बहादुर
724	जेसी 578626 एम	सुबेदार मेजर	चरण दास शर्मा
725	जेसी 578571 एन	सुबेदार मेजर	हंस राज
726	जेसी 578815 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	जगोर सिंह
727	जेसी 578887 ए	सुबेदार मेजर	मोहिन्दर सिंह
728	जेसी 578851 एफ	सुबेदार मेजर	रनबीर सिंह
729	जेसी 578788 एक्स	सुबेदार मेजर	तीरथ राम
730	जेसी 579885 एफ	सुबेदार	अभिलाश चन्द
731	जेसी 580185 ए	सुबेदार	अजीत सिंह
732	जेसी 579790 एल	सुबेदार	अमरजीत सिंह,
733	जेसी 579692 एफ	सुबेदार	अशोक कुमार
734	जेसी 579744 एम	सुबेदार	अशोक सिंह
735	जेसी 579976 एल	सुबेदार	बाली राम
736	जेसी 580056 ए	सुबेदार	चंद्र मोहन
737	जेसी 580068 पी	सुबेदार	देवी दित्ता
738	जेसी 579817 एन	सुबेदार	दीवान चन्द
739	जेसी 580221 ए	सुबेदार	गिरधारी लाल
740	जेसी 579895 एल	सुबेदार	गोपाल दास
741	जेसी 580342 एफ	सुबेदार	गुरु प्रसाद शर्मा
742	जेसी 579894 एच	सुबेदार	हंस राज टी
743	जेसी 579776 पी	सुबेदार	काबुल सिंह

744	जेसी 580005 एम	सुबेदार	कष्णन कुमार
745	जेसी 579963 एन	सुबेदार	मेहर सिंह
746	जेसी 579861 एक्स	सुबेदार	मोहम्मद आयूब
747	जेसी 579761 एम	सुबेदार	मोहम्मद सलीम
748	जेसी 579786 वाइ	सुबेदार	प्रकाश चन्द
749	जेसी 579767 एन	सुबेदार	प्रभु राम
750	जेसी 579773 एफ	सुबेदार	प्रवीन कुमार कटाल
751	जेसी 579829 एच	सुबेदार	प्रेम कुमार राय
752	जेसी 580169 एच	सुबेदार	राज पौल
753	जेसी 579816 एल	सुबेदार	रमेश चन्द
754	जेसी 579852 डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश कुमार
755	जेसी 580071 पी	सुबेदार	राम पौल
756	जेसी 580103 एम	सुबेदार	रोमेश चंद्र
757	जेसी 579664 पी	सुबेदार	रोमेश लाल
758	जेसी 579708 एफ	सुबेदार	सुभाष चन्द
759	जेसी 579741 वाइ	सुबेदार	सुदर्शन कुमांर
760	जेसी 580186 एच	सुबेदार	तरसेम सिंह
761	जेसी 579759 पी	सुबेदार	उत्तातम चन्द
762	जेसी 579865 एन	सुबेदार	विजय सिंह

लध्दाख स्काउट

763	जेसी 588041 एम	सुबेदार मेजर	क्षेवांग दोर्जे
764	जेसी 224503 एन	सुबेदार मेजर	रिगजिन जोरगियास
765	जेसी 588138 एक्स	सुबेदार	छेरिंग वंगेल
766	जेसी 588136 एम	सुबेदार	रिगजिन नमगैल

नागा रेजीमेन्ट

767	जेसी 218034 ए	सुबेदार मेजर	डब्ल्यू एस लुंगथा अन्नल
768	जेसी 590145 एम	सुबेदार	सुरेश कुमार गुरंग

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल

769	जेसी 592178 डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	छंकर सिंह,
770	जेसी 592196 ए	सुबेदार मेजर	गोवर्धन सिंह
771	जेसी 592068 एफ	सुबेदार मेजर	प्रिथीपाल सिंह
772	जेसी 592240 एक्स	सुबेदार मेजर	स्वामी राज
773	जेसी 592884 एक्स	सुबेदार	अब्दुल जब्बार एस
774	जेसी 593438 एच	सुबेदार	अब्दुल रशीद धर
775	जेसी 592437 एन	सुबेदार	अब रशीद वाणी
776	जेसी 593034 ए	सुबेदार	अंचल सिंह
777	जेसी 593287 पी	सुबेदार	अवतार सिंह

778	जेसी 592809 एन	सुबेदार	अवतार सिंह
779	जेसी 593046 पी	सुबेदार	चुनी लाल
780	जेसी 593238 एम	सुबेदार	चुनी लाल
781	जेसी 592976 के	सुबेदार	दर्शन कुमार
782	जेसी 592834 एम	सुबेदार	दिलबाग सिंह चेदी
783	जेसी 592957 वाइ	सुबेदार	हरबंस लाल
784	जेसी 592947 पी	सुबेदार	कष्णन लाल
785	जेसी 593019 एल	सुबेदार	कष्णन लाल
786	जेसी 592430 के	सुबेदार	मोहन सिंह
787	जेसी 592860 एन	सुबेदार	मोहम्मद बशीर
788	जेसी 592768 पी	सुबेदार	पवन सिंह
789	जेसी 593029 पी	सुबेदार	फूल कुमार
790	जेसी 593030 के	सुबेदार	राम लाल शर्मा
791	जेसी 592804 पी	सुबेदार	रतन लाल
792	जेसी 593190 के	सुबेदार	रतन लाल
793	जेसी 592773 ए	सुबेदार	रतन लाल
794	जेसी 592794 डब्ल्यू	सुबेदार	रतन सिंह
795	जेसी 592836 एक्स	सुबेदार	शाम लाल शर्मा
796	जेसी 592888 एन	सुबेदार	शंमशेर सिंह,
797	जेसी 592839 एल	सुबेदार	सुरजीत सिंह
798	जेसी 592697 वाइ	सुबेदार	यश पौल

1 गोरखा राईफल्स

799	जेसी 602154 एच	सुबेदार मेजर	भीम बहादुर गुरंग
800	जेसी 602227 के	सुबेदार मेजर	दल बहादुर माल
801	जेसी 602169 एल	सुबेदार मेजर	मिन बहादुर बुराथोकी
802	जेसी 602273 वाइ	सुबेदार मेजर	विपन कुमार प्रधान
803	जेसी 602542 ए	सुबेदार	गनेश प्रसाद गुरंग
804	जेसी 602513 एल	सुबेदार	नीमा शिरिंग लामा

3 गोरखा राईफल्स

805	जेसी 607321 एक्स	सुबेदार मेजर	गीर बहादुर थापा
806	जेसी 607247 एफ	सुबेदार मेजर	मान बीर गुरंग
807	जेसी 607136 के	सुबेदार मेजर	राम प्रसाद पासी
808	जेसी 607310 एल	सुबेदार मेजर	शिव बहादुर थापा
809	जेसी 607332 के	सुबेदार मेजर	तिलक बहादुर थापा
810	जेसी 607154 एम	सुबेदार	राम रतन यादव

4 गोरखा राईफल्स

811	जेसी 612054 एल	सुबेदार मेजर	चंद्र बहादुर थापा
-----	----------------	--------------	-------------------

812	जेसी 612228 ए	सुबेदार मेजर	धन बहादुर पुन
813	जेसी 612134 एच	सुबेदार मेजर	कलाम सिंह गुरंग
814	जेसी 211402 एफ	सुबेदार मेजर	मदन सिंह थापा
815	जेसी 612492 एन	सुबेदार	तेज मान गुरंग

5 गोरखा राईफल्स

816	जेसी 617162 वाइ	सुबेदार मेजर	भागवान चंद्रा मिश्रा
817	जेसी 617276 के	सुबेदार मेजर	चित्रा बहादुर रोका
818	जेसी 617339 एफ	सुबेदार मेजर	दीप राज सावन
819	जेसी 617160 एन	सुबेदार मेजर	गंगा नर सुदरियाल
820	जेसी 617583 एफ	सुबेदार	ईके. बहादुर थापा
821	जेसी 617595 डब्ल्यू	सुबेदार	सूर्या बहादुर गुरंग

8 गोरखा राईफल्स

822	जेसी 623267 वाइ	सुबेदार मेजर	धन बहादुर बसनत
823	जेसी 623068 एल	सुबेदार मेजर	गनेश बहादुर माल
824	जेसी 623074 वाइ	सुबेदार मेजर	लाल जंग गुरंग
825	जेसी 623136 एन	सुबेदार मेजर	शब्बीर थापा
826	जेसी 623379 वाइ	सुबेदार	जे कुमार राजपूत
827	जेसी 623634 ए	सुबेदार	राम बहादुर श्रेष्ठा
828	जेसी 623618 एच	सुबेदार	रेशम बहादुर थापा
829	जेसी 623346 एन	सुबेदार	तेज बहादुर एस
830	जेसी 623496 के	सुबेदार	योग बहादुर गुरंग

9 गोरखा राईफल्स

831	जेसी 629377 के	सुबेदार मेजर	दिल बहादुर खत्री
832	जेसी 122072 वाइ	सुबेदार मेजर	शीशकान्ता शर्मा घिमीर
833	जेसी 629387 एन	सुबेदार मेजर	याक बहादुर थापा
834	जेसी 629511 के	सुबेदार	मिन बहादुर खत्री
835	जेसी 629700 एन	सुबेदार	नरेश बहादुर छत्री

आर टी

11 गोरखा राईफल्स

836	जेसी 634075 एफ	सुबेदार मेजर	धन बहादुर लिम्बू
837	जेसी 634166 एल	सुबेदार मेजर	मनी राय
838	जेसी 634533 एम	सुबेदार	गम बहादुर राय
839	जेसी 634570 ए	सुबेदार	जगत बहादुर श्रेष्ठा
840	जेसी 634490 एच	सुबेदार	मछिन्द्र कुमार राय
841	जेसी 634697 एच	सुबेदार	राम प्रसाद लिम्बू

सेना सेवा कोर दक्षिण

842	जेसी 221399 ए	सुबेदार मेजर	बन्दगर ततोबा पटलू
843	जेसी 640778 वाइ	सुबेदार मेजर	भाग्याधर मंडल
844	जेसी 217864 के	सुबेदार मेजर	भंवर सिंह
845	जेसी 640917 एक्स	सुबेदार मेजर	भीकम सिंह
846	जेसी 662288 एल	सुबेदार मेजर	भूवन चन्द्र
847	जेसी 661213 एफ	सुबेदार मेजर	बिंदेश्वरी सिंह
848	जेसी 640440 एन	सुबेदार मेजर	दामोदर बेहेरा
849	जेसी 661241 एन	सुबेदार मेजर	गोरांगा राना बिजुली
850	जेसी 661234 एक्स	सुबेदार मेजर	गुरमीत सिंह
851	जेसी 661574 ए	सुबेदार मेजर	हंस राज यादव
852	जेसी 640676 एच	सुबेदार मेजर	हवा सिंह मेहला
853	जेसी 661434 एन	सुबेदार मेजर	जगदीश प्रसाद
854	जेसी 661106 ए	सुबेदार मेजर	जोखू प्रसाद
855	जेसी 215552 पी	सुबेदार मेजर	मदन मोहन दान
856	जेसी 661151 एम	सुबेदार मेजर	मनजीत सिंह
857	जेसी 641001 पी	सुबेदार मेजर	निरंजन दाश
858	जेसी 661430 एक्स	सुबेदार मेजर	परमार अशरफ खान हैयात खान
859	जेसी 215536 एक्स	सुबेदार मेजर	राजेन्द्रन पी
860	जेसी 661829 पी	सुबेदार मेजर	रनबीर सिंह
861	जेसी 640063 एच	सुबेदार मेजर	शशि भूषण सिंह
862	जेसी 640938 एन	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार पाराशर
863	जेसी 642799 एन	सुबेदार	बालासुब्रामनियन आर
864	जेसी 643140 एक्स	सुबेदार	बलविन्दर नाथ
865	जेसी 663871 एम	सुबेदार	बिनेस्वर रौय
866	जेसी 662705 एम	सुबेदार	चैन सिंह
867	जेसी 663578 पी	सुबेदार	दामोदर प्रसाद
868	जेसी 642832 ए	सुबेदार	ईन्द्रावीर सिंह
869	जेसी 662697 वाइ	सुबेदार	जागर नाथ
870	जेसी 662821 पी	सुबेदार	जगदीश सिंह
871	जेसी 662758 एल	सुबेदार	जवाहर सिंह
872	जेसी 662785 पी	सुबेदार	जयसी राम
873	जेसी 662950 पी	सुबेदार	जैयन लाल
874	जेसी 641288 एक्स	सुबेदार	कुंवर बहादुर सिंह
875	जेसी 662790 ए	सुबेदार	महीपाल सिंह
876	जेसी 642703 ए	सुबेदार	मंगला प्रसाद
877	जेसी 663338 एक्स	सुबेदार	मोती लाल
878	जेसी 663762 ए	सुबेदार	रामदवान
879	जेसी 642491 ए	सुबेदार	राम शंकर शुक्ला

880	जेसी 662795 वाइ	सुबेदार	शेर सिंह यादव	
881	जेसी 144220 वाइ	सुबेदार	शीतला प्रसाद शुक्ला	आर टी
882	जेसी 642868 वाइ	सुबेदार	श्री किशन शर्मा	
883	जेसी 662842 एल	सुबेदार	श्री तहसील्दार	
884	जेसी 663600 पी	सुबेदार	सुरेश कुमार	
885	जेसी 662949 ए	सुबेदार	विजय बहादुर	

सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

886	जेसी 680319 एच	रिसालदार मेजर	गोविंद सिंह
887	जेसी 680281 के	रिसालदार मेजर	जनक शर्मा
888	जेसी 680297 पी	रिसालदार मेजर	कर्म सिंह
889	जेसी 680926 एफ	रिसालदार	भूपेन च. दास
890	जेसी 680676 एल	रिसालदार	बिप्रादास चत्तराज
891	जेसी 680764 एफ	रिसालदार	गीतम सिंह
892	जेसी 680786 ए	रिसालदार	लज़ार सी
893	जेसी 680662 एल	रिसालदार	सत्य प्रकाश
894	जेसी 680747 एफ	रिसालदार	शिव मुनि राम
895	जेसी 680749 एम	रिसालदार	सोहन सिंह
896	जेसी 680748 के	रिसालदार	वेद पाल

सेना चिकित्सा कोर

897	जेसी 690394 ए	सुबेदार मेजर	बालचन्द्रन नायर के
898	जेसी 690985 एफ	सुबेदार मेजर	बलवंत सिंह
899	जेसी 690894 एक्स	सुबेदार मेजर	ब्रमा राम शर्मा
900	जेसी 692756 पी	सुबेदार मेजर	गोविन्द चंद्रा बेहेरा
901	जेसी 217327 वाइ	सुबेदार मेजर	जबार सिंह इनडे
902	जेसी 692942 एल	सुबेदार मेजर	जुबाराज सरकार
903	जेसी 692752 वाइ	सुबेदार मेजर	प्रणब गोस्वामी
904	जेसी 692907 एच	सुबेदार मेजर	रम्मन राम
905	जेसी 690426 एक्स	सुबेदार मेजर	आर पलानीवल
906	जेसी 214874 एच	सुबेदार मेजर	सुखेन्दु कुमार कर्माकर
907	जेसी 692339 एच	सुबेदार मेजर	स्वप्न कुमार विश्वास
908	जेसी 691500 ए	सुबेदार	अजीत सिंह
909	जेसी 695008 एम	सुबेदार	अमरजीत सिंह
910	जेसी 694091 एच	सुबेदार	अतर सिंह
911	जेसी 695192 एच	सुबेदार	बिरसा नाघ
912	जेसी 692615 ए	सुबेदार	धानधेल्या चितहार भाई भवानी शंकर
913	जेसी 695152 एफ	सुबेदार	जाधव मोहन तुकाराम
914	जेसी 694537 एम	सुबेदार	जया चंद्रन बी
915	जेसी 694038 एक्स	सुबेदार	ख्याली राम

916	जेसी 695051	एन	सुबेदार	कष्णन सिंह
917	जेसी 694968	वाइ	सुबेदार	पाटिल अनिल सदासिव
918	जेसी 695190	एक्स	सुबेदार	प्रभाकर दलापती
919	जेसी 694533	डब्ल्यू	सुबेदार	प्रफुल्ल चंद्रा सत्याथी
920	जेसी 694448	एन	सुबेदार	पूरन सिंह शाही
921	जेसी 695191	ए	सुबेदार	राज बाली सिंह
922	जेसी 694683	एम	सुबेदार	राम कुमार
923	जेसी 161062	एल	सुबेदार	राम नारायन विश्व कर्मा
924	जेसी 694686	ए	सुबेदार	साहब सिंह
925	जेसी 693298	डब्ल्यू	सुबेदार	शिव लखन सिंह
926	जेसी 692152	डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार
927	जेसी 693031	एफ	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह
928	जेसी 693800	ए	सुबेदार	सुरेश के
929	जेसी 693262	एक्स	सुबेदार	सुरेश कुमार वी एन

आर टी

सेना आयुध कोर

930	जेसी 723215	एक्स	सुबेदार मेजर	चंद्र प्रकाश तिवारी
931	जेसी 723081	के	सुबेदार मेजर	चंद्रा भूषण सिंह
932	जेसी 723258	एम	सुबेदार मेजर	कमालेन्दु देबनाथ
933	जेसी 722783	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कोले लक्ष्मन यलप्पा
934	जेसी 723256	एफ	सुबेदार मेजर	माता शंकर शुक्ला
935	जेसी 723292	एम	सुबेदार मेजर	राजवीर सिंह मान
936	जेसी 723474	ए	सुबेदार मेजर	रमन कुमार शर्मा
937	जेसी 725361	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रमेश कुमार
938	जेसी 723248	एच	सुबेदार मेजर	रामपाल शर्मा
939	जेसी 723200	पी	सुबेदार मेजर	रंजीत सिंह
940	जेसी 723191	वाइ	सुबेदार मेजर	सुखवीर सिंह
941	जेसी 724195	एफ	सुबेदार	औरंग जेडईबी
942	जेसी 724958	एम	सुबेदार	चरण सिंह सैनी
943	जेसी 724096	वाइ	सुबेदार	फ्रांसेस डी.
944	जेसी 724095	डब्ल्यू	सुबेदार	जगदीश प्रताप सिंह
945	जेसी 723383	डब्ल्यू	सुबेदार	कमल कांत जोशी
946	जेसी 724476	एक्स	सुबेदार	कुलदीप सिंह
947	जेसी 723874	एम	सुबेदार	कुलदीप सिंह
948	जेसी 725382	एम	सुबेदार	लाला राम शर्मा
949	जेसी 724091	ए	सुबेदार	महेश चंद्र
950	जेसी 722786	के	सुबेदार	माता प्रसाद
951	जेसी 725439	डब्ल्यू	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह चौहान
952	जेसी 724633	वाइ	सुबेदार	राम कृष्णापाल सिंह यादव
953	जेसी 724202	एम	सुबेदार	रामचन्द्रन के के

954	जेसी	723236	एन	सुबेदार	रमेश चन्द
955	जेसी	723023	ए	सुबेदार	राम लखन रौय
956	जेसी	725127	ए	सुबेदार	एस मलिक
957	जेसी	723824	एफ	सुबेदार	शेष नाथ पांडे
958	जेसी	725163	एल	सुबेदार	शिवगुन्टप्पा शुल्लेगटि

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

959	जेसी	749246	पी	सुबेदार मेजर	भूपेंद्र सिंह परिहार
960	जेसी	749841	वाइ	सुबेदार मेजर	बी श्री कृष्णा
961	जेसी	749511	ए	सुबेदार मेजर	देविन्द्र कुमार बख्शी
962	जेसी	749563	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	देवेन्द्र सिंह
963	जेसी	749046	वाइ	सुबेदार मेजर	दिलीप कुमार दास
964	जेसी	749044	एन	सुबेदार मेजर	जगदीश प्रसाद शर्मा
965	जेसी	752813	एक्स	सुबेदार मेजर	जोगिंदर सिंह
966	जेसी	749358	पी	सुबेदार मेजर	जॉन एम जी.
967	जेसी	747128	एच	सुबेदार मेजर	कल्याण चकर्बती
968	जेसी	749845	पी	सुबेदार मेजर	के.एम लोकेश
969	जेसी	749390	के	सुबेदार मेजर	माधवन कुट्टी एन
970	जेसी	749901	एच	सुबेदार मेजर	महाबीर सिंह
971	जेसी	749483	वाइ	सुबेदार मेजर	नन्द लाल वर्मा
972	जेसी	747067	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	नत्था राम कुदेल
973	जेसी	749739	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	ओम प्रकाश नगर
974	जेसी	748828	एच	सुबेदार मेजर	प्रकाश चन्द
975	जेसी	747069	एफ	सुबेदार मेजर	रमेश चंद्र यादव
976	जेसी	753420	एन	सुबेदार मेजर	राम गोपाल यादव
977	जेसी	750116	वाइ	सुबेदार मेजर	राम नरेश सिंह
978	जेसी	753715	के	सुबेदार मेजर	राम निवास
979	जेसी	747944	वाइ	सुबेदार मेजर	राम राज पांडे
980	जेसी	749891	के	सुबेदार मेजर	रवि कुमार के एन
981	जेसी	749732	एम	सुबेदार मेजर	सभाजीत पांडे
982	जेसी	748835	वाइ	सुबेदार मेजर	समन्द्र सिंह
983	जेसी	747121	वाइ	सुबेदार मेजर	संत कुमार
984	जेसी	749375	पी	सुबेदार मेजर	सतीश कुमार
985	जेसी	749973	एम	सुबेदार मेजर	एस दामोथरन
986	जेसी	749385	वाइ	सुबेदार मेजर	श्यामपाल सिंह
987	जेसी	752428	एन	सुबेदार मेजर	सुरेश कुमार चौबे
988	जेसी	754967	एच	सुबेदार मेजर	सुरिन्दर सिंह
989	जेसी	751348	के	सुबेदार मेजर	उधया भानु के
990	जेसी	751486	एल	सुबेदार	अएनुल हक
991	जेसी	752862	ए	सुबेदार	अनबाजागन वी

992	जेसी 753381	ए	सुबेदार	अनूस दिलीप लक्ष्मन
993	जेसी 751607	एफ	सुबेदार	अशोक कुमार शर्मा
994	जेसी 760105	ए	सुबेदार	भक्ता बहादुर कार्की
995	जेसी 755923	वाइ	सुबेदार	भुपिन्द्र सिंह
996	जेसी 753532	एन	सुबेदार	बिश्वनाथ मोन्डल
997	जेसी 759125	एफ	सुबेदार	चंद्रन टी एन
998	जेसी 753486	के	सुबेदार	दलबीर सिंह सरावत
999	जेसी 754360	डब्ल्यू	सुबेदार	दिलबाग सिंह
1000	जेसी 754923	एल	सुबेदार	दिनेश प्रसाद
1001	जेसी 760170	ए	सुबेदार	दिनेश प्रसाद
1002	जेसी 752278	एच	सुबेदार	दिनेश प्रसाद चौधरी
1003	जेसी 754249	एम	सुबेदार	दुब्बा वेनु गोपाल रेडी
1004	जेसी 753230	एफ	सुबेदार	हिमत सिंह
1005	जेसी 753971	वाइ	सुबेदार	जल सिंह
1006	जेसी 757399	एन	सुबेदार	जॉन आनंद डंगडंग
1007	जेसी 759508	एन	सुबेदार	जॉय गोपाल मंडल
1008	जेसी 753348	एच	सुबेदार	लखम सिंह
1009	जेसी 755433	के	सुबेदार	मदन लाल शर्मा
1010	जेसी 759507	एल	सुबेदार	महेश चन्द शर्मा
1011	जेसी 751367	पी	सुबेदार	माईराज अहमद
1012	जेसी 753747	एम	सुबेदार	नन्द किशोर
1013	जेसी 753350	ए	सुबेदार	नरेश चंद्रा शाक्य
1014	जेसी 758240	पी.	सुबेदार	ओम प्रकाश वर्मा
1015	जेसी 750888	डब्ल्यू	सुबेदार	पबि कुमार बोरगोहाई
1016	जेसी 753414	ए	सुबेदार	प्रताप सिंह
1017	जेसी 753612	एल	सुबेदार	फूल चन्द सैनी
1018	जेसी 750595	एल	सुबेदार	प्रसांत बरुआ
1019	जेसी 756778	एक्स	सुबेदार	प्रताप सिंह
1020	जेसी 758399	ए	सुबेदार	प्रेम चंद्रा
1021	जेसी 755404	पी	सुबेदार	रबीन्द्र कुमार बेहेरा
1022	जेसी 753917	एल	सुबेदार	राकेश कुमार गुप्ता
1023	जेसी 756256	एफ	सुबेदार	रमेशन एम
1024	जेसी 753234	एक्स	सुबेदार	रामजी तिवारी
1025	जेसी 753610	ए	सुबेदार	राम नरेश
1026	जेसी 756326	पी	सुबेदार	राम पुकार सिंह
1027	जेसी 751616	एच	सुबेदार	साजन सिंह
1028	जेसी 758962	एफ	सुबेदार	एस शर्मा
1029	जेसी 759916	वाइ	सुबेदार	सयो राम यादव
1030	जेसी 760483	वाइ	सुबेदार	सिंह जनार्दन पंचु
1031	जेसी 753565	वाइ	सुबेदार	सुनील कुमार प्रजापति

1032	जेसी 754100	एल	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह अंटल
1033	जेसी 755836	के	सुबेदार	सुरेन्द्रा प्रसाद
1034	जेसी 754188	ए	सुबेदार	तपन चंदा
1035	जेसी 755817	वाइ	सुबेदार	टी बिशवाल
1036	जेसी 760747	पी	सुबेदार	उमा शंकर पांडे
1037	जेसी 751515	पी	सुबेदार	यशपाल सिंह

सेना शिक्षा कोर

1038	जेसी 802027	एक्स	सुबेदार मेजर	चंद्रमा प्रसाद तिवारी
1039	जेसी 225474	डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	केशव राज शर्मा
1040	जेसी 223755	एन	सुबेदार मेजर	मनोहर सिंह
1041	जेसी 216999	वाइ	सुबेदार मेजर	राजिन्दर सिंह
1042	जेसी 802240	एक्स	सुबेदार मेजर	सत्यवान यादव
1043	जेसी 216193	वाइ	सुबेदार मेजर	विजय सिंह रावत
1044	जेसी 802450	एक्स	सुबेदार	भीम सिंह
1045	जेसी 802718	के	सुबेदार	ज्ञानेश्वर धर्वाल
1046	जेसी 802862	वाइ	सुबेदार	मदन मोहन शर्मा
1047	जेसी 802864	के	सुबेदार	नरेश कुमार
1048	जेसी 802686	एम	सुबेदार	ओम प्रकाश शर्मा
1049	जेसी 802487	वाइ	सुबेदार	शिव मूर्ती तिवारी

रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर

1050	जेसी 797181	के	रिसालदार मेजर	बनवारी लाल हरिजन
1051	जेसी 797066	के	रिसालदार	हरीशंकर राय
1052	जेसी 797223	एल	रिसालदार	राम सुभाष प्रधान

आसुचना कोर

1053	जेसी 217177	एन	सुबेदार मेजर	हरबंस सिंह
1054	जेसी 223464	एन	सुबेदार मेजर	हरी कष्णन शर्मा
1055	जेसी 810028	पी	सुबेदार मेजर	हेत राम
1056	जेसी 810008	एफ	सुबेदार मेजर	जगत पौल भारद्वाज
1057	जेसी 223463	एल	सुबेदार मेजर	मदन सिंह रमोला
1058	जेसी 810320	के	सुबेदार	बलबीर सिंह
1059	जेसी 810316	एफ	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह
1060	जेसी 810541	डब्ल्यू	सुबेदार	देवकी नन्द
1061	जेसी 810300	डब्ल्यू	सुबेदार	कमल देव शर्मा
1062	जेसी 810335	एम	सुबेदार	लोखिन्दर सिंह
1063	जेसी 810376	डब्ल्यू	सुबेदार	मदन लाल
1064	जेसी 810292	एच	सुबेदार	महेंद्र सिंह
1065	जेसी 810081	ए	सुबेदार	मोहन चन्द

1066	जेसी 810399	एक्स	सुबेदार	शाम शेर सिंह
<u>सेना पुलिस कोर</u>				
1067	जेसी 818385	एम	सुबेदार मेजर	दशरथ सिंह
1068	जेसी 818389	एच	सुबेदार मेजर	राम पाल
1069	जेसी 818383	एफ	सुबेदार मेजर	सूबे सिंह
1070	जेसी 818134	एच	सुबेदार मेजर	वी लक्ष्मना पेरुमल
1071	जेसी 818836	एफ	सुबेदार	अशोक कुमार शर्मा
1072	जेसी 818923	पी	सुबेदार	जोगिंदर पौल
<u>सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर</u>				

1073 जेसी 826061 डब्ल्यू सुबेदार मेजर प्रफुल्ल खाखलरि
पायोनियर कोर

1074	जेसी 829031	के	सुबेदार मेजर	सूरत सिंह
1075	292898	वाइ	सुबेदार	राम जीवन सिंह
1076	जेसी 829319	के	सुबेदार	विशम्बर सिंह
<u>सेना डाक सेवा</u>				

1077 जेसी 834087 ए सुबेदार मेजर घनशाम गुलेरिया
रक्षा सुरक्षा कोर

1078	जेसी 841307	एफ	सुबेदार	डी.बी.एस थापा
1079	जेसी 841523	पी	सुबेदार	आइ तिग्गा
1080	जेसी 841520	एफ	सुबेदार	जंग बहादुर थापा
1081	जेसी 841226	एफ	सुबेदार	कनक कुमार सेकिआ
1082	जेसी 841295	एक्स	सुबेदार	कुंदन सिंह भंडारी
1083	जेसी 841338	एफ	सुबेदार	महेन्द्र साह
1084	जेसी 841354	वाइ	सुबेदार	सोहन सिंह
1085	जेसी 841437	के	सुबेदार	सुखदेव सिंह
<u>प्रदेशिक सेना</u>				

1086	टिजे 4513	एम	सुबेदार	अनटोनी ओजे
1087	टिजे 3623	पी	सुबेदार	बिरेन्द्रा सिंह
1088	टिजे 3339	वाइ	सुबेदार	दया चन्द
1089	टिजे 3849	ए	सुबेदार	घान शाम
1090	टिजे 4206	पी	सुबेदार	घान श्याम
1091	टिजे 4124	एम	सुबेदार	गोरी कांता बसुमा
1092	टिजे 4004	पी	सुबेदार	हरबंस सिंह
1093	टिजे 3111	एच	सुबेदार	जोज सांसद

1094	टिजे 4262	एन	सुबेदार	मेघ सिंह राठोर
1095	टिजे 4118	एच	सुबेदार	राम नारायण राम
1096	टिजे 4016	ए	सुबेदार	रनवीर सिंह
1097	टिजे 3783	पी	सुबेदार	रवि सिंह
1098	टिजे 3513	ए	सुबेदार	साधु सिंह
1099	टिजे 4382	एम	सुबेदार	श्रीकांत वालीकर
1100	टिजे 3669	एक्स	सुबेदार	सुरेश प्रसाद पटेल

क्योत्तिर मंजूरी 26 जनवरी 1992 से अवैतनिक लै. के रूप में

सेना आयुध कोर

- 1 जेसी 90686 एल सेवानिवृत्त सुबेदार. मेजर सिया राम शर्मा

क्योत्तिर मंजूरी 15 अगस्त 1998 से अवैतनिक लै. के रूप में

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

- 1 जेसी 144408 एन सेवानिवृत्त सुबेदार मेजर गुरजीत सिंह बाजवा

क्योत्तिर मंजूरी 26 जनवरी 2009 से अवैतनिक लै. के रूप में

राजपूत रेजीमेंट

- 1 जेसी 478318 एक्स सेवानिवृत्त सुबेदार मेजर दाधीची राय

[सं. बी/43432/आर डी-10/ए जी/सी डब्ल्यू-2]

मुकेश सभरवाल, लै. जनरल, एडजुटेंट जनरल

MINISTRY OF DEFENCE

(ARMY BRANCH)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2010

No. 1(E) Dated 26 January, 2010.—The President is pleased to grant honorary commission to the rank of Honorary Captain/Lieutenant on the eve of Republic Day 2010 to the undermentioned Honorary Lieutenants/JCOs on active list under para 177 of Regulations for the Army 1987, with effect from 26 January, 2010 :—

TO BE HONORARY CAPTAINS

65 ARMOURD REGIMENT

1	JC 239922H	RIS & HONY LT	BHANWAR SINGH
2	JC 241002K	RIS & HONY LT	KISHUN SINGH KUSHWAH
3	JC 240752W	RIS & HONY LT	MANPHOOL SINGH

4	JC 241125W	RIS & HONY LT	RAJVEER SINGH
<u>75 ARMoured REGIMENT</u>			
5	JC 240512Y	RIS & HONY LT	RADHA KRISHNAN M
<u>82 ARMoured REGIMENT</u>			
6	JC 239014A	RIS MAJ & HONY LT	RIDMAL SINGH RATHORE
<u>85 ARMoured REGIMENT</u>			
7	JC 239103Y	RIS MAJ & HONY LT	RAJ NANDAN RAY
<u>REGIMENT OF ARTILLERY</u>			
8	JC 257941W	SUB MAJ & HONY LT	AJAY KUMAR SINGH
9	JC 226992H	SUB MAJ & HONY LT	ARJUN SINGH
10	JC 259169W	SUB MAJ & HONY LT	BIRENDER
11	JC 256127Y	SUB MAJ & HONY LT	DARSHAN SINGH
12	JC 259650P	SUB MAJ & HONY LT	GUVVALA VENKATESWARA REDDY
13	JC 225916K	SUB MAJ & HONY LT	KARAM SINGH
14	JC 256508A	SUB MAJ & HONY LT	K MONIR BABU SINGHA
15	JC 257513X	SUB MAJ & HONY LT	NARENDER KUMAR
16	JC 258854P	SUB MAJ & HONY LT	OM PRAKASH SHARMA
17	JC 255994W	SUB MAJ & HONY LT	RAJ KARAN
18	JC 257790H	SUB MAJ & HONY LT	RAMANNA NAIK
19	JC 259979Y	SUB MAJ & HONY LT	VALSALAN M
20	JC 263816H	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH
21	JC 263520K	SUB & HONY LT	BALWINDER SINGH
22	JC 265600A	SUB & HONY LT	NAR SINGH
23	JC 267037X	SUB & HONY LT	PHOOL SINGH
24	JC 267854W	SUB & HONY LT	RAGHUBIR SINGH
25	JC 267460X	SUB & HONY LT	RAJENDRA PRASAD NAUTIYAL
26	JC 265706M	SUB & HONY LT	SATBIR
<u>ARMY AIR DEFENCE</u>			
27	JC 297194Y	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN SINGH
28	JC 296089W	SUB MAJ & HONY LT	SATINDER KUMAR
29	JC 296321W	SUB MAJ & HONY LT	SOHAN SINGH RANA
30	JC 298722K	SUB & HONY LT	JHARI LAL
31	JC 255298Y	SUB & HONY LT	KAMALJEET CHOUDHARY
32	JC 298689X	SUB & HONY LT	NOMAL GOGOI
<u>MADRAS ENGINEER GROUP</u>			
33	JC 305693L	SUB MAJ & HONY LT	C GOVINDAN
34	JC 305399L	SUB MAJ & HONY LT	MANOHARAN K
35	JC 305690X	SUB MAJ & HONY LT	V RAJAKUMAR
36	JC 307393H	SUB & HONY LT	A AROKIADAS
37	JC 308040P	SUB & HONY LT	A MURUGAIYAN
38	JC 306170Y	SUB & HONY LT	CHANDRA SEKAR G A
39	JC 307599A	SUB & HONY LT	DEVADATHAN K
40	JC 307456A	SUB & HONY LT	DEVENDRA KUMAR K
41	JC 307768W	SUB & HONY LT	K THIRUNAVUKKARASU
42	JC 306050A	SUB & HONY LT	MURALIDHARAN C
43	JC 307094K	SUB & HONY LT	RAMAPPA TIRLAPUR
44	JC 307095M	SUB & HONY LT	SOUNDARARAJAN M
45	JC 307769Y	SUB & HONY LT	S SEKAR
46	JC 307855K	SUB & HONY LT	SUDDALA ADINARAYANA

BENGAL ENGINEER GROUP

47	JC 326962A	SUB MAJ & HONY LT	JAGBIR SINGH
48	JC 326799L	SUB MAJ & HONY LT	KRISHNA BHADUR
49	JC 325290M	SUB MAJ & HONY LT	MANJIT SINGH
50	JC 327225L	SUB MAJ & HONY LT	PIJUSH KANTI BAROI
51	JC 325857X	SUB MAJ & HONY LT	SIJI KUMAR S
52	JC 329040H	SUB & HONY LT	AMRIK SINGH
53	JC 328927W	SUB & HONY LT	DALIP KUMAR SINGH
54	JC 215957A	SUB & HONY LT	DINA MANI SINGHA
55	JC 328452X	SUB & HONY LT	GANESH SINGH BOHRA
56	JC 328975W	SUB & HONY LT	RAM SINGH RAUTELA

BOMBAY ENGINEER GROUP

57	JC 347824M	SUB MAJ & HONY LT	GURCHARAN SINGH
58	JC 349280F	SUB & HONY LT	BALWINDER SINGH
59	JC 348341F	SUB & HONY LT	DHANNA LAL JAT
60	JC 349350P	SUB & HONY LT	HARBANS SINGH
61	JC 349017W	SUB & HONY LT	HARIDIAL SINGH
62	JC 349742H	SUB & HONY LT	LALIT MOHAN
63	JC 349367H	SUB & HONY LT	MILIND ARUN NAIK
64	JC 349334X	SUB & HONY LT	NIKAM SHRI RANG NIVRUTTI

CORPS OF SIGNALS

65	JC 368149Y	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH PRASAD SINGH
66	JC 368588K	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH CHANDRA MAHTO
67	JC 370694F	SUB MAJ & HONY LT	ROSHAN SINGH
68	JC 368190P	SUB MAJ & HONY LT	SANT RAM VERMA
69	JC 368429M	SUB MAJ & HONY LT	TRILOKI NATH UPADHYAY
70	JC 372703W	SUB & HONY LT	AJIT SINGH
71	JC 372916K	SUB & HONY LT	BHIM SINGH
72	JC 373457H	SUB & HONY LT	GULAB CHANDR
73	JC 371877K	SUB & HONY LT	MADHUSOODANAN NAIR D
74	JC 374366L	SUB & HONY LT	PARVEEN SINGH THAKUR
75	JC 374509A	SUB & HONY LT	PRAKASH CHANDER SINGH
76	JC 372984X	SUB & HONY LT	RAKESH KUMAR
77	JC 375310L	SUB & HONY LT	THYAGARAJAN K

THE BRIGADE OF GUARDS

78	JC 402531K	SUB MAJ & HONY LT	PERDUMAN SINGH PATHANIA
79	JC 403254W	SUB & HONY LT	INDRA SINGH
80	JC 403451Y	SUB & HONY LT	PRITHVI SINGH

THE PARACHUTE REGIMENT

81	JC 412101N	SUB MAJ & HONY LT	RAVINDRA SINGH PAWAR
82	JC 412224A	SUB MAJ & HONY LT	UTTAM CHAND
83	JC 412420A	SUB & HONY LT	BHARAT SINGH
84	JC 412620W	SUB & HONY LT	DEEP KUMAR
85	JC 412547H	SUB & HONY LT	MALWA RAM GUJJAR

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

86	JC 418624H	SUB MAJ & HONY LT	BHAGAT SINGH
87	JC 418398W	SUB MAJ & HONY LT	MUKHTIAR SINGH
88	JC 418576N	SUB MAJ & HONY LT	SURENDRA PAL SINGH
89	JC 419391Y	SUB & HONY LT	KRISHAN PAL SINGH

THE PUNJAB REGIMENT

90	JC 428201H	SUB MAJ & HONY LT	BALBIR SINGH PANNU
91	JC 428280H	SUB MAJ & HONY LT	BALWINDER SINGH
92	JC 428258X	SUB MAJ & HONY LT	GIAN SINGH RANA
93	JC 428537H	SUB MAJ & HONY LT	PREM CHAND SHARMA
94	JC 429721A	SUB & HONY LT	HEM RAJ
95	JC 429759K	SUB & HONY LT	JAGDISH SINGH
96	JC 429781P	SUB & HONY LT	MOHINDER SINGH
97	JC 429829X	SUB & HONY LT	PARMODH SINGH
98	JC 429540P	SUB & HONY LT	RAJENDER SINGH
99	JC 429316H	SUB & HONY LT	SURAT SINGH, SM

THE MADRAS REGIMENT

100	JC 438184F	SUB MAJ & HONY LT	K UNNIKRISHNAN, SM
101	JC 439402F	SUB & HONY LT	I MADALAI MUTHURAJU
102	JC 438475F	SUB & HONY LT	RAJASEKHARAN NAIR S
103	JC 438978M	SUB & HONY LT	RAVI CHALAPPURATH PAYYAN VEETTIL

THE GRENADIERS

104	JC 448341W	SUB MAJ & HONY LT	GORAKH RAMCHANDRA SONWANE
105	JC 448886N	SUB MAJ & HONY LT	RAM NIWAS
106	JC 450031K	SUB & HONY LT	KHEM SINGH
107	JC 449841A	SUB & HONY LT	RAJENDER PRASAD

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

108	JC 458479Y	SUB MAJ & HONY LT	ISHWAR LAXMAN PATIL
109	JC 459247M	SUB & HONY LT	HARISHCHANDRA PARSRAM BARBUDHE
110	JC 458714M	SUB & HONY LT	JAYWANT TUKARAM PATIL
111	JC 458974X	SUB & HONY LT	SURESH RAY JADHAV

THE RAJPUTANA RIFLES

112	JC 468032P	SUB MAJ & HONY LT	BHANWAR SINGH BHATI
113	JC 128620F	SUB MAJ & HONY LT	HARI DATT JOSHI (RT)
114	JC 468647A	SUB MAJ & HONY LT	SUBHASH CHANDAR PANAGHAL
115	JC 469354F	SUB & HONY LT	BALJIT SINGH
116	JC 469701P	SUB & HONY LT	DASHRATH SINGH
117	JC 469076Y	SUB & HONY LT	KAILASH SINGH SHEKHAWAT
118	JC 469417Y	SUB & HONY LT	RAM NIWAS
119	JC 469729P	SUB & HONY LT	SUBE SINGH YADAV

THE RAJPUT REGIMENT

120	JC 478271X	SUB MAJ & HONY LT	DHAN RAJ
121	JC 478534L	SUB MAJ & HONY LT	PRABHU DAYAL
122	JC 479615X	SUB & HONY LT	CHAIN SINGH
123	JC 479351F	SUB & HONY LT	JAGDISH SINGH
124	JC 479167W	SUB & HONY LT	SATYA PAL SINGH

THE JAT REGIMENT

125	JC 488366L	SUB MAJ & HONY LT	NAFE SINGH RATHEE
126	JC 488210N	SUB MAJ & HONY LT	VIKRAMJEET SINGH
127	JC 489424W	SUB & HONY LT	VIJAY SINGH

THE SIKH REGIMENT

128	JC 498214X	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDER SINGH
129	JC 498320W	SUB MAJ & HONY LT	RATTAN SINGH
130	JC 498313A	SUB MAJ & HONY LT	SURJIT SINGH
131	JC 498942X	SUB & HONY LT	BALKAR SINGH
132	JC 499196M	SUB & HONY LT	DEWINDER SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

133	JC 508185K	SUB MAJ & HONY LT	MAKHAN SINGH
134	JC 508567N	SUB MAJ & HONY LT	TARLOK SINGH

THE DOGRA REGIMENT

135	JC 518847P	SUB MAJ & HONY LT	KABAL SINGH
136	JC 519212H	SUB MAJ & HONY LT	LEKH RAJ
137	JC 519876W	SUB & HONY LT	DEV RAJ DOGRA
138	JC 519916M	SUB & HONY LT	RAJ KUMAR
139	JC 519918X	SUB & HONY LT	RATTAN SINGH

THE GARHWAL RIFLES

140	JC 109487P	SUB MAJ & HONY LT	TOTA RAM	(RT)
141	JC 529822H	SUB & HONY LT	BHAGWAN SINGH, SM	
142	JC 529512X	SUB & HONY LT	CHANDRA SINGH, SM	
143	JC 529692L	SUB & HONY LT	MAHIPAL SINGH	
144	JC 529628N	SUB & HONY LT	SABAR SINGH	
145	JC 529625A	SUB & HONY LT	SARDAR SINGH PANWAR	
146	JC 529555M	SUB & HONY LT	THAKUR SINGH	

THE KUMAON REGIMENT

147	JC 538121N	SUB MAJ & HONY LT	DIWAN SINGH
148	JC 538221Y	SUB MAJ & HONY LT	KUNDAN SINGH
149	JC 538195H	SUB MAJ & HONY LT	SATYAPAL YADAV
150	JC 539325M	SUB & HONY LT	BAHADUR SINGH
151	JC 539593W	SUB & HONY LT	DIWAN SINGH
152	JC 539583M	SUB & HONY LT	GOVIND SINGH
153	JC 539800X	SUB & HONY LT	HARISH CHANDRA KANDPAL
154	JC 539336Y	SUB & HONY LT	RAM BABOO SINGH
155	JC 539681M	SUB & HONY LT	SHIV KARAN SINGH
156	JC 539452F	SUB & HONY LT	SURESH CHANDER

THE ASSAM REGIMENT

157	JC 548178W	SUB MAJ & HONY LT	LENKHOPAO, SM
158	JC 548213N	SUB MAJ & HONY LT	NITYA NANDA GOGOI
159	JC 548284P	SUB MAJ & HONY LT	SANASAM MANIYAI SINGH

THE BIHAR REGIMENT

160	JC 558492X	SUB MAJ & HONY LT	JITENDRA PRASAD	(RT)
161	JC 113695F	SUB MAJ & HONY LT	KARUNA SHANKAR MISHRA	
162	JC 227015W	SUB MAJ & HONY LT	SARAT KUMAR NAYAK	

THE MAHAR REGIMENT

163	JC 568183N	SUB MAJ & HONY LT	BANAMBAR SWAIN
164	JC 568361A	SUB MAJ & HONY LT	BIKRAM SINGH

165	JC 568288M	SUB MAJ & HONY LT	RABINDRA NATH SWAIN
166	JC 569791W	SUB & HONY LT	DEV RAJ
167	JC 568859A	SUB & HONY LT	JITENDRA TIWARI
168	JC 569642H	SUB & HONY LT	RAM LAL

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

169	JC 579165A	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDER PAUL
170	JC 578919X	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDER SINGH SLATHIA
171	JC 578833Y	SUB MAJ & HONY LT	PAVITAR SINGH
172	JC 578519L	SUB MAJ & HONY LT	PREM SINGH
173	JC 118616L	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH CHAND SHARMA (RT)
174	JC 579043W	SUB MAJ & HONY LT	SHIV KUMAR
175	JC 579880H	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH
176	JC 579669N	SUB & HONY LT	DALJIT SINGH
177	JC 579812P	SUB & HONY LT	PADAM BAHADUR THAPA
178	JC 579793P	SUB & HONY LT	RAGHBIR SINGH
179	JC 579690W	SUB & HONY LT	RANJIT SINGH
180	JC 579763X	SUB & HONY LT	ROMESH KUMAR
181	JC 579729X	SUB & HONY LT	SATPAL SINGH
182	JC 580062N	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR

THE LADAKH SCOUTS

183	JC 588188H	SUB & HONY LT	NAWANG YONTON SHAURYA CHAKRA
-----	------------	---------------	------------------------------

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

184	JC 592363K	SUB MAJ & HONY LT	DALBAG SINGH
185	JC 592573K	SUB MAJ & HONY LT	FAROOQ HUSSAIN KICHLOO
186	JC 592403A	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDER SINGH
187	JC 592185M	SUB MAJ & HONY LT	KARAN SINGH
188	JC 592422L	SUB MAJ & HONY LT	MOHD TUFAIL
189	JC 592993K	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH
190	JC 592999L	SUB & HONY LT	LAQUTE ALI
191	JC 592767M	SUB & HONY LT	MOHD ASLAM
192	JC 592626X	SUB & HONY LT	MOHD BASHIR
193	JC 593086W	SUB & HONY LT	SOM NATH
194	JC 593286M	SUB & HONY LT	TARLOK SINGH

1 GORKHA RIFLES

195	JC 602131F	SUB MAJ & HONY LT	HEM NARAYAN PRADHAN
-----	------------	-------------------	---------------------

3 GORKHA RIFLES

196	JC 607278F	SUB & HONY LT	BIJAY SINGH THAPA
-----	------------	---------------	-------------------

4 GORKHA RIFLES

197	JC 612107Y	SUB MAJ & HONY LT	DURGA BAHADUR GURUNG
-----	------------	-------------------	----------------------

5 GORKHA RIFLES

198	JC 617142L	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRA BIR THAPA
-----	------------	-------------------	-------------------

8 GORKHA RIFLES

199	JC 623058F	SUB MAJ & HONY LT	DAMAR BAHADUR THAPA
200	JC 623096X	SUB MAJ & HONY LT	DIL SINGH THAPA

9 GORKHA RIFLES

201	JC 629647N	SUB & HONY LT	RUDRA BAHADUR THAPA
-----	------------	---------------	---------------------

11 GORKHA RIFLES

202	JC 634181A	SUB MAJ & HONY LT	LAKPA TSHERING SHERPA
203	JC 218091F	SUB MAJ & HONY LT	NANDA KUMAR LIMBU

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

204	JC 661246M	SUB MAJ & HONY LT	ANJANI KUMAR
205	JC 640811L	SUB MAJ & HONY LT	INDRAJIT SINGH
206	JC 661283A	SUB MAJ & HONY LT	KARE SINGH
207	JC 640544P	SUB MAJ & HONY LT	MAGULURI DAVID
208	JC 661196M	SUB MAJ & HONY LT	SAMBHU NATH SHARMA
209	JC 642621X	SUB & HONY LT	PRANAY KUMAR DUTTA
210	JC 663288X	SUB & HONY LT	SHIV CHARAN
211	JC 662773A	SUB & HONY LT	SUBE SINGH SAINI
212	JC 642718H	SUB & HONY LT	SUDHANGSHU RANJAN NATH
213	JC 662798M	SUB & HONY LT	TARUN KUMAR SARKAR
214	JC 662923L	SUB & HONY LT	UDAI BHAN
215	JC 641280L	SUB & HONY LT	UMESH MAHTO

ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

216	JC 680282M	RIS MAJ & HONY LT	ALEXANDER THOMAS
217	JC 680236X	RIS MAJ & HONY LT	HEM RAJ
218	JC 680325W	RIS MAJ & HONY LT	UPINDER CHAND KATOCH

ARMY MEDICAL CORPS

219	JC 692939L	SUB MAJ & HONY LT	ASHOK KUMAR
220	JC 692865F	SUB MAJ & HONY LT	C KANNAIYAN
221	JC 692731H	SUB MAJ & HONY LT	DALIP SINGH MEEL
222	JC 690737L	SUB MAJ & HONY LT	LALAN KUMAR SINGH
223	JC 214873A	SUB MAJ & HONY LT	SRIKANT SHARMA
224	JC 216980A	SUB MAJ & HONY LT	VISWANATHAN VAYAKKATH MATATHIL
225	JC 695108X	SUB & HONY LT	ANJAN KUMAR AICH

ARMY ORDNANCE CORPS

226	JC 723157Y	SUB MAJ & HONY LT	DUDH NATH PAL
227	JC 723165X	SUB MAJ & HONY LT	MANJIT KUMAR
228	JC 723161F	SUB MAJ & HONY LT	RAVI PRAKASH
229	JC 724193W	SUB & HONY LT	AVDHESH BAHADUR SINGH
230	JC 725276N	SUB & HONY LT	DAVID D
231	JC 723271W	SUB & HONY LT	RAJBIR SINGH
232	JC 723882L	SUB & HONY LT	SHASHI KUMAR SINGH

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

233	JC 753266A	SUB MAJ & HONY LT	ASHOK KUMAR
234	JC 749478N	SUB MAJ & HONY LT	AWADH KISHOR SINGH
235	JC 748830A	SUB MAJ & HONY LT	BHAGABAN PRASAD NAYAK
236	JC 748397F	SUB MAJ & HONY LT	DAYANAND UPRETI
237	JC 749037X	SUB MAJ & HONY LT	GHAN SHYAM DUTT KAPRI
238	JC 747924L	SUB MAJ & HONY LT	MD AKTAR HOSSAIN
239	JC 747049N	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN LAL
240	JC 748398K	SUB MAJ & HONY LT	NEELKANTH MATTIKOPP
241	JC 749379L	SUB MAJ & HONY LT	SUSEELAN NAIR R
242	JC 759128P	SUB & HONY LT	BALRAM CHANDRA SARKAR
243	JC 758291H	SUB & HONY LT	DURAI SWAMY
244	JC 755469H	SUB & HONY LT	GAGAN KUMAR BEURA

245	JC 753853L	SUB & HONY LT	HARI LAL
246	JC 759127M	SUB & HONY LT	JAIPAL SINGH
247	JC 759396Y	SUB & HONY LT	KAMLESH KUMAR PANDEY
248	JC 752483K	SUB & HONY LT	PYARE LAL SINGH YADAV
249	JC 164246P	SUB & HONY LT	RAMA KANT DUBEY (RT)
250	JC 760502Y	SUB & HONY LT	RAMA KANT PANDEY
251	JC 751522L	SUB & HONY LT	RAMCHARITRA PRASAD CHOURASIA
252	JC 753101F	SUB & HONY LT	YASHWANT SINGH RAWAT

ARMY EDUCATION CORPS

253	JC 214300W	SUB MAJ & HONY LT	GURMAIL SINGH GHUMAN
254	JC 802480P	SUB & HONY LT	PREM SINGH SOLANKI
255	JC 802258N	SUB & HONY LT	VINOD GREWAL

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

256	JC 797197P	RIS & HONY LT	GULAB SINGH
257	JC 797214K	RIS & HONY LT	VIDYA NAND

THE INTELLIGENCE CORPS

258	JC 810023W	SUB MAJ & HONY LT	LEELADHARAN PILLAI C
259	JC 218741K	SUB MAJ & HONY LT	SHER SINGH
260	JC 810387H	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH
261	JC 810312L	SUB & HONY LT	SOHAN SINGH KASHYAP

CORPS OF MILITARY POLICE

262	JC 818366F	SUB MAJ & HONY LT	VED PRAKASH
-----	------------	-------------------	-------------

DEFENCE SECURITY CORPS

263	JC 206214W	SUB MAJ & HONY LT	BIRESWAR HAZARIKA
264	JC 840854K	SUB MAJ & HONY LT	HAKAM SINGH GILL
265	JC 841200M	SUB & HONY LT	KRISHNAN RAMAN
266	JC 841176F	SUB & HONY LT	NAGENDRA UPADHYA

TERRITORIAL ARMY

267	TJ 4304P	SUB & HONY LT	DHAN SINGH BISHT
268	TJ 4363F	SUB & HONY LT	MANOHAR LAL
269	TJ 3859K	SUB & HONY LT	MANOHAR SHIVAPA DADDIKAR
270	TJ 4077A	SUB & HONY LT	SUBHASH KUMAR

TO BE HONORARY LIEUTENANTS**PRESIDENT'S BODY GUARD**

1	JC 235008P	RIS MAJ	SHRI BHAGWAN
---	------------	---------	--------------

7 CAVALRY

2	JC 238023P	RIS MAJ	RAJBIR SINGH
---	------------	---------	--------------

8 CAVALRY

3	JC 240998P	RIS	SHAM SINGH
---	------------	-----	------------

2 LANCERS

4	JC 237889X	RIS MAJ	ASHOK KUMAR SINGH
---	------------	---------	-------------------

9 HORSE

5	JC 240389L	RIS	YUDHVIR SINGH
---	------------	-----	---------------

62 CAVALRY

6	JC 238751P	RIS MAJ	HIRA SINGH
---	------------	---------	------------

20 LANCERS

7	JC 238472K	RIS MAJ	BALWINDER SINGH
---	------------	---------	-----------------

63 CAVALRY

8	JC 238757W	RIS MAJ	DHARAM PAL SINGH
9	JC 241028Y	RIS	RAJENDRA SINGH
10	JC 240880N	RIS	SHUBHASH CHAND

65 ARMOURED REGIMENT

11	JC 241003M	RIS	DINESH SINGH BAGHEL
12	JC 240760P	RIS	NARINDER SINGH
13	JC 239849P	RIS	RAM KISHOR

67 ARMOURED REGIMENT

14	JC 238018K	RIS MAJ	ROSHAN LAL SHARMA
----	------------	---------	-------------------

69 ARMOURED REGIMENT

15	JC 237786Y	RIS MAJ	SURESH MISHRA
----	------------	---------	---------------

70 ARMOURED REGIMENT

16	JC 238382H	RIS MAJ	GURNAM SINGH BHATTI
----	------------	---------	---------------------

72 ARMOURED REGIMENT

17	JC 238738L	RIS MAJ	BALBIR SINGH
----	------------	---------	--------------

88 ARMOURED REGIMENT

18	JC 238828M	RIS	ANIL KUMAR MAHTO
19	JC 241190W	RIS	RAJ ROSI

89 ARMOURED REGIMENT

20	JC 237689F	RIS MAJ	DES RAJ
----	------------	---------	---------

EX-POST-FACTO**GRANT OF HONORARY CAPTAIN
WITH EFFECT FROM 15 AUG 1992****(ACTIVE)****ARMY ORDNANCE CORPS**

1.	JC 90686L	EX-SUB MAJ & HONY LT	SIA RAM SHARMA
----	-----------	-------------------------	----------------

EX-POST-FACTO**GRANT OF HONORARY CAPTAIN
WITH EFFECT FROM 15 AUG 2009****(ACTIVE)****THE RAJPUT REGIMENT**

1.	JC 478318X	EX-SUB MAJ & HONY LT	DADHICHI RAI
----	------------	-------------------------	--------------

41 ARMOURED REGIMENT

21 JC 238053M RIS MAJ

BACHITTAR SINGH

44 ARMOURED REGIMENT

22 JC 242007P RIS

NANDESHWAR SINGH

46 ARMOURED REGIMENT

23 JC 237158K RIS MAJ

AMRITPAUL SINGH

49 ARMOURED REGIMENT

24 JC 241319Y RIS

CHACKO K C

6 ARMOURED REGIMENT

25 JC 236889L RIS MAJ

SHEORAJ SINGH PANWAR

26 JC 237576Y RIS

JALSEN SINGH

27 JC 241172M RIS

SAJJAN SINGH

ARMOURED CORPS

28 JC 239985L RIS

BACHAN SINGH

REGIMENT OF ARTILLERY

29 JC 255453P SUB MAJ

A MURUGAN

30 JC 260177F SUB MAJ

BHULA SINGH

31 JC 255245A SUB MAJ

CHANDAN KUMAR SAMANTA

32 JC 256549K SUB MAJ

CHANDER MOHAN

33 JC 258857H SUB MAJ

GANGADHAR MARTHA

34 JC 257332M SUB MAJ

JASBIR SINGH

35 JC 256058N SUB MAJ

JASBIR SINGH

36 JC 255950Y SUB MAJ

JOGINDER PALL KATTNA

37 JC 262144P SUB MAJ

KATARE NAMDEO SURYABA

38 JC 256960P SUB MAJ

LAKHMI SINGH

39 JC 256059W SUB MAJ

MAHAVIR PRASAD

40 JC 255578M SUB MAJ

MAHENDER SINGH BHAKUNI

41 JC 257208L SUB MAJ

MAHENDRA KUMAR NAI

42 JC 256562N SUB MAJ

MANBIR SINGH

43 JC 255625Y SUB MAJ

NAND KISHOR SINGH

44 JC 260559L SUB MAJ

NARENDER PAL SINGH

45 JC 255972X SUB MAJ

PREM NATH

46 JC 259243M SUB MAJ

PRITAM SINGH SONI

47 JC 255390X SUB MAJ

RAMESH CHANDER SHARMA

48 JC 259443H SUB MAJ

SARVAJIT SINGH YADAV

49 JC 118178N SUB MAJ

SATANAND DIXIT

50 JC 259441X SUB MAJ

SHIV NATH PRASAD YADAV

51 JC 259143F SUB MAJ

SUGRIV PRASAD

52 JC 257921H SUB MAJ

UDAY NARAYAN DIXIT

53 JC 257437W SUB MAJ

VIJAY KUMAR

54 JC 266632P SUB

AKHILESH KUMAR AWASTHI

55 JC 265122F SUB

AMRIK SINGH

56 JC 265189A SUB

ARAVINDAKSHAN P K

57 JC 266733H SUB

ASHOKE KUMAR GHOSH

58 JC 257767P SUB

BABU LAL

59 JC 268868H SUB

BABU LAL MEENA, SM

(RT)

60	JC 266415Y	SUB	BABU SINGH LANGEH	
61	JC 263141N	SUB	BACHCHAN BABOO	
62	JC 264546L	SUB	BALBIR SINGH	
63	JC 262305M	SUB	BALWAN SINGH, SM	
64	JC 268580H	SUB	BODH RAJ, SM	
65	JC 268262Y	SUB	CHINTHALA CHANDRA SEKHAR	
66	JC 262962W	SUB	DALEL SINGH	
67	JC 265546X	SUB	D SOUNDARA RAJAN	
68	JC 269468H	SUB	GANESH DASS	
69	JC 267322W	SUB	GURBAX SINGH	
70	JC 268108A	SUB	GURDIP SINGH	
71	JC 266436P	SUB	HARBANS LAL	
72	JC 267223N	SUB	HARI SINGH YADAVA	
73	JC 267060L	SUB	HARLAL SINGH	
74	JC 267438M	SUB	HOUSELA PRASAD SINGH	
75	JC 266980W	SUB	KAMALA KANTA BAILUNG	
76	JC 266470P	SUB	KARUN KUMAR SINGH	
77	JC 266095P	SUB	KUNDAN SINGH	
78	JC 267366N	SUB	MAHENDER SINGH	
79	JC 268393K	SUB	MANIKANT JHA	
80	JC 263947N	SUB	MOHAN SINGH JAYAS	
81	JC 269088K	SUB	MOHINDER SINGH	
82	JC 268441Y	SUB	NAWAL SINGH	
83	JC 267718A	SUB	N PANDU	
84	JC 266054L	SUB	PHULEN CHANDRA RAY	
85	JC 267996N	SUB	PIAR SINGH	
86	JC 266249W	SUB	PREM KUMAR BRAHMA	
87	JC 263666X	SUB	PREM SINGH	
88	JC 268642X	SUB	PRUSOTAM MISRA	
89	JC 160789K	SUB	RAGHU NANDAN SINGH	(RT)
90	JC 258049L	SUB	RAGHUNATH ORAON	
91	JC 266018A	SUB	RAJENDER SINGH	
92	JC 266902Y	SUB	RAM ASRE	
93	JC 266474L	SUB	RAM AVATAR	
94	JC 268608X	SUB	RAMESH BABOO YADAV	
95	JC 266878N	SUB	RAM KISHAN	
96	JC 268266P	SUB	RAM NARESH KANOJIA	
97	JC 261666Y	SUB	RAM PHAL	
98	JC 263884W	SUB	RANA DEVANAND SINGH	
99	JC 266729A	SUB	ROSHAN LAL	
100	JC 150004F	SUB	SAHA DEW TEWARI	(RT)
101	JC 264517W	SUB	SATBIR SINGH	
102	JC 263538A	SUB	SHEO PUJAN SINGH	
103	JC 260609L	SUB	S NAVANEETHA BALAKRISHNAN	
104	JC 266127M	SUB	SUBE SINGH	
105	JC 266146X	SUB	SULTAN SINGH	
106	JC 267284L	SUB	SUNDARAN K	
107	JC 265844N	SUB	SURESH KUMAR	
108	JC 264505F	SUB	SURESH PRASAD SINGH	
109	JC 269460W	SUB	SURYA NATH SINGH	
110	JC 267161Y	SUB	TILAK RAJ	
111	JC 266755F	SUB	UDHAM SINGH	
112	JC 265881F	SUB	UPENDRA PRASAD SINGH	

113	JC 267109W	SUB	VED PARKASH
114	JC 265489F	SUB	VEER SINGH
115	JC 269330N	SUB	VIRANDER SINGH

ARMY AIR DEFENCE

116	JC 296673N	SUB MAJ	BASTI RAM
117	JC 296615K	SUB MAJ	JAYAVIR SINGH
118	JC 297051Y	SUB MAJ	MAHENDER SINGH
119	JC 297068M	SUB MAJ	MD KHURSHID ALAM
120	JC 256137H	SUB MAJ	PARTHIBAN N
121	JC 296197A	SUB MAJ	RAJ PAL GANGORIA
122	JC 296731M	SUB MAJ	RAM SANEHI
123	JC 296962H	SUB MAJ	VIJAY KUMAR SAMKARIA
124	JC 296855F	SUB	BABULAL YADAV
125	JC 297532L	SUB	BAL KISHUN SHARMA
126	JC 296932L	SUB	BIRENDER KUMAR
127	JC 298936A	SUB	GIRISH CHANDRA BARAKOTI
128	JC 299101X	SUB	HARI RAM YADAV
129	JC 298387L	SUB	JAGDISH SWAROOP
130	JC 299056W	SUB	JANARDHAN MISHRA
131	JC 297228F	SUB	JASWANT SINGH
132	JC 297143L	SUB	LAKHAN LAL
133	JC 299024N	SUB	NATTHI SINGH
134	JC 298696N	SUB	SATYA PRAKASH
135	JC 298439W	SUB	SHAIK DASTAGIRI SAHEB
136	JC 299026Y	SUB	SHANKAR SINGH
137	JC 298742X	SUB	YESWANT SINGH
138	JC 298145H	SUB	ZILE SINGH JASPAL

MADRAS ENGINEER GROUP

139	JC 306388L	SUB MAJ	BASAVANTRAYA SIVAPUTRAPPA MUDNUR
140	JC 305728W	SUB MAJ	C ANANTA RAJAN
141	JC 305331K	SUB MAJ	DEVAIAH MS
142	JC 219357P	SUB MAJ	G SOUNDARA RAJ
143	JC 224777Y	SUB MAJ	KUTTAPPA M K
144	JC 306030M	SUB MAJ	MADHAVAN VM
145	JC 226135H	SUB MAJ	MATHEW TJ
146	JC 305730N	SUB MAJ	M PANNEER SELVAM
147	JC 305338N	SUB MAJ	PRASANNA KUMAR V
148	JC 305588P	SUB MAJ	P SANTHANATHAN
149	JC 305580H	SUB MAJ	RAJENDRAN A
150	JC 305578L	SUB MAJ	RAMAKRISHNAN A P
151	JC 305601N	SUB MAJ	SURESAN P
152	JC 305699M	SUB MAJ	VIJAYAKUMARAN NAIR S
153	JC 307225K	SUB	ANBU
154	JC 306119Y	SUB	BABY KJ
155	JC 307810K	SUB	BAMMIDI NARAYANA RAO
156	JC 306053N	SUB	DHANA SANJAYAN B
157	JC 307100M	SUB	G VENKATA RAMI REDDY
158	JC 307199N	SUB	GANESAN J
159	JC 305293Y	SUB	GAVINI CHENCHAIAH
160	JC 307340K	SUB	G MAHALINGAM

161	JC 307605H	SUB	KARUNAGARAN K
162	JC 307661F	SUB	K PANDI
163	JC 307669N	SUB	K RAJENDRA MURTHY
164	JC 307298W	SUB	K RAJENDRAN
165	JC 306167Y	SUB	MADHUSOODANAN PILLAI S
166	JC 307455X	SUB	M LOURDU
167	JC 307798N	SUB	MUDUGOOLA BASI REDDY
168	JC 307573L	SUB	MURALEEDHARAN PILLAI V
169	JC 307909A	SUB	NANDAGOPAL E
170	JC 307805Y	SUB	NARASENDRAN N
171	JC 307778A	SUB	PITAMBARAN PS
172	JC 307598X	SUB	RAJENDRAN V
173	JC 307422M	SUB	RAMESH CHAMURAO PATIL
174	JC 307438X	SUB	R PALANI
175	JC 308218A	SUB	SADASHIVA JOSHI
176	JC 306803F	SUB	VIJAYAKUMAR K G
177	JC 307731P	SUB	VIJAYAN A M
178	JC 307638N	SUB	Y ABDUL WAHAB

BENGAL ENGINEER GROUP

179	JC 325273M	SUB MAJ	ATUL CHETIA
180	JC 327994P	SUB MAJ	AUGUSTINE KHARSYNTIEW
181	JC 326718A	SUB MAJ	BHUPENDER SINGH
182	JC 326166X	SUB MAJ	BRIJ BHUSHAN CHANDRA
183	JC 327502L	SUB MAJ	GANGA SAHAI
184	JC 327948A	SUB MAJ	GODHA RAM
185	JC 325723Y	SUB MAJ	HARI CHAND
186	JC 327020W	SUB MAJ	HARI DATT JOSHI
187	JC 327092H	SUB MAJ	HIMAT SINGH
188	JC 120471K	SUB MAJ	JAGDISH PRASAD (RT)
189	JC 326949W	SUB MAJ	KULBIR SINGH
190	JC 327098F	SUB MAJ	KULVINDER SINGH
191	JC 326989X	SUB MAJ	MAHESH CHANDER
192	JC 327928M	SUB MAJ	PAPPI
193	JC 325343A	SUB MAJ	P SUBRAMANIAN
194	JC 326899W	SUB MAJ	RAJ PAL SINGH
195	JC 327088X	SUB MAJ	RAM ISWAR RAY
196	JC 325261X	SUB MAJ	RENU PADA DAS
197	JC 327941W	SUB MAJ	SURJIT SINGH
198	JC 329057W	SUB	ANAND SINGH BAFILA
199	JC 329233H	SUB	AVTAR SINGH
200	JC 328925L	SUB	BHAGIN CHANDRA NATH
201	JC 328384P	SUB	DEVENDRA SINGH
202	JC 328921P	SUB	DHANYA CHANDRA ROY
203	JC 328668Y	SUB	DIWAN SINGH
204	JC 328562M	SUB	GANESH SINGH
205	JC 329012W	SUB	GURNAM SINGH
206	JC 328908L	SUB	HARE KRUSHNA MOHANTY
207	JC 329207F	SUB	JAY RAM SINGH
208	JC 328958W	SUB	LAXMAN SINGH
209	JC 328961W	SUB	MADHO SINGH
210	JC 329016M	SUB	MOHAN CHANDER
211	JC 328395F	SUB	NIRMAL SINGH

212	JC 329171N	SUB	PRITAM CHAND
213	JC 328880W	SUB	RAMAYAN SINGH
214	JC 328745H	SUB	RAM BABU SINGH
215	JC 329238F	SUB	SHAMBHU NATH KUNWAR
216	JC 328947K	SUB	SHYAM SINGH
217	JC 329136L	SUB	SUDARSHAN SINGH
218	JC 328881Y	SUB	SUDARSHAN YADAV
219	JC 329036A	SUB	SUSHANTA KUMAR PAUL
220	JC 328963F	SUB	TARA SINGH
221	JC 328695H	SUB	TARLOCHAN SINGH
222	JC 328484A	SUB	VIJENDRA KUMAR VERMA

BOMBAY ENGINEER GROUP

223	JC 347889A	SUB MAJ	BALWINDER SINGH
224	JC 347332N	SUB MAJ	DASTGEER MIYAN
225	JC 347721N	SUB MAJ	GAYUR AHMED KHAN
226	JC 347432Y	SUB MAJ	HANS NATH SINGH
227	JC 347874X	SUB MAJ	HARIOM SINGH
228	JC 348110L	SUB MAJ	ISHWAR SINGH SHARMA
229	JC 347333W	SUB MAJ	JOGINDER SINGH SANDHU
230	JC 347244X	SUB MAJ	RAMESH KUMAR
231	JC 348778P	SUB	ASHISH KUMAR SHARMA
232	JC 348166X	SUB	CHARAN SINGH
233	JC 349068K	SUB	HARBHAJAN SINGH
234	JC 349067F	SUB	HARCHARAN SINGH
235	JC 349535W	SUB	ISHAN KHAN
236	JC 349734K	SUB	JARNAIL SINGH
237	JC 348919Y	SUB	KOKITHAR SURYAKANT LAXMAN
238	JC 349080L	SUB	MOHD MURSELEEN
239	JC 349533L	SUB	MOHMMAD MUNIR
240	JC 349818X	SUB	RAJBIR SINGH
241	JC 347945N	SUB	RAJ SINGH DHILLON
242	JC 349808N	SUB	SAT PAL
243	JC 348591H	SUB	SUDHAKARAN A
244	JC 349030A	SUB	SUKH BIR SINGH

CORPS OF SIGNALS

245	JC 370602K	SUB MAJ	ADURTI R K P SATYANARAYANA
246	JC 370599P	SUB MAJ	ARJUN BEHERA
247	JC 369941X	SUB MAJ	ASHWANI KUMAR SRIVASTAVA
248	JC 370696M	SUB MAJ	BACHAN SINGH
249	JC 367256N	SUB MAJ	BRIJLAL PRASAD
250	JC 368116N	SUB MAJ	CHHOTA PRASAD
251	JC 369339X	SUB MAJ	DEO PRAKASH SHARMA
252	JC 370470F	SUB MAJ	DHARAM PAL
253	JC 368512K	SUB MAJ	GURMEL SINGH
254	JC 131987M	SUB MAJ	HARSH SINGH DANGWAL (RT)
255	JC 370732M	SUB MAJ	JAIVIR
256	JC 368434X	SUB MAJ	JAYAPRAKASH K M
257	JC 370651M	SUB MAJ	MISAL SHAHAJI GOVIND
258	JC 370582F	SUB MAJ	MITHILESHWAR CHOUDHARY
259	JC 370593N	SUB MAJ	NABIN KUMAR AMBASTHA
260	JC 368191X	SUB MAJ	NIMAI CHANDRA PAL

261	JC 370687L	SUB MAJ	RAGHBIR SINGH	
262	JC 124891F	SUB MAJ	RAMA KANT DWIVEDI	(RT)
263	JC 370369F	SUB MAJ	RAMESH	
264	JC 370728K	SUB MAJ	RAM LAL ZOOD	
265	JC 130070H	SUB MAJ	RAM NATH MISRA	(RT)
266	JC 368199K	SUB MAJ	RAM RAJ GUPTA	
267	JC 370615F	SUB MAJ	SHYAM SUNDAR	
268	JC 367097F	SUB MAJ	SURJIT SINGH	
269	JC 368657P	SUB MAJ	UTTAM CHAND	
270	JC 372899P	SUB	A SHANMUGA SUNDARAM	
271	JC 374198X	SUB	BABU K	
272	JC 374178K	SUB	BIDHI SINGH RANA	
273	JC 374888F	SUB	BIJENDRA SINGH	
274	JC 375813W	SUB	DARSHAN KUMAR	
275	JC 374963A	SUB	DAYARAM PRASAD	
276	JC 371698K	SUB	HAWA SINGH NEHRA	
277	JC 374570K	SUB	JAGAN NATH ROY	
278	JC 372555W	SUB	JOGINDER PAL	
279	JC 374527H	SUB	KASHI NATH SINGH	
280	JC 372972H	SUB	KASINATH SINGH	
281	JC 371648Y	SUB	KRISHNA MISHRA	
282	JC 375557M	SUB	KULDIP SINGH	
283	JC 375106M	SUB	MAN MOHAN SINGH	
284	JC 374585M	SUB	MOHIUDDIN AJMERI	
285	JC 373521P	SUB	MUKUL CHANDRA SUKLA BAIDYA	
286	JC 374569P	SUB	NARANT SINGH RANA	
287	JC 375212L	SUB	NARENDER SINGH	
288	JC 374761Y	SUB	NARESH KUMAR	
289	JC 374334H	SUB	PARIMAL DEY	
290	JC 373164X	SUB	PRAFULLA KUMAR DAS	
291	JC 374281P	SUB	PUSPANDER KUMAR	
292	JC 373499P	SUB	RAJENDRA KUMAR RANA	
293	JC 372981K	SUB	RAJESH KUMAR SINGH	
294	JC 374222H	SUB	RAM BAHADUR SINGH	
295	JC 372552H	SUB	RAM GOPAL DWIVEDI	
296	JC 371866X	SUB	RAM NARESH KUMAR	
297	JC 372087F	SUB	RAVEENDRAN R	
298	JC 374239W	SUB	RAVI KANT SINGH	
299	JC 372735Y	SUB	SHALES KUMAR	
300	JC 368442W	SUB	SHYAM NATH TIWARI	
301	JC 371649F	SUB	SUBBURAJ A	
302	JC 372926N	SUB	SULANDER SINGH BARWAL	
303	JC 375165Y	SUB	SURAJ DIP SINGH	
304	JC 374738L	SUB	VISAMBER SINGH	

THE BRIGADE OF GUARDS

305	JC 402211P	SUB MAJ	AMARJEET SINGH	
306	JC 402503X	SUB MAJ	ANIRUDH DUBEY	
307	JC 402035H	SUB MAJ	DHYAN SINGH	
308	JC 402631P	SUB MAJ	KUNWAR SINGH	
309	JC 402460N	SUB MAJ	RAMAUTAR SINGH CHAUHAN	
310	JC 402725M	SUB MAJ	SATYENDER KUMAR SHUKLA	
311	JC 402594M	SUB MAJ	SESH NATH SINGH	

312	JC 402658M	SUB MAJ	VINOD KUMAR
313	JC 403236N	SUB	AJANT SINGH
314	JC 403341K	SUB	BIPUL KUMAR GOGOI
315	JC 403411X	SUB	DAN SINGH
316	JC 403302L	SUB	HARI KRISHAN
317	JC 403528W	SUB	MOHAN SINGH MEHRA
318	JC 403481W	SUB	PADAM NARAIN
319	JC 402938A	SUB	RAMASHRAYA YADAV
320	JC 403395L	SUB	RAM PAL

THE PARACHUTE REGIMENT

321	JC 412303P	SUB MAJ	BHAGWANA RAM GUJAR
322	JC 412210A	SUB MAJ	DILIP SINGH
323	JC 412128L	SUB MAJ	HARI RAM YADAV
324	JC 412115N	SUB MAJ	HEM RAJ SINGH WALDIA
325	JC 412127H	SUB MAJ	JAG RAM
326	JC 412126A	SUB MAJ	KRISHAN KUMAR
327	JC 412468N	SUB	BAHADUR SINGH, SM*
328	JC 412841H	SUB	BALKAR SINGH
329	JC 412513P	SUB	JAGMOHAN SINGH, SC
330	JC 412743H	SUB	JAI RAM SINGH
331	JC 412733Y	SUB	JASHPAL SINGH
332	JC 412469W	SUB	KASHMIR SINGH
333	JC 412947P	SUB	PEMA RAM
334	JC 412678N	SUB	PRADEEPAN PC
335	JC 412979X	SUB	RAM KISHAN LAXMAN SHINDE
336	JC 412805X	SUB	RAM SINGH
337	JC 412765F	SUB	SURESH RAM

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

338	JC 418074L	SUB MAJ	JOTHEENDRA NATHAN TP
339	JC 418875M	SUB MAJ	KIRPAL SINGH PATHANIA
340	JC 216441K	SUB MAJ	MOHANAN PILLAI
341	JC 418583K	SUB MAJ	PUSHKAR SINGH KANDARI
342	JC 418640A	SUB MAJ	RAJENDRA SINGH
343	JC 418539A	SUB MAJ	RAMESH KUMAR
344	JC 418653X	SUB MAJ	SIRTAJ SINGH
345	JC 419186X	SUB	DHIR SINGH
346	JC 419296M	SUB	JAI KRISHAN
347	JC 419719P	SUB	JOGINDER SINGH
348	JC 419813Y	SUB	KHAJAN SINGH
349	JC 419119M	SUB	MAHIPAL SINGH
350	JC 420058M	SUB	RAM AVTAR SINGH BAGHEL
351	JC 418553M	SUB	RAM SAROOP
352	JC 419540F	SUB	SURENDRA SINGH

THE PUNJAB REGIMENT

353	JC 428886M	SUB MAJ	ANIL KUMAR
354	JC 428272K	SUB MAJ	GURDIAL SINGH
355	JC 127466F	SUB MAJ	GURWAX SINGH (RT)
356	JC 428689K	SUB MAJ	JAISHI RAM
357	JC 428555L	SUB MAJ	JASWINDER SINGH
358	JC 428690Y	SUB MAJ	LAKHWINDER SINGH

359	JC 428070H	SUB MAJ	PALPINDER SINGH	
360	JC 428769F	SUB MAJ	RAJENDER KUMAR	
361	JC 428871K	SUB MAJ	TEJA SINGH	
362	JC 113694Y	SUB MAJ	VASU DEV SHARMA	(RT)
363	JC 429954F	SUB	BALBIR SINGH	
364	JC 429386F	SUB	BAL KRISHAN	
365	JC 429541X	SUB	BISHAN DASS	
366	JC 429408P	SUB	DALBIR SINGH	
367	JC 429911M	SUB	DURGA DASS	
368	JC 428837K	SUB	GULAB SINGH	
369	JC 429669H	SUB	GURMEJ SINGH	
370	JC 429481N	SUB	HARBHAJAN SINGH	
371	JC 430188H	SUB	JAGDEV SINGH	
372	JC 429743Y	SUB	JOGINDER SINGH	
373	JC 429401L	SUB	KEHAR SINGH	
374	JC 430050N	SUB	LOK RAJ	
375	JC 429419F	SUB	MADAN GOPAL	
376	JC 429582F	SUB	MOHAN SINGH	
377	JC 429387K	SUB	MOHAN SINGH	
378	JC 429627W	SUB	RAI SINGH	
379	JC 429587A	SUB	RAJINDER KUMAR	
380	JC 429612N	SUB	RAJU RAM	
381	JC 429728K	SUB	RATTAN CHAND	
382	JC 429445H	SUB	SATISH KUMAR RANA	
383	JC 429362X	SUB	SHAM SINGH	
384	JC 429507X	SUB	SUKHDEV SAHOTRA	
385	JC 429392P	SUB	VIJAY KUMAR	

THE MADRAS REGIMENT

386	JC 438183Y	SUB MAJ	A VASUDEVAN	
387	JC 438290A	SUB MAJ	DEVENDRA RAJAPUT	
388	JC 438141M	SUB MAJ	HAMSA KUNJU M	
389	JC 438163L	SUB MAJ	JANARDANAN MM	
390	JC 438070W	SUB MAJ	M MUNIRAJ, SM	
391	JC 438483A	SUB MAJ	M VASUDEVAN	
392	JC 438124M	SUB MAJ	RAJENDRAN R	
393	JC 438456W	SUB MAJ	THOMAS BENADICT	
394	JC 112814A	SUB MAJ	VALLABHAN KV	(RT)
395	JC 438766F	SUB	BASAVARAJ WALI	
396	JC 439240F	SUB	G RAMAN	
397	JC 438428K	SUB	I ARUL SAMY	
398	JC 438693A	SUB	KATARI SATYA RAO	
399	JC 438989Y	SUB	MAYINKUTTY K	
400	JC 439516M	SUB	M SUNDARA RAJ	
401	JC 439351Y	SUB	M YESUPATHAM	
402	JC 438313W	SUB	NALINAKSHAN M	
403	JC 439078P	SUB	NS VIVEKANANDA	
404	JC 439070H	SUB	PRABHAKARAN VV	
405	JC 439253Y	SUB	RAJAN KD	
406	JC 438826L	SUB	RAJAN KK, SM	
407	JC 439248N	SUB	RAVI A	
408	JC 438931F	SUB	SASIDHARAN NAIR G	
409	JC 438553N	SUB	SASI KUMAR K	

410	JC 438933M	SUB	S PATHIANATHAN
411	JC 438512K	SUB	S RADHAKRISHNAN
412	JC 439075F	SUB	UNNIKRISHNAN K

THE GRENADIERS

413	JC 114242H	SUB MAJ	ABDUL RAHMAN THAKUR	(RT)
414	JC 448884H	SUB MAJ	AKHTAR ALI	
415	JC 216747M	SUB MAJ	KASAM ALI KYAM KHANI	
416	JC 448504Y	SUB MAJ	MANGESH SINGH	
417	JC 449906H	SUB	BABU LAL	
418	JC 449681L	SUB	BALJIT SINGH	
419	JC 449542F	SUB	BRIJ LAL MEENA	
420	JC 449642M	SUB	CHEN SINGH	
421	JC 449867P	SUB	DALIP SINGH	
422	JC 449497A	SUB	FATEH CHAND MEENA	
423	JC 449982P	SUB	MOHAN SINGH BHARDWAJ	
424	JC 449845W	SUB	NARAIN SINGH	
425	JC 450145P	SUB	RAJESH KUMAR ATTRI	
426	JC 449745L	SUB	RAM KUWAR MEENA	
427	JC 449842H	SUB	RAMNATH SINGH	
428	JC 449560K	SUB	RAM NIWAS	
429	JC 449834K	SUB	SABBIR ALI	
430	JC 449670Y	SUB	SANKATHA PRASAD SINGH	
431	JC 450122N	SUB	VAGDAWAT SINGH	

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

432	JC 458150P	SUB MAJ	ARJUN MALLAPPA TAMBULUNDE
433	JC 226181X	SUB MAJ	ARUN SAWANT
434	JC 458293P	SUB MAJ	AUTADE RADHAKISHANA GOVINDRAO
435	JC 212545N	SUB MAJ	BABU DAGDU JADHAV
436	JC 222660F	SUB MAJ	BALASAHEB BABU KATAKAR
437	JC 458510A	SUB MAJ	BHABKAR PRAKASH GANAPATI
438	JC 458049P	SUB MAJ	BHORE LAXMAN GOVINDRAO
439	JC 216492X	SUB MAJ	BORKAR SURESH EKNATH
440	JC 222658K	SUB MAJ	BUDDAPPA NINGAPPA BANI
441	JC 458410P	SUB MAJ	MANE KISAN KESHAV
442	JC 458261M	SUB MAJ	MOKASHI SARDARSAHEB ALLISAHEB
443	JC 458182X	SUB MAJ	PATIL BHARAMANA LAXMAN
444	JC 201832X	SUB MAJ	SURYAVANSHI VILAS SOPANRAO
445	JC 458019X	SUB MAJ	VARAL VITTHAL ANANDA
446	JC 458958A	SUB	AMBRE UVARAJ TANAJI
447	JC 458913A	SUB	ARJUN SIDU AMBEWADKAR
448	JC 458093Y	SUB	BEDKE BHIMA DASHRATH
449	JC 458429N	SUB	BILALASAB
450	JC 459077N	SUB	KAKDE DNYANDEO MURLIDHAR
451	JC 458779A	SUB	KAMINASE GOVARDHAN VITTHAL
452	JC 459425K	SUB	NARAYAN MARUTI PATIL
453	JC 458388P	SUB	PATIL SURESH BHARAMU
454	JC 459258Y	SUB	PAWAR VITHAL BHIKA
455	JC 458915L	SUB	PRAHALAD
456	JC 458487X	SUB	RADHEY SHYAM
457	JC 458651P	SUB	RAJENDRA NAGORAO SALUNKE
458	JC 459390Y	SUB	RUPANAWAR BAPU BALABHIM

459 JC 458887K SUB
THE RAJPUTANA RIFLES

UTEKAR SURYAKANT DADA

460 JC 468300N SUB MAJ
 461 JC 468534X SUB MAJ
 462 JC 468323P SUB MAJ
 463 JC 468295N SUB MAJ
 464 JC 469057N SUB
 465 JC 469754N SUB
 466 JC 468678A SUB
 467 JC 469056L SUB
 468 JC 469460A SUB
 469 JC 469493L SUB
 470 JC 469453K SUB
 471 JC 469498K SUB
 472 JC 469838F SUB
 473 JC 469844P SUB
 474 JC 469759M SUB
 475 JC 469678M SUB
 476 JC 469142W SUB
 477 JC 469779A SUB
 478 JC 469434Y SUB
 479 JC 469476L SUB
 480 JC 469518M SUB
 481 JC 469182X SUB
 482 JC 469533F SUB
 483 JC 469746P SUB
 484 JC 196205Y SUB
 485 JC 469736L SUB

BHUPENDER SINGH
 DHARAM PAL SINGH, SM
 PRAHLAD SINGH
 SADHU SINGH
 AJAY KUMAR
 AKHTAR KHAN, SM
 AMAR SINGH
 ASHOK KUMAR
 BHIM SINGH
 DUNGAR MAL
 GIRDHARI LAL
 GOVIND SINGH
 HARPAL SINGH
 JABAR SINGH
 JOGINDER SINGH
 KRISHAN KUMAR
 LOON SINGH
 MOTI RAM
 MUKESH KUMAR
 PRITAM SINGH
 RAM PHOOL SINGH
 SATYA PAL
 SATYA PRAKASH
 SOHAN SINGH
 VIJAYA KUMARAN B
 VIJENDER KUMAR

THE RAJPUT REGIMENT

486 JC 478608P SUB MAJ
 487 JC 478668K SUB MAJ
 488 JC 478554Y SUB MAJ
 489 JC 478679W SUB MAJ
 490 JC 478377K SUB MAJ
 491 JC 478415P SUB MAJ
 492 JC 211057Y SUB MAJ
 493 JC 478541F SUB MAJ
 494 JC 479209X SUB
 495 JC 479321K SUB
 496 JC 479437A SUB
 497 JC 479004H SUB
 498 JC 479034A SUB
 499 JC 479166N SUB
 500 JC 478920X SUB
 501 JC 479514H SUB
 502 JC 479286M SUB
 503 JC 479480F SUB
 504 JC 479146A SUB
 505 JC 479411L SUB
 506 JC 479530F SUB
 507 JC 479397K SUB

AJIT SINGH
 BHARAT SINGH
 DWARIKA PRASAD TIWARI
 RAJ BAHADUR SHARMA
 RAJ KUMAR
 RAM GUNI
 RAM SINGH GURJAR
 SHREE PAL GUJAR
 ANGREZ SINGH
 BAL BIR SINGH RAJPUT
 GHAN SHYAM SINGH
 JAGDISH PRASAD GUJAR
 JAIPAN SINGH
 KAILASH CHAND
 KANWAR SINGH
 KRISHAN SINGH
 MAHABAL SINGH
 MUJAFFAR KHAN
 OMKAR SINGH
 PAHAL SINGH
 RAJBIR
 RAJENDRA KUMAR SHARMA

508	JC 479389L	SUB	RAJENDRA SINGH
509	JC 479280L	SUB	RAMESH SINGH
510	JC 479489W	SUB	RAM MEHAR
511	JC 479313L	SUB	RAM NIHOR SINGH
512	JC 479409N	SUB	SAMUNDER SINGH
513	JC 478881K	SUB	SHISH RAM GURJAR
514	JC 479087Y	SUB	SHIV RAM SINGH TANWAR
515	JC 478775L	SUB	SWAI SINGH

THE JAT REGIMENT

516	JC 111751W	SUB MAJ	AJAB LAL SHARMA	(RT)
517	JC 488645W	SUB MAJ	BRAHAM PARKASH	
518	JC 488442M	SUB MAJ	DALBIR SINGH	
519	JC 488338Y	SUB MAJ	JAIBIR SINGH	
520	JC 488325F	SUB MAJ	LAL SINGH	
521	JC 488395A	SUB MAJ	NET RAM	
522	JC 488268L	SUB MAJ	VIJAI SINGH	
523	JC 489116W	SUB	CHANDI RAM	
524	JC 489352X	SUB	DEVENDRA	
525	JC 489260L	SUB	DEVI RAM	
526	JC 489613A	SUB	DHARAMBIR	
527	JC 489847K	SUB	KARAN SINGH	
528	JC 489824H	SUB	NAHAR SINGH, SM	
529	JC 489445M	SUB	PALE RAM	
530	JC 489486W	SUB	RAJBIR SINGH	
531	JC 489338L	SUB	RAJENDRA KUMAR	
532	JC 489347M	SUB	RAMESHWAR LAL	
533	JC 489363K	SUB	RAM SINGH SIDDHU	
534	JC 489404H	SUB	SHRI KRISHAN	
535	JC 489744L	SUB	SUKH LAL	

THE SIKH REGIMENT

536	JC 498583P	SUB MAJ	DIDAR SINGH
537	JC 498347N	SUB MAJ	GANESH KUMAR
538	JC 498616P	SUB MAJ	GURVAIL SINGH
539	JC 498270W	SUB MAJ	LAKHWINDER SINGH
540	JC 498259X	SUB MAJ	ROORH SINGH
541	JC 499006P	SUB	AMRIK SINGH
542	JC 498863H	SUB	BALBIR SINGH
543	JC 499066K	SUB	BHUPINDER SINGH
544	JC 499128Y	SUB	GIAN SINGH
545	JC 499111L	SUB	IQBAL SINGH, SM
546	JC 499415H	SUB	KISHAN SINGH
547	JC 498854F	SUB	MOHINDER SINGH
548	JC 499308F	SUB	RANJIT SINGH
549	JC 499072X	SUB	SABEG SINGH
550	JC 498399K	SUB	SATPAL SINGH

THE SIKH LIGHT INFANTRY

551	JC 508466A	SUB MAJ	MANJIT SINGH
552	JC 508464P	SUB MAJ	PARAMJIT SINGH
553	JC 508509K	SUB MAJ	PRITAM SINGH
554	JC 508313W	SUB MAJ	WARYAM SINGH

555	JC 509002P	SUB	AMARJIT SINGH
556	JC 509032M	SUB	AMRIK SINGH
557	JC 509240F	SUB	BALDEV SINGH
558	JC 508959F	SUB	BALDEV SINGH
559	JC 509056W	SUB	BAWA SINGH
560	JC 508479X	SUB	DALBIR SINGH
561	JC 508672K	SUB	GURDEV SINGH
562	JC 508549L	SUB	HARBANS SINGH
563	JC 508179W	SUB	JAGDISH SINGH
564	JC 508518L	SUB	JASWANT SINGH
565	JC 509281L	SUB	JASWINDER SINGH
566	JC 508409Y	SUB	KARAMJIT SINGH
567	JC 508611M	SUB	LAKHA SINGH
568	JC 508447P	SUB	SUKHVINDER SINGH

THE DOGRA REGIMENT

569	JC 519085Y	SUB MAJ	AMAR SINGH
570	JC 518980X	SUB MAJ	BALBIR SINGH KOSHAL
571	JC 118400K	SUB MAJ	BRIJ MOHAN SHARMA (RT)
572	JC 518992M	SUB MAJ	DALJIT SINGH
573	JC 518590P	SUB MAJ	DAMODAR DUTT SHARMA
574	JC 519213L	SUB MAJ	DARSHAN SINGH
575	JC 519084W	SUB MAJ	DAYAL SINGH, SC
576	JC 518976P	SUB MAJ	HEM RAJ
577	JC 519280W	SUB MAJ	KAPOOR SINGH
578	JC 518657H	SUB MAJ	KEWAL SINGH DHIMAN
579	JC 519110M	SUB MAJ	PARKASH CHAND
580	JC 519284M	SUB MAJ	RAJINDER SINGH
581	JC 519165W	SUB MAJ	SMITTER SINGH GONDAL
582	JC 519154K	SUB MAJ	SUKH RAM
583	JC 519743A	SUB	ASHOK KUMAR
584	JC 520246H	SUB	ASHOK KUMAR
585	JC 520138Y	SUB	BALBIR SINGH
586	JC 520276A	SUB	BANSI LAL
587	JC 519818M	SUB	CHET RAM
588	JC 519915K	SUB	HOSHIAR SINGH
589	JC 520301N	SUB	KASHMIR SINGH
590	JC 520313H	SUB	KULDEEP SINGH
591	JC 519949X	SUB	KULDIP SINGH
592	JC 520156F	SUB	RAMESH SINGH
593	JC 520164A	SUB	RAVINDER KUMAR
594	JC 520229H	SUB	SANTOSH CHAND
595	JC 519778W	SUB	SARFI LAL
596	JC 519785M	SUB	SURESH KUMAR RANA
597	JC 519897M	SUB	TILAK RAJ

THE GARHWAL RIFLES

598	JC 528708Y	SUB MAJ	BALBIR SINGH
599	JC 528849N	SUB MAJ	BIRENDAR SINGH, SM
600	JC 529089H	SUB MAJ	DARMAYAN SINGH
601	JC 528820L	SUB MAJ	DIWAN SINGH
602	JC 528846A	SUB MAJ	HARISH CHANDRA
603	JC 528470K	SUB MAJ	HAYAT SINGH

604	JC 528417Y	SUB MAJ	KALAM SINGH
605	JC 528650M	SUB MAJ	SURENDRA SINGH
606	JC 529854L	SUB	ANAND SINGH
607	JC 529979H	SUB	BALWANT SINGH
608	JC 529803X	SUB	BHARAT SINGH NEGI
609	JC 529576H	SUB	BIMAL SINGH
610	JC 529493X	SUB	DALVIR SINGH
611	JC 530353X	SUB	DAN SINGH
612	JC 529546L	SUB	DHARAM PAL SINGH
613	JC 529651F	SUB	HARSH MANI
614	JC 529562H	SUB	KUNDAN SINGH
615	JC 529411K	SUB	LAKHPAT SINGH
616	JC 529649K	SUB	LAKHPAT SINGH
617	JC 529240H	SUB	MOHAN SINGH
618	JC 528905F	SUB	PURAN SINGH
619	JC 529846M	SUB	RAKESH RAUTHAN
620	JC 529637P	SUB	SARBESHWAR PRASAD
621	JC 529433H	SUB	SHRI KRISHAN
622	JC 529781K	SUB	SOBAN SINGH, SM
623	JC 529565W	SUB	SURESHA NAND
624	JC 529757N	SUB	SURJIT SINGH

THE KUMAON REGIMENT

625	JC 538182L	SUB MAJ	DALIP SINGH
626	JC 538691K	SUB MAJ	DIWANI RAM
627	JC 538869P	SUB MAJ	GHAMANDI LAL YADAV
628	JC 538112M	SUB MAJ	KHUSHAL SINGH GARIA
629	JC 158231W	SUB MAJ	KUSHALA NAND BAHUGUNA (RT)
630	JC 538545K	SUB MAJ	NARAIN SINGH DEOPA
631	JC 539033K	SUB MAJ	PADAM SINGH (BM)
632	JC 538654X	SUB MAJ	PRATAP SINGH
633	JC 539635X	SUB	ABHEY SINGH YADAV
634	JG 539382N	SUB	BHAGAT SINGH
635	JC 540007P	SUB	DHAN SINGH KARKI
636	JC 539726F	SUB	DHARMENDER KUMAR
637	JC 539644Y	SUB	GORDHAN SINGH RATHORE
638	JC 539512L	SUB	HARI BHAGWAN
639	JC 539331A	SUB	HARISH SINGH
640	JC 539257K	SUB	HOSHIYAR RAM
641	JC 539444H	SUB	JAI KARAN SINGH
642	JC 539609W	SUB	KESHAR SINGH
643	JC 539441P	SUB	KISHAN SINGH
644	JC 539864H	SUB	MAHENDER SINGH
645	JC 539396N	SUB	MOHAN SINGH
646	JC 539426A	SUB	MOHAN SINGH
647	JC 539410P	SUB	RADHEY SHYAM
648	JC 539765A	SUB	RAMESHWAR
649	JC 538872P	SUB	RAM SARAN
650	JC 539494N	SUB	SATYA NARAYAN
651	JC 539391P	SUB	SHANKAR SINGH CHUFAL
652	JC 539791F	SUB	SHER SINGH KAPKOTI
653	JC 539738W	SUB	TRILOK SINGH

THE ASSAM REGIMENT

654	JC 548255A	SUB MAJ	BUDHESWAR SINHA	
655	JC 548171M	SUB MAJ	JAMKHOTHANG	
656	JC 548303P	SUB MAJ	JANARDHAN SINHA	
657	JC 130065X	SUB MAJ	KHUMLO JENSON ANAL	(RT)
658	JC 548286A	SUB MAJ	MADAN MOHAN SINGH	
659	JC 114063H	SUB MAJ	RATAN CHAND SHARMA	(RT)
660	JC 548322A	SUB MAJ	UPANANDA MUKHERJEE	
661	JC 548788H	SUB	ANNESWAR SAIKIA	
662	JC 548948X	SUB	CHINIO LOTHAN, SM	
663	JC 548949A	SUB	H R RAMKATING	
664	JC 548939W	SUB	HARKA BAHADUR DARJEE	
665	JC 548893Y	SUB	KH SANOTOMBA SINGH	
666	JC 549182L	SUB	LALENGZAUVA	
667	JC 549003A	SUB	MANINDRA CHANDRA ROY	
668	JC 549058K	SUB	MOHAN KUMAR SHRESTA	
669	JC 548838H	SUB	RAJEN PD BORAH	
670	JC 548803M	SUB	RAMESWAR KONWER	
671	JC 549180A	SUB	RANJU KUMAR SINGHA	
672	JC 548789L	SUB	SUREN THAKURIA	
673	JC 548805X	SUB	TULAN CH DAS	

THE BIHAR REGIMENT

674	JC 558458X	SUB MAJ	CHANDESHWAR SINGH	
675	JC 558392M	SUB MAJ	CHRISTOPHER LAKRA	
676	JC 558546N	SUB MAJ	GOBARDHAN SINGH	
677	JC 558561H	SUB MAJ	LAV KUMAR	
678	JC 558693W	SUB MAJ	NABIN KUMAR PRADHAN, SM	
679	JC 558257Y	SUB MAJ	RAJ NATH GIRI	
680	JC 558411M	SUB MAJ	RAKESH CHANDRA DHOUNDIYAL	
681	JC 558385W	SUB MAJ	RAM LAGAN MAHALY	
682	JC 558467Y	SUB MAJ	RANA VIJAY SINGH	
683	JC 558468F	SUB MAJ	SARYUG YADAV	
684	JC 558692N	SUB MAJ	SURENDAR KUJUR	
685	JC 558299L	SUB MAJ	TURAM PURTY	
686	JC 558387F	SUB MAJ	UPENDRA PRASAD MAHTO	
687	JC 558535A	SUB MAJ	VIRENDRA PRASAD SINGH	
688	JC 559574M	SUB	BIHARI TIWARI	
689	JC 558647F	SUB	HARI RAM BHAGAT	
690	JC 559247F	SUB	JAG MOHAN SINGH	
691	JC 559255A	SUB	KUNJA BIHARI KISAN	
692	JC 559000A	SUB	MAHESH PRASAD	
693	JC 559270P	SUB	MAHESH RAI	
694	JC 558973K	SUB	PARMANAND YADAV	
695	JC 559444K	SUB	RAM BABU THAKUR	
696	JC 559234K	SUB	RAM PUKAR SAH	
697	JC 559002L	SUB	SHIV SHANKAR DAYAL	
698	JC 558887Y	SUB	SURESH YADAV	
699	JC 559324L	SUB	TEJNARAIN SINGH	

THE MAHAR REGIMENT

700	JC 568504P	SUB MAJ	BIJENDER SINGH	
-----	------------	---------	----------------	--

701	JC 568593Y	SUB MAJ	CHAVAN SURESH GOVIND
702	JC 568580F	SUB MAJ	JORA
703	JC 568303W	SUB MAJ	KULDEEP SINGH
704	JC 568464Y	SUB MAJ	MAKHAN SINGH
705	JC 568090N	SUB MAJ	OM NARAIN
706	JC 568401W	SUB MAJ	RAM CHANDER
707	JC 568489L	SUB MAJ	RAM NIWAS
708	JC 568379W	SUB MAJ	ROHTASH SINGH YADAV
709	JC 569331P	SUB	ALAM SINGH
710	JC 568929N	SUB	BAHADUR SINGH
711	JC 569415H	SUB	BALWANT SINGH
712	JC 569718X	SUB	CHET RAM
713	JC 569644N	SUB	DARWAN SINGH
714	JC 569595W	SUB	JAIRAJ BHATT
715	JC 569804H	SUB	KAMAL CHANDRA RAY, SM
716	JC 569199A	SUB	RAM CHANDAR YADAV
717	JC 569400A	SUB	RAMESH CHANDRA
718	JC 569721X	SUB	RANJIT SINGH
719	JC 568762P	SUB	SURENDAR PRASAD
720	JC 568757K	SUB	TAPAN KUMAR SAHA

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

721	JC 578823P	SUB MAJ	BALWAN SINGH
722	JC 578999A	SUB MAJ	BHAGWAN DASS
723	JC 578488W	SUB MAJ	BHIM BHADUR
724	JC 578626M	SUB MAJ	CHARAN DASS SHARMA
725	JC 578571N	SUB MAJ	HANS RAJ
726	JC 578815W	SUB MAJ	JAGGATER SINGH
727	JC 578887A	SUB MAJ	MOHINDER SINGH
728	JC 578851F	SUB MAJ	RANBIR SINGH
729	JC 578788X	SUB MAJ	TIRATH RAM
730	JC 579885F	SUB	ABHILASH CHAND
731	JC 580185A	SUB	AJIT SINGH
732	JC 579790L	SUB	AMARJIT SINGH, SM
733	JC 579692F	SUB	ASHOK KUMAR
734	JC 579744M	SUB	ASHOK SINGH
735	JC 579976L	SUB	BALI RAM
736	JC 580056A	SUB	CHANDER MOHAN
737	JC 580068P	SUB	DEVI DITTA
738	JC 579817N	SUB	DEWAN CHAND
739	JC 580221A	SUB	GIRDHARI LAL
740	JC 579895L	SUB	GOPAL DASS
741	JC 580342F	SUB	GURU PARSHAD SHARMA
742	JC 579894H	SUB	HANS RAJ THIAL, SM
743	JC 579776P	SUB	KABUL SINGH
744	JC 580005M	SUB	KRISHAN KUMAR
745	JC 579963N	SUB	MEHAR SINGH
746	JC 579861X	SUB	MOHD AYOUB
747	JC 579761M	SUB	MOHD SALEEM
748	JC 579786Y	SUB	PARKASH CHAND
749	JC 579767N	SUB	PRABHU RAM
750	JC 579773F	SUB	PRAVEEN KUMAR KATAL
751	JC 579829H	SUB	PREM KUMAR RAI

752	JC 580169H	SUB	RAJ PAUL
753	JC 579816L	SUB	RAMESH CHAND
754	JC 579852W	SUB	RAMESH KUMAR
755	JC 580071P	SUB	RAM PAUL
756	JC 580103M	SUB	ROMESH CHANDER
757	JC 579664P	SUB	ROMESH LAL
758	JC 579708F	SUB	SUBHASH CHAND
759	JC 579741Y	SUB	SUDARSHAN KUMAR
760	JC 580186H	SUB	TARSEM SINGH
761	JC 579759P	SUB	UTTAM CHAND
762	JC 579865N	SUB	VIJAY SINGH

THE LADAKH SCOUTS

763	JC 588041M	SUB MAJ	CHHEWANG DORJE
764	JC 224503N	SUB MAJ	RIGZIN JORGAS
765	JC 588138X	SUB	CHHERING WANGIAL
766	JC 588136M	SUB	RIGZIN NAMGIAL

THE NAGA REGIMENT

767	JC 218034A	SUB MAJ	W S LUNGTHA ANAL
768	JC 590145M	SUB	SURESH KUMAR GURUNG

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

769	JC 592178W	SUB MAJ	CHHANKAR SINGH, SM
770	JC 592196A	SUB MAJ	GOVERDHAN SINGH
771	JC 592068F	SUB MAJ	PRITHIPAL SINGH
772	JC 592240X	SUB MAJ	SWAMI RAJ
773	JC 592884X	SUB	ABDUL JABBAR SOFI
774	JC 593438H	SUB	ABDUL RASHID DAR
775	JC 592437N	SUB	AB RASHID WANI
776	JC 593034A	SUB	ANCHAL SINGH
777	JC 593287P	SUB	AVTAR SINGH
778	JC 592809N	SUB	AVTAR SINGH
779	JC 593046P	SUB	CHUNI LAL
780	JC 593238M	SUB	CHUNI LAL
781	JC 592976K	SUB	DARSHAN KUMAR
782	JC 592834M	SUB	DILBAGH SINGH CHEADI
783	JC 592957Y	SUB	HARBANS LAL
784	JC 592947P	SUB	KRISHAN LAL
785	JC 593019L	SUB	KRISHAN LAL
786	JC 592430K	SUB	MOHAN SINGH
787	JC 592860N	SUB	MOHD BASHIR
788	JC 592768P	SUB	PAWAN SINGH
789	JC 593029P	SUB	PHOOL KUMAR
790	JC 593030K	SUB	RAM LAL SHARMA
791	JC 592804P	SUB	RATTAN LAL
792	JC 593190K	SUB	RATTAN LAL
793	JC 592773A	SUB	RATTAN LAL
794	JC 592794W	SUB	RATTAN SINGH
795	JC 592836X	SUB	SHAM LAL SHARMA
796	JC 592888N	SUB	SHAMSHER SINGH, SM
797	JC 592839L	SUB	SURJEET SINGH
798	JC 592697Y	SUB	YASH PAUL

1 GORKHA RIFLES

799	JC 602154H	SUB MAJ	BHIM BAHADUR GURUNG
800	JC 602227K	SUB MAJ	DAL BAHADUR MALL
801	JC 602169L	SUB MAJ	MIN BAHADUR BURATHOKI
802	JC 602273Y	SUB MAJ	VIPAN KUMAR PRADHAN
803	JC 602542A	SUB	GANESH PRASAD GURUNG
804	JC 602513L	SUB	NIMA TSHERING LAMA

3 GORKHA RIFLES

805	JC 607321X	SUB MAJ	GIR BAHADUR THAPA
806	JC 607247F	SUB MAJ	MAN BIR GURUNG
807	JC 607136K	SUB MAJ	RAM PRASAD PASI
808	JC 607310L	SUB MAJ	SHIB BAHADUR THAPA
809	JC 607332K	SUB MAJ	TILAK BAHADUR THAPA
810	JC 607154M	SUB	RAM RATAN YADAV

4 GORKHA RIFLES

811	JC 612054L	SUB MAJ	CHANDER BAHADUR THAPA
812	JC 612228A	SUB MAJ	DHAN BAHADUR PUN
813	JC 612134H	SUB MAJ	KALAM SINGH GURUNG
814	JC 211402F	SUB MAJ	MADAN SINGH THAPA
815	JC 612492N	SUB	TEJ MAN GURUNG

5 GORKHA RIFLES

816	JC 617162Y	SUB MAJ	BHAGABAN CHANDRA MISHRA
817	JC 617276K	SUB MAJ	CHITRA BAHADUR ROKA
818	JC 617339F	SUB MAJ	DEEP RAJ SAWAN
819	JC 617160N	SUB MAJ	GANGA DHAR SUNDRIYAL
820	JC 617583F	SUB	EK BAHADUR THAPA
821	JC 617595W	SUB	SURYA BAHADUR GURUNG

8 GORKHA RIFLES

822	JC 623267Y	SUB MAJ	DHAN BAHADUR BASNET
823	JC 623068L	SUB MAJ	GANESH BAHADUR MALL
824	JC 623074Y	SUB MAJ	LAL JANG GURUNG
825	JC 623136N	SUB MAJ	SHABBIR THAPA
826	JC 623379Y	SUB	JONGYA KUMAR RAJPUT
827	JC 623634A	SUB	RAM BAHADUR SHRESTHA
828	JC 623618H	SUB	RESHAM BAHADUR THAPA
829	JC 623346N	SUB	TEJ BAHADUR SINJAPATI
830	JC 623496K	SUB	YOG BAHADUR GURUNG

9 GORKHA RIFLES

831	JC 629377K	SUB MAJ	DIL BAHADUR KHATTRI
832	JC 122072Y	SUB MAJ	SHESHKANTA SHARMA GHIMIRE(RT)
833	JC 629387N	SUB MAJ	YAK BAHADUR THAPA
834	JC 629511K	SUB	MIN BAHADUR KHATRI
835	JC 629700N	SUB	NARESH BAHADUR CHHETRI

11 GORKHA RIFLES

836	JC 634075F	SUB MAJ	DHAN BAHADUR LIMBU, SM
837	JC 634166L	SUB MAJ	MANI RAI

838	JC 634533M	SUB	GAM BAHADUR RAI
839	JC 634570A	SUB	JAGAT BAHADUR SHRESTHA
840	JC 634490H	SUB	MACHINDRA KUMAR RAI
841	JC 634697H	SUB	RAM PRASAD LIMBU

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

842	JC 221399A	SUB MAJ	BANDGAR TATOBA PATLU
843	JC 640778Y	SUB MAJ	BHAGYADHAR MANDAL
844	JC 217864K	SUB MAJ	BHANWAR SINGH
845	JC 640917X	SUB MAJ	BHIKAM SINGH
846	JC 662288L	SUB MAJ	BHUWAN CHANDAR
847	JC 661213F	SUB MAJ	BINDESHWARI SINGH
848	JC 640440N	SUB MAJ	DAMODAR BEHERA
849	JC 661241N	SUB MAJ	GAURANGA RANA BIJULI
850	JC 661234X	SUB MAJ	GURMIT SINGH
851	JC 661574A	SUB MAJ	HANS RAJ YADAV
852	JC 640676H	SUB MAJ	HAWA SINGH MEHLA
853	JC 661434N	SUB MAJ	JAGDISH PRASAD
854	JC 661106A	SUB MAJ	JOKHU PRASAD
855	JC 215552P	SUB MAJ	MADAN MOHAN DAN
856	JC 661151M	SUB MAJ	MANJIT SINGH
857	JC 641001P	SUB MAJ	NIRANJAN DASH
858	JC 661430X	SUB MAJ	PARMAR ASHARF KHAN HAIYAT KHAN
859	JC 215536X	SUB MAJ	RAJENDRAN P
860	JC 661829P	SUB MAJ	RANBIR SINGH
861	JC 640063H	SUB MAJ	SHASHI BHUSHAN SINGH
862	JC 640938N	SUB MAJ	SURESH KUMAR PRASHER
863	JC 642799N	SUB	BALASUBRAMANIAN R
864	JC 643140X	SUB	BALWINDER NATH
865	JC 663871M	SUB	BINESWAR ROY
866	JC 662705M	SUB	CHAIN SINGH
867	JC 663578P	SUB	DAMODAR PRASAD
868	JC 642832A	SUB	INDRAVIR SINGH
869	JC 662697Y	SUB	JAGAR NATH
870	JC 662821P	SUB	JAGDISH SINGH
871	JC 662758L	SUB	JAWAHAR SINGH
872	JC 662785P	SUB	JAYSI RAM
873	JC 662950P	SUB	JIYAN LAL
874	JC 641288X	SUB	KUNWAR BAHADUR SINGH
875	JC 662790A	SUB	MAHIPAL SINGH
876	JC 642703A	SUB	MANGLA PRASAD
877	JC 663338X	SUB	MOTI LAL
878	JC 663762A	SUB	RAMDAWAN
879	JC 642491A	SUB	RAM SHANKER SHUKLA
880	JC 662795Y	SUB	SHER SINGH YADAV
881	JC 144220Y	SUB	SHITLA PRASAD SHUKLA (RT)
882	JC 642868Y	SUB	SHRI KISHAN SHARMA
883	JC 662842L	SUB	SRI TEHSILDAR
884	JC 663600P	SUB	SURESH KUMAR
885	JC 662949A	SUB	VIJAI BAHADUR

ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

886	JC 680319H	RIS MAJ	GOVIND SINGH
887	JC 680281K	RIS MAJ	JANAK SHARMA
888	JC 680297P	RIS MAJ	KARAM SINGH
889	JC 680926F	RIS	BHUPEN CH DAS
890	JC 680676L	RIS	BIPRADAS CHATTARAJ
891	JC 680764F	RIS	GEETAM SINGH
892	JC 680786A	RIS	LAZAR C
893	JC 680662L	RIS	SATYA PRAKASH
894	JC 680747F	RIS	SHIV MUNI RAM
895	JC 680749M	RIS	SOHAN SINGH
896	JC 680748K	RIS	VED PAL

ARMY MEDICAL CORPS

897	JC 690394A	SUB MAJ	BALACHANDRAN NAIR K
898	JC 690985F	SUB MAJ	BALWANT SINGH
899	JC 690894X	SUB MAJ	BRAHMA RAM SHARMA
900	JC 692756P	SUB MAJ	GOVINDA CHANDRA BEHERA
901	JC 217327Y	SUB MAJ	JABAR SINGH INDA
902	JC 692942L	SUB MAJ	JUBARAJ SARKAR
903	JC 692752Y	SUB MAJ	PRANAB GOSWAMI
904	JC 692907H	SUB MAJ	RAMMAN RAM
905	JC 690426X	SUB MAJ	R PALANIVEL
906	JC 214874H	SUB MAJ	SUKHENDU KUMAR KARMAKAR
907	JC 692339H	SUB MAJ	SWAPAN KUMAR BISWAS
908	JC 691500A	SUB	AJIT SINGH
909	JC 695008M	SUB	AMARJIT SINGH
910	JC 694091H	SUB	ATTAR SINGH
911	JC 695192H	SUB	BIRSA NAGH
912	JC 692615A	SUB	DHANDHALYA CHITHAR BHAI BHAVANI SHANKER
913	JC 695152F	SUB	JADHAV MOHAN TUKARAM
914	JC 694537M	SUB	JAYA CHANDRAN B
915	JC 694038X	SUB	KHAYELI RAM
916	JC 695051N	SUB	KRISHAN SINGH
917	JC 694968Y	SUB	PATIL ANIL SADASHIV
918	JC 695190X	SUB	PRABHAKAR DALAPATI
919	JC 694533W	SUB	PRAFULLA CHANDRA SATYARTHI
920	JC 694448N	SUB	PURAN SINGH SHAHI
921	JC 695191A	SUB	RAJ BALI SINGH
922	JC 694683M	SUB	RAM KUMAR
923	JC 161062L	SUB	RAM NARAIN VISHVA KARMA (RT)
924	JC 694686A	SUB	SAHAB SINGH
925	JC 693298W	SUB	SHIV LAKHAN SINGH
926	JC 692152W	SUB	SURENDER KUMAR
927	JC 693031F	SUB	SURENDER SINGH
928	JC 693800A	SUB	SURESH K
929	JC 693262X	SUB	SURESH KUMAR V N

ARMY ORDNANCE CORPS

930	JC 723215X	SUB MAJ	CHANDER PRAKASH TIWARI
931	JC 723081K	SUB MAJ	CHANDRA BHUSHAN SINGH

932	JC 723258M	SUB MAJ	KAMALENDU DEBNATH
933	JC 722783W	SUB MAJ	KOLE LAXMAN YALLAPPA
934	JC 723256F	SUB MAJ	MATA SHANKER SHUKLA
935	JC 723292M	SUB MAJ	RAJVIR SINGH MAAN
936	JC 723474A	SUB MAJ	RAMAN KUMAR SHARMA
937	JC 725361W	SUB MAJ	RAMESH KUMAR
938	JC 723248H	SUB MAJ	RAMPAL SHARMA
939	JC 723200P	SUB MAJ	RANJIT SINGH
940	JC 723191Y	SUB MAJ	SUKHBIR SINGH
941	JC 724195F	SUB	AURANG ZEB
942	JC 724958M	SUB	CHARAN SINGH SAINI
943	JC 724096Y	SUB	FRANCIS D
944	JC 724095W	SUB	JAGDISH PRATAP SINGH
945	JC 723383W	SUB	KAMAL KANT JOSHI
946	JC 724476X	SUB	KULDIP SINGH
947	JC 723874M	SUB	KULDIP SINGH
948	JC 725382M	SUB	LALA RAM SHARMA
949	JC 724091A	SUB	MAHESH CHANDER
950	JC 722786K	SUB	MATA PRASAD
951	JC 725439W	SUB	RAJENDRA SINGH CHAUHAN
952	JC 724633Y	SUB	RAM KRIPAL SINGH YADAV
953	JC 724202M	SUB	RAMACHANDRAN K K
954	JC 723236N	SUB	RAMESH CHAND
955	JC 723023A	SUB	RAM LAKHAN ROY
956	JC 725127A	SUB	SATAYPAL MALIK
957	JC 723824F	SUB	SHESH NATH PANDEY
958	JC 725163L	SUB	SHIVAGUNDAPPA SULLEGADDI

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

959	JC 749246P	SUB MAJ	BHUPENDER SINGH PARIHAR
960	JC 749841Y	SUB MAJ	B SRI KRISHNA
961	JC 749511A	SUB MAJ	DAVINDER KUMAR BAKSHI
962	JC 749563W	SUB MAJ	DEVENDRA SINGH
963	JC 749046Y	SUB MAJ	DILIP KUMAR DAS
964	JC 749044N	SUB MAJ	JAGDISH PRASAD SHARMA
965	JC 752813X	SUB MAJ	JOGINDER SINGH
966	JC 749358P	SUB MAJ	JOHN M G
967	JC 747128H	SUB MAJ	KALYAN CHAKRABORTY
968	JC 749845P	SUB MAJ	KM LOKESH
969	JC 749390K	SUB MAJ	MADHAVAN KUTTY N
970	JC 749901H	SUB MAJ	MAHABIR SINGH
971	JC 749483Y	SUB MAJ	NAND LAL VERMA
972	JC 747067W	SUB MAJ	NATTHA RAM KUNDEL
973	JC 749739W	SUB MAJ	OM PRAKASH NAGAR
974	JC 748828H	SUB MAJ	PARKASH CHAND
975	JC 747069F	SUB MAJ	RAMESH CHANDER YADAV
976	JC 753420N	SUB MAJ	RAM GOPAL YADAV
977	JC 750116Y	SUB MAJ	RAM NARESH SINGH
978	JC 753715K	SUB MAJ	RAM NIWAS
979	JC 747944Y	SUB MAJ	RAM RAJ PANDEY
980	JC 749891K	SUB MAJ	RAVI KUMAR K N
981	JC 749732M	SUB MAJ	SABHAJEET PANDEY
982	JC 748835Y	SUB MAJ	SAMDAR SINGH

983	JC 747121Y	SUB MAJ	SANT KUMAR
984	JC 749375P	SUB MAJ	SATISH KUMAR
985	JC 749973M	SUB MAJ	S DHAMOTHARAN
986	JC 749385Y	SUB MAJ	SHYAMPAL SINGH
987	JC 752428N	SUB MAJ	SURESH KUMAR CHOUBEY
988	JC 754967H	SUB MAJ	SURINDER SINGH
989	JC 751348K	SUB MAJ	UDHAYA BHANU K
990	JC 751486L	SUB	AINUL HAQUE
991	JC 752862A	SUB	ANBAZHAGAN V
992	JC 753381A	SUB	ANUSE DEELIP LAXMAN
993	JC 751607F	SUB	ASHOK KUMAR SHARMA
994	JC 760105A	SUB	BHAKTA BAHADUR KARKY
995	JC 755923Y	SUB	BHUPINDER SINGH
996	JC 753532N	SUB	BISWANATH MONDAL
997	JC 759125F	SUB	CHANDRAN TN
998	JC 753486K	SUB	DALBIR SINGH SHARAWAT
999	JC 754360W	SUB	DILBAG SINGH
1000	JC 754923L	SUB	DINESH PRASAD
1001	JC 760170A	SUB	DINESH PRASAD
1002	JC 752278H	SUB	DINESH PRASAD CHOUDHARY
1003	JC 754249M	SUB	DUBBA VENU GOPAL REDDY
1004	JC 753230F	SUB	HIMAT SINGH
1005	JC 753971Y	SUB	JAL SINGH
1006	JC 757399N	SUB	JOHN ANAND DUNG DUNG
1007	JC 759508N	SUB	JOY GOPAL MANDAL
1008	JC 753348H	SUB	LAKHAM SINGH
1009	JC 755433K	SUB	MADAN LAL SHARMA
1010	JC 759507L	SUB	MAHESH CHAND SHARMA
1011	JC 751367P	SUB	MAIRAJ AHAMED
1012	JC 753747M	SUB	NAND KISHORE
1013	JC 753350A	SUB	NARESH CHANDERA SHAKYA
1014	JC 758240P	SUB	OM PRAKASH VARMA
1015	JC 750888W	SUB	PABITRA KUMAR BORGOHAI
1016	JC 753414A	SUB	PARTAP SINGH
1017	JC 753612L	SUB	PHOOL CHAND SAINI
1018	JC 750595L	SUB	PRASANTA BARUA
1019	JC 756778X	SUB	PRATAP SINGH
1020	JC 758399A	SUB	PREM CHANDRA
1021	JC 755404P	SUB	RABINDRA KUMAR BEHERA
1022	JC 753917L	SUB	RAKESH KUMAR GUPTA
1023	JC 756256F	SUB	RAMESAN M
1024	JC 753234X	SUB	RAMJI TIWARI
1025	JC 753610A	SUB	RAM NARESH
1026	JC 756326P	SUB	RAM PUKAR SINGH
1027	JC 751616H	SUB	SAJJAN SINGH
1028	JC 758962F	SUB	SATYABRAT SHARMA
1029	JC 759916Y	SUB	SHYO RAM YADAV
1030	JC 760483Y	SUB	SINGH JANARDAN PANCHU
1031	JC 753565Y	SUB	SUNIL KUMAR PRAJAPATI
1032	JC 754100L	SUB	SURENDER SINGH ANTAL
1033	JC 755836K	SUB	TAPAN CHANDA
1034	JC 754188A	SUB	TUSARKANTI BISHWAL
1035	JC 755817Y	SUB	

1036	JC 760747P	SUB	UMA SHANKAR PANDEY
1037	JC 751515P	SUB	YESHPAL SINGH
<u>ARMY EDUCATION CORPS</u>			
1038	JC 802027X	SUB MAJ	CHANDRAMA PRASAD TIWARI
1039	JC 225474W	SUB MAJ	KESHAV RAJ SHARMA
1040	JC 223755N	SUB MAJ	MANOHAR SINGH
1041	JC 216999Y	SUB MAJ	RAJINDER SINGH
1042	JC 802240X	SUB MAJ	SATYAVAN YADAV
1043	JC 216193Y	SUB MAJ	VIJAY SINGH RAWAT
1044	JC 802450X	SUB	BHIM SINGH
1045	JC 802718K	SUB	GIANESHWAR DHARWAL
1046	JC 802862Y	SUB	MADAN MOHAN SHARMA
1047	JC 802864K	SUB	NARESH KUMAR
1048	JC 802686M	SUB	OM PRAKASH SHARMA
1049	JC 802487Y	SUB	SHIV MURTI TIWARI
<u>REMOUNT AND VETERINARY CORPS</u>			
1050	JC 797181K	RIS MAJ	BANWARI LAL HARIJAN
1051	JC 797066K	RIS	HARISHANKAR RAY
1052	JC 797223L	RIS	RAM SUBHASH PRADHAN
<u>THE INTELLIGENCE CORPS</u>			
1053	JC 217177N	SUB MAJ	HARBANS SINGH
1054	JC 223464N	SUB MAJ	HARI KRISHAN SHARMA
1055	JC 810028P	SUB MAJ	HET RAM
1056	JC 810008F	SUB MAJ	JAGAT PAUL BHARDWAJ
1057	JC 223463L	SUB MAJ	MADAN SINGH RAMOLA
1058	JC 810320K	SUB	BALBIR SINGH
1059	JC 810316F	SUB	BIRENDRA SINGH
1060	JC 810541W	SUB	DEVKI NAND
1061	JC 810300W	SUB	KAMAL DEV SHARMA
1062	JC 810335M	SUB	LOKINDER SINGH
1063	JC 810376W	SUB	MADAN LAL
1064	JC 810292H	SUB	MAHENDER SINGH
1065	JC 810081A	SUB	MOHAN CHAND
1066	JC 810399X	SUB	SHAM SHER SINGH
<u>CORPS OF MILITARY POLICE</u>			
1067	JC 818385M	SUB MAJ	DASHRATH SINGH
1068	JC 818389H	SUB MAJ	RAM PAL
1069	JC 818383F	SUB MAJ	SUBE SINGH
1070	JC 818134H	SUB MAJ	V LAKSHMANA PERUMAL
1071	JC 818836F	SUB	ASHOK KUMAR SHARMA
1072	JC 818923P	SUB	JOGINDER PAUL
<u>ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS</u>			
1073	JC 826061W	SUB MAJ	PRAFULLA KHAKHALARI
<u>THE PIONEER CORPS</u>			
1074	JC 829031K	SUB MAJ	SURAT SINGH
1075	C8 292898Y	SUB	RAM JIWAN SINGH
1076	JC 829319K	SUB	VISHAMBAR SINGH
<u>ARMY POSTAL SERVICE</u>			
1077	JC 834087A	SUB MAJ	GHANSHYAM GULERIA
<u>DEFENCE SECURITY CORPS</u>			
1078	JC 841307F	SUB	DBS THAPA
1079	JC 841523P	SUB	IGNALE TIGGA

1080	JC 841520F	SUB	JANG BAHADUR THAPA
1081	JC 841226F	SUB	KANAK KUMAR SAIKIA
1082	JC 841295X	SUB	KUNDAN SINGH BHANDARI
1083	JC 841338F	SUB	MAHENDAR SAH
1084	JC 841354Y	SUB	SOHAN SINGH
1085	JC 841437K	SUB	SUKHDEV SINGH

TERRITORIAL ARMY

1086	TJ 4513M	SUB	ANTONY OJ
1087	TJ 3623P	SUB	BIRENDRA SINGH
1088	TJ 3339Y	SUB	DAYA CHAND
1089	TJ 3849A	SUB	GHAN SHAM
1090	TJ 4206P	SUB	GHAN SHYAM
1091	TJ 4124M	SUB	GOURI KANTA BASUMATARY
1092	TJ 4004P	SUB	HARBANS SINGH
1093	TJ 3111H	SUB	JOSE MP
1094	TJ 4262N	SUB	MEGH SINGH RATHORE
1095	TJ 4118H	SUB	RAM NARAYAN RAM
1096	TJ 4016A	SUB	RANVIR SINGH
1097	TJ 3783P	SUB	RAVI SINGH
1098	TJ 3513A	SUB	SADHU SINGH
1099	TJ 4382M	SUB	SHRIKANT WALIKAR
1100	TJ 3669X	SUB	SURESH PRASAD PATEL

EX-POST-FACTO**GRANT OF HONORARY LIEUTENANTS****WITH EFFECT FROM 26 JAN 1992****(ACTIVE)****ARMY ORDNANCE CORPS**

1. JC 90686L EX-SUB MAJ SIA RAM SHARMA

EX-POST-FACTO**GRANT OF HONORARY LIEUTENANTS****WITH EFFECT FROM 15 AUG 1998****(ACTIVE)****CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEER**

1. JC 144408N EX-SUB MAJ GURJIT SINGH BAJWA

EX-POST-FACTO**GRANT OF HONORARY LIEUTENANTS****WITH EFFECT FROM 26 JAN 2009****(ACTIVE)****THE RAJPUT REGIMENT**

1. JC 478318X EX-SUB MAJ DADHICHI RAI

[No. B/43432/RD-10/AG/CW-2]

MUKESH SABHARWAL, Lt. Gen., Adjutant General

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2010

सं. 2(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2010.— राष्ट्रपति गणत्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अवैतनिक लै./जे सी ओज़ को उनकी सेवा पूरी होने पर उनके नामों के सामने दी हुई तिथि से सेना विनियामावली 1987 के पैरा 179 के अधीन उनको अवैतनिक पद प्रदान करते हैं :—

अवैतनिक कप्तान के रूप में8 केवेलरी

1	जेसी240581पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	राजिन्दर सिंह	01.01.2010
---	--------------	-----------------------------	---------------	------------

63 केवेलरी

2	जेसी240293एच	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	राम बहादुर सिंह	01.01.2010
---	--------------	-----------------------------	-----------------	------------

64 केवेलरी

3	जेसी236849के	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	01.11.2009
---	--------------	----------------------------------	-----------	------------

65 आर्मड रेजीमेंट

4	जेसी240082ए	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	सुभाष चंद्रा वर्मा	01.10.2009
---	-------------	-----------------------------	--------------------	------------

66 आर्मड रेजीमेंट

5	जेसी240364वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	वलसान टी एम	01.10.2009
---	---------------	-----------------------------	-------------	------------

71 आर्मड रेजीमेंट

6	जेसी238116के	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	करन सिंह	01.12.2009
---	--------------	----------------------------------	----------	------------

73 आर्मड रेजीमेंट

7	जेसी238225डब्ल्यू	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लियाकम अली खान	01.11.2009
---	-------------------	----------------------------------	----------------	------------

75 आर्मड रेजीमेंट

8	जेसी238903एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	मिथ्यू लक्ष्मी रेडी	01.09.2009
---	--------------	-----------------------------	---------------------	------------

76 आर्मड रेजीमेंट

9	जेसी237154एन	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राज पाल	01.09.2009
---	--------------	----------------------------------	---------	------------

81 आर्मड रेजीमेंट

10	जेसी238809एफ	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम निवास भाम्बू	01.10.2009
----	--------------	----------------------------------	------------------	------------

11	जेसी240495के	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	मदेरी सीपीआर रेडी	01.09.2009
----	--------------	-----------------------------	-------------------	------------

12	जेसी240859एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	सतीस कुमार जी.	01.01.2010
----	--------------	-----------------------------	----------------	------------

41 आर्मड रेजीमेंट

13	जेसी239322ए	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	बिकाश चंद्रा रौय	01.11.2009
----	-------------	-----------------------------	------------------	------------

43 आर्मड रेजीमेंट

14	जेसी239559एक्स	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	अंगद सिंह	01.01.2010
----	----------------	-----------------------------	-----------	------------

48 आर्मड रेजीमेंट

15	जेसी239520एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	बसंत कुमार	01.10.2009
----	--------------	-----------------------------	------------	------------

6 आर्मड रेजीमेंट

16	जेसी240896वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	गुमान सिंह राठोर	01.10.2009
----	---------------	-----------------------------	------------------	------------

11 आर्मड रेजीमेंट

17	जेसी237359एच	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अवध बिहारी राय	01.11.2009
----	--------------	----------------------------------	----------------	------------

13 आर्मड रेजीमेंट

18	जेसी237469एक्स	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	देवेन्द्र सिंह	01.12.2009
----	----------------	----------------------------------	----------------	------------

19 आर्मड रेजीमेंट

19	जेसी236735वाइ	रिसालदार मेजर एवं सतवीर सिंह अवैतनिक लै.	01.11.2009
51 आर्मड रेजीमेंट			
20	जेसी237195एक्स	रिसालदार मेजर एवं राम कुमार सिंह अवैतनिक लै.	01.10.2009
आर्मड कोर			
21	जेसी237208के	रिसालदार मेजर एवं अरुण कुमार सिंह अवैतनिक लै.	01.09.2009
22	जेसी133722एफ	रिसालदार मेजर एवं पदम नाभ शर्मा अवैतनिक लै.	01.12.2009
23	जेसी152321एफ	रिसालदार एवं मार्कंडेय त्रिपाठी अवैतनिक लै.	01.09.2009
आर्टिलरी रेजीमेंट			
24	जेसी226102एक्स	सुबेदार मेजर एवं एजेन्ट सिंह अवैतनिक लै.	01.10.2009
25	जेसी256208वाइ	सुबेदार मेजर एवं अक्षया कुमार साहू अवैतनिक लै.	01.09.2009
26	जेसी257092ए	सुबेदार मेजर एवं बदन सिंह अवैतनिक लै.	01.09.2009
27	जेसी257922एल	सुबेदार मेजर एवं बालू आर अवैतनिक लै.	01.10.2009
28	जेसी255709एम	सुबेदार मेजर एवं बलविन्दर सिंह अवैतनिक लै.	01.12.2009
29	जेसी256449वाइ	सुबेदार मेजर एवं भदरन एस अवैतनिक लै.	01.09.2009
30	जेसी255574डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं भगा राम अवैतनिक लै.	01.11.2009
31	जेसी256071एक्स	सुबेदार मेजर एवं भीम सिंह अवैतनिक लै.	01.10.2009
32	जेसी223075एन	सुबेदार मेजर एवं सी थंगम अवैतनिक लै.	01.10.2009
33	जेसी256210डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं चरत सिंह अवैतनिक लै.	01.10.2009
34	जेसी259197एच	सुबेदार मेजर एवं देवी सिंह अवैतनिक लै.	01.01.2010
35	जेसी256478एन	सुबेदार मेजर एवं गया राम अवैतनिक लै.	01.10.2009
36	जेसी258859एन	सुबेदार मेजर एवं ग्रेगरी जे अवैतनिक लै.	01.09.2009

37	जेसी258956एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरदेव सिंह	01.11.2009
38	जेसी255677पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जय प्रकाश	01.10.2009
39	जेसी255705डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जोगिंदर पाल	01.09.2009
40	जेसी255681एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मांगे राम	01.10.2009
41	जेसी256109डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहन सेलवम एस	01.10.2009
42	जेसी256506पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहानन एन	01.10.2009
43	जेसी255744पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मुंशी राम	01.01.2010
44	जेसी255672डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	01.09.2009
45	जेसी257954एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पापासानीपल्ली रामी रेडी गरी ननजी रेडी	01.10.2009
46	जेसी255782एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पर सिंह,	01.12.2009
47	जेसी259611डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पूरन चन्द	01.12.2009
48	जेसी258306एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राज कुमार सिंह	01.09.2009
49	जेसी130079एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम किशोर द्विवेदी	01.01.2010
50	जेसी259456ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम सुरेश यादव	01.01.2010
51	जेसी255504एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सच्चीदा नन्द उपाध्याय	01.09.2009
52	जेसी257966एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सत्य नारायण	01.10.2009
53	जेसी256905वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुदर्शनन नायर के	01.10.2009
54	जेसी257421एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	थामस अनीयन ए	01.09.2009
55	जेसी264353एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अजय कुमार	01.12.2009
56	जेसी266912एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अरुण विष्णु माने	01.01.2010
57	जेसी265233वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अवध नारायण त्रिपाठी	01.10.2009

58	जेसी261842एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलजीत सिंह चौहान	01.01.2010
59	जेसी266653एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलकार सिंह	01.01.2010
60	जेसी225435एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भगवान दीन द्विवेदी	01.12.2009
61	जेसी266341पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भीम सिंह	01.09.2009
62	जेसी259801एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भुपिन्द्र सिंह	01.12.2009
63	जेसी265796वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भूर सिंह जाट	01.10.2009
64	जेसी264540के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बीर सिंह	01.09.2009
65	जेसी263201एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भ्रमजीत सिंह	01.01.2010
66	जेसी265098डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	छगगर सिंह पठानिया	01.09.2009
67	जेसी268019एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चन्द सिंह	01.01.2010
68	जेसी261873एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ध्रुव नारायण सिंह	01.11.2009
69	जेसी267505एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दुनी चन्द	01.01.2010
70	जेसी267856एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धीसा राम	01.01.2010
71	जेसी266168डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	घोलावे विष्णु किसान	01.01.2010
72	जेसी264670एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरमीत सिंह	01.10.2009
73	जेसी269720डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	इश्वर सिंह	01.01.2010
74	जेसी267726वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जसवंत सिंह	01.09.2009
75	जेसी265969एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	झीगूर भट्ट	01.12.2009
76	जेसी259797एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	खिमा नन्द जोशी	01.10.2009
77	जेसी262970पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेंद्र सिंह नेगी	01.10.2009
78	जेसी268277एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	01.10.2009

79	जेसी265525एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रभु लाल बैरावा	01.01.2010
80	जेसी268271ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रफुल्ल चंद्रा मलिक	01.01.2010
81	जेसी265766एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजगोपालन पी बी	01.01.2010
82	जेसी259790एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र सिंह	01.11.2009
83	जेसी268738ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र सिंह रावत	01.01.2010
84	जेसी266639वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम चन्द्र	01.09.2009
85	जेसी265970ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम किशोर	01.12.2009
86	जेसी267294पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम नरेश	01.10.2009
87	जेसी264710एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामानन्द एसएम	01.01.2010
88	जेसी267386एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश कुमार	01.10.2009
89	जेसी269212ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवीश कुमार	01.01.2010
90	जेसी265370एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सावंत सिंह	01.01.2010
91	जेसी265539एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शंकर तोतागी	01.01.2010
92	जेसी264709एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुभास कोनी	01.01.2010
93	जेसी264457एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सूरज पाल सिंह यादव	01.11.2009
94	जेसी263391पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्याम कुमार केआर	01.09.2009
95	जेसी265702डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	योगेन्द्रा सिंह	01.12.2009

सेना वायू सुरक्षा

96	जेसी296875पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार सिंह राठोर	01.11.2009
97	जेसी296294एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बहादुर सिंह	01.01.2010
98	जेसी296619ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कर्म सिंह	01.11.2009

99	जेसी296715पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	उपेंद्र प्रसाद	01.11.2009
100	जेसी297041पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विजय सिंह	01.01.2010
101	जेसी298034एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अब्बल सिंह	01.12.2009
102	जेसी296336वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देबेन्द्र कुमार आचार्य	01.11.2009
103	जेसी297573पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	करकावल्सा गोपीनाथ पटनायक	01.10.2009
104	जेसी297183एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मज्जी कृष्णा	01.10.2009
105	जेसी297489पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश साह	01.09.2009
106	जेसी297705एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पद्मनाभन के पी	01.01.2010
107	जेसी298768एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	परमानंद	01.10.2009
108	जेसी298605वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रेम चन्द	01.09.2009
109	जेसी297971डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामनिवास यादवा	01.01.2010
110	जेसी296330एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत्येन्द्र मलिक	01.10.2009
111	जेसी298151डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सूबे सिंह	01.01.2010
112	जेसी297922एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	योगेन्द्रा कुमार तिवारी	01.01.2010
मद्रास इंजीनियर समूह				
113	जेसी305646एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ए रमन	01.01.2010
114	जेसी305059एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अजीतकुमार डब्ल्यू	01.11.2009
115	जेसी305108ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जॉन एम एस	01.12.2009
116	जेसी305079डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रवि कुमार	01.12.2009
117	जेसी305843डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वी मणिकम	01.11.2009
118	जेसी225774एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विजयन नायर वी	01.12.2009

119	जेसी307211के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अब्राहम थामस	01.01.2010
120	जेसी306927डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोकन के	01.11.2009
121	जेसी307588एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बी अरुमुगम	01.12.2009
122	जेसी307682एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाबू वीडी.	01.12.2009
123	जेसी307763एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बल्ला सुब्रमण्यम	01.01.2010
124	जेसी307554ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बैरन	01.12.2009
125	जेसी307246ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सी लौरेंस	01.12.2009
126	जेसी307480डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	डी. असाईमबी राजा कुमार	01.09.2009
127	जेसी307872के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ई दसाराथन	01.01.2010
128	जेसी306641एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जोसफ टीएम	01.12.2009
129	जेसी307590एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	के शफिउल्ला	01.01.2010
130	जेसी306964के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुट्टप्पन सी	01.12.2009
131	जेसी307589डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एम गणपति	01.12.2009
132	जेसी307834एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एम सकादेवन	01.12.2009
133	जेसी306963एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एम सेकारन	01.09.2009
134	जेसी307760के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एमएन नंदगोपाल	01.12.2009
135	जेसी307477डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एमटी वेनुगोपालन	01.01.2010
136	जेसी307657वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पी रवि	01.09.2009
137	जेसी307970के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पी उदया कुमार	01.10.2009
138	जेसी307713एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस मूर्ती	01.01.2010
139	जेसी307860पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस रवि	01.12.2009

140	जेसी306049एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिवाजी जाधव	01.10.2009
141	जेसी307658एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिवदासन के	01.12.2009
142	जेसी307296एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वी मारिदास	01.12.2009
143	जेसी307141डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वाइ सरधी	01.01.2010

बंगाल इंजीनियर समूह

144	जेसी326787डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार त्रिपाठी	01.01.2010
145	जेसी326429एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दीवान सिंह शाही	01.10.2009
146	जेसी326451डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हेम चंद्रा पाठक	01.12.2009
147	जेसी326651एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	महेंद्र नाथ सिंह	01.11.2009
148	जेसी326564वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	माखन सिंह	01.10.2009
149	जेसी326500एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्रा सिंह नेगी	01.09.2009
150	जेसी327184एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	परमजीत सिंह	01.09.2009
151	जेसी327940एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रसान कुमार मिसरो	01.09.2009
152	जेसी131982एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम किशोर शर्मा	01.10.2009
153	जेसी216012एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम स्नेही शाक्य	01.09.2009
154	जेसी326533वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुख राम	01.09.2009
155	जेसी328697एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	आनंद सिंह	01.12.2009
156	जेसी328722एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बैज नाथ	01.01.2010
157	जेसी328678एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिजय सिंह	01.11.2009
158	जेसी328798एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जनार्दन प्रसाद सिंह	01.12.2009
159	जेसी328701एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेंद्र सिंह	01.12.2009

2. 11. 2009

160	जेसी328721वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन सिंह	01.12.2009
161	जेसी328677ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नन्द किशोर	01.11.2009
162	जेसी328817एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रताप सिंह	01.11.2009
163	जेसी328743एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पुर्षोत्तम लाल	01.01.2010
164	जेसी328735वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम जीत सिंह यादव	01.01.2010
165	जेसी328703डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शामिन्दर सिंह	01.12.2009
166	जेसी328787पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश सिंह	01.11.2009

बोम्बे इंजीनियर समूह

167	जेसी347429वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अब्दुल रउफ खान	01.11.2009
168	जेसी347448के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरबंस सिंह	01.10.2009
169	जेसी347304एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	परमजीत शर्मा	01.01.2010
170	जेसी347173एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश राम	01.12.2009
171	जेसी347167एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश सिंह	01.11.2009
172	जेसी347503पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	स्वर्ण सिंह	01.12.2009
173	जेसी348955के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बद्धरुद्दीन खान	01.10.2009
174	जेसी348906एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दलजीत सिंह	01.09.2009
175	जेसी349504डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गिरजा शंकर त्रिपाठी	01.11.2009
176	जेसी349428पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हसबे जनार्दन तुकाराम	01.09.2009
177	जेसी348986के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हिमत सिंह	01.01.2010
178	जेसी349061ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगतार सिंह,	01.09.2009
179	जेसी349602डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	काने विथल राव साहेब	01.09.2009

180	जेसी349249पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	खलील मोहम्मद	01.11.2009
181	जेसी349063एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एल सिंह	01.12.2009
182	जेसी349172एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद अफज़ल	01.12.2009
183	जेसी347860एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	साजन राम	01.12.2009
184	जेसी349290एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शाम सिंह	01.12.2009
185	जेसी348808एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शमशेर सिंह दुग्गल	01.09.2009
186	जेसी349355एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शेर मोहम्मद	01.12.2009
187	जेसी347337एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिव चंद्रा सिंह	01.12.2009
188	जेसी348815एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सोम दत्त	01.09.2009

सिग्नल्स कोर

189	जेसी370447एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अन्ना साहेब सवालागी	01.11.2009
190	जेसी367074ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भानु प्रताप	01.09.2009
191	जेसी367081डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बिश्व नाथ पाठक	01.09.2009
192	जेसी370449वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नन्देश्वर बोरुह	01.12.2009
193	जेसी370416एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नाथा सिंह	01.10.2009
194	जेसी370372एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र कुमार	01.09.2009
195	जेसी370326एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम दयाल रौय ललित	01.09.2009
196	जेसी368139पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश चंद्रा बिस्वाल	01.11.2009
197	जेसी370457एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	यशवंत सिंह	01.01.2010
198	जेसी373647पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अच्छे लाल	01.11.2009
199	जेसी375282के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भरत प्रसाद शुक्ला	01.11.2009

200	जेसी374592एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दलेल सिंह मलिक	01.01.2010
201	जेसी374478एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गोपाल कष्णन	01.09.2009
202	जेसी372076पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरदीप सिंह	01.11.2009
203	जेसी375249एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हुसैन आलम खान	01.01.2010
204	जेसी373471पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश चन्द	01.09.2009
205	जेसी374483डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जय कष्णन	01.12.2009
206	जेसी373736एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जया बाबू पी वी	01.01.2010
207	जेसी374038एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	केदारनाथ सुन्दरे	01.12.2009
208	जेसी375404एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कष्णन चंद्र	01.10.2009
209	जेसी373581के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्णन कुमार	01.10.2009
210	जेसी374173एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एम एस पठानिया	01.01.2010
211	जेसी374696के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महावीर सिंह रावत	01.09.2009
212	जेसी374127डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मेहर सिंह	01.10.2009
213	जेसी375431एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नादाराजन डी.	01.11.2009
214	जेसी371262वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नवल किशोर शर्मा	01.11.2009
215	जेसी372779डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश बौरने	01.11.2009
216	जेसी374813के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज कुमार ओझा	01.01.2010
217	जेसी374120एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजपाल सिंह	01.11.2009
218	जेसी373290के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम निवास	01.10.2009
219	जेसी374221ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम प्रताप सिंह	01.01.2010
220	जेसी372447एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम प्रवेश सिंह	01.09.2009

221	जेसी371757एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम सागर पांडे	01.12.2009
222	जेसी375248के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमा कांत मिश्रा	01.11.2009
223	जेसी372497एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमन के	01.09.2009
224	जेसी373271वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश चन्द	01.11.2009
225	जेसी372585एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश गिरि	01.01.2010
226	जेसी372999ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस लौरूधू राज	01.12.2009
227	जेसी370990एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सधन चंद्रा पात्रा	01.01.2010
228	जेसी374335एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	संजय कुमार शर्मा	01.09.2009
229	जेसी375728एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्री भगवान सिंह	01.01.2010
230	जेसी372961डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुखविंदर सिंह	01.11.2009
231	जेसी373482एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र सिंह	01.01.2010
232	जेसी373701एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश कुमार	01.09.2009
233	जेसी372371एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ठाकुर दास	01.11.2009
234	जेसी374885एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विष्णु दत्त	01.09.2009
235	जेसी373731पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वजीर सिंह छैहल	01.12.2009

गार्डस

236	जेसी402095एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	काशीद मोहन आनंद राव	01.12.2009
237	जेसी402473एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम बाली राय	01.11.2009
238	जेसी402392एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम कुमार	01.10.2009
239	जेसी208273एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम लगन द्विवेदी	01.10.2009
240	जेसी402212एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तोता कण्णन उनियाल	01.09.2009

241	जेसी403228पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बहादुर सिंह	01.12.2009
242	जेसी403212के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्मवीर सिंह	01.12.2009
243	जेसी403184एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश चंद्रा	01.12.2009
244	जेसी402924ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत्येन्द्र दत्त	01.12.2009
245	जेसी402807पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सिया राम दुबे	01.10.2009
246	जेसी403294एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तारा चन्द शर्मा	01.10.2009
247	जेसी403366डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तारा चंद्रा जोशी	01.01.2010

पैराशूट रेजीमेन्ट

248	जेसी412121एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अमर सिंह	01.10.2009
249	जेसी412785पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बच्चू सिंह	01.01.2010
250	जेसी412697वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गावड़े पोपट बाजीराव	01.01.2010
251	जेसी412696डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगमोहन सिंह	01.01.2010
252	जेसी412749के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ललित नारायण सिंह	01.01.2010
253	जेसी412532ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मी नारायण	01.11.2009
254	जेसी412685के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहन सिंह	01.12.2009
255	जेसी412466एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रंजीत सिंह	01.10.2009
256	जेसी412533एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सोबन सिंह रावत	01.10.2009
257	जेसी412622एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तुषार कान्ति मोहंती	01.12.2009

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

258	जेसी225978के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरमीत सिंह	01.09.2009
259	जेसी418136ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रतन सिंह	01.09.2009

260	जेसी419460के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलदेव सिंह	01.09.2009
261	जेसी419566डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जोर्ज वीसी	01.10.2009
262	जेसी418565एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गोकुल राम	01.10.2009
263	जेसी419372एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मन चन्द	01.01.2010
264	जेसी419511एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश सिंह	01.01.2010
265	जेसी419745डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेश्वर राम	01.01.2010
266	जेसी419340एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुनील कुमार के एन	01.01.2010
267	जेसी419292डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	थम बहादुर पुन	01.12.2009
268	जेसी418782एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विरेन्दरा कुमार अवस्थी	01.10.2009

पंजाब रेजीमेंट

269	जेसी428227एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरमीत सिंह	01.09.2009
270	जेसी428614एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कृष्णापाल सिंह	01.12.2009
271	जेसी429314एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अमरजीत सिंह	01.09.2009
272	जेसी429442पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाबू राम	01.11.2009
273	जेसी429487पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबीर चन्द	01.11.2009
274	जेसी429536एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	01.01.2010
275	जेसी428962एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलकार सिंह	01.11.2009
276	जेसी429441एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हंस राज	01.01.2010
277	जेसी429296ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जरनैल सिंह वशिष्ठ	01.12.2009
278	जेसी429710एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जीत कुमार	01.01.2010
279	जेसी429837डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेश चंद्र	01.01.2010

280	जेसी429561एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरेंदर सिंह ठाकुर	01.11.2009
281	जेसी428950वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	निरवाईर सिंह	01.09.2009
282	जेसी429476एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	01.11.2009
283	जेसी429345एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत पौल	01.01.2010
284	जेसी429060एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतवीन्द्र सिंह	01.12.2009
285	जेसी429119ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शाराम सिंह	01.11.2009
286	जेसी429644डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश चन्द	01.01.2010

मद्रास रेजीमेन्ट

287	जेसी438541वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ससिधरन पीएम	01.11.2009
288	जेसी438114एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वासुदेवन एम	01.10.2009
289	जेसी439124वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बी नागराज	01.01.2010
290	जेसी438840एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्णन एम	01.01.2010
291	जेसी548310एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहानन टीआर	01.12.2009
292	जेसी439522ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एन राजेंद्रा	01.01.2010
293	जेसी439010एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पी कृष्णास्वामी	01.01.2010
294	जेसी438870पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रकासन के	01.09.2009
295	जेसी439085एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजन पिल्लई के.एस	01.01.2010
296	जेसी438741पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेन्द्रियन के	01.10.2009

ग्रेनेडियर्स

297	जेसी448658एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गोपी राम पुनिया	01.12.2009
298	जेसी448215के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ज्ञान चन्द	01.09.2009

299	जेसी448489पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कमल जाखू भाई मुलजी	01.09.2009
300	जेसी448711एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	महाबीर प्रसाद	01.11.2009
301	जेसी448432ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	महावीर सिंह यादव	01.01.2010
302	जेसी448630एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्रा सिंह	01.10.2009
303	जेसी449249के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भीम सिंह गूजर	01.11.2009
304	जेसी449428के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जय सिंह	01.11.2009
305	जेसी449941एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लियाकम अली	01.01.2010
306	जेसी449145एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेंद्र सिंह	01.11.2009
307	जेसी449487डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नवाब अली	01.10.2009
308	जेसी450018ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रहलाद	01.01.2010
309	जेसी450011डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पुर्षोत्तम चन्द कटोच	01.01.2010
310	जेसी449061पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	साही राम	01.01.2010
311	जेसी449472एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	संतोष कुमार शर्मा	01.11.2009
312	जेसी449962एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	संतोष सिंह	01.01.2010
313	जेसी450103एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत्य नारायण	01.01.2010
314	जेसी449418ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्यामबीर सिंह तोमर	01.10.2009
315	जेसी449750डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश कुमार धलोच	01.01.2010

मराठा लघु सेना

316	जेसी220160एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दसरथ बाबू चौहान	01.01.2010
317	जेसी488234एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	देशमुख रावसाहेब सुकदेव	01.12.2009
318	जेसी212869वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	फकीरप्पा मानागुट्टी	01.10.2009

319	जेसी205524पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	घोरपडे विष्णु भगवान	01.09.2009
320	जेसी130877एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगातप गजानन नारायण	01.12.2009
321	जेसी216495एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पनालकर पांडुरंग भीमराव	01.12.2009
322	जेसी222655डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पत्रेप्पा यलप्पा अद्वी	01.11.2009
323	जेसी205511एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम भाउ दनवे	01.01.2010
324	जेसी204018एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शेवाले हिम्मतराव रतन	01.10.2009
325	जेसी458802एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अनवर	01.10.2009
326	जेसी458805डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चान्द्राकान्त तुकाराम मांडे	01.01.2010
327	जेसी458497एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चव्हाण कृष्णाराव मारुति	01.10.2009
328	जेसी458687एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हनामन्त देशवाल	01.01.2010
329	जेसी458595एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुम्भार चान्द्राकान्त गुन्दू	01.09.2009
330	जेसी458725वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लोखारे संदीपन दत्तू	01.10.2009
331	जेसी458204एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मधुकर रामजी माने	01.10.2009
332	जेसी458816एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पारित सम्पत शंकर	01.10.2009
333	जेसी458774एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पास्ते तानाजी	01.09.2009
334	जेसी458428एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेन्द्रन ए	01.10.2009
335	जेसी458869एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सावंत दाराराम विठल	01.10.2009
336	जेसी458481डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्रीसैल मल्लेशप्पा यालामाली	01.12.2009

राजपूताना राईफल्स

337	जेसी468306पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भवानी सिंह शेखावत	01.11.2009
338	जेसी468853के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	छोटू लाल	01.11.2009

339	जेसी216783एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	फजरू खान	01.09.2009
340	जेसी469380एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अजमत सिंह	01.11.2009
341	जेसी469312पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दनेश्वर प्रताप सिंह	01.11.2009
342	जेसी469614एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्म सिंह	01.01.2010
343	जेसी469549एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेश चन्द	01.09.2009
344	जेसी469633एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद मुमताज खान	01.01.2010
345	जेसी469009एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोरध्वज सिंह	01.12.2009
346	जेसी469554एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नारायण सिंह	01.01.2010
347	जेसी469508एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्रा सिंह	01.09.2009
348	जेसी469381एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पवन कुमार	01.12.2009
349	जेसी469712एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज किशोर सिंह	01.09.2009
350	जेसी469289एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र कुमार	01.01.2010
351	जेसी469115एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम सिंह मोजावत	01.10.2009
352	जेसी469471एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रंजीत सिंह	01.09.2009
353	जेसी469470के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ऋषू देवेन	01.11.2009
354	जेसी469419के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रोहताश कुमार	01.01.2010
355	जेसी468917के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	संजीव सिंह	01.11.2009
356	जेसी469359ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत्यवीर सिंह पट्टार	01.12.2009
357	जेसी469315एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तेजा राम जाट	01.01.2010

राजपूत रेजीमेन्ट

358	जेसी478245डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बदन सिंह गूजर	01.09.2009
-----	-------------------	---------------------------------	---------------	------------

359	जेसी478089एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	धन सिंह	01.12.2009
360	जेसी478670एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम निवास	01.10.2009
361	जेसी478518एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सतीश चन्द	01.12.2009
362	जेसी479560वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बजरंग लाल गूजर	01.10.2009
363	जेसी478894एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जनक सिंह गूजर	01.10.2009
364	जेसी478777डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कष्णन कुमार सिंह	01.10.2009
365	जेसी479485ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मनोरंजन ओझा	01.01.2010
366	जेसी479473एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजिन्दर सिंह गोड़	01.09.2009
367	जेसी478906एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजवीर सिंह परमार	01.09.2009
368	जेसी478893वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम किशन	01.10.2009
369	जेसी479161पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रनवीर सिंह	01.09.2009
370	जेसी479557वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवीन्द्र कुमार शर्मा	01.01.2010
371	जेसी479341एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रोहिताश	01.09.2009
372	जेसी478539के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	संतोष कुमार सिंह	01.09.2009
373	जेसी479546एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुबेदार सिंह	01.09.2009
374	जेसी479275ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वीरेंद्र सिंह	01.11.2009

जाट रेजीमेन्ट

375	जेसी488199ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	श्रवण कुमार	01.11.2009
376	जेसी489218एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बच्चू सिंह	01.11.2009
377	जेसी489475के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्मात्मा नन्द कुंवर	01.01.2010
378	जेसी489087एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	इश्वर सिंह	01.01.2010

379	जेसी489096एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राधे श्याम	01.11.2009
380	जेसी489173एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजा राम	01.11.2009
381	जेसी489525के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिव राम सिंह	01.01.2010
382	जेसी489474एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय सिंह सैनी	01.01.2010

सिख रेजीमेन्ट

383	जेसी498339पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राज बहादुर ढाका	01.12.2009
384	जेसी498268वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजभूशन्न के.ए	01.12.2009
385	जेसी498066एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	त्रिलोक सिंह	01.11.2009
386	जेसी499009एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अमरीक सिंह	01.01.2010
387	जेसी498964डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अवतार सिंह	01.09.2009
388	जेसी498656डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बहादुर सिंह	01.01.2010
389	जेसी499073ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	संजय प्रसाद सिंह	01.01.2010
390	जेसी498534एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सविद्र सिंह	01.01.2010
391	जेसी498860पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुखदेव सिंह	01.10.2009
392	जेसी498929एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुखदेव सिंह	01.10.2009
393	जेसी498894एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वकील सिंह	01.12.2009

सिख लघु पैदल सेना

394	जेसी508005डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अवतार सिंह	01.12.2009
395	जेसी508267एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हिम्मत सिंह	01.01.2010
396	जेसी508405एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पूरन सिंह	01.12.2009
397	जेसी508345वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रामपाल राना	01.09.2009

398	जेसी226897डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	01.09.2009
399	जेसी508754एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलदेव सिंह	01.01.2010
400	जेसी508722के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गजराज सिंह	01.11.2009
401	जेसी508174एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरमुख सिंह	01.11.2009
402	जेसी509047पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरनाम सिंह	01.12.2009
403	जेसी509246एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	इंद्रजीत सिंह	01.01.2010
404	जेसी508858एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	केवल सिंह	01.01.2010
405	जेसी508873एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मेहर सिंह	01.10.2009
406	जेसी508582एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतनाम सिंह	01.10.2009
407	जेसी508621डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरजीत सिंह बोगल	01.09.2009
408	जेसी509029एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	त्रिलोचन सिंह	01.11.2009
409	जेसी508982पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	यदविन्दर सिंह	01.10.2009

डोगरा रेजीमेन्ट

410	जेसी518531एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बैनी चन्द	01.01.2010
411	जेसी518543एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कमलेश चन्द	01.01.2010
412	जेसी519026एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रोमेश सिंह,	01.09.2009
413	जेसी518901एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुन्दर सिंह ठाकुर	01.10.2009
414	जेसी519513एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलदेव सिंह	01.11.2009
415	जेसी519708एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश चन्द	01.01.2010
416	जेसी519835एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश चन्द पटियाल	01.11.2009
417	जेसी519693ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मखोली राम	01.10.2009

418	जेसी519669के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मनोहर सिंह	01.09.2009
419	जेसी519989वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पर्शोतम लाल	01.11.2009
420	जेसी519700एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम पाल	01.12.2009
421	जेसी519688पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवीन्द्र सिंह	01.12.2009
422	जेसी519698वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शाविल सिंह	01.11.2009
423	जेसी519739एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शेर सिंह	01.11.2009

गढ़वाल राईफल्स

424	जेसी528329एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दिग्विजय जोशी	01.12.2009
425	जेसी528540एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मातबर सिंह	01.01.2010
426	जेसी528654एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्रा बल्लभ	01.11.2009
427	जेसी528241वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम सिंह	01.09.2009
428	जेसी528681एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम सिंह	01.10.2009
429	जेसी528984एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेन्द्रा सिंह	01.01.2010
430	जेसी529679एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवंत सिंह	01.10.2009
431	जेसी529706ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवंत सिंह	01.01.2010
432	जेसी529324डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भरत सिंह	01.10.2009
433	जेसी529741एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिरेन्द्रा सिंह	01.09.2009
434	जेसी529545एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बृज पाल सिंह	01.01.2010
435	जेसी529211एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चांदी प्रसाद	01.10.2009
436	जेसी529804ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुमान सिंह	01.09.2009
437	जेसी529724एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जयपाल सिंह	01.01.2010

438	जेसी529421एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुंदन सिंह	01.11.2009
439	जेसी529340डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	माधो सिंह	01.09.2009
440	जेसी529422डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महावीर सिंह	01.10.2009
441	जेसी529167पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेंद्र सिंह	01.12.2009
442	जेसी529023एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरेन्द्रा सिंह	01.01.2010
443	जेसी529414एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रताप सिंह	01.10.2009
444	जेसी529632डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रवीनद्रा सिंह	01.01.2010
445	जेसी529480ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र सिंह,	01.09.2009
446	जेसी529755एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राकेश चंद्र	01.01.2010
447	जेसी529760एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम चरण प्रसाद	01.09.2009
448	जेसी529756एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	संग्राम सिंह	01.01.2010
449	जेसी529453डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शूरबीर सिंह	01.01.2010
450	जेसी529223एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेन्द्रा सिंह	01.01.2010
451	जेसी529768ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	त्रिलोक सिंह	01.01.2010

कुमोंउ रेजीमेन्ट

452	जेसी538067एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गजेन्द्र सिंह	01.09.2009
453	जेसी538062एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्रा सिंह नगरकोटी	01.09.2009
454	जेसी539425एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार सिंह	01.12.2009
455	जेसी539352डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवीर सिंह	01.12.2009
456	जेसी539493एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बसंत बल्लभ जोशी	01.01.2010
457	जेसी539365एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हिमत सिंह	01.12.2009

458	जेसी538704डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	होशियार सिंह	01.10.2009
459	जेसी538884के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नारायण सिंह जमजयाल	01.12.2009
460	जेसी539373एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	01.01.2010
461	जेसी539190डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रताप सिंह गरिया	01.10.2009
462	जेसी539150पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश सिंह	01.01.2010
463	जेसी539268डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामवतार	01.11.2009
464	जेसी539411एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शम्भू यादव	01.01.2010
465	जेसी539275एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्याम दत्त	01.12.2009
466	जेसी539776एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सूबे सिंह	01.09.2009
467	जेसी539811के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेन्द्रा सिंह बिष्ट	01.09.2009
468	जेसी539489एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	यशवंत सिंह	01.11.2009

आसाम रेजीमेन्ट

469	जेसी548133डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हेम नारायण मल्लिक	01.10.2009
470	जेसी107849एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	इंद्रदेव पांडे	01.09.2009
471	जेसी548140एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जतिन चंद्रा रौय	01.12.2009
472	जेसी548879एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अरूप गोगोई	01.09.2009
473	जेसी549067एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाबा सेना सिंघा	01.01.2010
174	जेसी548742ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एच जाँय चंद्रा सिंघा	01.11.2009
475	जेसी548900के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	के सतखोसाई कुकी	01.11.2009
476	जेसी548699के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कला सेना सिन्हा	01.10.2009
477	जेसी548815एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नैनाछिनाओ ज़ोयु	01.01.2010

478	जेसी549107एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पबि मेधी	01.09.2009
479	जेसी548618वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	समरेन्द्र सिन्हा	01.10.2009
480	जेसी549160एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शेर बहादुर छत्री	01.01.2010

बिहार रेजीमेन्ट

481	जेसी224274एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	श्रीनिवास मलिक	01.09.2009
482	जेसी559327वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अर्जुन कुमार सिंह	01.12.2009
483	जेसी559124पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देवेन्द्र सिंह	01.12.2009
484	जेसी559053वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरे राम सिंह	01.01.2010
485	जेसी558916एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ईश्वर चंद्रा राउत्रे	01.01.2010
486	जेसी559087एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कपीलदेव प्रसाद	01.01.2010
487	जेसी559300एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुशेश्वर सिंह	01.01.2010
488	जेसी558924एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महेश्वर राय	01.12.2009
489	जेसी558950एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पबि कुमार पंडा	01.01.2010
490	जेसी558787एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम कुमार सिंह	01.12.2009
491	जेसी558986एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामेश्वर राय	01.01.2010
492	जेसी558914एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतेंद्र प्रसाद सिंह	01.09.2009
493	जेसी558781एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुनील कुमार चौधरी	01.12.2009
494	जेसी559140एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उमा कांत प्रसाद यादव	01.09.2009
495	जेसी559205पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विद्यार्थी यादव	01.12.2009

महार रेजीमेन्ट

496	जेसी568202एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गुरबचन सिंह	01.11.2009
-----	--------------	---------------------------------	-------------	------------

497	जेसी568276एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ज्ञान चन्द	01.10.2009
498	जेसी109488एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जागीर सिंह	01.10.2009
499	जेसी568275पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	करमबीर सिंह	01.09.2009
500	जेसी568360एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रमेश चन्द	01.10.2009
501	जेसी568177पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुधीर रामदास अहीरे	01.10.2009
502	जेसी569374के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गोविंद सिंह	01.11.2009
503	जेसी569502डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरी दत्त भाट	01.09.2009
504	जेसी569503वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पारस नाथ यादव	01.01.2010
505	जेसी568492एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रेम पौल	01.10.2009
506	जेसी569346एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राधे श्याम	01.09.2009
507	जेसी569009एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रतन चन्द	01.01.2010
508	जेसी569600डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुखदेव सिंह	01.01.2010
509	जेसी569458एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र कुमार	01.01.2010
510	जेसी569077डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तारा चन्द	01.12.2009
511	जेसी569737एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	विजय कुमार सिंह	01.01.2010

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

512	जेसी578700एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अब्दुल खईयूम	01.10.2009
513	जेसी579044वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगजीत सिंह	01.09.2009
514	जेसी579090एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुदर्शन कुमार शर्मा	01.09.2009
515	जेसी579567एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अनिल कुमार	01.12.2009
516	जेसी579525एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशवनी कुमार राना	01.09.2009

517	जेसी579713एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवंत सिंह	01.12.2009
518	जेसी579540ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देस राज जसवाल	01.12.2009
519	जेसी579646एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्म पौल	01.01.2010
520	जेसी579953के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गुरबचन सिंह	01.11.2009
521	जेसी579737डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जसवीर सिंह	01.01.2010
522	जेसी578878वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	झाबिंद्रा घिमीरा	01.01.2010
523	जेसी579610एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	किकर सिंह	01.11.2009
524	जेसी579670एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मदन लाल	01.12.2009
525	जेसी579629डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश	01.01.2010
526	जेसी579699एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रिथी चन्द	01.12.2009
527	जेसी579589डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रछपाल सिंह	01.09.2009
528	जेसी579841के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज पौल	01.12.2009
529	जेसी579316एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतेंद्र सिंह छत्री	01.09.2009
530	जेसी579736एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शिव कुमार	01.12.2009
531	जेसी579077के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुनील कुमार	01.09.2009
532	जेसी579199एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	टेक बहादुर	01.10.2009
533	जेसी578967एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	थमन बहादुर खत्री	01.01.2010
534	जेसी579575डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	तिलक राज	01.12.2009
535	जेसी579526एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उत्तातम सिंह	01.09.2009

लघ्दाख स्काउट

536	जेसी220838एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सोनम मुरूप	01.11.2009
-----	--------------	---------------------------------	------------	------------

537	जेसी588029एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रिगजिन दोर्जे	01.09.2009
538	जेसी588168पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सोनम छेरिंग	01.09.2009
<u>नागा रेजीमेन्ट</u>				
539	जेसी590046के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम चंद्र सिंह	01.11.2009
540	जेसी590167एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	होम बहादुर थापा	01.01.2010
541	जेसी590154एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जय प्रकाश टी	01.10.2009
542	जेसी590165ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	वीरेंद्र सिंह थापा	01.10.2009
<u>जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल</u>				
543	जेसी592374डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दिलावर सिंह	01.12.2009
544	जेसी592929एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अब्दुल हमीद	01.12.2009
545	जेसी592413के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार	01.10.2009
546	जेसी592540एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार	01.01.2010
547	जेसी592869एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बाबू राम	01.01.2010
548	जेसी592572एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	01.10.2009
549	जेसी593061के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भरत भूषण	01.09.2009
550	जेसी592575पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिक्रम सिंह	01.01.2010
551	जेसी593037एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगदीश कुमार	01.10.2009
552	जेसी593119डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जसवंत सिंह	01.12.2009
553	जेसी592714एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	काली दास	01.10.2009
554	जेसी592602एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कमल लाल	01.01.2010
555	जेसी593008वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्णन लाल	01.10.2009

556	जेसी592550एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद गुलज़ार	01.09.2009
557	जेसी592785एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद नाज़रि	01.09.2009
558	जेसी592277वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मुश्ताक अहमद	01.09.2009
559	जेसी592700एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रछपाल सिंह	01.01.2010
560	जेसी592876वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज कुमार	01.10.2009
561	जेसी593136डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज सिंह	01.09.2009
562	जेसी592780डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रतन लाल	01.01.2010
563	जेसी592819एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शंकर सिंह	01.09.2009
564	जेसी593180ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस सिंह	01.09.2009
565	जेसी592831वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरिन्दर कुमार	01.01.2010

1 गोरखा राईफल्स

566	जेसी602078एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	अनिल कुमार कंवर	01.01.2010
567	जेसी602529डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देवी राम थापा	01.01.2010
568	जेसी602501डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	फौदा सिंह गुरंग	01.01.2010
569	जेसी602468के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गंगा बहादुर थापा	01.10.2009
570	जेसी602438एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लाल बहादुर राना	01.10.2009
571	जेसी602530एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पूर्णा बहादुर गुरंग	01.12.2009
572	जेसी602540पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सत बहादुर गुरंग	01.10.2009
573	जेसी602484एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	टुल बहादुर गुरंग	01.11.2009

3 गोरखा राईफल्स

574	जेसी607255ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मेध बहादुर थापा	01.12.2009
-----	-------------	---------------------------------	-----------------	------------

575	जेसी607459एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिसनु बहादुर थापा	01.01.2010
576	जेसी607465ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोती बहादुर गुरंग	01.09.2009

4 गोरखा राईफल्स

577	जेसी612069एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्रा नाथ गोले	01.10.2009
578	जेसी612214ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुबाष चंद्र	01.12.2009
579	जेसी612512डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सूरजा बहादुर गुरंग	01.09.2009

5 गोरखा राईफल्स

580	जेसी617174एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बी मान गुरंग	01.12.2009
581	जेसी617611एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा बहादुर पुन	01.01.2010
582	जेसी617652एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धन प्रसाद गुरंग	01.01.2010
583	जेसी617588एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मती लाल थापा	01.12.2009
584	जेसी617593एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सूरवीर सिंह गुरंग	01.12.2009

8 गोरखा राईफल्स

585	जेसी623034एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	देब बहादुर गुरंग	01.12.2009
586	जेसी623070एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	केदार सिंह गुरंग	01.12.2009
587	जेसी623575वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भक्ता बहादुर थापा	01.11.2009
588	जेसी623533एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भीम बहादुर छत्री	01.01.2010
589	जेसी623535एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भीम बहादुर थापा	01.10.2009
590	जेसी623659एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दल बहादुर थापा	01.09.2009
591	जेसी623440एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दुर्गा बहादुर थापा	01.12.2009
592	जेसी623486ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	करन थापा	01.09.2009

593	जेसी623481एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रोविन राना,	01.01.2010
-----	--------------	----------------------------	-------------	------------

9 गोरखा राईफल्स

594	जेसी629321एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिमल कुमार	01.12.2009
595	जेसी629494पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दीपक छत्री	01.12.2009

11 गोरखा राईफल्स

596	जेसी634033पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा बहादुर सुब्बा	01.11.2009
597	जेसी634064पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम कुमार लिम्बू	01.01.2010
598	जेसी634424ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	खुर्पा राज लिम्बू	01.12.2009
599	जेसी634406एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मान बहादुर तमंग	01.01.2010
600	जेसी634451के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुक बीर तमंग	01.01.2010

सेना सेवा कोर दक्षिण

601	जेसी640923एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	आत्मा राम मिश्रा	01.11.2009
602	जेसी662167के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बाला गोपालन वी	01.12.2009
603	जेसी215553एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कर्म चन्द शर्मा	01.09.2009
604	जेसी104329डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एम मोहम्मद उजीर असादिक	01.11.2009
605	जेसी640671के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मुरुगेसन सी	01.09.2009
606	जेसी640664एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	नरेश चंद्र उपाध्याय	01.09.2009
607	जेसी661167एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ओम प्रकाश जोशी	01.01.2010
608	जेसी640935ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एस सुरेश कुमार	01.12.2009
609	जेसी217847के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	व्यास मिश्रा	01.12.2009
610	जेसी661737एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	वानवे पांडुरंग विथल	01.09.2009

611	जेसी641972ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बंशी धर	01.10.2009
612	जेसी662659एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिंदेश्वर प्रसाद	01.12.2009
613	जेसी662746डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिरेन्द्र सिंह	01.01.2010
614	जेसी641112एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चौहान हेमत संग खिमाजी	01.11.2009
615	जेसी662690पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धर्म चन्द	01.12.2009
616	जेसी662651डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरी कांत द्विवेदी	01.10.2009
617	जेसी663037एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरिन्द्र कुमार	01.01.2010
618	जेसी641853के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जगजीत सिंह	01.09.2009
619	जेसी641856एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कन्हैया राम	01.09.2009
620	जेसी642254डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कर्म चन्द	01.12.2009
621	जेसी642835एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	माम चन्द सिंह	01.09.2009
622	जेसी662647एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मास्टर लाल	01.09.2009
623	जेसी642694के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहानन पिल्लई वी एन	01.12.2009
624	जेसी662692ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	निपेन कलिता	01.12.2009
625	जेसी642412ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ओम पाल	01.01.2010
626	जेसी641470एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	परमजीत सिंह	01.11.2009
627	जेसी641858एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रेम पाल सिंह	01.09.2009
628	जेसी642226के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजबीर सिंह	01.01.2010
629	जेसी662710एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम चंद्र	01.09.2009
630	जेसी662899ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामचंद्र सिंह चौहान	01.12.2009
631	जेसी641424एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमेश पांडे	01.10.2009

632	जेसी642826एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रतन सिंह	01.01.2010
633	जेसी662817एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवीन्द्र कुमार	01.11.2009
634	जेसी642137एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ऋषि प्रकाश दहिया	01.12.2009
635	जेसी642834एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शांती स्वरूप पांडे	01.10.2009
636	जेसी642527एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	संतोष कुमार	01.01.2010
637	जेसी663237के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सहरदेव माझी	01.11.2009
638	जेसी642483एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्रीपाल	01.10.2009
639	जेसी642404एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सोहन लाल	01.12.2009
640	जेसी662684एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	टेक चन्द शर्मा	01.01.2010
641	जेसी641852एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उदया कुमारन पी	01.09.2009

सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

642	जेसी680165एफ	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दुर्गा राम खाती	01.09.2009
643	जेसी680222एक्स	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राज कुमार जोशी	01.12.2009
644	जेसी680766एम	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	छामी टी के	01.09.2009
645	जेसी680746वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	राजवीर सिंह	01.11.2009
646	जेसी680736पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	सत्य नारायण शर्मा	01.10.2009

सेना चिकित्सा कोर

647	जेसी692390एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	आनंदा रमा वानखेडे	01.12.2009
648	जेसी691140पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बाबन राय	01.12.2009
649	जेसी692701एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भंवर लाल	01.10.2009
650	जेसी692403पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भीमासैन नायक	01.01.2010

651	जेसी692387एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जय नारायन सिंह	01.12.2009
652	जेसी693604ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जीवन सिंह	01.01.2010
653	जेसी690544एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	के बास्कर	01.10.2009
654	जेसी692391एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कृष्णा कुमार रावत	01.12.2009
655	जेसी690346ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	महेंद्र सिंह	01.10.2009
656	जेसी692383एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	पिथा राम	01.10.2009
657	जेसी692374एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	आर साल्वेंद्रन	01.09.2009
658	जेसी692384पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रामेश्वर ओझा	01.11.2009
659	जेसी692238पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	शक्ति पाडा गोस्वामी	01.01.2010
660	जेसी692874एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	त्रिलोकीनाथ गोस्वामी	01.01.2010
661	जेसी691540एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	विजय शंकर शर्मा	01.11.2009
662	जेसी694581डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिक्रम सिंह के	01.01.2010
663	जेसी694156एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुंदन लाल वर्मा	01.10.2009
664	जेसी691925वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पी दुराईसामी	01.09.2009
665	जेसी695112ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रसाद के	01.10.2009
666	जेसी693007एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शांती नाथ डे	01.11.2009

सेना आयुध कोर

667	जेसी723093वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	बदारी नारायण हाजरा	01.10.2009
668	जेसी723308एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरेन्द्र सिंह	01.12.2009
669	जेसी722712पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगदीश चंद्र खजुरिया	01.09.2009
670	जेसी722768एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	मोहानन के	01.09.2009

671	जेसी723028वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	एन एस वेदीवेल	01.10.2009
672	जेसी723189एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रभात कुमार	01.01.2010
673	जेसी722771एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम मिलन	01.01.2010
674	जेसी723072एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तुलसी राम	01.09.2009
675	जेसी724659एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दीप राज भान	01.12.2009
676	जेसी723648पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	के प्रकाश	01.09.2009
677	जेसी724818ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कैलाश नाथ सिंह	01.01.2010
678	जेसी724916ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मी कांत शुक्ला	01.11.2009
679	जेसी723910एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मुनि राम	01.10.2009
680	जेसी725085वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	उपेन्द्रा नारायण पांडे	01.12.2009
681	जेसी723973पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्रा कुमार चतुर्वेदी	01.01.2010
682	जेसी724390वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामायण प्रसाद वर्मा	01.12.2009
683	जेसी725547ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	एस के असगर अली	01.12.2009
684	जेसी724743एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शत्रुघन मिश्रा	01.12.2009
685	जेसी724579डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्याम लाल यादव	01.09.2009
686	जेसी724666के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्रीराम तिवारी	01.01.2010
687	जेसी723911पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेन्द्रा सिंह चौहान	01.12.2009
688	जेसी724813एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	टेक चन्द शर्मा	01.01.2010
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स				
689	जेसी750821एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	भदेष्वर चौधुरी	01.11.2009
690	जेसी750819ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	धरुमवीर	01.11.2009

691	जेसी748074वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	दयाल सिंह	01.01.2010
692	जेसी752976एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गजेंद्रापाल सिंह	01.10.2009
693	जेसी752977एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गौरव सिंह	01.09.2009
694	जेसी748564एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	गिरजा शंकर	01.10.2009
695	जेसी748825पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	ईश्वर चंद्रा समानत्रे	01.01.2010
696	जेसी750061ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जय प्रकाश यादव	01.01.2010
697	जेसी748730पी	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कालंदी चंद्रा सामल	01.10.2009
698	जेसी748742के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कल्याण दत्ताता	01.12.2009
699	जेसी123862ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कमला प्रसाद पांडे	01.11.2009
700	जेसी748264एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	करनैल सिंह	01.10.2009
701	जेसी751185एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रफुल्ल कुमार पल्लै	01.09.2009
702	जेसी748197एल	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्राणबंधु नायक	01.12.2009
703	जेसी748249डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रछपाल सिंह मन्हास	01.10.2009
704	जेसी753721एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राधे श्याम दीक्षित	01.01.2010
705	जेसी751159ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रघुवीर सिंह	01.11.2009
706	जेसी748179एच	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राम प्यारे प्रसाद	01.09.2009
707	जेसी751153वाइ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रणधीर सिंह धनकर	01.09.2009
708	जेसी747097एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	रतन चन्द शर्मा	01.11.2009
709	जेसी748822एफ	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सिलवैस्टर सोरंग	01.01.2010
710	जेसी751068डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेन्द्रा सिंह	01.01.2010
711	जेसी755649एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	अशोक कुमार सामल	01.11.2009

733	जेसी750411एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मेथ्यू कुट्टी जैकब	01.10.2009
734	जेसी758639एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नरेश्वर बर्मन	01.10.2009
735	जेसी755969ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	निताइ चंद्रा सरकार	01.09.2009
736	जेसी758230एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	परषोम सिंह	01.11.2009
737	जेसी752681पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पूर्णा चंद्रा ब्रमा	01.11.2009
738	जेसी756539एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज नारायण गिरि	01.10.2009
739	जेसी750417एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेंद्र सिंह	01.10.2009
740	जेसी170667एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राजेश्वर मिश्रा	01.09.2009
741	जेसी753471एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम नारायण शर्मा	01.01.2010
742	जेसी759241के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम नरेश यादव	01.09.2009
743	जेसी755418पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सिबस्टियन थामस	01.09.2009
744	जेसी759250एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्री चन्द सिंह	01.10.2009
745	जेसी758633एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्याम लाल	01.10.2009
746	जेसी752660वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेन्द्रन पिल्लई वीआर	01.10.2009
747	जेसी756313एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरजीत सिंह	01.11.2009
748	जेसी758294डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुशील कुमार शुक्ला	01.01.2010
749	जेसी752661एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	योगेन्द्रा प्रताप सिंह	01.10.2009

सेना शिक्षा कोर

750	जेसी217156एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कल्याण सिंह	01.09.2009
751	जेसी216189डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	लक्ष्मी नारायण	01.01.2010
752	जेसी217174ए	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	सुरेंद्र पाल	01.01.2010

712	जेसी753109एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	01.11.2009
713	जेसी758643पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बस्कू नाथ पांडे	01.01.2010
714	जेसी752648एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बिपुल च. बोराह	01.09.2009
715	जेसी753307वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बृज बिहारी	01.11.2009
716	जेसी754624एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	डेनिस कुरियन	01.10.2009
717	जेसी757942एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	देवआन्नद ठाकुर	01.10.2009
718	जेसी750803पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	धुरुव सिंह	01.10.2009
719	जेसी754299एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ध्रुव नारायण द्विवेदी	01.09.2009
720	जेसी751561के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिनेश चंद्र	01.11.2009
721	जेसी755468ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिनेश चंद्र	01.10.2009
722	जेसी755151एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	द्वारिका नाथ राय	01.01.2010
723	जेसी750623एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गंगाधर साहू	01.10.2009
724	जेसी752889एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	गोपाल दत्ता	01.09.2009
725	जेसी753210एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	हरिदासन पी	01.09.2009
726	जेसी756850एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कबीराजा जैना	01.10.2009
727	जेसी753822एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कोना बाबू राव	01.11.2009
728	जेसी751763एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लाल चन्द्र	01.01.2010
729	जेसी753303एच	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ललित मोहन सिंह	01.09.2009
730	जेसी751378एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	महावीर प्रसाद नाई	01.10.2009
731	जेसी750908वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मल्लेशवरा राव छिलमकुर्ती	01.12.2009
732	जेसी753022एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मानिक चंद्रा कर्माकर	01.12.2009

753	जेसी802447एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	भूप सिंह	01.09.2009
754	जेसी802751एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज पाल सिंह	01.11.2009
755	जेसी802750वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रामानन्द यादव	01.10.2009
756	जेसी802460एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सतीश चंद्रा	01.10.2009
757	जेसी802465ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	शस्ती प्रसाद पांडे	01.12.2009
758	जेसी802462एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्याम नारायण दुबे	01.11.2009

रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर

759	जेसी797090ए	रिसालदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	कैलाश प्रसाद सिंह	01.01.2010
760	जेसी797184एक्स	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	अलख निरंजन शर्मा	01.01.2010
761	जेसी797352एल	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	चंद्रा भूषण चौबे	01.12.2009
762	जेसी797257वाइ	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	लाल मान	01.12.2009
763	जेसी797345पी	रिसालदार एवं अवैतनिक लै.	श्री राम	01.11.2009

आसुचना कोर

764	जेसी810385एक्स	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	राथीश कुमार एस	01.01.2010
765	जेसी218734एन	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	तरसेम सिंह	01.01.2010
766	जेसी810265वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	चरनजीत सिंह सेखों	01.01.2010
767	जेसी810548ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दिलवर सिंह	01.01.2010
768	जेसी810621एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दीना नाथ	01.01.2010
769	जेसी810209ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ज्ञान सिंह	01.09.2009
770	जेसी810252एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जय किशन राना	01.01.2010
771	जेसी810506एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कृष्णापाल सिंह नगर	01.10.2009

772	जेसी810169के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कुलदीप सिंह	01.10.2009
773	जेसी810090एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मुसाफिर यादव	01.09.2009
774	जेसी810372ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	प्रेम सिंह	01.01.2010
775	जेसी810551ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	श्याम लाल	01.01.2010
776	जेसी810235एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सुरेश चंद्रा देशवाल	01.09.2009

सेना पुलिस कोर

777	जेसी818319के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	हरी ओम सिंह	01.11.2009
778	जेसी108323एम	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	प्रेम चन्द शर्मा	01.09.2009
779	जेसी818737वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बदारी प्रसाद	01.09.2009
780	जेसी818830ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राज कुमार	01.01.2010
781	जेसी818771वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रमा शंकर शर्मा	01.12.2009

सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

782	जेसी826133पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कदम सुरेश संदीपन	01.12.2009
-----	--------------	----------------------------	------------------	------------

पायोनियर कोर

783	जेसी829286के	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	मोहम्मद बाबू मिआ चौधुरी	01.12.2009
784	जेसी829285एफ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	सवालिया प्रसाद	01.12.2009

रक्षा सुरक्षा कोर

785	जेसी840428डब्ल्यू	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	यधूनाथ सिंह	01.09.2009
786	जेसी840610डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	ज्ञान चन्द	01.11.2009
787	जेसी841111एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कलवंत सिंह	01.12.2009

प्रदेशिक सेना

788	टिजे3781के	सुबेदार मेजर एवं अवैतनिक लै.	जगदेव सिंह	01.01.2010
789	टिजे3985डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बदन सिंह	01.10.2009
790	टिजे3060डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलबीर सिंह	01.04.2009
791	टिजे3731वाइ	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवान सिंह	01.08.2009
792	टिजे3851एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवंत सिंह	01.01.2010
793	टिजे4275एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	बलवंत सिंह	01.02.2009
794	टिजे2653ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	च. नरसी रेडी	01.04.2009
795	टिजे5128पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	दोलत कोशल	01.10.2009
796	टिजे4036डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	जितेन्द्रा कुमार	01.06.2009
797	टिजे4116एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	काकडे जलिन्दर मारुति	01.11.2009
798	टिजे4013पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कमल सिंह	01.10.2009
799	टिजे3984एन	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कष्णन औतार	01.10.2009
800	टिजे3465एल	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	कष्णन दत्त	01.11.2009
801	टिजे3771ए	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	लैहर सिंह	01.08.2009
802	टिजे4142पी	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	नगेन्द्रा प्रसाद पांडे	01.12.2009
803	टिजे4186एम	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पी जयराज	01.04.2009
804	टिजे4188एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	पी करुप्पान्न	01.06.2009
805	टिजे3842डब्ल्यू	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	रवीन्द्र सिंह	01.01.2010
806	टिजे5219एक्स	सुबेदार एवं अवैतनिक लै.	राम नाथ सिंह तोमर	01.07.2009

क्यातिर मंजूरी 26 जनवरी 1999 से अवैतनिक कप्तान के रूप में

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

1 जेसी 144408 एन सेवानिवृत सुबेदार मेजर गुरजीत सिंह बाजवा 01-01-1999
एवं अवैतनिक लैं.

अवैतनिक लेफिटनेन्ट के रूप में

केन्द्रीय भारत अश्व			
1 जेसी237900एल	रिसालदार मेजर रोहिताश सिंह मलिक		01.09.2009
<u>66 आर्मड रेजीमेंट</u>			
2 जेसी237349वाइ	रिसालदार मेजर महेश चंद्रा		01.09.2009
3 जेसी238603के	रिसालदार मेजर सनाथ कुमार के		01.12.2009
<u>76 आर्मड रेजीमेंट</u>			
4 जेसी236930डब्ल्यू	रिसालदार मेजर कंवर पाल सिंह गूरगर		01.11.2009
<u>88 आर्मड रेजीमेंट</u>			
5 जेसी237905के	रिसालदार मेजर बीरवल सिंह		01.12.2009
<u>46 आर्मड रेजीमेंट</u>			
6 जेसी237750ए	रिसालदार मेजर पर्शोतम लाल		01.12.2009
<u>15 आर्मड रेजीमेंट</u>			
7 जेसी237070ए	रिसालदार मेजर मोहम्मद एम रहमान		01.11.2009
<u>19 आर्मड रेजीमेंट</u>			
8 जेसी236986एच	रिसालदार मेजर राजेंद्र पाल		01.01.2010
<u>आर्टिलरी रेजीमेंट</u>			
9 जेसी259508एल	सुबेदार मेजर अशोक कुमार सिंह		01.01.2010
10 जेसी259096पी	सुबेदार मेजर बी चेन्नाकेसावल्लु		01.12.2009
11 जेसी256616के	सुबेदार मेजर बाबूराज के के ई		01.01.2010
12 जेसी258066एल	सुबेदार मेजर बालाकृष्णन के		01.12.2009
13 जेसी257252पी	सुबेदार मेजर बलजीत सिंह		01.09.2009
14 जेसी255615पी	सुबेदार मेजर धर्मेन्द्र सिंह		01.09.2009
15 जेसी258485एच	सुबेदार मेजर गनेश राम जाट		01.09.2009
16 जेसी258683एन	सुबेदार मेजर गोपी चन्द जंगीर		01.09.2009
17 जेसी258706के	सुबेदार मेजर मोहर पाल		01.12.2009
18 जेसी258587वाइ	सुबेदार मेजर मुख्तार सिंह		01.09.2009
19 जेसी257153एम	सुबेदार मेजर मुन्नी सिंह		01.12.2009
20 जेसी256678के	सुबेदार मेजर प्रदीप कुमार राजपूत		01.12.2009
21 जेसी255708के	सुबेदार मेजर पर्शोतम चन्द डी.		01.12.2009
22 जेसी256199एच	सुबेदार मेजर प्रदीप कुमार बोस		01.10.2009
23 जेसी255373एक्स	सुबेदार मेजर राजिन्दर सिंह		01.11.2009
24 जेसी257851पी	सुबेदार मेजर रनबीर सिंह यादव		01.12.2009

25	जेसी255512डब्ल्यू सेना वायू सुरक्षा	सुबेदार मेजर	एस पोनु दुरई	01.09.2009
26	जेसी225737के	सुबेदार मेजर	अजीत कुमार	01.09.2009
27	जेसी296862एक्स	सुबेदार मेजर	बी थंगाराज	01.01.2010
28	जेसी221190पी	सुबेदार मेजर	भासकरण ए वी	01.09.2009
29	जेसी296874एम मद्रास इंजीनियर समूह	सुबेदार मेजर	सी कुमारसम	01.09.2009
30	जेसी305612ए	सुबेदार मेजर	हरीकृष्णा पिल्लई आर	01.09.2009
31	जेसी305752एम	सुबेदार मेजर	के चंद्रशेखरन	01.10.2009
32	जेसी305741ए	सुबेदार मेजर	एम आनन्दन	01.12.2009
33	जेसी305754एक्स	सुबेदार मेजर	राजन टिए	01.11.2009
34	जेसी305999एन	सुबेदार मेजर	एस वेदीवेल	01.12.2009
35	जेसी305881एम	सुबेदार मेजर	शाजी जोर्ज	01.12.2009
36	जेसी306061एम	सुबेदार मेजर	सिवा रमन कुट्टी एवी	01.01.2010
37	जेसी306145ए बंगाल इंजीनियर समूह	सुबेदार मेजर	स्टीफन के टी	01.01.2010
38	जेसी326420डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अनिल सिंह	01.09.2009
39	जेसी326417डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार साहा	01.10.2009
40	जेसी327201एफ	सुबेदार मेजर	भूपाल सिंह	01.01.2010
41	जेसी325299एफ	सुबेदार मेजर	ब्रोजाधन शर्मा	01.10.2009
42	जेसी325301एन	सुबेदार मेजर	दलेर सिंह	01.01.2010
43	जेसी325306एम	सुबेदार मेजर	धर्मबीर सिंह	01.01.2010
44	जेसी327331के	सुबेदार मेजर	हरीश सिंह	01.11.2009
45	जेसी326316एच	सुबेदार मेजर	जगदीश चंद्रा जोशी	01.01.2010
46	जेसी174753डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	खुशाली राम डांगी	01.09.2009
47	जेसी325495एफ	सुबेदार मेजर	कुलबीर सिंह कंवर	01.09.2009
48	जेसी326441एम	सुबेदार मेजर	एम एम	01.12.2009
49	जेसी327193एन	सुबेदार मेजर	मोहिन्दर सिंह	01.11.2009
50	जेसी326515डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	नंदी रेडी सूर्यम नारायणा रेडी	01.09.2009
51	जेसी327338एन	सुबेदार मेजर	नारायणन सी	01.11.2009
52	जेसी327049वाइ	सुबेदार मेजर	पी सुरेन्द्रन	01.01.2010
53	जेसी326446एल	सुबेदार मेजर	पोनाचन ओ	01.12.2009
54	जेसी327047एन	सुबेदार मेजर	संतोष कुमार टी	01.01.2010
55	जेसी326536एम	सुबेदार मेजर	सत पाल सिंह	01.09.2009
56	जेसी326419एफ	सुबेदार मेजर	सतीश कुमार	01.09.2009
57	जेसी326518के	सुबेदार मेजर	सत्य नारायण सिंह	01.09.2009
58	जेसी325294एच	सुबेदार मेजर	सुखवीर सिंह	01.09.2009
59	जेसी327342डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सुखदेव सिंह	01.12.2009
60	जेसी325295एल	सुबेदार मेजर	वकील सिंह तोमर	01.09.2009

बोम्बे इंजीनियर समूह

61	जेसी347238के	सुबेदार मेजर	ए नारद विथल	01.09.2009
62	जेसी347298वाइ	सुबेदार मेजर	आमी चन्द	01.09.2009
63	जेसी347240एफ	सुबेदार मेजर	बीरपाल सिंह	01.10.2009
64	जेसी347541एल	सुबेदार मेजर	हरनाम सिंह	01.12.2009
65	जेसी347246एल	सुबेदार मेजर	जगदीश सिंह	01.01.2010
66	जेसी347226पी	सुबेदार मेजर	कल्याण सिंह	01.11.2009
67	जेसी347212पी	सुबेदार मेजर	करमबीर सिंह	01.11.2009
68	जेसी347413एन	सुबेदार मेजर	कर्मजीत सिंह	01.10.2009
69	जेसी347272के	सुबेदार मेजर	महावीर सिंह परिहार	01.01.2010
70	जेसी347249डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	रामफल सिंह	01.12.2009
71	जेसी468888ए	सुबेदार मेजर	रूप सिंह	01.11.2009
72	जेसी347198एन	सुबेदार मेजर	सत्य नारायण डी.	01.11.2009
73	जेसी347591डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	श्याम लाल	01.10.2009
74	जेसी347171डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	सोमन पिल्लई जी.	01.11.2009
75	जेसी347177एक्स	सुबेदार मेजर	सुरेन्द्रा कृष्णा राव वाइ	01.09.2009
76	जेसी347169वाइ	सुबेदार मेजर	विनोद कुमार शर्मा	01.12.2009
सिग्नल्स कोर				

77	जेसी370461ए	सुबेदार मेजर	बी चकर्वती	01.01.2010
78	जेसी220659एन	सुबेदार मेजर	बलदेव सिंह	01.10.2009
79	जेसी370413ए	सुबेदार मेजर	बलवान सिंह	01.09.2009
80	जेसी367885एल	सुबेदार मेजर	देव राज	01.01.2010
81	जेसी370463एल	सुबेदार मेजर	दुर्गेश प्रसाद सिंह	01.01.2010
82	जेसी368314वाइ	सुबेदार मेजर	गनी श्याम शर्मा	01.10.2009
83	जेसी221453एच	सुबेदार मेजर	गोपी चन्द	01.12.2009
84	जेसी367242एन	सुबेदार मेजर	जगत सिंह बी	01.10.2009
85	जेसी220657एच	सुबेदार मेजर	जोसफ मेथ्यू	01.09.2009
86	जेसी370464एन	सुबेदार मेजर	जुनुल मुंदू	01.12.2009
87	जेसी370412एक्स	सुबेदार मेजर	के पी मिश्रा	01.09.2009
88	जेसी367083एफ	सुबेदार मेजर	करन सिंह नेगी	01.01.2010
89	जेसी370451डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	कासम अली	01.12.2009
90	जेसी370398डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	माई राम अहलावत	01.09.2009
91	जेसी370381एच	सुबेदार मेजर	मीर चन्द	01.09.2009
92	जेसी367087एक्स	सुबेदार मेजर	एन प्रभाकर	01.09.2009
93	जेसी368315एफ	सुबेदार मेजर	एन एस सी सत्यथी	01.10.2009
94	जेसी370432एल	सुबेदार मेजर	निरंजन हल्दर	01.11.2009
95	जेसी370417डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	एन कुमार सी	01.10.2009
96	जेसी370434डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	राजेंद्रा सिंह	01.10.2009
97	जेसी220661एल	सुबेदार मेजर	राम बिलास	01.11.2009
98	जेसी367086पी	सुबेदार मेजर	एस बी दादू	01.09.2009

99	जेसी367887डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	एस सी के	01.01.2010
100	जेसी370435वाइ	सुबेदार मेजर	साबू के के	01.11.2009
101	जेसी370460एक्स	सुबेदार मेजर	सचेंद्र कुमार	01.12.2009
102	जेसी370453एफ	सुबेदार मेजर	सलिक सिंह	01.12.2009
103	जेसी368173पी	सुबेदार मेजर	ससंका शेखर दास	01.09.2009
104	जेसी223788वाइ	सुबेदार मेजर	एस हिंद	01.10.2009
105	जेसी368150एन	सुबेदार मेजर	सुजीत विश्वास	01.01.2010
106	जेसी369440एक्स	सुबेदार मेजर	वी के ठाकुर	01.09.2009
107	जेसी369980डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	वजीर सिंह लथवाल	01.01.2010

गार्ड्स

108	जेसी220678वाइ	सुबेदार मेजर	जवाहर सिंह	01.09.2009
109	जेसी222603ए	सुबेदार मेजर	सत्य नारायण	01.10.2009
110	जेसी402413डब्ल्यू	सुबेदार मेजर	शिव कुमार	01.10.2009

पैराशूट रेजीमेन्ट

111	जेसी412088पी	सुबेदार मेजर	खिम सिंह	01.01.2010
112	जेसी412206एक्स	सुबेदार मेजर	शेर बहादुर सिंह	01.11.2009

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

113	जेसी418335एन	सुबेदार मेजर	घटगे नारायण भीमा राव	01.09.2009
114	जेसी418382एल	सुबेदार मेजर	वीर सिंह जी.	01.12.2009

पंजाब रेजीमेन्ट

115	जेसी428522ए	सुबेदार मेजर	सुरिन्दर कुमार	31.10.2009
-----	-------------	--------------	----------------	------------

ग्रेनेडियर्स

116	जेसी448624एक्स	सुबेदार मेजर	ओम राज	01.01.2010
117	जेसी448317ए	सुबेदार मेजर	पदम देव	01.09.2009
118	जेसी448913एम	सुबेदार मेजर	श्री राम सिंह	01.09.2009

मराठा लघु सेना

119	जेसी212864ए	सुबेदार मेजर	विजय अपासो सूर्यवंशी	01.01.2010
-----	-------------	--------------	----------------------	------------

राजपूत रेजीमेन्ट

120	जेसी478400एम	सुबेदार मेजर	असगर हुसैन	01.11.2009
121	जेसी478273एच	सुबेदार मेजर	शिव सिंह	01.09.2009

जाट रेजीमेन्ट

122	जेसी488152पी	सुबेदार मेजर	करन सिंह	01.09.2009
-----	--------------	--------------	----------	------------

डोगरा रेजीमेन्ट

123	जेसी518605एम <u>गढवाल राईफल्स</u>	सुबेदार मेजर	बिशम्बर दास	01.11.2009
124	जेसी528390एम	सुबेदार मेजर	रमेश चंद्रा	01.10.2009
125	जेसी528352डब्ल्यू <u>8 गोरखा राईफल्स</u>	सुबेदार मेजर	विजय सिंह रावत	01.10.2009
126	जेसी623125एफ <u>11 गोरखा राईफल्स</u>	सुबेदार मेजर	इन्द्रा सिंग थापा	01.11.2009
127	जेसी218097एच <u>सेना सेवा कोर दक्षिण</u>	सुबेदार मेजर	किरन लामा	01.11.2009
128	जेसी119948एफ	सुबेदार मेजर	अमरीक सिंह लबाना	01.11.2009
129	जेसी640669एम	सुबेदार मेजर	बालू ए	01.09.2009
130	जेसी217839एल	सुबेदार मेजर	हरभजन सिंह	01.11.2009
131	जेसी217835पी	सुबेदार मेजर	जे पालो	01.12.2009
132	जेसी217849पी	सुबेदार मेजर	जॉनसन पी आइ	01.12.2009
133	जेसी640771पी	सुबेदार मेजर	कैलाश शर्मा	01.12.2009
134	जेसी217854ए	सुबेदार मेजर	लक्ष्मणन के	01.12.2009
135	जेसी215570एक्स	सुबेदार मेजर	राजन सिंह	01.12.2009
136	जेसी217848एम	सुबेदार मेजर	राम बीर सिंह	01.12.2009
137	जेसी215568ए	सुबेदार मेजर	एस मयंदी	01.11.2009
138	जेसी661165एम	सुबेदार मेजर	शोभ नाथ	01.12.2009
139	जेसी661218ए	सुबेदार मेजर	तिलक राज	01.11.2009
140	जेसी215565एम	सुबेदार मेजर	उत्तातम सिंह नेगी	01.10.2009
141	जेसी217837ए <u>सेना चिकित्सा कोर</u>	सुबेदार मेजर	विजया कुमारन नायर एम	01.12.2009
142	जेसी690347एच	सुबेदार मेजर	अनिल कुमार	01.12.2009
143	जेसी691719पी	सुबेदार मेजर	अशोक कुमार रौय	01.11.2009
144	जेसी690984वाइ	सुबेदार मेजर	भरत सिंह	01.10.2009
145	जेसी690348एल	सुबेदार मेजर	ब्रमानंद सामल	01.11.2009
146	जेसी690703एक्स	सुबेदार मेजर	के कासिप्रसाद	01.11.2009
147	जेसी692001एक्स	सुबेदार मेजर	राम कुमार	01.12.2009
148	जेसी692194एच <u>सेना आयुध कोर</u>	सुबेदार मेजर	एस घोष	01.12.2009
149	जेसी724462एक्स	सुबेदार मेजर	हंस राज	01.10.2009
150	जेसी722996के	सुबेदार मेजर	कुंदन लाल शर्मा	01.10.2009
151	जेसी723487एक्स	सुबेदार मेजर	पी संबाशिव रेडी	01.11.2009
152	जेसी723053एक्स	सुबेदार मेजर	प्रेम पाल	01.09.2009

153	जेसी724160एल	सुबेदार मेजर	पूरन सिंह	01.10.2009
154	जेसी722887एक्स	सुबेदार मेजर	रमा नन्द शर्मा	01.09.2009
155	जेसी724805एच	सुबेदार मेजर	शंकर लाल	01.12.2009
<u>इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स</u>				
156	जेसी749265ए	सुबेदार मेजर	अभिमन्यु महाराना	01.09.2009
157	जेसी747689एक्स	सुबेदार मेजर	आमरे राम एस	01.12.2009
158	जेसी751951एम	सुबेदार मेजर	बलवंत सिंह कोशल	01.12.2009
159	जेसी751595एक्स	सुबेदार मेजर	भूबन गोगोई	01.01.2010
160	जेसी751950के	सुबेदार मेजर	ज्ञान चन्द	01.10.2009
161	जेसी750287एल	सुबेदार मेजर	मोहन के	01.09.2009
162	जेसी748913एल	सुबेदार मेजर	आर पीसी	01.10.2009
163	जेसी751301वाइ	सुबेदार मेजर	राम बचन सिंह यादव	01.10.2009
164	जेसी753260वाइ	सुबेदार मेजर	राम बहादुर थापा	01.01.2010
165	जेसी751344एन	सुबेदार मेजर	राम प्रसाद सिंह	01.11.2008
166	जेसी749025एच	सुबेदार मेजर	रमेश चंद्र पुरोहित	01.11.2009
167	जेसी751315वाइ	सुबेदार मेजर	ऋषि पाल सिंह	01.10.2009
168	जेसी748219वाइ	सुबेदार मेजर	सतीश कुमार शर्मा	01.09.2009
169	जेसी749094वाइ	सुबेदार मेजर	शिवजी सिंह	01.10.2009
<u>रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर</u>				
170	जेसी797092एल	रिसालदार मेजर	राम स्वरूप	01.09.2009
<u>रक्षा सुरक्षा कोर</u>				
171	जेसी840022एच	सुबेदार मेजर	करनैल सिंह	01.11.2009
172	जेसी840019एच	सुबेदार मेजर	मदन लाल	01.11.2009
173	जेसी840855एम	सुबेदार मेजर	मान सिंह	01.10.2009

अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार मेजर के रूप में

16 केवेलरी

1	जेसी240055डब्ल्यू	रिसालदार	महादेवप्पा बी	01.09.2009
2	जेसी240301डब्ल्यू	रिसालदार	एम नारायणा राव	01.09.2009
3	जेसी240433के	रिसालदार	एस अरोकिस्वामि	01.10.2009
4	जेसी238854एन	रिसालदार	संजीवा	01.11.2009
5	जेसी239117वाइ	रिसालदार	सिवा प्रकासम वी	01.12.2009
<u>7 केवेलरी</u>				
6	जेसी.241692वाइ	रिसालदार	बलविन्दर सिंह	01.01.2010
7	जेसी240770वाइ	रिसालदार	जगवीर सिंह पूनिया	01.09.2009
8	जेसी241289एम	रिसालदार	मूल चन्द दूदी	01.01.2010
<u>8 केवेलरी</u>				
9	जेसी240816डब्ल्यू	रिसालदार	जसबीर सिंह	01.01.2010
10	जेसी241369के	रिसालदार	विश्व नाथ सिंह	01.01.2010

2 लार्न्स

11	जेसी241312पी	रिसालदार	भोम सिंह	01.01.2010
12	जेसी241546वाइ	रिसालदार	के बहादुर सिंह	01.01.2010
13	जेसी241267एन	रिसालदार	राघवेन्द्रा सिंह	01.09.2009
17 होर्स				

14	जेसी239653एफ	रिसालदार	अवध बिहारी सिंह	01.09.2009
15	जेसी239282के	रिसालदार	जतिंद्र सिंह	01.09.2009
9 होर्स				

16	जेसी238728एफ	रिसालदार	अर्जुन लाल रयाल	01.10.2009
17	जेसी240372एक्स	रिसालदार	दर्शन कुमार	01.10.2009
18	जेसी240472एच	रिसालदार	ओम पाल सिंह	01.01.2010
19	जेसी239409एफ	रिसालदार	साहिब सिंह	01.09.2009
14 होर्स				

20	जेसी240342ए	रिसालदार	बलविन्दर सिंह	01.01.2010
21	जेसी240811एक्स	रिसालदार	जगदीश सिंह पूनिया	01.01.2010
22	जेसी240727एक्स	रिसालदार	जसपाल सिंह	01.01.2010
23	जेसी240738के	रिसालदार	जोगिंदर सिंह	01.01.2010
24	जेसी240451एम	रिसालदार	नरिंदर सिंह	01.01.2010
25	जेसी240447के	रिसालदार	पूरन सिंह	01.01.2010
26	जेसी240450के	रिसालदार	रशपाल सिंह	01.10.2009
27	जेसी239235एम	रिसालदार	ऋषि पाल	01.10.2009
4 होर्स				

28	जेसी240675एम केन्द्रीय भारत अश्व	रिसालदार	जे सिंह	01.01.2010
----	-------------------------------------	----------	---------	------------

29	जेसी239991वाइ	रिसालदार	अशोक कुमार गोड़	01.01.2010
30	जेसी241206डब्ल्यू	रिसालदार	भूमि चन्द	01.01.2010
31	जेसी240733एल	रिसालदार	हंस राज	01.09.2009
32	जेसी241115एम	रिसालदार	नेक राम शर्मा	01.10.2009
33	जेसी239573के	रिसालदार	ओम प्रकाश सिंह	01.01.2010
34	जेसी241105एच	रिसालदार	संतोष कुमार	01.10.2009
62 केवेलरी				

35	जेसी239910एन	रिसालदार	ख्याली राम कोठारी	01.10.2009
36	जेसी158225एच	रिसालदार	नरिन्दरजीत सिंह	01.10.2009
20 लार्न्स				

37	जेसी240623डब्ल्यू	रिसालदार	महाबीर सिंह	01.09.2009
38	जेसी240173के	रिसालदार	मनबीर सिंह	01.01.2010
39	जेसी240749डब्ल्यू	रिसालदार	राम सिंह	01.01.2010
40	जेसी241052पी	रिसालदार	सेवक सिंह	01.01.2010

63 केवेलरी

41	जेसी240244ए	रिसालदार	बजरंग सिंह	01.01.2010
42	जेसी240179एल	रिसालदार	जय पाल	01.09.2009
43	जेसी239630ए	रिसालदार	प्रहलाद सिंह जाट	01.09.2009
44	जेसी240237के	रिसालदार	सतनाम सिंह	01.01.2010
45	जेसी240037एन	रिसालदार	उम्मेद सिंह	01.10.2009

61 केवेलरी

46	जेसी238782पी	रिसालदार	प्रकाशन एम के	01.05.2009
----	--------------	----------	---------------	------------

45 केवेलरी

47	जेसी240387ए	रिसालदार	भूप सिंह	01.09.2009
48	जेसी240167डब्ल्यू	रिसालदार	महा दीवान जे	01.01.2010
49	जेसी239343डब्ल्यू	रिसालदार	आर सी	01.10.2009

64 केवेलरी

50	जेसी239911डब्ल्यू	रिसालदार	हवा सिंह	01.10.2009
----	-------------------	----------	----------	------------

65 आर्मड रेजीमेंट

51	जेसी239915एम	रिसालदार	बंशीधर	01.10.2009
52	जेसी239918ए	रिसालदार	दिनेश सिंह	01.01.2010

66 आर्मड रेजीमेंट

53	जेसी240884के	रिसालदार	अशोक जाधव	01.01.2010
54	जेसी240376एन	रिसालदार	मुनेश्वर पुरुषोत्तम	01.10.2009

67 आर्मड रेजीमेंट

55	जेसी239472डब्ल्यू	रिसालदार	अशोक कुमार	01.10.2009
56	जेसी240377डब्ल्यू	रिसालदार	शमशेर सिंह	01.10.2009

68 आर्मड रेजीमेंट

57	जेसी240610वाइ	रिसालदार	बजरंगलाल एफ	01.01.2010
58	जेसी240662पी	रिसालदार	सूरज भान	01.01.2010

69 आर्मड रेजीमेंट

59	जेसी240328एन	रिसालदार	केशर सिंह मेहरा	01.01.2010
60	जेसी240743पी	रिसालदार	आर एस टी	01.09.2009

70 आर्मड रेजीमेंट

61	जेसी241362ए	रिसालदार	उपेंद्र प्रसाद शर्मा	01.01.2010
----	-------------	----------	----------------------	------------

72 आर्मड रेजीमेंट

62	जेसी241032एफ	रिसालदार	घरू राम	01.01.2010
----	--------------	----------	---------	------------

73 आर्मड रेजीमेंट

63	जेसी240962डब्ल्यू	रिसालदार	भोले शंकर सिंह	01.09.2009
64	जेसी238721एक्स	रिसालदार	गुरचरण सिंह	01.10.2009

74 आर्मड रेजीमेंट

65	जेसी241264ए	रिसालदार	पवन कुमार	01.10.2009
----	-------------	----------	-----------	------------

76 आर्मड रेजीमेंट

66	जेसी239587के	रिसालदार	छुट्टन लाल गुर्जर	01.01.2010
67	जेसी240502पी	रिसालदार	देवी सिंह यादव	01.01.2010
68	जेसी239354एच	रिसालदार	जय सिंह	01.10.2009
69	जेसी239584डब्ल्यू	रिसालदार	समय सिंह	01.10.2009

81 आर्मड रेजीमेंट

70	जेसी241098एक्स	रिसालदार	बी तमिल सेलवम	01.01.2010
71	जेसी240914डब्ल्यू	रिसालदार	बी राम	01.01.2010
72	जेसी240856एक्स	रिसालदार	जी. सायाजी रामचंद्र	01.01.2010

83 आर्मड रेजीमेंट

73	जेसी241565के	रिसालदार	गजेन्द्र कुमार तिवारी	01.01.2010
74	जेसी242053के	रिसालदार	मिथलेश कुमार	01.01.2010
75	जेसी241435एफ	रिसालदार	निमाला पुरी वेंकट तिरुपती	01.10.2009
76	जेसी241436के	रिसालदार	आर नारायणा सामी	01.10.2009
77	जेसी241281ए	रिसालदार	रमेश बसुमातारी	01.10.2009

84 आर्मड रेजीमेंट

78	जेसी239814वाइ	रिसालदार	अर्जुन अधिवासी	01.01.2010
79	जेसी239964पी	रिसालदार	वी सिंह	01.01.2010

85 आर्मड रेजीमेंट

80	जेसी240832एन	रिसालदार	बिजन कान्ति सेन	01.09.2009
81	जेसी240891ए	रिसालदार	जी. प्रसाद मंडल	01.10.2009
82	जेसी240890एक्स	रिसालदार	महाराज सिंह गोस्वामी	01.10.2009
83	जेसी240883डब्ल्यू	रिसालदार	एन रविन्द्रन	01.10.2009
84	जेसी240654डब्ल्यू	रिसालदार	पूर्णा चंद्रा पंडा	01.09.2009
85	जेसी240956एच	रिसालदार	राज किशोर सिंह	01.01.2010
86	जेसी240959डब्ल्यू	रिसालदार	वीरेंद्र बहादुर सिंह	01.01.2010

86 आर्मड रेजीमेंट

87	जेसी240939एच	रिसालदार	बिश्नुदेव प्रसाद	01.10.2009
88	जेसी240840एम	रिसालदार	के कान्ति देब रौय	01.09.2009
89	जेसी240841पी	रिसालदार	राजेंद्रा महतो	01.09.2009
90	जेसी240938ए	रिसालदार	रेय्यी गांधी	01.09.2009

87 आर्मड रेजीमेंट

91	जेसी240078एक्स	रिसालदार	अमर नाथ सिंह	01.09.2009
92	जेसी240177ए	रिसालदार	हरेन्द्र राय	01.09.2009
93	जेसी240533पी	रिसालदार	मोरे रमेश यशवन्त	01.01.2010
94	जेसी240514के	रिसालदार	एस रवीन्द्रन	01.10.2009

88 आर्मड रेजीमेंट

95	जेसी240553एच	रिसालदार	प्रेम पाल	01.10.2009
----	--------------	----------	-----------	------------

89 आर्मड रेजीमेंट

96	जेसी240411एल	रिसालदार	दिवाकर पाठक	01.01.2010
97	जेसी240763एच	रिसालदार	प्रमोद कुमार सिंघा	01.10.2009
98	जेसी238747एम	रिसालदार	प्रेम चन्द	01.12.2009

90 आर्मड रेजीमेंट

99	जेसी241441पी	रिसालदार	अशोक कुमार	01.01.2010
100	जेसी241616एम	रिसालदार	देव नायक उपाध्याय	01.01.2010
101	जेसी241422के	रिसालदार	पाटिल विजय दशरथ	01.01.2010

41 आर्मड रेजीमेंट

102	जेसी241601के	रिसालदार	गोविंद चंद्रा साहू	01.09.2009
103	जेसी241445एल	रिसालदार	श्री सतीश	01.09.2009
104	जेसी240615एक्स	रिसालदार	सुभाष चंद्रा	01.01.2010

42 आर्मड रेजीमेंट

105	जेसी239348पी	रिसालदार	सी गोपाल	01.01.2010
106	जेसी239218एम	रिसालदार	हुमायूँ कबीर	01.10.2009
107	जेसी238429एच	रिसालदार	जवाहर लाल ठाकुर	01.11.2009
108	जेसी238760डब्ल्यू	रिसालदार	कान सिंह राठौर	01.12.2009
109	जेसी239629एल	रिसालदार	मुनेश पाल	01.10.2009
110	जेसी239657एक्स	रिसालदार	राघव प्रसाद केसरी	01.01.2010
111	जेसी239786एक्स	रिसालदार	सुरेन्द्रा प्रसाद	01.01.2010

43 आर्मड रेजीमेंट

112	जेसी241378एल	रिसालदार	अक्षय कुमार साहू	01.10.2009
113	जेसी241258एम	रिसालदार	दिवाकर प्रधान	01.10.2009

44 आर्मड रेजीमेंट

114	जेसी240004एच	रिसालदार	अवधेश सिंह	01.09.2009
115	जेसी241385एफ	रिसालदार	के जी. बाबू राव	01.09.2009
116	जेसी241450डब्ल्यू	रिसालदार	कमलेश कुमार शर्मा	01.01.2010
117	जेसी239993के	रिसालदार	कृष्णा प्रसाद	01.09.2009
118	जेसी240963वाइ	रिसालदार	लक्ष्मन कुमार	01.01.2010
119	जेसी240982एच	रिसालदार	राजेश कुमार	01.01.2010

120	जेसी240736वाइ	रिसालदार	राम किशन मीना	01.10.2009
121	जेसी239992एफ	रिसालदार	सूरत सिंह	01.09.2009
122	जेसी239988वाइ	रिसालदार	सुसंता रौय	01.09.2009
123	जेसी240964एफ	रिसालदार	उदम सिंह	01.01.2010
46 आर्मड रेजीमेंट				
124	जेसी239694एल	रिसालदार	अनूप कुमार पांडे	01.10.2009
125	जेसी239148वाइ	रिसालदार	जितेन्द्रा सिंह	01.09.2009
126	जेसी239442वाइ	रिसालदार	मुकेश त्यागी	01.10.2009
127	जेसी239693एच	रिसालदार	एन चन्द मंडल	01.10.2009
128	जेसी239379पी	रिसालदार	नन्द किशोर जोशी	01.09.2009
129	जेसी238906वाइ	रिसालदार	प्रबीर कुमार नंदी	01.09.2009
130	जेसी239482ए	रिसालदार	आर सनागृही	01.09.2009
131	जेसी239030एक्स	रिसालदार	रणवीर सिंह	01.09.2009
132	जेसी239445एम	रिसालदार	सेठी अजय कुमार इश्वर दास	01.10.2009
133	जेसी239441डब्ल्यू	रिसालदार	सुख राम	01.10.2009
47 आर्मड रेजीमेंट				
134	जेसी239467एल	रिसालदार	ए राजा गोपाल	01.10.2009
135	जेसी240530एफ	रिसालदार	अतन्का भंजन मीडिया	01.10.2009
136	जेसी240529एम	रिसालदार	बैद्य नाथ साहू	01.10.2009
137	जेसी239407डब्ल्यू	रिसालदार	बिश्नो देव रौय	01.09.2009
138	जेसी239324एल	रिसालदार	एम राम	01.10.2009
139	जेसी239533एच	रिसालदार	प्रताप कुमार जस	01.10.2009
140	जेसी239609एक्स	रिसालदार	रमा पाती तिवारी	01.10.2009
141	जेसी240519एच	रिसालदार	तपन कुमार घोष	01.10.2009
48 आर्मड रेजीमेंट				
142	जेसी240388एच	रिसालदार	बलबीर सिंह	01.01.2010
143	जेसी240705वाइ	रिसालदार	बिश्वनाथ गोस्वामी	01.10.2009
144	जेसी240454ए	रिसालदार	दिनेश यादव	01.01.2010
145	जेसी239934एक्स	रिसालदार	मोहम्मद एन अली	01.10.2009
146	जेसी239319ए	रिसालदार	प्रकाश नारायण	01.10.2009
147	जेसी240641वाइ	रिसालदार	आर हरी कृष्णन	01.10.2009
148	जेसी240076एम	रिसालदार	शंकर दयाल सिंह	01.01.2010
149	जेसी240599एल	रिसालदार	शिव बालक सिंह	01.01.2010
150	जेसी240019एल	रिसालदार	सुनील मंडल	01.10.2009
151	जेसी240443एन	रिसालदार	टी राम	01.10.2009
152	जेसी239933पी	रिसालदार	टी नारायण झा	01.10.2009
49 आर्मड रेजीमेंट				
153	जेसी239636एफ	रिसालदार	विजय संकर शुक्ला	01.10.2009
5 आर्मड रेजीमेंट				
154	जेसी238937वाइ	रिसालदार	चंद्रा भानु गुप्ता	01.10.2009
155	जेसी238939के	रिसालदार	निमाइ कुमार मल्लिक	01.10.2009

10 आर्मड रेजीमेंट

156 जेसी239647एन रिसालदार आशीस चौधुरी 01.09.2009
11 आर्मड रेजीमेंट

157 जेसी238862एम रिसालदार नितिन दत्ता 01.01.2010
 158 जेसी238861के रिसालदार प्रशन राम आर 01.01.2010
 159 जेसी239268एक्स रिसालदार सुधीर कुमार शर्मा 01.01.2010

13 आर्मड रेजीमेंट

160 जेसी238440एफ रिसालदार बलविन्दर सिंह 01.01.2010
 161 जेसी238263एम रिसालदार रामचंद्र सिंह 01.10.2009
15 आर्मड रेजीमेंट

162 जेसी239920एक्स रिसालदार अर्विन्द कुमार सिंह 01.10.2009
 163 जेसी239053वाइ रिसालदार नेपाल सिंह 01.01.2010

19 आर्मड रेजीमेंट

164 जेसी237863एच रिसालदार भगवान सिंह 01.10.2009
 165 जेसी239036वाइ रिसालदार धर्म वीर सिंह 01.11.2009
 166 जेसी237701एक्स रिसालदार होशियार सिंह यादव 01.10.2009
 167 जेसी237831ए रिसालदार सहदेवन के 01.10.2009
 168 जेसी237997एफ रिसालदार सोमा सुंदरन के 01.10.2009
 169 जेसी239069के रिसालदार सुरेश ए 01.01.2010

50 आर्मड रेजीमेंट

170 जेसी239429पी रिसालदार प्रताप सिंह 01.01.2010
 171 जेसी237626वाइ रिसालदार सुभाष राम 01.10.2009

51 आर्मड रेजीमेंट

172 जेसी240285के रिसालदार बचन लाल 01.01.2010
 173 जेसी240477एफ रिसालदार एम राधा कृष्णन 01.09.2009

53 आर्मड रेजीमेंट

174 जेसी240367एम रिसालदार अंगराज लाल 01.01.2010
 175 जेसी240335के रिसालदार बी राम चंद्रा ए 01.10.2009
 176 जेसी240371पी रिसालदार एम एम इंबाराज 01.10.2009

आर्मड कोर

177 जेसी239337एच रिसालदार बहुलायन टी 01.11.2009
 178 जेसी239305ए रिसालदार बजरंग सिंह 01.10.2009
 179 जेसी239338एल रिसालदार धर्मबीर सिंह 01.11.2009
 180 जेसी237305एफ रिसालदार हरकेश सिंह 01.12.2009
 181 जेसी240067एल रिसालदार इंद्र सिंह जरयाल 01.10.2009
 182 जेसी240261ए रिसालदार इन्द्रजीत सिंह 01.12.2009

183	जेसी239892डब्ल्यू	रिसालदार	जय सिंह	01.12.2009
184	जेसी240970पी	रिसालदार	कृष्णापाल सिंह	01.12.2009
185	जेसी240352के	रिसालदार	रघुनाथ मैती	01.01.2010
186	जेसी240180ए	रिसालदार	राजेन्द्रन के	01.12.2009
187	जेसी240085एन	रिसालदार	रमेश चन्द	01.11.2009
188	जेसी238100वाइ	रिसालदार	राठोड़ अनिल कुमार बी भाई	01.11.2009
189	जेसी239387एन	रिसालदार	सुरेश कुमार चौहान	01.01.2010
190	जेसी239082एन	रिसालदार	विद्याधर	01.01.2010
आर्टिलरी रेजीमेंट				
191	जेसी264371एन	सुबेदार	अभेय सिंह	01.11.2009
192	जेसी266066ए	सुबेदार	अभिलाश सिंह	01.01.2010
193	जेसी268039पी	सुबेदार	अजीत सिंह	01.01.2010
194	जेसी262723एफ	सुबेदार	अकबर सिंह यादव	01.09.2009
195	जेसी265357एन	सुबेदार	अंजनी कुमार शर्मा	01.01.2010
196	जेसी263537एक्स	सुबेदार	अनोप सिंह	01.10.2009
197	जेसी266158एम	सुबेदार	अनुज कुमार	01.11.2009
198	जेसी263343पी	सुबेदार	अरविंद कुमार सिंह	01.11.2009
199	जेसी264982एच	सुबेदार	अर्जुन सिंह जग्गी	01.09.2009
200	जेसी268841एल	सुबेदार	अर्जुन सिंह राना	01.10.2009
201	जेसी267701एम	सुबेदार	अशोक डी.	01.01.2010
202	जेसी264186ए	सुबेदार	अशोक कुमार	01.01.2010
203	जेसी266138वाइ	सुबेदार	अशोक कुमार	01.10.2009
204	जेसी265871एक्स	सुबेदार	अवतार सिंह	01.09.2009
205	जेसी267763एम	सुबेदार	अवतार सिंह	01.01.2010
206	जेसी268489एम	सुबेदार	बाबू लाल	01.10.2009
207	जेसी262958एन	सुबेदार	बहादुर सिंह	01.09.2009
208	जेसी265091एम	सुबेदार	बी सिंह धड़वाल	01.01.2010
209	जेसी265503एच	सुबेदार	बालाराम पी	01.01.2010
210	जेसी268625एक्स	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.01.2010
211	जेसी262437ए	सुबेदार	बालेन्द्रा भूषण शुक्ला	01.10.2009
212	जेसी260663वाइ	सुबेदार	बलजीत सिंह	01.11.2009
213	जेसी264548डब्ल्यू	सुबेदार	बलजीत सिंह	01.11.2009
214	जेसी268816एम	सुबेदार	बलकार सिंह	01.01.2010
215	जेसी266289एक्स	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.10.2009
216	जेसी268569के	सुबेदार	बलविन्दर कुमार	01.01.2010
217	जेसी270084ए	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.01.2010
218	जेसी265800डब्ल्यू	सुबेदार	बृमेशवर पांडे	01.10.2009
219	जेसी268110एक्स	सुबेदार	बसवराज बी गोरी	01.01.2010
220	जेसी266787के	सुबेदार	बी वेंकट श्रीनिवास राव	01.09.2009
221	जेसी266672डब्ल्यू	सुबेदार	भगवन्त सिंह	01.10.2009
222	जेसी266586एल	सुबेदार	भोला नाथ तिवारी	01.10.2009
223	जेसी268577एच	सुबेदार	भोला प्रसाद मिश्रा	01.01.2010
224	जेसी268495ए	सुबेदार	भुजंग एम गमपति	01.01.2010
225	जेसी259789एम	सुबेदार	भूपाल शर्मा	01.11.2009
226	जेसी266330एच	सुबेदार	वीरवल सिंह	01.10.2009

227	जेसी267332ए	सुबेदार	ब्रम पाल सिंह	01.11.2009
228	जेसी267506पी	सुबेदार	बुध राम	01.01.2010
229	जेसी267187एन	सुबेदार	बी संजय गंगाधर	01.10.2009
230	जेसी267265ए	सुबेदार	चंचल सिंह	01.09.2009
231	जेसी267735ए	सुबेदार	छंथामारा के	01.09.2009
232	जेसी263355के	सुबेदार	चिरजी नाल यादवा	01.10.2009
233	जेसी265300वाइ	सुबेदार	चुनी लाल शर्मा	01.01.2010
234	जेसी265051एल	सुबेदार	डी. गोविन्द राजन	01.01.2010
235	जेसी267413ए	सुबेदार	दारेकर बी रामचंद्र	01.10.2009
236	जेसी266408एच	सुबेदार	दरवान सिंह	01.11.2009
237	जेसी261840ए	सुबेदार	दीप नारायन रौय	01.12.2009
238	जेसी266190एफ	सुबेदार	देवेश चंद्रा शुक्ला	01.11.2009
239	जेसी263961ए	सुबेदार	देवी सिंह ठाकुर	01.09.2009
240	जेसी263671एच	सुबेदार	धनवंत सिंह	01.01.2010
241	जेसी266130एम	सुबेदार	धर्म वीर	01.01.2010
242	जेसी267401एल	सुबेदार	डी. बाजीराव विथोवा	01.01.2010
243	जेसी268595एल	सुबेदार	दिलबाग सिंह	01.01.2010
244	जेसी265076एक्स	सुबेदार	जी. जगन्थन	01.09.2009
245	जेसी268963पी	सुबेदार	गायकवाड राजाराम शिवाजी	01.01.2010
246	जेसी265476के	सुबेदार	गर्ज अंगद एस	01.10.2009
247	जेसी261230एन	सुबेदार	गया प्रसाद	01.12.2009
248	जेसी259927एच	सुबेदार	गया प्रसाद सिंह	01.12.2009
249	जेसी266523एच	सुबेदार	जोर्ज वरघेसे	01.01.2010
250	जेसी265930वाइ	सुबेदार	घान श्याम	01.11.2009
251	जेसी265647एल	सुबेदार	गोलाप सेकिआ	01.01.2010
252	जेसी266790के	सुबेदार	गोरे बाबन बाबू	01.01.2010
253	जेसी260650एफ	सुबेदार	गोड़ चन्द सिन्हा	01.11.2009
254	जेसी264833पी	सुबेदार	गुलाब प्रसाद	01.09.2009
255	जेसी264391एफ	सुबेदार	गुरदयाल सिंह	01.01.2010
256	जेसी265081एच	सुबेदार	गुरदीप सिंह	01.01.2010
257	जेसी264539पी	सुबेदार	हंस राज चौहान	01.10.2009
258	जेसी267244के	सुबेदार	हरबंस सिंह	01.01.2010
259	जेसी267433एन	सुबेदार	हरबंस सिंह	01.01.2010
260	जेसी264217पी	सुबेदार	हरी प्रसाद पांडे	01.10.2009
261	जेसी266716एच	सुबेदार	हरी राम	01.01.2010
262	जेसी266649एच	सुबेदार	हरी राम प्रसाद यादव	01.12.2009
263	जेसी267886वाइ	सुबेदार	हरिनाम सिंह	01.01.2010
264	जेसी266777ए	सुबेदार	हरीश चंद्रा शुक्ला	01.01.2010
265	जेसी264218एक्स	सुबेदार	हरजिन्द्र लाल	01.10.2009
266	जेसी257456एफ	सुबेदार	हीरा कुमार पांडे	01.01.2010
267	जेसी264845के	सुबेदार	हीरा नन्द	01.09.2009
268	जेसी259795ए	सुबेदार	हीरा सिंह	01.12.2009

269	जेसी264990एफ	सुबेदार	हुकम सिंह	01.11.2009
270	जेसी266307पी	सुबेदार	आइ सिंघा	01.01.2010
271	जेसी265003एल	सुबेदार	आइ वरघेसे	01.10.2009
272	जेसी269557एफ	सुबेदार	इंद्रजीत सिंह	01.01.2010
273	जेसी268486वाइ	सुबेदार	आइ सिंह	01.01.2010
274	जेसी265113ए	सुबेदार	आइ श्रीवारतवा	01.12.2009
275	जेसी266783एन	सुबेदार	जगरनाथ	01.09.2009
276	जेसी263831एक्स	सुबेदार	जगदीश चंद्र	01.10.2009
277	जेसी265762एल	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.10.2009
278	जेसी266058एफ	सुबेदार	जय सिंह	01.01.2010
279	जेसी259783एल	सुबेदार	जय सिंह वजीर पी	01.12.2009
280	जेसी266391ए	सुबेदार	जे केसी	01.12.2009
281	जेसी268532एच	सुबेदार	जसवंत सिंह	01.10.2009
282	जेसी265587एफ	सुबेदार	जवाहर रौय	01.09.2009
283	जेसी265858एन	सुबेदार	जे लाल शर्मा	01.01.2010
284	जेसी267124एल	सुबेदार	जय प्रकाश मंडल	01.10.2009
285	जेसी266060वाइ	सुबेदार	जया राम	01.01.2010
286	जेसी263540एक्स	सुबेदार	जितेन्द्रा नाथ कर	01.01.2010
287	जेसी260531एल	सुबेदार	जीवन सिंह अधिकारी	01.09.2009
288	जेसी258264डब्ल्यू	सुबेदार	जोगेन्द्र सिंह यादव	01.01.2010
289	जेसी265105एफ	सुबेदार	के मुरुगेसन	01.11.2009
290	जेसी266552एक्स	सुबेदार	कैलाश चन्द	01.11.2009
291	जेसी265310एच	सुबेदार	कैलाश चन्द शर्मा	01.10.2009
292	जेसी266037एल	सुबेदार	कल्याण सिंह	01.01.2010
293	जेसी265044पी	सुबेदार	कमेर सिंह	01.12.2009
294	जेसी266013एक्स	सुबेदार	कश्मीर सिंह	01.11.2009
295	जेसी266195ए	सुबेदार	कोशल किशोर चौधरी	01.09.2009
296	जेसी267336डब्ल्यू	सुबेदार	कोशल ठाकुर	01.12.2009
297	जेसी259938पी	सुबेदार	खेम राज	01.09.2009
298	जेसी264128डब्ल्यू	सुबेदार	किशन चन्द शर्मा	01.09.2009
299	जेसी264985डब्ल्यू	सुबेदार	कृष्णा प्रसाद यादव	01.09.2009
300	जेसी267641एच	सुबेदार	कृष्णन एन एम	01.01.2010
301	जेसी266558वाइ	सुबेदार	कुंदन सिंह	01.01.2010
302	जेसी269562एम	सुबेदार	कुरुविला पीटी	01.01.2010
303	जेसी266844ए	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	01.10.2009
304	जेसी262210एम	सुबेदार	मदन लाल	01.12.1909
305	जेसी268015एल	सुबेदार	मधु सूदन यादव	01.12.2009
306	जेसी266009वाइ	सुबेदार	मधुसूधन्न सी	01.10.2009
307	जेसी266417के	सुबेदार	महादिक महादेव बाबाजी	01.09.2009
308	जेसी265513एम	सुबेदार	महातम मौर्या	01.01.2010
309	जेसी264688एच	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.09.2009
310	जेसी257257एन	सुबेदार	माली राजा राम बालू	01.01.2010

311	जेसी262246एल	सुबेदार	माने बाली राम मारूति	01.01.2010
312	जेसी264273डब्ल्यू	सुबेदार	माता दीन सिंह	01.10.2009
313	जेसी266845एच	सुबेदार	मोहम्मद साहबुद्दीन एसके	01.10.2009
314	जेसी268102वाइ	सुबेदार	मेदीलाल सिंह यादव	01.01.2010
315	जेसी266961एल	सुबेदार	मिल्खी राम	01.10.2009
316	जेसी264793वाइ	सुबेदार	मोची राम बिसोई	01.09.2009
317	जेसी265087के	सुबेदार	मोहम्मद अदम खान	01.11.2009
318	जेसी268363एम	सुबेदार	मोहम्मद इकबाल ओएलआई	01.01.2010
319	जेसी264807एन	सुबेदार	मोहन लाल पांडे	01.11.2009
320	जेसी268496एच	सुबेदार	मोहर पाल सिंह	01.10.2009
321	जेसी258444वाइ	सुबेदार	मूल चंद्रा	01.12.2009
322	जेसी269253के	सुबेदार	मुख्तार सिंह	01.09.2009
323	जेसी264260डब्ल्यू	सुबेदार	मुरलीधरन सी	01.10.2009
324	जेसी265922ए	सुबेदार	मुरलीधरन सी	01.01.2010
325	जेसी265659ए	सुबेदार	मुस्तकिम मिया	01.12.2009
326	जेसी266372पी	सुबेदार	एन राजकिशोर सिंघा	01.01.2010
327	जेसी266193पी	सुबेदार	नगेन्द्रा कुमार यादव	01.12.2009
328	जेसी267208वाइ	सुबेदार	एन आएंड	01.01.2010
329	जेसी262717एन	सुबेदार	नंदा राम दर्जी	01.01.2010
330	जेसी262885एम	सुबेदार	नरेंदर सिंह रावत	01.12.2009
331	जेसी265224एक्स	सुबेदार	नीलकंठ कमल विश्वास	01.11.2009
332	जेसी266934एफ	सुबेदार	निर्मल सिंह	01.10.2009
333	जेसी268620वाइ	सुबेदार	निवरूति शेलर	01.01.2010
334	जेसी261703एफ	सुबेदार	नूर हासन खान	01.01.2010
335	जेसी257500ए	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.09.2009
336	जेसी268221पी	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.10.2009
337	जेसी269564एक्स	सुबेदार	पी अन्ना पांडि	01.09.2009
338	जेसी266135एल	सुबेदार	पयादी पेददी वी नायडू	01.10.2009
339	जेसी263185एल	सुबेदार	परमजीत सिंह	01.12.2009
340	जेसी265765वाइ	सुबेदार	पारस नाथ सिंह यादव	01.11.2009
341	जेसी260258एफ	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.01.2010
342	जेसी267980एच	सुबेदार	पवार दिलीप शंकर राव	01.01.2010
343	जेसी265152वाइ	सुबेदार	फूल चंद्रा गिरि	01.01.2010
344	जेसी267936वाइ	सुबेदार	पितांबर सिंह	01.01.2010
345	जेसी264493एक्स	सुबेदार	प्रभाकरण के	01.12.2009
346	जेसी259295एच	सुबेदार	प्रभु दयाल	01.09.2009
347	जेसी263390एम	सुबेदार	प्रबीर कुमार समादर	01.12.2009
348	जेसी265041एफ	सुबेदार	प्रदीप कुमार डी.	01.11.2009
349	जेसी266291पी	सुबेदार	प्रकाश सिंह	01.01.2010
350	जेसी257474के	सुबेदार	प्रणब कुमार चातोपाध्यई	01.10.2009
351	जेसी267634एम	सुबेदार	प्रेम बहादुर छत्री	01.10.2009
352	जेसी263706एन	सुबेदार	प्रेम चन्द शर्मा	01.01.2010

353	जेसी268197के	सुबेदार	प्रेम कुमार	01.01.2010
354	जेसी265467एच	सुबेदार	प्रेम प्रकाश	01.01.2010
355	जेसी265475एफ	सुबेदार	पी लाल डांगी	01.10.2009
356	जेसी264322एल	सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.11.2009
357	जेसी266267वाइ	सुबेदार	रघुवीर सिंह	01.12.2009
358	जेसी267933एल	सुबेदार	रघुवीर सिंह	01.01.2010
359	जेसी264767एक्स	सुबेदार	राज पाती दुबे	01.10.2009
360	जेसी263303एन	सुबेदार	राज सिंह	01.12.2009
361	जेसी268272एच	सुबेदार	राजा राम मौर्या	01.01.2010
362	जेसी268873एन	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.01.2010
363	जेसी258103एन	सुबेदार	राजेंद्र सिंह कौशिक	01.01.2010
364	जेसी266882डब्ल्यू	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.09.2009
365	जेसी266232एच	सुबेदार	रजनीश कुमार	01.11.2009
366	जेसी264846एम	सुबेदार	राजपाल यादव	01.11.2009
367	जेसी269923ए	सुबेदार	राजवंत सिंह	01.10.2009
368	जेसी266900एन	सुबेदार	रकम सिंह	01.11.2009
369	जेसी265977के	सुबेदार	राम बाबू ठाकुर	01.01.2010
370	जेसी263372के	सुबेदार	राम बहादुर गुरंग	01.01.2010
371	जेसी266318एफ	सुबेदार	राम बहादुर यादव	01.01.2010
372	जेसी262131एक्स	सुबेदार	राम भाज	01.12.2009
373	जेसी256675डब्ल्यू	सुबेदार	राम गनेश द्विवेदी	01.11.2009
374	जेसी265146एल	सुबेदार	राम किशोर	01.01.2010
375	जेसी261886एच	सुबेदार	राम नाथ राम	01.09.2009
376	जेसी265090के	सुबेदार	राम प्रकाश	01.10.2009
377	जेसी266177एक्स	सुबेदार	राम प्रकाश प्रसाद	01.10.2009
378	जेसी261891एन	सुबेदार	राम श्रृंगार पांडे	01.01.2010
379	जेसी258884एम	सुबेदार	राम सिंह	01.01.2010
380	जेसी265720वाइ	सुबेदार	रमेश चन्द	01.01.2010
381	जेसी268082डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश कुमार	01.10.2009
382	जेसी266642एन	सुबेदार	रमेश सिंह	01.10.2009
383	जेसी262714ए	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.01.2010
384	जेसी264278एम	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.11.2009
385	जेसी260533डब्ल्यू	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.09.2009
386	जेसी268044ए	सुबेदार	आर रघु	01.09.2009
387	जेसी259471पी	सुबेदार	रतन सिंह	01.11.2009
388	जेसी265890एच	सुबेदार	रवींद्र कुमार	01.11.2009
389	जेसी264608ए	सुबेदार	रवि दत्त शर्मा	01.09.2009
390	जेसी266157के	सुबेदार	रवि शंकर शर्मा	01.09.2009
391	जेसी267540पी	सुबेदार	रेशम सिंह	01.10.2009
392	जेसी268587एन	सुबेदार	आर नाई	01.10.2009
393	जेसी266654एन	सुबेदार	रोहताश सिंह	01.09.2009
394	जेसी255682ए	सुबेदार	एस गणेशन	01.12.2009

395	जेसी265750डब्ल्यू	सुबेदार	एस राजेन्द्रन	01.12.2009
396	जेसी267671ए	सुबेदार	एस रमन	01.11.2009
397	जेसी259798एन	सुबेदार	साबिर काथात	01.12.2009
398	जेसी264240एच	सुबेदार	सागर मल	01.10.2009
399	जेसी269256एक्स	सुबेदार	साजन सिंह	01.01.2010
400	जेसी264272एल	सुबेदार	समभाजी सिंधे	01.11.2009
401	जेसी267593एन	सुबेदार	संदीप शर्मा	01.10.2009
402	जेसी267590ए	सुबेदार	संत लाल	01.10.2009
403	जेसी268615एन	सुबेदार	श्रवण दास	01.01.2010
404	जेसी266943एच	सुबेदार	श्रवण सिंह	01.01.2010
405	जेसी268093एच	सुबेदार	शशि कुमार के	01.01.2010
406	जेसी264776वाइ	सुबेदार	सतवीन्द्र सिंह	01.10.2009
407	जेसी267480एल	सुबेदार	एस पीएस	01.12.2009
408	जेसी266210के	सुबेदार	सवाई सिंह चौहान	01.09.2009
409	जेसी266782एल	सुबेदार	सेल्वदासन पि	01.01.2010
410	जेसी264830एफ	सुबेदार	शाजी जी.	01.01.2010
411	जेसी268605के	सुबेदार	एस राम	01.10.2009
412	जेसी264285एच	सुबेदार	शिवेंद्र कुमार	01.01.2010
413	जेसी265261एल	सुबेदार	श्री राम	01.10.2009
414	जेसी267340वाइ	सुबेदार	सिपाही राम	01.01.2010
415	जेसी264547एन	सुबेदार	सुभाष चंद्र	01.11.2009
416	जेसी264928पी	सुबेदार	सुभाष कुमार	01.10.2009
417	जेसी265677एच	सुबेदार	सुच्चा सिंह	01.01.2010
418	जेसी266118एल	सुबेदार	सुदर्शन	01.12.2009
419	जेसी267372एफ	सुबेदार	सुख दयाल	01.01.2010
420	जेसी268069एम	सुबेदार	सुकुमारन ए	01.10.2009
421	जेसी266348वाइ	सुबेदार	सूरज भान	01.01.2010
422	जेसी269806पी	सुबेदार	सुरेन्द्रा प्रकाश	01.01.2010
423	जेसी265241एक्स	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.12.2009
424	जेसी266409एल	सुबेदार	सुरेश बाबू	01.12.2009
425	जेसी265230एल	सुबेदार	सुरेश चंद्रा मिश्रा	01.12.2009
426	जेसी265187पी	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.10.2009
427	जेसी264505एफ	सुबेदार	सुरेश प्रसाद सिंह	01.12.2009
428	जेसी268755ए	सुबेदार	सुरेश सिंह	01.01.2010
429	जेसी262289ए	सुबेदार	सुरिन्दर कुमार	01.01.2010
430	जेसी267192वाइ	सुबेदार	सूर्या प्रकाश	01.01.2010
431	जेसी263411एक्स	सुबेदार	सुशील प्रकाश	01.10.2009
432	जेसी268612ए	सुबेदार	स्वर्ण सिंह	01.10.2009
433	जेसी266736डब्ल्यू	सुबेदार	टी सिवननारायणा	01.01.2010
434	जेसी259792एम	सुबेदार	तारीफ सिंह दहिया	01.11.2009
435	जेसी259603एक्स	सुबेदार	टी राय	01.01.2010
436	जेसी258405ए	सुबेदार	तरशेम सिंह	01.01.2010

437	जेसी266225एम	सुबेदार	तेज पाल सिंह	01.09.2009
438	जेसी264051वाइ	सुबेदार	तेजवीर सिंह	01.10.2009
439	जेसी262940एक्स	सुबेदार	उजागर सिंह	01.01.2010
440	जेसी264268एच	सुबेदार	उमा शंकर त्रिपाठी	01.10.2009
441	जेसी268499डब्ल्यू	सुबेदार	उमाकांत	01.10.2009
442	जेसी265707पी	सुबेदार	उमेश प्रसाद सिंह	01.12.2009
443	जेसी267337वाइ	सुबेदार	उम्मेद सिंह	01.12.2009
444	जेसी268017डब्ल्यू	सुबेदार	उतेकार सुनील राजाराम	01.10.2009
445	जेसी260903एल	सुबेदार	वेद नारायण भट्ट	01.01.2010
446	जेसी265258एल	सुबेदार	वेद प्रकाश	01.01.2010
447	जेसी265147एन	सुबेदार	विजय शंकर राय	01.12.2009
448	जेसी267114एफ	सुबेदार	विक्रम सिंह	01.01.2010
449	जेसी263366डब्ल्यू	सुबेदार	विनोद कुमार	01.01.2010
450	जेसी265240पी	सुबेदार	विरेंद्र कुमार शुक्ला	01.01.2010
<u>सेना वायू सुरक्षा</u>				
451	जेसी297510एम	सुबेदार	ए पांडियन	01.10.2009
452	जेसी298385ए	सुबेदार	अभेय सिंह	01.09.2009
453	जेसी297434एल	सुबेदार	अजीत कुमार पात्रा	01.12.2009
454	जेसी297422डब्ल्यू	सुबेदार	अमरीक सिंह	01.10.2009
455	जेसी297839डब्ल्यू	सुबेदार	बलजीत सिंह	01.11.2009
456	जेसी298180एल	सुबेदार	बापूजी	01.09.2009
457	जेसी297444पी	सुबेदार	बेन्जामिन केर्केट्टा	01.10.2009
458	जेसी297889एफ	सुबेदार	भागीरथी सुबुधि	01.11.2009
459	जेसी297754ए	सुबेदार	भंवर लाल	01.10.2009
460	जेसी297709एन	सुबेदार	बिक्रम सिंह	01.12.2009
461	जेसी297776वाइ	सुबेदार	बृज भूषण शुक्ला	01.11.2009
462	जेसी298581ए	सुबेदार	बृजपाल सिंह तोमर	01.12.2009
463	जेसी927176डब्ल्यू	सुबेदार	ब्रजेन्द्र नाथ मंडल	01.01.2010
464	जेसी298647एल	सुबेदार	सी सुंदरेशन	01.01.2010
465	जेसी298910एल	सुबेदार	दादन प्रसाद	01.01.2010
466	जेसी298212एच	सुबेदार	देवानंद	01.10.2009
467	जेसी298033एच	सुबेदार	देवेन्द्र कुमार झा	01.01.2010
468	जेसी297944एम	सुबेदार	देवेन्द्ररप्पा डी.	01.12.2009
469	जेसी298382एम	सुबेदार	दिनेश कुमार	01.10.2009
470	जेसी297253ए	सुबेदार	गंगा सिंह बघेल	01.11.2009
471	जेसी299357ए	सुबेदार	गोपाल कृष्णन एस	01.01.2010
472	जेसी298030पी	सुबेदार	गोविंद सिंह	01.12.2009
473	जेसी299050पी	सुबेदार	एच चंद्रा ठाकुर	01.12.2009
474	जेसी298362वाइ	सुबेदार	एच अरुण	01.01.2010
475	जेसी297540के	सुबेदार	जगबीर सिंह	01.01.2010
476	जेसी297543एक्स	सुबेदार	जगदेव सिंह	01.01.2010

477	जेसी298264वाइ	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.09.2009
478	जेसी299015एम	सुबेदार	जय राम सिंह	01.10.2009
479	जेसी296995एन	सुबेदार	जीवट गिरि	01.12.2009
480	जेसी299293ए	सुबेदार	के ई प्रसाद	01.10.2009
481	जेसी296854वाइ	सुबेदार	करन सिंह	01.11.2009
482	जेसी299470पी	सुबेदार	कोशल प्रसाद द्विवेदी	01.01.2010
483	जेसी297743एन	सुबेदार	खिरोद चंद्रा दास	01.11.2009
484	जेसी297293एफ	सुबेदार	किशोरी लाल	01.10.2009
485	जेसी298688एल	सुबेदार	कुटईयन	01.01.2010
486	जेसी297004एफ	सुबेदार	लक्ष्मीकान्त शर्मा	01.01.2010
487	जेसी299084एच	सुबेदार	लक्ष्मन एम	01.01.2010
488	जेसी298104वाइ	सुबेदार	एम दुरई	01.01.2010
489	जेसी298898पी	सुबेदार	एम वेकिटेशन	01.01.2010
490	जेसी298083एन	सुबेदार	महेंद्र नाथ शर्मा	01.12.2009
491	जेसी298364के	सुबेदार	मोहन चंद्रा दास	01.11.2009
492	जेसी298020एल	सुबेदार	मुंशी सिंह	01.01.2010
493	जेसी297925एफ	सुबेदार	नगेन्द्रा कुमार सिंह	01.12.2009
494	जेसी298548एच	सुबेदार	नारायण दत्त	01.01.2010
495	जेसी297682एफ	सुबेदार	नरेंद्र प्रसाद	01.10.2009
496	जेसी298038एफ	सुबेदार	नरेन्द्रा कुमार सिंह	01.11.2009
497	जेसी298079एल	सुबेदार	नरेश प्रसाद यादव	01.10.2009
498	जेसी299016पी	सुबेदार	ओम प्रकाश सिंह	01.01.2010
499	जेसी297458पी	सुबेदार	ओमबीर सिंह	01.12.2009
500	जेसी297199एक्स	सुबेदार	पी तमंग	01.10.2009
501	जेसी298715एन	सुबेदार	राज सिंह	01.01.2010
502	जेसी297606पी	सुबेदार	रकम सिंह	01.01.2010
503	जेसी297167पी	सुबेदार	राकेश चंद्रा	01.01.2010
504	जेसी298411डब्ल्यू	सुबेदार	राम अवतार	01.12.2009
505	जेसी299402एफ	सुबेदार	राम चंद्र सिंह	01.01.2010
506	जेसी298835एम	सुबेदार	राम निवास	01.10.2009
507	जेसी299014के	सुबेदार	राम फूल सिंह	01.01.2010
508	जेसी297008एक्स	सुबेदार	राम सिंह सकलानी	01.01.2010
509	जेसी298057एम	सुबेदार	राम स्वरूप	01.12.2009
510	जेसी299211एम	सुबेदार	राम स्वरूप	01.10.2009
511	जेसी298854एक्स	सुबेदार	रमेश सिंह	01.01.2010
512	जेसी297300एम	सुबेदार	रणधीर सिंह	01.01.2010
513	जेसी298431के	सुबेदार	राठोड़ लक्ष्मन सिंह बी एस	01.09.2009
514	जेसी297904एल	सुबेदार	एस सीनिवासन	01.01.2010
515	जेसी298992वाइ	सुबेदार	साजन सिंह	01.01.2010
516	जेसी299002पी	सुबेदार	संदेश शर्मा	01.01.2010
517	जेसी297450एच	सुबेदार	संगप्पा एच	01.01.2010
518	जेसी296272वाइ	सुबेदार	सरजीत सिंह	01.10.2009

519	जेसी298370एक्स	सुबेदार	ससिधरन एन	01.01.2010
520	जेसी298224एक्स	सुबेदार	सविंद्र सिंह	01.01.2010
521	जेसी299051एक्स	सुबेदार	शिवराज सिंह	01.01.2010
522	जेसी298036डब्ल्यू	सुबेदार	शिशु पाल	01.01.2010
523	जेसी298464पी	सुबेदार	सिद्धेशवर दास	01.01.2010
524	जेसी299178ए	सुबेदार	एस नारायन सिंह यादव	01.01.2010
525	जेसी297504वाइ	सुबेदार	एस महाराना	01.12.2009
526	जेसी298549एल	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.09.2009
527	जेसी298047एच	सुबेदार	सुखविन्दर सिंह	01.01.2010
528	जेसी299295एल	सुबेदार	सुखविंदर सिंह	01.09.2009
529	जेसी298554डब्ल्यू	सुबेदार	सुकुमारन टी पी	01.12.2009
530	जेसी296778एक्स	सुबेदार	सुनील कुमार शर्मा	01.01.2010
531	जेसी296683एक्स	सुबेदार	एस सरकार	01.12.2009
532	जेसी297269एल	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.12.2009
533	जेसी299027एफ	सुबेदार	तारा चन्द	01.10.2009
534	जेसी298082एल	सुबेदार	तारा सिंह	01.01.2010
535	जेसी298913वाइ	सुबेदार	तेज सिंह टी	01.01.2010
536	जेसी299030एफ	सुबेदार	यू अईयानर	01.10.2009
537	जेसी298717वाइ	सुबेदार	यू सिंह	01.10.2009
538	जेसी299073डब्ल्यू	सुबेदार	वी नमशिवायम	01.01.2010
539	जेसी298478पी	सुबेदार	विजय सिंह	01.01.2010
540	जेसी296846ए	सुबेदार	विजय सिंह यादव	01.12.2009
541	जेसी299123डब्ल्यू	सुबेदार	विजयन पी के	01.10.2009
542	जेसी298632एच	सुबेदार	विपिनन आर	01.12.2009
543	जेसी298801वाइ	सुबेदार	विश्वांभर दयाल	01.10.2009
544	जेसी297325वाइ	सुबेदार	वाइ सिंह	01.12.2009
मद्रास इंजीनियर समूह				
545	जेसी306855एक्स	सुबेदार	ए विजया भास्कर	01.01.2010
546	जेसी306453ए	सुबेदार	अजयकुमार सीवी	01.09.2009
547	जेसी306991एन	सुबेदार	बतवाचलम	01.12.2009
548	जेसी224801के	सुबेदार	सी लोगानाथन	01.09.2009
549	जेसी306856ए	सुबेदार	चंद्रा एस बीएम	01.01.2010
550	जेसी306808ए	सुबेदार	जी. सिबस्टियन	01.12.2009
551	जेसी307764ए	सुबेदार	जोर्ज जॉन	01.01.2010
552	जेसी306885पी	सुबेदार	जॉन बोसको पी	01.10.2009
553	जेसी307631के	सुबेदार	के मसीलामणी	01.01.2010
554	जेसी307113के	सुबेदार	के रूबिन	01.10.2009
555	जेसी307295एच	सुबेदार	के सेट्टू	01.12.2009
556	जेसी307421के	सुबेदार	करुणानिधि टी	01.12.2009
557	जेसी305269पी	सुबेदार	एम भूर्ती	01.09.2009
558	जेसी307919के	सुबेदार	महम्मद इब्राहिम	01.10.2009

559	जेसी307420एफ	सुबेदार	पलानी के	01.01.2010
560	जेसी307887एम	सुबेदार	आर बालिया	01.12.2009
561	जेसी307330ए	सुबेदार	राधाकृष्णा पिल्लई के	01.12.2009
562	जेसी307591एन	सुबेदार	आर वी	01.01.2010
563	जेसी307051पी	सुबेदार	आरवीवी सत्यनारायण	01.10.2009
564	जेसी305746वाइ	सुबेदार	एस गुनाशेखरन	01.09.2009
565	जेसी307412एच	सुबेदार	एस सदाशिवम	01.01.2010
566	जेसी306798एफ	सुबेदार	शरणाप्पा	01.12.2009
567	जेसी307918एफ	सुबेदार	सुरेन्द्रन एवी	01.11.2009
568	जेसी307237वाइ	सुबेदार	विथल सावंत	01.10.2009
बंगाल इंजीनियर समूह				

569	जेसी330453वाइ	सुबेदार	अहमद खान	01.12.2009
570	जेसी328829डब्ल्यू	सुबेदार	अजीत कुमार सिंह	01.10.2009
571	जेसी328759एच	सुबेदार	अमोल सिंह	01.01.2010
572	जेसी325602एक्स	सुबेदार	अशोक कुमार साहनी	01.01.2010
573	जेसी328800एन	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.01.2010
574	जेसी328941एच	सुबेदार	बलजीत सिंह	01.10.2009
575	जेसी327937एन	सुबेदार	बलवीर सिंह	01.09.2009
576	जेसी328400एफ	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.10.2009
577	जेसी328797वाइ	सुबेदार	बसंत सिंह	01.09.2009
578	जेसी328320के	सुबेदार	भरत चंद्रा रौय	01.10.2009
579	जेसी328683एन	सुबेदार	बिहारी लाल टमटा	01.11.2009
580	जेसी328788एक्स	सुबेदार	चन्दन सिंह	01.11.2009
581	जेसी137406ए	सुबेदार	सी बी आर	01.11.2009
582	जेसी328937ए	सुबेदार	छात्रा पाल सिंह यादव	01.11.2009
583	जेसी328679एल	सुबेदार	दान सिंह	01.11.2009
584	जेसी330168ए	सुबेदार	दर्शन सिंह धीर	01.12.2009
585	जेसी326543एम	सुबेदार	दया राम	01.09.2009
586	जेसी325744पी	सुबेदार	देवेन्द्र प्रसाद दास	01.12.2009
587	जेसी328948एम	सुबेदार	दिनेश कुमार	01.12.2009
588	जेसी326805एन	सुबेदार	दुलाल कुमार चातेजी	01.01.2010
589	जेसी326505एम	सुबेदार	गुलाम कादिर शेख	01.09.2009
590	जेसी328731एच	सुबेदार	गिरीश चंद्रा पाठक	01.01.2010
591	जेसी330171ए	सुबेदार	गुना नन्द चौधरी	01.01.2010
592	जेसी328806पी	सुबेदार	गुरदयाल सिंह	01.12.2009
593	जेसी224868एच	सुबेदार	हरभजन सिंह	01.11.2009
594	जेसी328707एम	सुबेदार	हरीश चंद्रा	01.12.2009
595	जेसी328730एन	सुबेदार	हरीश चंद्रा	01.01.2010
596	जेसी325603ए	सुबेदार	हरीश चंद्रा पांडे	01.01.2010
597	जेसी325305के	सुबेदार	इंद्र सिंह	01.12.2009
598	जेसी328720डब्ल्यू	सुबेदार	जगदीश चंद्रा पांडे	01.12.2009

599	जेसी330405वाइ	सुबेदार	जगदीश सिंह रावल	01.01.2010
600	जेसी328772एम	सुबेदार	जगमोहन सिंह	01.09.2009
601	जेसी329113के	सुबेदार	जमन सिंह	01.10.2009
602	जेसी328807एक्स	सुबेदार	जनार्दन सिंह	01.01.2010
603	जेसी325304एफ	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.01.2010
604	जेसी325554एच	सुबेदार	जे कुमार	01.09.2009
605	जेसी328974एन	सुबेदार	किशन सिंह	01.01.2010
606	जेसी328709एक्स	सुबेदार	कुमार नलिन	01.01.2010
607	जेसी330086एक्स	सुबेदार	लिंगा राजू बी जी.	01.11.2009
608	जेसी328449एक्स	सुबेदार	महेश पाल सिंह	01.01.2010
609	जेसी328702एन	सुबेदार	महीपाल सिंह	01.12.2009
610	जेसी328789ए	सुबेदार	माकन सिंह	01.11.2009
611	जेसी328856ए	सुबेदार	मिथलेश कुमार झा	01.01.2010
612	जेसी328732एल	सुबेदार	मिथलेश कुमार सिंह	01.09.2009
613	जेसी330692एन	सुबेदार	नसीरुद्दीन	01.11.2009
614	जेसी224867ए	सुबेदार	पारेश चंद्रा दास	01.10.2009
615	जेसी328901एफ	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.09.2009
616	जेसी328688एम	सुबेदार	प्रुथी राज दास	01.12.2009
617	जेसी327038एम	सुबेदार	पुर्षोत्तम शर्मा	01.12.1909
618	जेसी326524एक्स	सुबेदार	आर बालचन्द्रर	01.01.2010
619	जेसी326865एच	सुबेदार	राजू एम	01.11.2009
620	जेसी328733एन	सुबेदार	राकेश कुमार	01.01.2010
621	जेसी326544एल	सुबेदार	राकेश कुमार शर्मा	01.09.2009
622	जेसी328760एक्स	सुबेदार	रमा शंकर दुबे	01.01.2010
623	जेसी327769ए	सुबेदार	रमन सिंह यादव	01.12.2009
624	जेसी325389एच	सुबेदार	रमेश चंद्रा कौशिक	01.12.2009
625	जेसी327222एक्स	सुबेदार	रमेश कुमार तनवर	01.10.2009
626	जेसी328698डब्ल्यू	सुबेदार	रामेश्वर सिंह	01.12.2009
627	जेसी327298एक्स	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.01.2010
628	जेसी328799के	सुबेदार	रतनेश्वर दास	01.12.2009
629	जेसी328413वाइ	सुबेदार	रतनेश्वर नाथ	01.01.2010
630	जेसी328818के	सुबेदार	रवीन्द्र नाथ सिंह	01.01.2010
631	जेसी329066एक्स	सुबेदार	रुकम सिंह	01.12.2009
632	जेसी326470एफ	सुबेदार	संत लाल कुशवाहा	01.09.2009
633	जेसी327079डब्ल्यू	सुबेदार	ससेन्द्रणन के आर	01.12.2009
634	जेसी156343एक्स	सुबेदार	सतबीर सिंह	01.09.2009
635	जेसी329690डब्ल्यू	सुबेदार	सुरेश बहादुर सिंह	01.12.2009
636	जेसी328852के	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.12.2009
637	जेसी325797एन	सुबेदार	स्वप्न कुमार सिन्हा	01.11.2009
638	जेसी328833वाइ	सुबेदार	ताजवर सिंह	01.01.2010
639	जेसी328904पी	सुबेदार	उदय नारायण सिंह	01.12.2009
640	जेसी328973एल	सुबेदार	उत्तातम सिंह	01.01.2010

641	जेसी328652एन बोम्बे इंजीनियर समूह	सुबेदार	विजय प्रताप सिंह	01.09.2009
642	जेसी349855एल	सुबेदार	अकबर हुसैन	01.01.2010
643	जेसी349136एम	सुबेदार	अवतार सिंह	01.12.2009
644	जेसी348612एन	सुबेदार	बद्रीनाथ पाटनकर	01.11.2009
645	जेसी349099के	सुबेदार	बलदेव सिंह	01.09.2009
646	जेसी349353एच	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.01.2010
647	जेसी349424वाइ	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.12.2009
648	जेसी349371एल	सुबेदार	बंत सिंह	01.01.2010
649	जेसी349630एच	सुबेदार	बावा सिंह	01.09.2009
650	जेसी348377ए	सुबेदार	देसे मारूति गणपति	01.09.2009
651	जेसी349217एम	सुबेदार	देव सिंह	01.09.2009
652	जेसी349411एफ	सुबेदार	गवस विथल कृष्णा	01.01.2010
653	जेसी349230डब्ल्यू	सुबेदार	गुरमीत लाल	01.10.2009
654	जेसी347190एफ	सुबेदार	हरी सिंह यादव	01.09.2009
655	जेसी348688एन	सुबेदार	हरजिन्द्र सिंह	01.12.2009
656	जेसी349016एन	सुबेदार	हरजिन्द्र सिंह	01.09.2009
657	जेसी348859पी	सुबेदार	हरजीत सिंह	01.09.2009
658	जेसी349214वाइ	सुबेदार	इब्राहिम खान	01.10.2009
659	जेसी349892वाइ	सुबेदार	इंग्ले राजाराम महादेव	01.09.2009
660	जेसी348897एल	सुबेदार	जाधव दशरथ पांडुरंग	01.09.2009
661	जेसी347855एम	सुबेदार	जाधव तानाजी शिवाजी	01.09.2009
662	जेसी348670के	सुबेदार	जगन्नथ सचदेवा पी	01.10.2009
663	जेसी349028एच	सुबेदार	जगताप शिरीष कुमार बापू साहेब	01.09.2009
664	जेसी348643एन	सुबेदार	जगतार सिंह	01.12.2009
665	जेसी349223ए	सुबेदार	जयबीर सिंह एस	01.11.2009
666	जेसी349325डब्ल्यू	सुबेदार	जरनैल सिंह	01.12.2009
667	जेसी348975एक्स	सुबेदार	जे शुक्ला	01.11.2009
668	जेसी349154पी	सुबेदार	कमल सिंह	01.09.2009
669	जेसी347172वाइ	सुबेदार	केदार प्रसाद	01.11.2009
670	जेसी348970वाइ	सुबेदार	मान सिंह ठाकुर	01.11.2009
671	जेसी349148एफ	सुबेदार	माते दत्तात्रिया मथू	01.01.2010
672	जेसी349156ए	सुबेदार	मोहम्मद अली	01.09.2009
673	जेसी348733पी	सुबेदार	मोइनुद्दीन	01.01.2010
674	जेसी349554एफ	सुबेदार	पवार मोहन रमा राव	01.11.2009
675	जेसी347871के	सुबेदार	प्रेम लाल	01.01.2010
676	जेसी349438वाइ	सुबेदार	राधे सिंह	01.10.2009
677	जेसी348360एम	सुबेदार	रघुनंदन	01.10.2009
678	जेसी349229एफ	सुबेदार	राम किशोर	01.12.2009
679	जेसी347969एक्स	सुबेदार	राम प्रकाश	01.09.2009
680	जेसी347825पी	सुबेदार	राम सरन सिंह	01.09.2009

681	जेसी347906पी	सुबेदार	रमा नन्द कौशिक	01.01.2010
682	जेसी349020डब्ल्यू	सुबेदार	रमेश राजाराम डी.	01.09.2009
683	जेसी349691ए	सुबेदार	रामेश्वर सिंह	01.01.2010
684	जेसी347170एन	सुबेदार	रामजी दास	01.11.2009
685	जेसी348018एम	सुबेदार	रोशन लाल बख्शी	01.11.2009
686	जेसी349564एल	सुबेदार	साधु सिंह	01.09.2009
687	जेसी349389एफ	सुबेदार	सागर सिंह	01.01.2010
688	जेसी348687एल	सुबेदार	सकपाल रवीन्द्र हनामन्त	01.01.2010
689	जेसी347253वाइ	सुबेदार	संतोष सिंह	01.01.2010
690	जेसी348676वाइ	सुबेदार	एस चौधरी	01.10.2009
691	जेसी349019एफ	सुबेदार	श्रीधर भाउ उतेकर	01.09.2009
692	जेसी347394एन	सुबेदार	सुबोध बिष्ट	01.12.2009
693	जेसी349119एम	सुबेदार	सुखवीर सिंह	01.12.2009
694	जेसी349122एम	सुबेदार	तोरथ सिंह	01.01.2010
695	जेसी349562ए	सुबेदार	उदित नारायण	01.10.2009
696	जेसी349498एन	सुबेदार	डब्ल्यू ए रामु	01.09.2009
697	जेसी349098एफ	सुबेदार	यश पौल	01.01.2010

सिग्नल्स कोर

698	जेसी374356एफ	सुबेदार	ए के चौधरी	01.12.2009
699	जेसी371607पी	सुबेदार	अभिलाख सिंह	01.11.2009
700	जेसी370444ए	सुबेदार	एके. चकर्बती	01.11.2009
701	जेसी371259वाइ	सुबेदार	अल्बेल सिंह	01.09.2009
702	जेसी371778एफ	सुबेदार	अमर कृष्णा विश्वास	01.01.2010
703	जेसी371467एन	सुबेदार	अमला राम	01.11.2009
704	जेसी372198वाइ	सुबेदार	आनंद सिंह	01.10.2009
705	जेसी369862एच	सुबेदार	अनिल कुमार	01.01.2010
706	जेसी372965एम	सुबेदार	अर्विन्द कुमार	01.01.2010
707	जेसी373702ए	सुबेदार	अशोक कुमार पात्रा	01.11.2009
708	जेसी373241एफ	सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	01.12.2009
709	जेसी374675एन	सुबेदार	अयूब खान	01.12.2009
710	जेसी374960एम	सुबेदार	बी एस ग्रेवाल	01.10.2009
711	जेसी374850एक्स	सुबेदार	बी शिवदास	01.01.2010
712	जेसी372607एफ	सुबेदार	बालाराम महता	01.09.2009
713	जेसी375102डब्ल्यू	सुबेदार	बलवान सिंह	01.10.2009
714	जेसी372095ए	सुबेदार	बनवारी लाल	01.11.2009
715	जेसी374171ए	सुबेदार	भगूराम चौधरी	01.12.2009
716	जेसी372270के	सुबेदार	भरत कुमार झा	01.12.2009
717	जेसी372727ए	सुबेदार	भूप चंद्रा	01.12.2009
718	जेसी373580एफ	सुबेदार	बी सिंह	01.01.2010
719	जेसी374767ए	सुबेदार	भुपेन्द्र सिंह	01.01.2010
720	जेसी375215वाइ	सुबेदार	बिक्रम सिंह	01.09.2009

721	जेसी373906एम	सुबेदार	बोकाडे मधु	01.01.2010
722	जेसी374486के	सुबेदार	ब्रज किशोर ठाकुर	01.01.2010
723	जेसी373667एच	सुबेदार	चुन्नी लाल	01.12.2009
724	जेसी373348डब्ल्यू	सुबेदार	डी. कुप्पन	01.11.2009
725	जेसी373648एक्स	सुबेदार	डी. मुरुगा दास	01.11.2009
726	जेसी371600एल	सुबेदार	डी. राजनगम	01.12.2009
727	जेसी374255एन	सुबेदार	डी. एस डांगी	01.01.2010
728	जेसी372324ए	सुबेदार	डी.सी मोहंती	01.09.2009
729	जेसी372929एफ	सुबेदार	देव सुंदर साहू	01.09.2009
730	जेसी372098एन	सुबेदार	देवेन्द्र प्रसाद रौय	01.10.2009
731	जेसी373221एन	सुबेदार	धर्म पाल	01.10.2009
732	जेसी373336एफ	सुबेदार	जी. सी कटोच	01.11.2009
733	जेसी374449डब्ल्यू	सुबेदार	गंगा प्रसाद यादव	01.09.2009
734	जेसी373468पी	सुबेदार	ज्ञान चन्द शर्मा	01.12.2009
735	जेसी367924वाइ	सुबेदार	गौना बाथुला कमल कुमार	01.12.2009
736	जेसी372143पी	सुबेदार	हंस राज शर्मा	01.01.2010
737	जेसी375046एच	सुबेदार	हरी कुमार जी.	01.12.2009
738	जेसी373578के	सुबेदार	हरी सिंह मान	01.01.2010
739	जेसी368456डब्ल्यू	सुबेदार	हरिदास के पी	01.11.2009
740	जेसी371612ए	सुबेदार	हरीवीर सिंह	01.01.2010
741	जेसी373378एन	सुबेदार	हरमोहन लाल	01.10.2009
742	जेसी375506वाइ	सुबेदार	हरनाम चन्द	01.01.2010
743	जेसी370080वाइ	सुबेदार	हरपाल सिंह	01.09.2009
744	जेसी373960ए	सुबेदार	हब नारायण	01.10.2009
745	जेसी373907पी	सुबेदार	इश्वर सिंह	01.12.2009
746	जेसी374010एक्स	सुबेदार	इश्वर सिंह	01.11.2009
747	जेसी375243एल	सुबेदार	इसरार बाबू	01.11.2009
748	जेसी375393एफ	सुबेदार	जग बाली सिंह	01.12.2009
749	जेसी374290डब्ल्यू	सुबेदार	जय करन	01.11.2009
750	जेसी371527एक्स	सुबेदार	जय प्रकाश सिंह	01.01.2010
751	जेसी369868के	सुबेदार	जय सिंह	01.12.2009
752	जेसी371622के	सुबेदार	जनार्दनन पी	01.10.2009
753	जेसी368571डब्ल्यू	सुबेदार	जसपाल सिंह	01.10.1909
754	जेसी372864वाइ	सुबेदार	जसराम	01.11.2009
755	जेसी374699एक्स	सुबेदार	जीत सिंह	01.12.2009
756	जेसी374245के	सुबेदार	जं. सहारिया	01.12.2009
757	जेसी373925एक्स	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.12.2009
758	जेसी374315एक्स	सुबेदार	के बालाजी राव	01.11.2009
759	जेसी375158एच	सुबेदार	के रमा सामी	01.12.2009
760	जेसी374069एक्स	सुबेदार	के सीनिवासन	01.09.2009
761	जेसी373985एम	सुबेदार	कामता प्रसाद चौधरी	01.12.2009
762	जेसी373574एन	सुबेदार	कर्म चन्द कपिल	01.12.2009

763	जेसी370797ए	सुबेदार	कार्तीकेयन ई	01.09.2009
764	जेसी373332एल	सुबेदार	कष्णन कुमार	01.01.2010
765	जेसी374301एक्स	सुबेदार	कृष्णन कुट्टी नायर	01.01.2010
766	जेसी373316एन	सुबेदार	के शर्मा	01.10.2009
767	जेसी373697ए	सुबेदार	कुन्ही रमन एम	01.01.2010
768	जेसी374278पी	सुबेदार	लक्षमन सिंह	01.01.2010
769	जेसी374126एन	सुबेदार	लालजी यादव	01.10.2009
770	जेसी371752एम	सुबेदार	एम एन सिंह	01.12.2009
771	जेसी370243एफ	सुबेदार	एम एस वर्मा	01.01.2010
772	जेसी372279वाइ	सुबेदार	महाराज सिंह	01.01.2010
773	जेसी374479एन	सुबेदार	महावीर सिंह	01.01.2010
774	जेसी374587एक्स	सुबेदार	महिंद्र सिंह	01.01.2010
775	जेसी371909एफ	सुबेदार	मैथ्यू ई एम	01.12.2009
776	जेसी373974ए	सुबेदार	मीर सिंह	01.11.2009
777	जेसी374869डब्ल्यू	सुबेदार	मीर सिंह लाम्बा	01.09.2009
778	जेसी372094एक्स	सुबेदार	मोहन लाल	01.11.2009
779	जेसी374101एफ	सुबेदार	मोहन सिंह	01.12.2009
780	जेसी375511के	सुबेदार	नालगटला गोपालिया	01.09.2009
781	जेसी372871पी	सुबेदार	नारायणन एम टी	01.12.2009
782	जेसी371611एक्स	सुबेदार	नेनु सिंह रावत	01.11.2009
783	जेसी373799डब्ल्यू	सुबेदार	निरंजन मिश्रा	01.10.2009
784	जेसी373729एक्स	सुबेदार	निर्मल कुमार	01.12.2009
785	जेसी372814एन	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.11.2009
786	जेसी371882पी	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.10.2009
787	जेसी370778पी	सुबेदार	ओम प्रकाश ओझा	01.10.2009
788	जेसी373466के	सुबेदार	पी के साहू	01.12.2009
789	जेसी373210एफ	सुबेदार	परलाद सिंह एस	01.01.2010
790	जेसी374166पी	सुबेदार	प्रताप चन्द	01.12.2009
791	जेसी372927डब्ल्यू	सुबेदार	प्रवीन सिंह	01.12.2009
792	जेसी374081वाइ	सुबेदार	पी मोहानन के	01.11.2009
793	जेसी374776एफ	सुबेदार	फूल चन्द	01.11.2009
794	जेसी373732एक्स	सुबेदार	प्रभु सिंह रावत	01.11.2009
795	जेसी370897एल	सुबेदार	पी ठाकुर	01.09.2009
796	जेसी374666एम	सुबेदार	प्रताप चन्द	01.10.2009
797	जेसी371261डब्ल्यू	सुबेदार	प्रेम सिंह	01.10.2009
798	जेसी374655ए	सुबेदार	आर जी. चंद्रा शेखर	01.09.2009
799	जेसी373273के	सुबेदार	आर एल भारी	01.11.2009
800	जेसी370081एफ	सुबेदार	राधा कष्णन शर्मा	01.09.2009
801	जेसी371686पी	सुबेदार	राधे श्याम ओझा	01.10.2009
802	जेसी370931ए	सुबेदार	राज किशोर	01.01.2010
803	जेसी375242एच	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.01.2010
804	जेसी375051एन	सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद	01.10.2009

805	जेसी373510एच	सुबेदार	राजेश कुमार	01.12.2009
806	जेसी371217एम	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.12.2009
807	जेसी371009एक्स	सुबेदार	आर दुबे	01.01.2010
808	जेसी372570एल	सुबेदार	राजवीर मीना	01.11.2009
809	जेसी373247एच	सुबेदार	राम करन	01.01.2010
810	जेसी372365के	सुबेदार	राम किशोर नायक	01.11.2009
811	जेसी372071डब्ल्यू	सुबेदार	राम मूरत	01.01.2010
812	जेसी374342एफ	सुबेदार	राम निवास	01.10.2009
813	जेसी374807डब्ल्यू	सुबेदार	राम पाती	01.01.2010
814	जेसी374307वाइ	सुबेदार	राम प्रताप	01.10.2009
815	जेसी372739पी	सुबेदार	रमेश दत्त	01.10.2009
816	जेसी375533एच	सुबेदार	रमेश कुमार वर्मा	01.11.2009
817	जेसी373543एन	सुबेदार	रमेश सिंह	01.12.2009
818	जेसी371920ए	सुबेदार	रामजीत सिंह	01.01.2010
819	जेसी374492एक्स	सुबेदार	रामजी सिंह	01.01.2010
820	जेसी375467एल	सुबेदार	रामपाल दत्ता	01.12.2009
821	जेसी373991ए	सुबेदार	रतन सिंह	01.11.2009
822	जेसी375164डब्ल्यू	सुबेदार	रतन सिंह	01.01.2010
823	जेसी370579एफ	सुबेदार	रवीन्द्रन के पी	01.11.2009
824	जेसी374277एम	सुबेदार	रवीन्द्रन नायर एम एन	01.01.2010
825	जेसी374162वाइ	सुबेदार	रवि कुमार आर	01.12.2009
826	जेसी373737डब्ल्यू	सुबेदार	एस सी पात्रा	01.10.2009
827	जेसी375275एन	सुबेदार	एस जी. चातेजी	01.01.2010
828	जेसी372742पी	सुबेदार	एस गौतम शेखू	01.01.2010
829	जेसी372964के	सुबेदार	एस शण्मुगमै	01.12.2009
830	जेसी368991डब्ल्यू	सुबेदार	एस शेखर पांडे	01.11.2009
831	जेसी373767एन	सुबेदार	साधु राम	01.10.2009
832	जेसी370510एक्स	सुबेदार	संकर नारायणन सीटी	01.11.2009
833	जेसी369026वाइ	सुबेदार	संसार सिंह जसवाल	01.12.2009
834	जेसी374749एक्स	सुबेदार	शशि भूषण सिंह	01.11.2009
835	जेसी375583एन	सुबेदार	सत नारायण	01.12.2009
836	जेसी374224एन	सुबेदार	सतवीर सिंह	01.01.2010
837	जेसी371258डब्ल्यू	सुबेदार	सत्य नारायण प्रसाद	01.09.2009
838	जेसी372831एन	सुबेदार	सवाई सिंह	01.11.2009
839	जेसी373242के	सुबेदार	शिव नारायण यादव	01.01.2010
840	जेसी200670एल	सुबेदार	शिव प्रसाद सिंह	01.01.2010
841	जेसी374045एन	सुबेदार	श्यामल कृष्णा पाल	01.01.2010
842	जेसी372623वाइ	सुबेदार	सिया राम सिंह	01.12.2009
843	जेसी372621एन	सुबेदार	श्री राम शर्मा	01.10.2009
844	जेसी373465एफ	सुबेदार	सुभास चन्द्र	01.12.2009
845	जेसी371635एफ	सुबेदार	सुभाष चंद्र	01.12.2009
846	जेसी374068पी	सुबेदार	सुधाकर राय	01.12.2009

847	जेसी373379डब्ल्यू	सुबेदार	सुधीर कुमार वालिआ	01.10.2009
848	जेसी375125एक्स	सुबेदार	सुनील कुमार	01.10.2009
849	जेसी371510के	सुबेदार	सूरज मल	01.01.2010
850	जेसी372866के	सुबेदार	सुरेश चंद्र	01.01.2010
851	जेसी372963एफ	सुबेदार	सुरिन्दर सिंह	01.11.2009
852	जेसी372523एन	सुबेदार	तारक नाथ शाह	01.09.2009
853	जेसी374382एच	सुबेदार	टीकम सिंह	01.10.2009
854	जेसी374073ए	सुबेदार	त्रिलोक चन्द	01.12.2009
855	जेसी374317एच	सुबेदार	उगमा राम एम	01.12.2009
856	जेसी374525एक्स	सुबेदार	वी के राय	01.12.2009
857	जेसी368672के	सुबेदार	वी एस पी सिंह	01.01.2010
858	जेसी373311पी	सुबेदार	वी सिंह	01.09.2009
859	जेसी374372वाइ	सुबेदार	विजया कुमार जी.	01.10.2009
860	जेसी374485एफ	सुबेदार	विक्रम सिंह	01.12.2009
861	जेसी374654एक्स	सुबेदार	विनोद बिहारी प्रसाद	01.09.2009
862	जेसी371560पी	सुबेदार	विनोद कुमार जी.	01.12.2009
863	जेसी371682वाइ	सुबेदार	विरेन्द्र कुमार	01.09.2009
<u>गार्ड्स</u>				
864	जेसी403270एन	सुबेदार	दुर्गा प्रसाद	01.01.2010
865	जेसी402980वाइ	सुबेदार	जगदीश चन्द	01.10.2009
866	जेसी403028वाइ	सुबेदार	एम अलागर सामी	01.09.2009
867	जेसी402929वाइ	सुबेदार	मंसा राम लाम्बा	01.11.2009
868	जेसी403192एफ	सुबेदार	मोहन सिंह मेहता	01.01.2010
869	जेसी403375एक्स	सुबेदार	मोहानन सी	01.01.2010
870	जेसी402923एक्स	सुबेदार	रघुबीर सिंह रावत	01.10.2009
871	जेसी403376ए	सुबेदार	रक्षपाल शाक्य	01.12.2009
872	जेसी403331ए	सुबेदार	राना राम चौधरी	01.10.2009
873	जेसी403424पी	सुबेदार	सत्येन्द्र सिंह	01.09.2009
874	जेसी403118ए	सुबेदार	सुभाष चंद्र	01.01.2010
875	जेसी402830एच	सुबेदार	सूरज भान सिंह	01.09.2009
<u>पैराशूट रेजीमेन्ट</u>				
876	जेसी412526एम	सुबेदार	बिपुल चंद्रा हज़ारिका	01.12.2009
877	जेसी412738एक्स	सुबेदार	सी वी दिनेशन	01.12.2009
878	जेसी412579एल	सुबेदार	चंद्रा बहादुर चन्द	01.11.2009
879	जेसी412549एन	सुबेदार	दिगर सिंह	01.11.2009
880	जेसी412723पी	सुबेदार	जगदीश प्रसाद शर्मा	01.09.2009
881	जेसी412684एफ	सुबेदार	जयपाल सिंह	01.09.2009
882	जेसी412617डब्ल्यू	सुबेदार	माला राम जाट	01.01.2010
883	जेसी412846एफ	सुबेदार	फूल सिंह	01.01.2010
884	जेसी412610एम	सुबेदार	प्रहलाद सिंह	01.01.2010

885	जेसी412632एल	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.01.2010
886	जेसी412589पी	सुबेदार	साब सिंह	01.01.2010
887	जेसी412668के	सुबेदार	शमशेर सिंह	01.01.2010
888	जेसी412524एफ	सुबेदार	शिव चरण सिंह	01.10.2008
889	जेसी412621वाइ	सुबेदार	सुरेश चंद्र	01.11.2009
890	जेसी412433एक्स	सुबेदार	तेज पाल	01.01.2010
मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट				

891	जेसी419337एल	सुबेदार	अमीन चन्द एस	01.01.2010
892	जेसी419967एल	सुबेदार	अनूप बीर लामा	01.10.2009
893	जेसी419985एन	सुबेदार	अर्जुन राम	01.01.2010
894	जेसी419631एल	सुबेदार	बाबुल चेतिया	01.01.2010
895	जेसी420053एन	सुबेदार	बच्चा बाबू	01.01.2010
896	जेसी419501एच	सुबेदार	बच्चे सिंह	01.01.2010
897	जेसी419952एच	सुबेदार	बन्वर सिंह	01.01.2010
898	जेसी419704एम	सुबेदार	बी लाल	01.01.2010
899	जेसी418594डब्ल्यू	सुबेदार	भवर लाल जाटव	01.10.2009
900	जेसी419724ए	सुबेदार	भोला सिंह	01.12.2009
901	जेसी418597एफ	सुबेदार	चंद्रा बहादुर गुरंग	01.01.2010
902	जेसी420347एफ	सुबेदार	चंद्रपाल सिंह	01.01.2010
903	जेसी419252पी	सुबेदार	डी. यादव	01.01.2010
904	जेसी418713एफ	सुबेदार	दिनेश चन्द पाठक	01.09.2009
905	जेसी419332एम	सुबेदार	डी. राम चौधरी	01.09.2009
906	जेसी419732वाइ	सुबेदार	गोपा कुमार के	01.01.2010
907	जेसी420174पी	सुबेदार	हरीश चन्द गुप्ता	01.01.2010
908	जेसी420050ए	सुबेदार	इंद्र सिंह शेखावत	01.10.2009
909	जेसी419756एच	सुबेदार	इश्वर सिंह	01.10.2009
910	जेसी419718एम	सुबेदार	जे फ्रांसेस	01.10.2009
911	जेसी419553वाइ	सुबेदार	जे खान	01.10.2009
912	जेसी419636के	सुबेदार	कैलाश	01.01.2010
913	जेसी419945एम	सुबेदार	कमल सिंह	01.01.2010
914	जेसी418817एच	सुबेदार	कुट्टी संकरन सीपी	01.10.2009
915	जेसी419192एल	सुबेदार	लुइस जोसफ	01.10.2009
916	जेसी419038एम	सुबेदार	महा सिंह पछर	01.01.2010
917	जेसी419797एम	सुबेदार	मान बहादुर गुरंग	01.10.2009
918	जेसी418595वाइ	सुबेदार	मान मोहन	01.01.2010
919	जेसी419368एल	सुबेदार	मंगू लाल	01.01.2010
920	जेसी419241एच	सुबेदार	मैथ्यू के.एम	01.10.2009
921	जेसी419539एम	सुबेदार	मोहाना कुमार पी	01.10.2009
922	जेसी419733एफ	सुबेदार	मोहानन नायर कंके	01.01.2010
923	जेसी419482एच	सुबेदार	नंदजी जी.	01.10.2009
924	जेसी419369एन	सुबेदार	नूर इस्लाम	01.01.2010

925	जेसी419798पी	सुबेदार	फूल सिंह	01.01.2010
926	जेसी419950एक्स	सुबेदार	पी राम गोगोई	01.01.2010
927	जेसी419946पी	सुबेदार	प्रमोद कुमार सिंह	01.01.2010
928	जेसी419632एन	सुबेदार	राधा के पिल्लई डी.	01.01.2010
929	जेसी419614एल	सुबेदार	रघुनाथन ई	01.10.2009
930	जेसी419915पी	सुबेदार	राज कुमार	01.10.2009
931	जेसी419894के	सुबेदार	राजेश कुमार तिवारी	01.10.2009
932	जेसी419509पी	सुबेदार	राम बहादुर	01.01.2010
933	जेसी419629एन	सुबेदार	राम लक्षन	01.01.2010
934	जेसी419565एन	सुबेदार	राम नारायण सिंह	01.10.2009
935	जेसी418836एन	सुबेदार	राम रतन प्रसाद	01.10.2009
936	जेसी419278के	सुबेदार	आर सिंह	01.10.2009
937	जेसी419592एक्स	सुबेदार	रमेश कुमार	01.01.2010
938	जेसी420037डब्ल्यू	सुबेदार	रतन कुमार रौय	01.01.2010
939	जेसी420049एल	सुबेदार	रुकम पाल	01.10.2009
940	जेसी418966डब्ल्यू	सुबेदार	सनापूरन सिंह	01.01.2010
941	जेसी418473पी	सुबेदार	सांवर मल	01.10.2009
942	जेसी419339डब्ल्यू	सुबेदार	शेखर चंद्रा तिवारी	01.01.2010
943	जेसी419436एन	सुबेदार	शेर सिंह	01.01.2010
944	जेसी419102वाइ	सुबेदार	शिव कुमार	01.11.2009
945	जेसी419043एक्स	सुबेदार	श्री किशन	01.10.2009
946	जेसी419191एच	सुबेदार	श्यामल कुमार मंडल	01.10.2009
947	जेसी419567वाइ	सुबेदार	सोमा कुमारन के	01.10.2009
948	जेसी419768एक्स	सुबेदार	सुभाष चन्द	01.01.2010
949	जेसी419948ए	सुबेदार	सुदामा	01.01.2010
950	जेसी419269एच	सुबेदार	सुग्रीव यादव	01.10.2009
951	जेसी419240ए	सुबेदार	सुंदर लाल सैनी	01.10.2009
952	जेसी419445पी	सुबेदार	सुंदर सिंह	01.01.2010
953	जेसी419085के	सुबेदार	सुरेन्दा बहादुर सिंह	01.11.2009
954	जेसी420262एल	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.01.2010
955	जेसी419714डब्ल्यू	सुबेदार	वरघेसे जोर्ज	01.10.2009
<u>पंजाब रेजीमेंट</u>				
956	जेसी429318एन	सुबेदार	जगदीश चन्द शर्मा	01.12.2009
957	जेसी429699ए	सुबेदार	मान सिंह	01.01.2010
<u>मद्रास रेजीमेन्ट</u>				
958	जेसी439129एक्स	सुबेदार	केके देवैया	01.09.2009
959	जेसी438492एफ	सुबेदार	प्रकाश बाबू के	01.12.2009
960	जेसी438265एफ	सुबेदार	रमा सिद्धाप्पा बी कौलापुर	01.08.2009
<u>ग्रैनेडियर्स</u>				

961	जेसी449358डब्ल्यू	सुबेदार	अलादीन खान	01.01.2010
962	जेसी449488वाइ	सुबेदार	बशीर एम	01.01.2010
963	जेसी449474वाइ	सुबेदार	दिनकर जोशी	01.11.2009
964	जेसी449900एफ	सुबेदार	गुल एफ	01.10.2009
965	जेसी449731एल	सुबेदार	हरबीर सिंह	01.01.2010
966	जेसी449099वाइ	सुबेदार	इन्द्रा पाल सिंह	01.11.2009
967	जेसी449741पी	सुबेदार	इश्वर सिंह	01.01.2010
968	जेसी449325एल	सुबेदार	जगबीर सिंह	01.01.2010
969	जेसी449742एक्स	सुबेदार	जगदीश	01.01.2010
970	जेसी449804एम	सुबेदार	जयपाल	01.12.2009
971	जेसी450263एच	सुबेदार	जोगिंदर कुमार	01.01.2010
972	जेसी450094एम	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.10.2009
973	जेसी449868एक्स	सुबेदार	मदना राम	01.01.2010
974	जेसी449551एच	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.01.2010
975	जेसी449443वाइ	सुबेदार	नानक चन्द	01.01.2010
976	जेसी448667एम	सुबेदार	नासिरुद्दीन	01.10.2009
977	जेसी448606पी	सुबेदार	नाथी खान	01.10.2009
978	जेसी449228एन	सुबेदार	रसूल खान	01.10.2009
979	जेसी449856एच	सुबेदार	रति राम जाट	01.09.2009
980	जेसी449337ए	सुबेदार	रतन सिंह	01.09.2009
981	जेसी449134डब्ल्यू	सुबेदार	साहबुद्धीन	01.10.2009
982	जेसी449873एच	सुबेदार	साहिद अहमद खान	01.09.2009
983	जेसी449368ए	सुबेदार	सरीफ खान	01.01.2010
984	जेसी449909डब्ल्यू	सुबेदार	एस सिंह	01.01.2010
985	जेसी449132एल	सुबेदार	शाह जहान खान	01.10.2009
986	जेसी449229डब्ल्यू	सुबेदार	शोकत अली	01.10.2009
987	जेसी449988डब्ल्यू	सुबेदार	शोकत अली खान	01.01.2010
988	जेसी449473डब्ल्यू	सुबेदार	सुरिन्दर कुमार ठाकुर	01.11.2009
989	जेसी449810ए	सुबेदार	याकूब अली खान	01.01.2010
मराठा लघु सेना				
990	जेसी458709एफ	सुबेदार	बसवराज पारप्पा अम्मानागी	01.10.2009
991	जेसी458955एम	सुबेदार	भोसले प्रभाकर शिवाजीराव	01.01.2010
992	जेसी459137एक्स	सुबेदार	बी दुन्दपा रामु	01.10.2009
993	जेसी458580वाइ	सुबेदार	बोरे गोड	01.11.2009
994	जेसी458610एल	सुबेदार	दनप्पा जे	01.01.2010
995	जेसी459173एच	सुबेदार	डांगे ज्योतिराम शामराव	01.10.2009
996	जेसी459157एल	सुबेदार	गणपति अल्लोलकर	01.01.2010
997	जेसी458996डब्ल्यू	सुबेदार	जी. विलास महादेव	01.01.2010
998	जेसी224519वाइ	सुबेदार	एल पी जेड	01.01.2010
999	जेसी458748ए	सुबेदार	एम खन्देराव कृष्णा	01.01.2010

1000	जेसी458981एन	सुबेदार	मारुति दत्तत्रे कुम्भार	01.01.2010
1001	जेसी458926एक्स	सुबेदार	एम शामभाजी	01.10.2009
1002	जेसी459012ए	सुबेदार	नामदेव मारुति पाटिल	01.01.2010
1003	जेसी458891एम	सुबेदार	निकम चान्द्राकान्त गुलाब	01.01.2010
1004	जेसी459191एल	सुबेदार	पाटिल प्रकाश पांडुरंग	01.10.2009
1005	जेसी458888एम	सुबेदार	पुंदलिक मोकाशी	01.01.2010
1006	जेसी458967एफ	सुबेदार	आर बीरादर	01.01.2010
1007	जेसी458695एम	सुबेदार	रंगराओ बीरू एच	01.10.2009
1008	जेसी458864एच	सुबेदार	शिद्धाप्या बीरादर	01.10.2009
1009	जेसी458853डब्ल्यू	सुबेदार	विलास दाताराम अमब्रे	01.01.2010

राजपूताना राईफल्स

1010	जेसी469489एच	सुबेदार	बी हासन	01.01.2010
1011	जेसी469583एम	सुबेदार	एफ रहमान खान	01.01.2010
1012	जेसी469511एच	सुबेदार	इंदराज सिंह	01.12.2009
1013	जेसी469074एन	सुबेदार	कमल सिंह	01.10.2009
1014	जेसी469316एच	सुबेदार	लालजी सिंह	01.11.2009
1015	जेसी469015एफ	सुबेदार	माधो सिंह	01.09.2009
1016	जेसी469382एन	सुबेदार	रफीक मोहम्मद चौहान	01.01.2010
1017	जेसी469420वाइ	सुबेदार	राज सिंह	01.11.2009
1018	जेसी469233ए	सुबेदार	राम कैलाश सिंह	01.09.2009
1019	जेसी469005एक्स	सुबेदार	रनबीर सिंह पनवर	01.01.2010
1020	जेसी469352डब्ल्यू	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.12.2009
1021	जेसी469702एक्स	सुबेदार	शमशाद अहमद	01.01.2010
1022	जेसी469092डब्ल्यू	सुबेदार	शेर सिंह	01.02.2009
1023	जेसी469363एच	सुबेदार	शिव राम सिंह	01.10.2009
1024	जेसी469004पी	सुबेदार	सुमेर सिंह शेखावत	01.01.2010
1025	जेसी469356एम	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह चौहान	01.11.2009
1026	जेसी469003एम	सुबेदार	तनपर सिंह राठोर	01.12.2009
1027	जेसी468885एम	सुबेदार	उमेश नंदन सिंह	01.11.2009
1028	जेसी469116पी	सुबेदार	विनोद कुमार सिंह	01.11.2009

राजपूत रेजीमेन्ट

1029	जेसी479494एफ	सुबेदार	अमानुल्लाह खान	01.01.2010
1030	जेसी479076एम	सुबेदार	अतर सिंह	01.09.2009
1031	जेसी218264एन	सुबेदार	बाबू लाल वर्मा	01.09.2009
1032	जेसी478882एम	सुबेदार	देवेंदर सिंह	01.09.2009
1033	जेसी478779एफ	सुबेदार	इश्वर सिंह	01.11.2009
1034	जेसी479338एक्स	सुबेदार	जय पाल	01.01.2010
1035	जेसी479431वाइ	सुबेदार	पूरन मल	01.11.2009
1036	जेसी479212एक्स	सुबेदार	प्रकाश चंद्रा	01.12.2009
1037	जेसी479320एफ	सुबेदार	रियासत अली	01.09.2009

1038	जेसी478778वाइ	सुबेदार	श्याम लाल	01.10.2009
1039	जेसी205888एफ	सुबेदार	सुरेश बहादुर सिंह	01.10.2009
1040	जेसी479192पी	सुबेदार	तिलक राज शर्मा	01.01.2010

जाट रेजीमेन्ट

1041	जेसी488996एल	सुबेदार	बलजोर सिंह	01.11.2009
1042	जेसी489435एच	सुबेदार	भाकेर राम	01.01.2010
1043	जेसी489405एल	सुबेदार	धर्मबीर सिंह	01.12.2009
1044	जेसी489295एफ	सुबेदार	जगत सिंह	01.10.2009
1045	जेसी489535एन	सुबेदार	कष्णन चंद्र शर्मा	01.09.2009
1046	जेसी489241ए	सुबेदार	कष्णन कुमार	01.10.2009
1047	जेसी489621वाइ	सुबेदार	निरंजन सिंह	01.09.2009
1048	जेसी489350एम	सुबेदार	रणधीर सिंह	01.10.2009
1049	जेसी489573के	सुबेदार	सत्यबीर सिंह	01.01.2010
1050	जेसी489094एच	सुबेदार	यू सिंह	01.11.2009

सिख लघु पैदल सेना

1051	जेसी508320एम	सुबेदार	अरूरह सिंह	01.01.2010
1052	जेसी508534एच	सुबेदार	अशोक कुमार रकवाल	01.01.2010
1053	जेसी509195ए	सुबेदार	बलकार सिंह	01.01.2010
1054	जेसी508438एन	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.01.2010
1055	जेसी164329ए	सुबेदार	चुहर सिंह	01.12.2009
1056	जेसी508241एक्स	सुबेदार	गुरचरण सिंह	01.12.2009
1057	जेसी509087डब्ल्यू	सुबेदार	हरदेव सिंह	01.01.2010
1058	जेसी508709ए	सुबेदार	निर्मल सिंह	01.09.2009
1059	जेसी508688पी	सुबेदार	पाल सिंह	01.10.2009
1060	जेसी508732एन	सुबेदार	शिव चन्द	01.09.2009

डोगरा रेजीमेन्ट

1061	जेसी519332एफ	सुबेदार	अशोक कुमार मनधोत्रा	01.09.2009
1062	जेसी520107वाइ	सुबेदार	बलबीर सिंह	01.11.2009
1063	जेसी519816एफ	सुबेदार	दर्शन सिंह	01.01.2010
1064	जेसी520010एन	सुबेदार	गोपाल दास	01.09.2009
1065	जेसी519346एफ	सुबेदार	हेम सिंह	01.11.2009
1066	जेसी519713एच	सुबेदार	इश्वर दास	01.11.2009
1067	जेसी519958वाइ	सुबेदार	कुलदीप कुमार	01.12.2009
1068	जेसी520171डब्ल्यू	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.09.2009
1069	जेसी520172वाइ	सुबेदार	मोहिन्दर सिंह	01.10.2009
1070	जेसी520144एम	सुबेदार	एन राम	01.01.2010
1071	जेसी519829वाइ	सुबेदार	ओंकार सिंह	01.11.2009
1072	जेसी519957डब्ल्यू	सुबेदार	प्रकाश चन्द	01.11.2009
1073	जेसी519676ए	सुबेदार	प्रकाश चन्द पटियाल	01.09.2009

1074	जेसी519846वाइ	सुबेदार	प्रीतम चन्द	01.11.2009
1075	जेसी520091वाइ	सुबेदार	राजिन्दर कुमार	01.10.2009
1076	जेसी519726ए	सुबेदार	राकेश चन्द	01.01.2010
1077	जेसी519485एल	सुबेदार	शमशेर सिंह ठाकुर	01.09.2009
1078	जेसी518994एक्स	सुबेदार	विजय कुमार	01.09.2009
गढ़वाल राईफल्स				
1079	जेसी529123एक्स	सुबेदार	अमर सिंह	01.10.2009
1080	जेसी529208एन	सुबेदार	अनिल कुमार चौहान	01.11.2009
1081	जेसी528999के	सुबेदार	अशोक कुमार	01.10.2009
1082	जेसी529794एफ	सुबेदार	बच्चू सिंह	01.10.2009
1083	जेसी529662एन	सुबेदार	बैग सिंह	01.01.2010
1084	जेसी529099एम	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.01.2010
1085	जेसी529103के	सुबेदार	बीर सिंह	01.01.2010
1086	जेसी529848एक्स	सुबेदार	चन्द्र सिंह	01.10.2009
1087	जेसी529442के	सुबेदार	चंद्र सिंह	01.01.2010
1088	जेसी529052एफ	सुबेदार	दरवान सिंह	01.01.2010
1089	जेसी529425के	सुबेदार	दयाल सिंह	01.01.2010
1090	जेसी529744डब्ल्यू	सुबेदार	धर्म गिरि	01.01.2010
1091	जेसी529709एन	सुबेदार	धर्म सिंह	01.01.2010
1092	जेसी529642ए	सुबेदार	धीरज सिंह	01.01.2010
1093	जेसी529426एम	सुबेदार	गनेश सिंह	01.09.2009
1094	जेसी529758डब्ल्यू	सुबेदार	जी. प्रसाद यू	01.01.2010
1095	जेसी529049एफ	सुबेदार	जशपाल सिंह	01.10.2009
1096	जेसी529176डब्ल्यू	सुबेदार	जीत सिंह	01.09.2009
1097	जेसी529731वाइ	सुबेदार	कुंवर सिंह	01.01.2010
1098	जेसी529560एक्स	सुबेदार	कुशी राम	01.01.2010
1099	जेसी529840एल	सुबेदार	लक्ष्मन सिंह	01.01.2010
1100	जेसी530062एक्स	सुबेदार	मनोज कुमार	01.01.2010
1101	जेसी529349एच	सुबेदार	मोहन सिंह	01.01.2010
1102	जेसी529793वाइ	सुबेदार	मोहन सिंह	01.01.2010
1103	जेसी529849ए	सुबेदार	मोहन सिंह	01.01.2010
1104	जेसी529277के	सुबेदार	ओम प्रकाश	01.12.2009
1105	जेसी528934डब्ल्यू	सुबेदार	पीएआर सिंह	01.10.2009
1106	जेसी529852ए	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.01.2010
1107	जेसी529677डब्ल्यू	सुबेदार	पुशकर सिंह	01.09.2009
1108	जेसी529824एन	सुबेदार	पुष्कर सिंह	01.09.2009
1109	जेसी529355डब्ल्यू	सुबेदार	राजेंद्र सिंह	01.10.2009
1110	जेसी529473के	सुबेदार	राजेंद्र सिंह नेगी	01.10.2009
1111	जेसी528883एन	सुबेदार	राकेश चंद्र	01.09.2009
1112	जेसी529735पी	सुबेदार	राम प्रसाद	01.01.2010
1113	जेसी529314एम	सुबेदार	रतन लाल	01.10.2009

1114	जेसी529897ए	सुबेदार	संतन सिंह भंडारी	01.10.2009
1115	जेसी529851एक्स	सुबेदार	सरत सिंह	01.10.2009
1116	जेसी529325वाइ	सुबेदार	सत्येन्द्र सिंह	01.01.2010
1117	जेसी528746पी	सुबेदार	शतीश्वर प्रसाद	01.09.2009
1118	जेसी529050डब्ल्यू	सुबेदार	शिशु पाल सिंह	01.10.2009
1119	जेसी529150एफ	सुबेदार	एस सिंह	01.10.2009
1120	जेसी529609एच	सुबेदार	सुदर्शन नेगी	01.10.2009
1121	जेसी529733के	सुबेदार	सुरेंद्र प्रसाद	01.01.2010
1122	जेसी529655एक्स	सुबेदार	सुरेंद्र सिंह	01.10.2009
1123	जेसी529261वाइ	सुबेदार	सुरेशा नन्द जोशी	01.01.2010
1124	जेसी529839डब्ल्यू	सुबेदार	सूर्या सिंह	01.01.2010
1125	जेसी529616वाइ	सुबेदार	तीरथ सिंह	01.10.2009
1126	जेसी529475पी	सुबेदार	उदय सिंह	01.09.2009
1127	जेसी529826वाइ	सुबेदार	विक्रम सिंह	01.09.2009
1128	जेसी529857वाइ	सुबेदार	वाइ सिंह	01.10.2009
1129	जेसी529835ए	सुबेदार	वाइ सिंह	01.01.2010
1130	जेसी529805एच	सुबेदार	योगाम्बर सिंह	01.09.2009

कुर्माँउ रेजीमेन्ट

1131	जेसी539432एन	सुबेदार	अमीर सिंह	01.11.2009
1132	जेसी539288के	सुबेदार	आनंद बल्लभ	01.10.2009
1133	जेसी539670ए	सुबेदार	आनंद सिंह	01.01.2010
1134	जेसी539482वाइ	सुबेदार	अतर सिंह	01.01.2010
1135	जेसी539536पी	सुबेदार	अतर सिंह	01.11.2009
1136	जेसी539412ए	सुबेदार	बलवान सिंह	01.01.2010
1137	जेसी539334एन	सुबेदार	बिक्रम सिंह	01.09.2009
1138	जेसी539361एक्स	सुबेदार	चामु सिंह	01.01.2010
1139	जेसी539939पी	सुबेदार	चन्द सिंह	01.01.2010
1140	जेसी539133पी	सुबेदार	छवी नाथ सिंह	01.01.2010
1141	जेसी538934के	सुबेदार	दीप चंद्रा पांडे	01.10.2009
1142	जेसी539308एम	सुबेदार	गनेश सिंह	01.10.2009
1143	जेसी539830पी	सुबेदार	गंगा सिंह	01.01.2010
1144	जेसी539647एम	सुबेदार	हरक सिंह	01.01.2010
1145	जेसी539323एफ	सुबेदार	हीरा सिंह	01.10.2009
1146	जेसी539460ए	सुबेदार	हीरा सिंह	01.01.2010
1147	जेसी538997एम	सुबेदार	इन्द्रा सिंह	01.01.2010
1148	जेसी539363एच	सुबेदार	जगबीर सिंह	01.12.2009
1149	जेसी539385एफ	सुबेदार	जगदीश सिंह	01.01.2010
1150	जेसी539625एन	सुबेदार	कष्णन सिंह	01.01.2010
1151	जेसी539553पी	सुबेदार	कृष्णा नन्द भट्ट	01.10.2009
1152	जेसी539362ए	सुबेदार	ललित कुमार	01.11.2009
1153	जेसी539988एक्स	सुबेदार	लक्ष्मी नारायण	01.01.2010

1154	जेसी539645एफ	सुबेदार	मदन सिंह	01.01.2010
1155	जेसी539490एक्स	सुबेदार	पी सिंह	01.12.2009
1156	जेसी539082एम	सुबेदार	राज कुमार सिंह	01.01.2010
1157	जेसी539251एच	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.12.2009
1158	जेसी539533एफ	सुबेदार	राम बाली यादव	01.10.2009
1159	जेसी539829ए	सुबेदार	सोबन सिंह राठौर	01.01.2010
1160	जेसी539256एफ	सुबेदार	सुभाष यादव	01.11.2009
1161	जेसी539063एफ	सुबेदार	वीर सिंह	01.01.2010
<u>आसाम रेजीमेन्ट</u>				
1162	जेसी548621वाइ	सुबेदार	फाल्गुनी सिन्हा	01.01.2010
1163	जेसी548769एक्स	सुबेदार	निशी कांता सिन्हा	01.11.2009
1164	जेसी548923एल	सुबेदार	ओम बहादुर सुनार	01.01.2010
1165	जेसी548749के	सुबेदार	सैलेन्द्रा कुमार मलिक	01.12.2009
<u>बिहार रेजीमेन्ट</u>				
1166	जेसी558989पी	सुबेदार	अनिल कुमार	01.10.2009
1167	जेसी559114एल	सुबेदार	अशोक कुमार मोहाप	01.01.2010
1168	जेसी558688एल	सुबेदार	अवधेश प्रसाद सिंह	01.09.2009
1169	जेसी558776एफ	सुबेदार	बी तिकेई	01.01.2010
1170	जेसी559216एफ	सुबेदार	भगवान लाल रौय	01.01.2010
1171	जेसी558660एल	सुबेदार	भगवान सिंह	01.11.2009
1172	जेसी559051एन	सुबेदार	बिजय कुमार सिंह	01.01.2010
1173	जेसी559511के	सुबेदार	सिरिल तोप्पो	01.01.2010
1174	जेसी559268एक्स	सुबेदार	एफ माझी	01.10.2009
1175	जेसी559091पी	सुबेदार	हरिहर नायक	01.01.2010
1176	जेसी558944पी	सुबेदार	जॉन कोंगारी	01.01.2010
1177	जेसी559302एम	सुबेदार	कैलाश चंद्रा लेनका	01.01.2010
1178	जेसी559439वाइ	सुबेदार	महेश कुमार सिंह	01.01.2010
1179	जेसी558779पी	सुबेदार	नार सिंह मिश्रा	01.11.2009
1180	जेसी559022वाइ	सुबेदार	परमेश्वर सिंह	01.10.2009
1181	जेसी558882ए	सुबेदार	प्रेम चंद्रा मिश्रा	01.10.2009
1182	जेसी559162एल	सुबेदार	आर प्रसाद सिंह	01.11.2009
1183	जेसी559203के	सुबेदार	राज किशोर सिंह	01.11.2009
1184	जेसी559174ए	सुबेदार	रमा नन्द सिंह	01.01.2010
1185	जेसी559025एम	सुबेदार	रमा शंकर सिंह	01.01.2010
1186	जेसी559276डब्ल्यू	सुबेदार	एस बी	01.11.2009
1187	जेसी558863पी	सुबेदार	सोनिका हेमब्रम	01.01.2010
1188	जेसी558900एक्स	सुबेदार	श्रीधर दाश	01.01.2010
1189	जेसी559331एफ	सुबेदार	सुदर्शन सिंह	01.01.2010
1190	जेसी558917एल	सुबेदार	सुरेन्द्रा कुमार सिंह	01.12.2009
1191	जेसी558689एन	सुबेदार	तपेश्वर यादव	01.09.2009

1192	जेसी559288एल	सुबेदार	उपेंद्र चंद्रा सरकार	01.01.2010
1193	जेसी559308एन	सुबेदार	वीरेंद्र सिंह	01.01.2010

महार रेजीमेन्ट

1194	जेसी569215एम	सुबेदार	एएन सिंह	01.10.2009
1195	जेसी569029डब्ल्यू	सुबेदार	ए अम्बादास तुकाराम	01.01.2010
1196	जेसी569484वाइ	सुबेदार	बिक्रम सिंह काकी	01.09.2009
1197	जेसी568818डब्ल्यू	सुबेदार	दयाराम ईशराम जी.	01.01.2010
1198	जेसी569061एल	सुबेदार	जीवन लाल शर्मा	01.10.2009
1199	जेसी568937एम	सुबेदार	कर्णवीर सिंह पनवर	01.09.2009
1200	जेसी569434एन	सुबेदार	लखन सिंह	01.09.2009
1201	जेसी569578डब्ल्यू	सुबेदार	महाकांत झा	01.01.2010
1202	जेसी568939एक्स	सुबेदार	नसीब सिंह	01.12.2009
1203	जेसी569295पी	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.01.2010
1204	जेसी569561एच	सुबेदार	प्रमोद कुमार	01.01.2010
1205	जेसी569139एल	सुबेदार	पूरन राम	01.10.2009
1206	जेसी569501एन	सुबेदार	राज कुंवर	01.01.2010
1207	जेसी569505के	सुबेदार	राम लाल	01.01.2010
1208	जेसी569362पी	सुबेदार	राम प्रकाश	01.01.2010
1209	जेसी568886के	सुबेदार	रामपाल सिंह तोमर	01.09.2009
1210	जेसी568941पी	सुबेदार	आर पिल्लई आर बी	01.12.2009
1211	जेसी568997एफ	सुबेदार	सुरेन्द्रा प्रसाद साह	01.12.2009
1212	जेसी569488पी	सुबेदार	सुरेश सिंह	01.01.2010

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

1213	जेसी579814ए	सुबेदार	अमीन चन्द	01.01.2010
1214	जेसी579927एच	सुबेदार	गनेश बहादुर थापा	01.01.2010
1215	जेसी579441एक्स	सुबेदार	कश्मीर सिंह	01.12.2009
1216	जेसी579577एफ	सुबेदार	मस्त राम	01.12.2009
1217	जेसी579944एच	सुबेदार	नवीन कुमार राना	01.09.2009
1218	जेसी579638एन	सुबेदार	परमजीत सिंह	01.12.2009
1219	जेसी579661एफ	सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.09.2009
1220	जेसी580095वाइ	सुबेदार	सुल्तान सिंह	01.10.2009
1221	जेसी580079एफ	सुबेदार	तरसेम सिंह	01.10.2009

लध्दाख स्काउट

1222	जेसी588169एक्स	सुबेदार	सोनम जेड	01.10.2009
1223	जेसी588045एच	सुबेदार	सेरिंग अंगचौक	01.10.2009

नागा रेजीमेन्ट

1224	जेसी590155डब्ल्यू	सुबेदार	अजय कुमार गुरंग	01.01.2010
1225	जेसी590140एन	सुबेदार	कमल बहादुर	01.01.2010

1226	जेसी590126एफ	सुबेदार	कमल बहादुर थापा	01.10.2009
1227	जेसी590174एफ	सुबेदार	टेक बहादुर चेतरी	01.01.2010
<u>जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल</u>				
1228	जेसी592594ए	सुबेदार	देस राज	01.10.2009
<u>1 गोरखा राईफल्स</u>				
1229	जेसी602531एन	सुबेदार	बाल बहादुर थापा	01.12.2009
1230	जेसी602536एम	सुबेदार	भरत बहादुर थापा	01.12.2009
1231	जेसी602397एन	सुबेदार	बी शंकर पुरी	01.10.2009
1232	जेसी602198ए	सुबेदार	पी राना	01.12.2009
1233	जेसी602504के	सुबेदार	राम बहादुर थापा मगर	01.12.2009
1234	जेसी602633के	सुबेदार	राम भगत मोर	01.11.2009
1235	जेसी602478एन	सुबेदार	रण बहादुर थापा	01.09.2009
<u>3 गोरखा राईफल्स</u>				
1236	जेसी607570डब्ल्यू	सुबेदार	गुमान सिंह थापा	01.12.2009
1237	जेसी607491एफ	सुबेदार	प्रेम बहादुर थापा	01.01.2010
1238	जेसी607493एम	सुबेदार	पूर्णा बहादुर गुरंग	01.01.2010
1239	जेसी607489के	सुबेदार	राम बहादुर थापा	01.09.2009
1240	जेसी607216एफ	सुबेदार	रोहतास	01.11.2009
<u>4 गोरखा राईफल्स</u>				
1241	जेसी612342एक्स	सुबेदार	अर्विन्द सिंह थापा	01.09.2009
1242	जेसी612407ए	सुबेदार	हरी बहादुर थापा	01.10.2009
1243	जेसी612479के	सुबेदार	लाल बहादुर राना	01.01.2010
1244	जेसी612447एफ	सुबेदार	मान राज गुरंग	01.01.2010
1245	जेसी612439एच	सुबेदार	मोहन बहादुर गुरंग	01.12.2009
1246	जेसी612496के	सुबेदार	पदम बहादुर थापा	01.01.2010
1247	जेसी612371एम	सुबेदार	राज बहादुर गुरंग	01.09.2009
1248	जेसी612385एम	सुबेदार	रुद्रा बहादुर गुरंग	01.09.2009
1249	जेसी612211एम	सुबेदार	सुबाष चन्द गुप्ता	01.09.2009
1250	जेसी612472ए	सुबेदार	याम बहादुर डी. मगर	01.01.2010
1251	जेसी612180एक्स	सुबेदार	वाइ प्रसाद	01.01.2010
<u>5 गोरखा राईफल्स</u>				
1252	जेसी617675एन	सुबेदार	बाल बहादुर अले	01.12.2009
1253	जेसी617757एन	सुबेदार	गंगा बहादुर थापा	01.01.2010
1254	जेसी617582वाइ	सुबेदार	खिम बहादुर थापा	01.01.2010
1255	जेसी617724एल	सुबेदार	कृष्णा बहादुर राना	01.11.2009
1256	जेसी617553के	सुबेदार	मान बहादुर गुरंग	01.01.2010
1257	जेसी617674एल	सुबेदार	नार बहादुर थापा	01.12.2009

1258	जेसी617605एम 8 गोरखा राईफल्स	सुबेदार	सूर्या बहादुर थापा	01.01.2010
1259	जेसी623516एम	सुबेदार	बाबू राम अधिकारी	01.01.2010
1260	जेसी623607डब्ल्यू	सुबेदार	बिश्नू बहादुर थापा	01.01.2010
1261	जेसी623408एच	सुबेदार	डांडा बहादुर अले	01.12.2009
1262	जेसी623562एफ	सुबेदार	पूर्णा बहादुर थापा	01.09.2009
1263	जेसी623632पी	सुबेदार	राम बहादुर थापा	01.01.2010
1264	जेसी623568एच	सुबेदार	टुक बहादुर राना	01.11.2009
1265	जेसी623541एल 9 गोरखा राईफल्स	सुबेदार	याम बहादुर तमंग	01.12.2009
1266	जेसी629541एफ	सुबेदार	देबेन्द्र प्रसाद छत्री	01.12.2009
1267	जेसी629495एक्स	सुबेदार	पुशकर चन्द	01.01.2010
1268	जेसी629490वाइ 11 गोरखा राईफल्स	सुबेदार	सुदेश कुमार	01.11.2009
1269	जेसी634146एक्स	सुबेदार	अरुण राय	01.10.2009
1270	जेसी634540एच	सुबेदार	बिकाराम पी	01.09.2009
1271	जेसी634445डब्ल्यू	सुबेदार	बीर बहादुर एस	01.10.2009
1272	जेसी634322के	सुबेदार	दिल कुमार श्रेष्ठा	01.12.2009
1273	जेसी634397एफ	सुबेदार	लील बहादुर लिम्बू	01.12.2009
1274	जेसी634476डब्ल्यू	सुबेदार	माधव श्रेष्ठा	01.12.2009
1275	जेसी634455ए	सुबेदार	मनी कुमार राय	01.09.2009
1276	जेसी634474एल	सुबेदार	मोहिन्दर बहादुर राय	01.12.2009
1277	जेसी634568एच	सुबेदार	नार बहादुर राय	01.09.2009
1278	जेसी634585एच	सुबेदार	पदम बहादुर लिम्बू	01.01.2010
1279	जेसी634560डब्ल्यू	सुबेदार	प्रकाश चंद्रा तमंग	01.01.2010
1280	जेसी634370के	सुबेदार	प्रकाश लिम्बू	01.12.2009
1281	जेसी634529के	सुबेदार	रत्ना थापा	01.01.2010
1282	जेसी634441ए	सुबेदार	एस मान लिम्बू	01.01.2010
1283	जेसी634374ए	सुबेदार	सूदन राय	01.01.2010
1284	जेसी634500एफ सेना सेवा कोर दक्षिण	सुबेदार	सुरेंद्र कुमार	01.01.2010
1285	जेसी662729डब्ल्यू	सुबेदार	आभी राज सिंह	01.12.2009
1286	जेसी641425एल	सुबेदार	अभिमन्यु बहादुर सिंह	01.10.2009
1287	जेसी662669एम	सुबेदार	अर्विन्द कुमार	01.11.2009
1288	जेसी662869एच	सुबेदार	अवे कुमार झा	01.10.2009
1289	जेसी642409ए	सुबेदार	अवे कुमार पांडे	01.12.2009
1290	जेसी662888एन	सुबेदार	बजरंग बाली	01.01.2010
1291	जेसी641792वाइ	सुबेदार	बलविन्दर पाल सिंह	01.01.2010

1292	जेसी662745एन	सुबेदार	बनारश सिंह	01.11.2009
1293	जेसी663236एफ	सुबेदार	बारिया रंजीत सिंह सुर सिंह	01.11.2009
1294	जेसी641105डब्ल्यू	सुबेदार	बशिष्ट नारायण सिंह	01.11.2009
1295	जेसी641003ए	सुबेदार	भवन सिंह अधिकारी	01.10.2009
1296	जेसी641850डब्ल्यू	सुबेदार	बी कुमार साहू	01.09.2009
1297	जेसी641849एफ	सुबेदार	बिरांची नारायण दास	01.09.2009
1298	जेसी662693एच	सुबेदार	ब्रज नाथ	01.01.2010
1299	जेसी662823ए	सुबेदार	चिंता मनी	01.09.2009
1300	जेसी642126वाइ	सुबेदार	दामोदर नायक	01.12.2009
1301	जेसी640970एच	सुबेदार	दर्शन कुमार शर्मा	01.01.2010
1302	जेसी662940एल	सुबेदार	दया शंकर सिंह	01.12.2009
1303	जेसी642413एच	सुबेदार	धनंजय सिंह चौहान	01.01.2010
1304	जेसी642125डब्ल्यू	सुबेदार	धूम सिंह	01.10.2009
1305	जेसी662695एन	सुबेदार	दिनेश्वर सिंह	01.01.2010
1306	जेसी662901एम	सुबेदार	गगन चंद्रा बरुयह	01.09.2009
1307	जेसी662719एम	सुबेदार	गेदेला नागेश्वर राव	01.10.2009
1308	जेसी641428वाइ	सुबेदार	गोपाल सिंह यादव	01.12.2009
1309	जेसी642765ए	सुबेदार	गोविंद सिंह गहलोत	01.11.2009
1310	जेसी662694एल	सुबेदार	हरी कुंवर प्रसाद	01.01.2010
1311	जेसी642518एम	सुबेदार	हरी राम यादव	01.01.2010
1312	जेसी662747वाइ	सुबेदार	हरी सिंह मेहरा	01.01.2010
1313	जेसी641268के	सुबेदार	हरिनाम सिंह	01.01.2010
1314	जेसी641769के	सुबेदार	हेम राज	01.01.2010
1315	जेसी642524ए	सुबेदार	हेमन्त कुमार दास	01.01.2010
1316	जेसी642515वाइ	सुबेदार	हीरा चन्द	01.01.2010
1317	जेसी662632एल	सुबेदार	हीरा सिंह अधिकारी	01.11.2009
1318	जेसी662635वाइ	सुबेदार	होशियार सिंह	01.11.2009
1319	जेसी641774पी	सुबेदार	इन्द्रजीत मिश्रा	01.10.2009
1320	जेसी642516एफ	सुबेदार	इन्द्रजीत प्रसाद	01.01.2010
1321	जेसी642054ए	सुबेदार	इश्वर सिंह	01.09.2009
1322	जेसी663337पी	सुबेदार	जगरूप सिंह	01.11.2009
1323	जेसी641120एल	सुबेदार	जसवीर सिंह कंवर	01.12.2009
1324	जेसी642406एम	सुबेदार	के नेदुमचलियान	01.12.2009
1325	जेसी662688एक्स	सुबेदार	कैलाश चन्द	01.12.2009
1326	जेसी641116एच	सुबेदार	कमल कांत तिवारी	01.11.2009
1327	जेसी662887एल	सुबेदार	के एम प्रेमाजी	01.01.2010
1328	जेसी641970पी	सुबेदार	खडगा सिंह चौहान	01.10.2009
1329	जेसी641430डब्ल्यू	सुबेदार	किशोरी लाल	01.12.2009
1330	जेसी662660एक्स	सुबेदार	कृष्णन सिंह	01.12.2009
1331	जेसी641265डब्ल्यू	सुबेदार	कृपा सिंधु साहू	01.01.2010
1332	जेसी642974एक्स	सुबेदार	लाला राम	01.10.2009
1333	जेसी662714एन	सुबेदार	लियाकम अली	01.01.2010

1334	जेसी662895के	सुबेदार	मदन चौबे	01.10.2009
1335	जेसी662676एच	सुबेदार	महाराज सिंह	01.11.2009
1336	जेसी642411एक्स	सुबेदार	महाराजन जे	01.12.2009
1337	जेसी641523एल	सुबेदार	महेंद्र सिंह नागरा	01.01.2010
1338	जेसी641694एक्स	सुबेदार	मेस्टन सिंह	01.12.2009
1339	जेसी662664एन	सुबेदार	मीर आइ जाफर	01.12.2009
1340	जेसी642708वाइ	सुबेदार	मोहन सिंह	01.01.2010
1341	जेसी642528डब्ल्यू	सुबेदार	मुरली प्रसाद	01.01.2010
1342	जेसी641423ए	सुबेदार	एन जी. सिंघा	01.01.2010
1343	जेसी641126एम	सुबेदार	नफे सिंह काद्यान	01.10.2009
1344	जेसी641513एफ	सुबेदार	नंदन सिंह	01.11.2009
1345	जेसी662652वाइ	सुबेदार	नरभेशवर सिंह	01.10.2009
1346	जेसी641086डब्ल्यू	सुबेदार	ओम प्रकाश वर्मा	01.11.2009
1347	जेसी642837वाइ	सुबेदार	पंकजाकसन के पी	01.12.2009
1348	जेसी642045वाइ	सुबेदार	पटवारी	01.10.2009
1349	जेसी662811एल	सुबेदार	पवार वी हरी चंद्रा	01.09.2009
1350	जेसी662656पी	सुबेदार	प्रसन्ना कुमार बारिक	01.11.2009
1351	जेसी641429एफ	सुबेदार	प्रसांत कुमार रक्षित	01.11.2009
1352	जेसी642525एच	सुबेदार	प्रवाकर मोहंता	01.01.2010
1353	जेसी641330एल	सुबेदार	प्रवीण कुमार	01.12.2009
1354	जेसी662686एम	सुबेदार	प्रिथी सिंह	01.11.2009
1355	जेसी662657एक्स	सुबेदार	प्रिया दशी झा	01.11.2009
1356	जेसी642121ए	सुबेदार	पुशकर सिंह	01.11.2009
1357	जेसी642403वाइ	सुबेदार	आर वेलूछामी	01.12.2009
1358	जेसी642762एम	सुबेदार	राधा कष्णन उन्निथन आर	01.01.2010
1359	जेसी641260एक्स	सुबेदार	रगुपथी वी डी.	01.12.2009
1360	जेसी662711ए	सुबेदार	राज कुमार मिश्रा	01.11.2009
1361	जेसी642971के	सुबेदार	राजेंद्र कुमार सोनी	01.10.2009
1362	जेसी662634डब्ल्यू	सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद तिवारी	01.11.2009
1363	जेसी641084एल	सुबेदार	राजेश बहादुर सिंह	01.10.2009
1364	जेसी641376एन	सुबेदार	राम किशन	01.12.2009
1365	जेसी662682डब्ल्यू	सुबेदार	राम कष्णन पांडे	01.11.2009
1366	जेसी662689ए	सुबेदार	राम नरेश पाल	01.12.2009
1367	जेसी662730एल	सुबेदार	राम नरेश सिंह	01.12.2009
1368	जेसी662662एच	सुबेदार	आर सिंह	01.12.2009
1369	जेसी663239पी	सुबेदार	रमेश चंद्र	01.01.2010
1370	जेसी663460एन	सुबेदार	रमेश चंद्रा	01.12.2009
1371	जेसी640351पी	सुबेदार	रंजीत सिंह सागर	01.09.2009
1372	जेसी662700एन	सुबेदार	आर इस्ताम	01.10.2009
1373	जेसी642578एफ	सुबेदार	रत्नेश कुमार सिंह	01.12.2009
1374	जेसी642416डब्ल्यू	सुबेदार	रेवात सिंह	01.01.2010
1375	जेसी641259एच	सुबेदार	ऋषि राज	01.12.2009

1376	जेसी662715डब्ल्यू	सुबेदार	सदा राम	01.01.2010
1377	जेसी642547एफ	सुबेदार	एस मिआ	01.01.2010
1378	जेसी662712एच	सुबेदार	साजन सिंह	01.12.2009
1379	जेसी662713एल	सुबेदार	सलिक राम	01.12.2009
1380	जेसी642486पी	सुबेदार	सतवीन्द्र सिंह	01.01.2010
1381	जेसी642526एल	सुबेदार	शान्तनु कुमार सुबुधि	01.01.2010
1382	जेसी641992एन	सुबेदार	शत्रुघन मिश्रा	01.10.2009
1383	जेसी642081पी	सुबेदार	शेर सिंह यादव	01.09.2009
1384	जेसी662661ए	सुबेदार	शिरीष कुमार विश्वास	01.12.2009
1385	जेसी642847एच	सुबेदार	श्री एम राम	01.01.2010
1386	जेसी641790एम	सुबेदार	सुधाकरन एन वी	01.12.2009
1387	जेसी641911एच	सुबेदार	सुधाकरन पी	01.01.2010
1388	जेसी642521एम	सुबेदार	सुख मान राय	01.01.2010
1389	जेसी641104एन	सुबेदार	सुंदर तिवारी	01.11.2009
1390	जेसी641859एल	सुबेदार	सुरेन्द्रा सिंह बिशता	01.09.2009
1391	जेसी663177ए	सुबेदार	सुरेश बाबू च.	01.10.2009
1392	जेसी641672वाइ	सुबेदार	सुरेश चन्द सैनी	01.09.2009
1393	जेसी642144एफ	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.12.2009
1394	जेसी662654के	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.11.2009
1395	जेसी641696एच	सुबेदार	सुरेश कुमार पांडे	01.12.2009
1396	जेसी642027डब्ल्यू	सुबेदार	तारा चन्द	01.12.2009
1397	जेसी662728एन	सुबेदार	त्रिलोकी सिंह	01.12.2009
1398	जेसी641282डब्ल्यू	सुबेदार	उदय पाल सिंह	01.01.2010
1399	जेसी641118एन	सुबेदार	उदय कुमार यादव	01.11.2009
1400	जेसी641108के	सुबेदार	उमा शंकर मिश्रा	01.11.2009
1401	जेसी641788पी	सुबेदार	उन्नी कृष्णन पी	01.09.2009
1402	जेसी641145एक्स	सुबेदार	उन्नीकेशन्न नायर के	01.09.2009
1403	जेसी641085एन	सुबेदार	उत्तातम कुमार बरुआ	01.10.2009
1404	जेसी662724एक्स	सुबेदार	वी गोपाल आचारी	01.01.2010
1405	जेसी662675ए	सुबेदार	विजय कुमार	01.10.2009
1406	जेसी641862एल	सुबेदार	विजय कुमार भाटिया	01.10.2009
1407	जेसी662685के	सुबेदार	विरपाल सिंह	01.09.2009

सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

1408	जेसी680744एन	रिसालदार	केदार नाथ मिश्रा	01.10.2009
1409	जेसी680745डब्ल्यू	रिसालदार	राम दास कुमी	01.11.2009
1410	जेसी680720के	रिसालदार	सन्मान सिंह	01.10.2009
1411	जेसी680735एम	रिसालदार	तोता राम	01.09.2009
1412	जेसी680661एच	रिसालदार	उमाकन्ता मोहंती	01.10.2009

सेना चिकित्सा कोर

1413	जेसी694441के	सुबेदार	अजीत कुमार तालुकदार	01.10.2009
------	--------------	---------	---------------------	------------

1414	जेसी693577एफ	सुबेदार	अजीत सिंह छिलर	01.01.2010
1415	जेसी694524पी	सुबेदार	आनंद सिंह	01.10.2009
1416	जेसी691410वाइ	सुबेदार	अनिल कुमार सिंह	01.11.2009
1417	जेसी694134एम	सुबेदार	अनिरुध प्रसाद	01.10.2009
1418	जेसी691928एम	सुबेदार	अशोक कुमार श्रीवारस्तवा	01.09.2009
1419	जेसी691675एच	सुबेदार	बाबू आर	01.01.2010
1420	जेसी694953डब्ल्यू	सुबेदार	बैंग सिंह रावत	01.09.2009
1421	जेसी692612एम	सुबेदार	बलदेव शंकर	01.10.2009
1422	जेसी694094डब्ल्यू	सुबेदार	ब्रज किशोर पंडा	01.11.2009
1423	जेसी691414पी	सुबेदार	चिता रंजन मुनि	01.10.2009
1424	जेसी693624एन	सुबेदार	चितरन्जन कर	01.12.2009
1425	जेसी691189एल	सुबेदार	दया शंकर राय	01.09.2009
1426	जेसी693933डब्ल्यू	सुबेदार	दीना नाथ प्रसाद	01.12.2009
1427	जेसी694526ए	सुबेदार	देश राज	01.11.2009
1428	जेसी691519वाइ	सुबेदार	देवेन्द्र नाथ तिवारी	01.10.2009
1429	जेसी691598वाइ	सुबेदार	धनेश्वर सामल	01.09.2009
1430	जेसी693374एक्स	सुबेदार	धर्म नाथ प्रसाद	01.12.2009
1431	जेसी694087ए	सुबेदार	धर्म वीर सिंह	01.09.2009
1432	जेसी691435एल	सुबेदार	डी. कर	01.10.2009
1433	जेसी694681एफ	सुबेदार	दिनेश कुमार पांडे	01.01.2010
1434	जेसी694080डब्ल्यू	सुबेदार	गवाली सुरेश डी.	01.09.2009
1435	जेसी691513एक्स	सुबेदार	हरे राम सिंह	01.09.2009
1436	जेसी694079एफ	सुबेदार	हरी मोहन	01.09.2009
1437	जेसी695031ए	सुबेदार	इन्द्रजीत ठाकुर	01.12.2009
1438	जेसी693626वाइ	सुबेदार	जगजीत सिंह	01.01.2010
1439	जेसी695593एक्स	सुबेदार	जलेश्वर राय	01.08.2009
1440	जेसी693861एक्स	सुबेदार	जयंत कुमार नायक	01.10.2009
1441	जेसी691671एम	सुबेदार	जुगल किशोर बिदी	01.12.2009
1442	जेसी692515पी	सुबेदार	कैलाश चंद्रा जोशी	01.12.2009
1443	जेसी692979एम	सुबेदार	कैलाश चंद्रा मोहंती	01.10.2009
1444	जेसी694185ए	सुबेदार	काली कुमार दत्ता	01.10.2009
1445	जेसी694103एम	सुबेदार	कमल सिंह दसिला	01.09.2009
1446	जेसी694195के	सुबेदार	खजुर सिंह	01.10.2009
1447	जेसी691899एच	सुबेदार	कोरे अशोक राम चंद्रा	01.10.2009
1448	जेसी691522वाइ	सुबेदार	लल्लन बैठा	01.11.2009
1449	जेसी694707एल	सुबेदार	एम मनोहरन	01.12.2009
1450	जेसी693947डब्ल्यू	सुबेदार	मंगल सिंह	01.01.2010
1451	जेसी692217वाइ	सुबेदार	मुरुज्ञान एस	01.10.2009
1452	जेसी691673एक्स	सुबेदार	नेत राम शर्मा	01.12.2009
1453	जेसी694082एफ	सुबेदार	नीलमणि सिंघा राजकुमार	01.09.2009
1454	जेसी690188डब्ल्यू	सुबेदार	निमाइ चंद्रा मंडल	01.11.2009
1455	जेसी691515एच	सुबेदार	ओम प्रकाश राय	01.09.2009

1456	जेसी693030वाइ	सुबेदार	फूल बदन सिंह	01.10.2009
1457	जेसी691602डब्ल्यू	सुबेदार	प्रफुल्ल कुमार साहू	01.09.2009
1458	जेसी691495ए	सुबेदार	प्रवात कुमार बेहेरा	01.09.2009
1459	जेसी694299एल	सुबेदार	आर के शर्मा	01.01.2010
1460	जेसी695122के	सुबेदार	राधे श्याम प्रसाद यादव	01.11.2009
1461	जेसी694104पी	सुबेदार	रघुनाथ नायक	01.10.2009
1462	जेसी694956के	सुबेदार	राजन पी	01.01.2010
1463	जेसी691517एन	सुबेदार	राजेंद्रा महतो	01.10.2009
1464	जेसी693618ए	सुबेदार	राम अभिलाश	01.11.2009
1465	जेसी694054पी	सुबेदार	राम केशर	01.09.2009
1466	जेसी694583एफ	सुबेदार	रामेश्वर सिंह	01.01.2010
1467	जेसी691518डब्ल्यू	सुबेदार	रनबीर सिंह	01.10.2009
1468	जेसी694133के	सुबेदार	एस सी नायक	01.10.2009
1469	जेसी691528ए	सुबेदार	एस के घोष	01.12.2009
1470	जेसी693320डब्ल्यू	सुबेदार	एस वी कुमारन	01.09.2009
1471	जेसी691677एन	सुबेदार	सदानन्दा मुखर्जी	01.10.2009
1472	जेसी694044एल	सुबेदार	ससिधरन पिल्लई एस	01.10.2009
1473	जेसी694585एम	सुबेदार	सतीश कुमार राय	01.01.2010
1474	जेसी691523एफ	सुबेदार	एस रौय	01.11.2009
1475	जेसी691521डब्ल्यू	सुबेदार	सिया राम	01.11.2009
1476	जेसी694857एफ	सुबेदार	सुदर्शन सिंह चन्द	01.11.2009
1477	जेसी691929पी	सुबेदार	सुखवीर सिंह	01.10.2009
1478	जेसी691514ए	सुबेदार	सुनील कुमार पांडे	01.09.2009
1479	जेसी694680वाइ	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.01.2010
1480	जेसी694153एक्स	सुबेदार	सुरेश प्रसाद	01.10.2009
1481	जेसी691865पी	सुबेदार	उदय नारायण मिश्रा	01.10.2009
1482	जेसी691600एल	सुबेदार	उमेश कुमार शर्मा	01.09.2009
1483	जेसी693541एच	सुबेदार	वेद प्रकाश मिश्रा	01.01.2010
1484	जेसी691991एफ	सुबेदार	विनाद कुमार ठाकुर	01.12.2009
1485	जेसी691512पी	सुबेदार	योगेश चंद्रा सिंह यादव	01.09.2009

सेना आयुध कोर

1486	जेसी724848एक्स	सुबेदार	अनूप कुमार	01.01.2010
1487	जेसी723734ए	सुबेदार	अशोक कुमार गुप्ता	01.10.2009
1488	जेसी725718एफ	सुबेदार	बलराज सिंह	01.10.2009
1489	जेसी724820एक्स	सुबेदार	भट्ट दयानन्द हरीदत्त	01.10.2009
1490	जेसी723731एम	सुबेदार	भूप सिंह	01.11.2009
1491	जेसी723735एच	सुबेदार	भूपाल सिंह	01.12.2009
1492	जेसी724741एच	सुबेदार	बिजय नारायण	01.12.2009
1493	जेसी723654एच	सुबेदार	बिरेन्द्रा कुमार सिंह	01.10.2009
1494	जेसी724566वाइ	सुबेदार	बिशम्बर सिंह	01.09.2009
1495	जेसी724339वाइ	सुबेदार	चक्रधर	01.12.2009

1496	जेसी724849ए	सुबेदार	चुनी लाल	01.01.2010
1497	जेसी726593एफ	सुबेदार	देवेश पांडे	01.01.2010
1498	जेसी725588के	सुबेदार	धर्म पाल	01.10.2009
1499	जेसी723001एफ	सुबेदार	दिगम्बर सिंह	01.01.2010
1500	जेसी298699एफ	सुबेदार	दिनकर धोंडिबा पी	01.09.2009
1501	जेसी723649एक्स	सुबेदार	गजेंद्र सिंह	01.10.2009
1502	जेसी724673ए	सुबेदार	गनेश प्रसाद यादव	01.11.2009
1503	जेसी724587पी	सुबेदार	गुरनाम सिंह	01.09.2009
1504	जेसी724950ए	सुबेदार	हरे राम सिंह	01.09.2009
1505	जेसी725275एल	सुबेदार	होशियार सिंह	01.09.2009
1506	जेसी724959पी	सुबेदार	जगदीश सिंह	01.01.2010
1507	जेसी724742एल	सुबेदार	जगमाल सिंह	01.12.2009
1508	जेसी725269एक्स	सुबेदार	जनार्दनन मविला	01.12.2009
1509	जेसी722982के	सुबेदार	जीवन सिंह	01.01.2010
1510	जेसी724867एच	सुबेदार	जोगिंदर सिंह यादव	01.01.2010
1511	जेसी724409एम	सुबेदार	के आर मधुसूदन	01.01.2010
1512	जेसी725335पी	सुबेदार	करुन्न सी वी	01.12.2009
1513	जेसी724779एम	सुबेदार	कश्मीर सिंह	01.01.2010
1514	जेसी725137के	सुबेदार	केवल सिंह एम	01.09.2009
1515	जेसी724670एम	सुबेदार	कृष्णन लाल जी.	01.10.2009
1516	जेसी724611ए	सुबेदार	कृष्णा चन्द एस	01.12.2009
1517	जेसी722713एक्स	सुबेदार	कुलजीत सिंह	01.11.2009
1518	जेसी724606पी	सुबेदार	मदन लाल	01.09.2009
1519	जेसी726509डब्ल्यू	सुबेदार	एम हक	01.10.2009
1520	जेसी723820एल	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.09.2009
1521	जेसी724396ए	सुबेदार	मिलन कुमार बासु	01.01.2010
1522	जेसी724590पी	सुबेदार	मोहिन्दर पाल	01.09.2009
1523	जेसी724506के	सुबेदार	एम शेख	01.07.2009
1524	जेसी723724डब्ल्यू	सुबेदार	एन के के	01.09.2009
1525	जेसी726487एच	सुबेदार	नंदकिशोर ठाकुर	01.09.2009
1526	जेसी723089डब्ल्यू	सुबेदार	निरंजन घोष	01.10.2009
1527	जेसी723176के	सुबेदार	निर्मल सिंह	01.10.2009
1528	जेसी724674एच	सुबेदार	नित्या नन्द शर्मा	01.11.2009
1529	जेसी724588एक्स	सुबेदार	पंजाब सिंह	01.09.2009
1530	जेसी724672एक्स	सुबेदार	पर्शोतम चन्द	01.10.2009
1531	जेसी724591एक्स	सुबेदार	प्रेम सिंह रावत	01.10.2009
1532	जेसी726073डब्ल्यू	सुबेदार	रबेन्द्र सिंह राघव	01.01.2010
1533	जेसी724797पी	सुबेदार	राज किशोर तिवारी	01.01.2010
1534	जेसी722855पी	सुबेदार	राजन सिंह	01.10.2009
1535	जेसी724777एफ	सुबेदार	राजेंद्रा कुमार	01.01.2010
1536	जेसी723818एन	सुबेदार	राजिबा चरण महापात्रा	01.12.2009
1537	जेसी723840वाइ	सुबेदार	राजवीर सिंह राना	01.11.2009

1538	जेसी724589ए	सुबेदार	राम बचन	01.10.2009
1539	जेसी724723ए	सुबेदार	राम बिलास यादव	01.12.2009
1540	जेसी724800के	सुबेदार	राम किशोर वर्मा	01.01.2010
1541	जेसी726505ए	सुबेदार	राम प्रयाग राम	01.09.2009
1542	जेसी724981ए	सुबेदार	राम स्वरूप मिश्रा	01.01.2010
1543	जेसी725107एम	सुबेदार	रामानन्द एम	01.01.2010
1544	जेसी724569एम	सुबेदार	रामेश्वर	01.10.2009
1545	जेसी723737एन	सुबेदार	रानीर सिंह	01.09.2009
1546	जेसी723815ए	सुबेदार	रतन सिंह के	01.12.2009
1547	जेसी724814के	सुबेदार	रवींद्र देवालापुर	01.01.2010
1548	जेसी726065एक्स	सुबेदार	रवि लाल	01.11.2009
1549	जेसी725531पी	सुबेदार	रवीन्द्र कुमार	01.11.2009
1550	जेसी724197एम	सुबेदार	सत गौल	01.01.2010
1551	जेसी724516एन	सुबेदार	एसडी. जलालुद्दीन अहमद	01.01.2010
1552	जेसी724716के	सुबेदार	शेशा देवा मिश्रा	01.12.2009
1553	जेसी725319एक्स	सुबेदार	श्यामल कुमार मंडल	01.12.2009
1554	जेसी724761डब्ल्यू	सुबेदार	शिया राम	01.01.2010
1555	जेसी724041पी	सुबेदार	सुभ राम	01.09.2009
1556	जेसी724657एच	सुबेदार	सुधाकर लाल	01.10.2009
1557	जेसी724568के	सुबेदार	सुधीर सिंह परिहार	01.10.2009
1558	जेसी725822पी	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.12.2009
1559	जेसी724775डब्ल्यू	सुबेदार	सुमेर सिंह	01.12.2009
1560	जेसी724687ए	सुबेदार	सुरेन्द्रा नाथ यादव	01.11.2009
1561	जेसी724750के	सुबेदार	सुरेश चंद्रा	01.01.2010
1562	जेसी724798एक्स	सुबेदार	तारा चन्द	01.01.2010
1563	जेसी726614एम	सुबेदार	टोपलाल छत्री	01.01.2010
1564	जेसी724608ए	सुबेदार	त्रिलोक सिंह	01.11.2009
1565	जेसी724722एक्स	सुबेदार	उमा शंकर शर्मा	01.10.2009
1566	जेसी723870डब्ल्यू	सुबेदार	उत्तातप कुमार लिम्बू	01.12.2009
1567	जेसी723740एन	सुबेदार	विजयाकुमारन नायर	01.11.2009
1568	जेसी725086एफ	सुबेदार	यदू नाथ सिंह	01.12.2009
1569	जेसी723653ए	सुबेदार	यासीन खान	01.10.2009
1570	जेसी724557एक्स	सुबेदार	येरराम रेडी एल रेडी	01.09.2009
1571	जेसी724755एच	सुबेदार	युधवीर सिंह राघवा	01.01.2010

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

1572	जेसी751526एफ	सुबेदार	अबिनाश तिग्गा	01.12.2009
1573	जेसी752037एच	सुबेदार	अनिल कुमार चौधरी	01.11.2009
1574	जेसी754236पी	सुबेदार	अनटोनी राज एम	01.12.2009
1575	जेसी751559एम	सुबेदार	अरुण बोरा	01.09.2009
1576	जेसी751935पी	सुबेदार	अशोक कुमार	01.10.2009
1577	जेसी753057एच	सुबेदार	अशोक कुमार	01.12.2009

1578	जेसी751675पी	सुबेदार	अशोक कुमार शर्मा	01.01.2010
1579	जेसी759243पी	सुबेदार	अतर सिंह पाल	01.10.2009
1580	जेसी751747एन	सुबेदार	अवतार सिंह	01.10.2009
1581	जेसी757203पी	सुबेदार	बी लाल बहादुर	01.11.2009
1582	जेसी756312पी	सुबेदार	बलेश्वर प्रसाद वर्मा	01.10.2009
1583	जेसी751203वाइ	सुबेदार	बलराज सिंह	01.09.2009
1584	जेसी754676एच	सुबेदार	बलवान सिंह	01.10.2009
1585	जेसी755906एक्स	सुबेदार	बी प्रसाद वर्मा	01.09.2009
1586	जेसी758088एम	सुबेदार	भगवान दास	01.11.2009
1587	जेसी752246ए	सुबेदार	भृगुनाथ राम	01.10.2009
1588	जेसी758636वाइ	सुबेदार	भुवनेश्वर नायक	01.10.2009
1589	जेसी757218एक्स	सुबेदार	भूप नारायन ठाकुर	01.09.2009
1590	जेसी759242एम	सुबेदार	बिधान चंद्रा राय	01.10.2009
1591	जेसी753788डब्ल्यू	सुबेदार	बिधि सिंह वर्मा	01.10.2009
1592	जेसी750622के	सुबेदार	बिमबाधर स्वेन	01.10.2009
1593	जेसी758866एन	सुबेदार	बिनोद कुमार सिंह	01.10.2009
1594	जेसी756770एल	सुबेदार	बिशन पाल सिंह	01.09.2009
1595	जेसी756087एल	सुबेदार	बिश्नू पाडा मिश्रा	01.09.2009
1596	जेसी753446एच	सुबेदार	बोरकर मारुति जयवन्ता	01.10.2009
1597	जेसी752658एफ	सुबेदार	बृज किशोर	01.10.2009
1598	जेसी750588पी	सुबेदार	सी रामचन्द्रन	01.11.2009
1599	जेसी751471एच	सुबेदार	चैन सिंह	01.10.2009
1600	जेसी751476एफ	सुबेदार	चंद्र प्रकाश	01.01.2010
1601	जेसी752691वाइ	सुबेदार	चंद्रा शेखर एल	01.12.2009
1602	जेसी759246एच	सुबेदार	चंद्रा शेखर त्रिपाठी	01.10.2009
1603	जेसी753912एम	सुबेदार	डी. बी श्रवण	01.10.2009
1604	जेसी754179वाइ	सुबेदार	दयानन्द	01.10.2009
1605	जेसी758641के	सुबेदार	देबी दत्त	01.11.2009
1606	जेसी758642एम	सुबेदार	देश राज	01.01.2010
1607	जेसी751836एम	सुबेदार	देवानंद वी	01.10.2009
1608	जेसी750504डब्ल्यू	सुबेदार	धर्म बीर	01.09.2009
1609	जेसी750593ए	सुबेदार	धर्मवीर कौशिक	01.09.2009
1610	जेसी750619के	सुबेदार	दिनेश सिंह चन्द	01.09.2009
1611	जेसी759092एफ	सुबेदार	दूध नाथ राम	01.09.2009
1612	जेसी759150ए	सुबेदार	गोकुल लाल रेगार	01.09.2009
1613	जेसी756131के	सुबेदार	गोपाल मिश्रा	01.12.2009
1614	जेसी756172एन	सुबेदार	गोपाल उपाध्याय	01.09.2009
1615	जेसी752956एक्स	सुबेदार	गोड्ड चंद्रा मंडल	01.10.2009
1616	जेसी753914एक्स	सुबेदार	ग्रीस चंद्रा	01.10.2009
1617	जेसी751324ए	सुबेदार	गुरदीप सिंह	01.12.2009
1618	जेसी752653एच	सुबेदार	हरगोविंद नामदेव	01.10.2009
1619	जेसी750436एन	सुबेदार	हवलदार सिंह	01.12.2009

1620	जेसी754048एन	सुबेदार	जैकब चेरिअन	01.12.2009
1621	जेसी754052डब्ल्यू	सुबेदार	जगनाथा कुरुप के.बी	01.10.2009
1622	जेसी752720एच	सुबेदार	जय कंवर सिंह	01.01.2010
1623	जेसी756424पी	सुबेदार	जय सिंह	01.12.2009
1624	जेसी754339एन	सुबेदार	जोगिंदर सिंह	01.12.2009
1625	जेसी752201ए	सुबेदार	के संबात	01.12.2009
1626	जेसी752647पी	सुबेदार	कामता प्रसाद सिन्हा	01.09.2009
1627	जेसी753305एन	सुबेदार	के अहीरवर	01.10.2009
1628	जेसी754328एफ	सुबेदार	कमलेश राय	01.09.2009
1629	जेसी757157एल	सुबेदार	काशी नाथ	01.09.2009
1630	जेसी757280के	सुबेदार	काशी राजन वीपी	01.09.2009
1631	जेसी755037एन	सुबेदार	लाल बाबू राय	01.12.2009
1632	जेसी751294एन	सुबेदार	एम जुनैद अख्तर	01.01.2010
1633	जेसी751825ए	सुबेदार	महक सिंह	01.09.2009
1634	जेसी755658एम	सुबेदार	महेंद्र कुमार	01.10.2009
1635	जेसी753997एन	सुबेदार	महेंद्र नारायण सिंह	01.01.2010
1636	जेसी751331डब्ल्यू	सुबेदार	मान सिंह	01.01.2010
1637	जेसी759093के	सुबेदार	मनदयो राम	01.09.2009
1638	जेसी754849पी	सुबेदार	मनमधन नायर के	01.10.2009
1639	जेसी760099एक्स	सुबेदार	मोहन बहादुर थापा	01.10.2009
1640	जेसी753147के	सुबेदार	मोहन सिंह मनरल	01.10.2009
1641	जेसी752064एम	सुबेदार	मोहानन टीसी	01.11.2009
1642	जेसी754152एफ	सुबेदार	मोहम्मद मुस्तफा	01.01.2010
1643	जेसी753107एच	सुबेदार	मोहम्मद शमीम	01.10.2009
1644	जेसी750627एच	सुबेदार	मूल चन्द भारिया	01.09.2009
1645	जेसी756221एल	सुबेदार	नगेन्द्र नाथ मिश्रा	01.10.2009
1646	जेसी754329के	सुबेदार	नाहर सिंह	01.10.2009
1647	जेसी759249डब्ल्यू	सुबेदार	नरिंदर कुमार	01.10.2009
1648	जेसी751018एल	सुबेदार	निलामनी साहू	01.11.2009
1649	जेसी750618एफ	सुबेदार	निजामुरदीन अंसारी	01.09.2009
1650	जेसी753286एन	सुबेदार	नूपुर चकर्बती	01.11.2009
1651	जेसी754012पी	सुबेदार	ओम पाल	01.10.2009
1652	जेसी758488वाइ	सुबेदार	ओम प्रकाश विश्वाकर्मा	01.09.2009
1653	जेसी756307के	सुबेदार	पी वेन्कटेश्वरलु	01.11.2009
1654	जेसी751528एम	सुबेदार	पद्मा राम के	01.12.2009
1655	जेसी751527के	सुबेदार	पंचान्न रौय	01.12.2009
1656	जेसी752871एफ	सुबेदार	पाटिल हरी सखाराम	01.10.2009
1657	जेसी754365पी	सुबेदार	पतोले नारायण राजाराम	01.09.2009
1658	जेसी751610एफ	सुबेदार	प्रबीर कुमार डे	01.10.2009
1659	जेसी757341डब्ल्यू	सुबेदार	प्रमोद कुमार	01.10.2009
1660	जेसी751024वाइ	सुबेदार	प्रणब कुमार रौय	01.12.2009
1661	जेसी751704वाइ	सुबेदार	प्रताप सिंह	01.12.2009

1662	जेसी753341वाइ	सुबेदार	प्रीतप्पन के	01.10.2009
1663	जेसी752960ए	सुबेदार	पृथ्वी सिंह	01.10.2009
1664	जेसी759244एक्स	सुबेदार	पी चंद्रा माझी	01.10.2009
1665	जेसी753110एच	सुबेदार	पूरन चन्द	01.11.2009
1666	जेसी752659के	सुबेदार	पीवी जनार्दनन नाम्बिआर	01.10.2009
1667	जेसी750343वाइ	सुबेदार	क्यू उद्वीन अहमद	01.10.2009
1668	जेसी756116पी	सुबेदार	आर मारंमुथु	01.09.2009
1669	जेसी751473एन	सुबेदार	रबीन्द्र सिंह	01.10.2009
1670	जेसी753710एल	सुबेदार	राघवन टी वी	01.11.2009
1671	जेसी752867वाइ	सुबेदार	राज नाथ सिंह	01.09.2009
1672	जेसी750620वाइ	सुबेदार	राज सिंह परमार	01.10.2009
1673	जेसी751236के	सुबेदार	राज सिंह आर	01.09.2009
1674	जेसी751658पी	सुबेदार	राजगोपालन के	01.12.2009
1675	जेसी758637एफ	सुबेदार	राजेंद्रा सिंह	01.10.2009
1676	जेसी751071डब्ल्यू	सुबेदार	राजेश राज सिंह खत्री	01.01.2010
1677	जेसी751679एल	सुबेदार	राजेश्वर सिंह	01.01.2010
1678	जेसी751780एल	सुबेदार	राजिन्दर सिंह पी	01.11.2009
1679	जेसी753085पी	सुबेदार	राजपाल सिंह	01.11.2009
1680	जेसी750751के	सुबेदार	राम चरण सिंह	01.11.2009
1681	जेसी758773एक्स	सुबेदार	राम शरण	01.11.2009
1682	जेसी754447एक्स	सुबेदार	रामफल सिंह	01.01.2010
1683	जेसी753724एल	सुबेदार	रंजीत सिंह	01.09.2009
1684	जेसी753111एल	सुबेदार	रधूनाथन पिल्लई आर	01.12.2009
1685	जेसी752651एक्स	सुबेदार	साजन सिंह	01.10.2009
1686	जेसी753646वाइ	सुबेदार	सतेंद्र पाल सिंह	01.10.2009
1687	जेसी753304एल	सुबेदार	सत्य प्रकाश	01.10.2009
1688	जेसी750560पी	सुबेदार	सत्य रंजन महता	01.01.2010
1689	जेसी751234वाइ	सुबेदार	शेयर सिंह	01.12.2009
1690	जेसी751326एल	सुबेदार	शत्रुघन सिंह	01.12.2009
1691	जेसी756522पी	सुबेदार	शर्लेंदर सिंह	01.12.2009
1692	जेसी754555एफ	सुबेदार	शिव शंकर	01.10.2009
1693	जेसी756771एन	सुबेदार	श्याम नंदन चौधरी	01.10.2009
1694	जेसी757267ए	सुबेदार	एसआईएस पाल सिंह नेगी	01.11.2009
1695	जेसी754644ए	सुबेदार	सीता राम दाश	01.11.2009
1696	जेसी753637एक्स	सुबेदार	सोहन सिंह	01.01.2010
1697	जेसी755224एम	सुबेदार	सुबल किशोर पाल	01.12.2009
1698	जेसी757941वाइ	सुबेदार	सूबे सिंह	01.10.2009
1699	जेसी751163एच	सुबेदार	सुबोध कुमार सिंह	01.10.2009
1700	जेसी752747ए	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.12.2009
1701	जेसी753449डब्ल्यू	सुबेदार	सुखदेव सिंह	01.11.2009
1702	जेसी751521एच	सुबेदार	सुनील कुमार ईपी	01.12.2009
1703	जेसी758945एफ	सुबेदार	एस मोन्डल	01.11.2009

1704	जेसी758640एफ	सुबेदार	सुरेश सिंह	01.11.2009
1705	जेसी759153एन	सुबेदार	सूरजा कुमार मित्रा	01.10.2009
1706	जेसी754268एक्स	सुबेदार	सुरजन सिंह	01.09.2009
1707	जेसी753705ए	सुबेदार	टी इक्का	01.10.2009
1708	जेसी751657एम	सुबेदार	टी अली	01.11.2009
1709	जेसी758634एन	सुबेदार	तेजराम जगन भंडारकर	01.10.2009
1710	जेसी753215एम	सुबेदार	तुलसी चरण	01.09.2009
1711	जेसी750753पी	सुबेदार	विजय प्रताप सिंह	01.01.2010
1712	जेसी753522के	सुबेदार	विजया कुमार पांडे	01.10.2009
1713	जेसी759245ए	सुबेदार	विनोद कुमार शुक्ला	01.10.2009
1714	जेसी751332वाइ	सुबेदार	जलम सिंह	01.01.2010

सेना शिक्षा कोर

1715	जेसी803187के	सुबेदार	धर्म सिंह यादव	01.12.2009
1716	जेसी803170डब्ल्यू	सुबेदार	डी. साहू	01.01.2010
1717	जेसी802458के	सुबेदार	जय सिंह कुशवाह	01.09.2009
1718	जेसी802471एन	सुबेदार	जयवीर सिंह	01.01.2010
1719	जेसी802318एक्स	सुबेदार	केशव नारायण द्विवेदी	01.11.2009
1720	जेसी803175पी	सुबेदार	ओ पाल सिंह	01.09.2009
1721	जेसी802475के	सुबेदार	प्रभाकर पांडे	01.01.2010
1722	जेसी802385एच	सुबेदार	प्रदीप कुमार	01.01.2010
1723	जेसी802469डब्ल्यू	सुबेदार	राज बहादुर	01.01.2010
1724	जेसी802537वाइ	सुबेदार	राम दत्ता शर्मा	01.01.2010
1725	जेसी802461के	सुबेदार	राम नरेश मुदगल	01.10.2009
1726	जेसी802372एल	सुबेदार	रामेश्वर प्रसाद शर्मा	01.09.2009
1727	जेसी802373एन	सुबेदार	शिव सिंह सोलंकी	01.09.2009
1728	जेसी802476एम	सुबेदार	श्री पाल	01.01.2010
1729	जेसी802456वाइ	सुबेदार	सूबे सिंह	01.09.2009
1730	जेसी802641एम	सुबेदार	सुदर्शन सिंह	01.12.2009
1731	जेसी802474एफ	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.01.2010
1732	जेसी802459एम	सुबेदार	सुरजन सिंह	01.10.2009
1733	जेसी802455डब्ल्यू	सुबेदार	उमा शंकर त्रिवेदी	01.09.2009

रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर

1734	जेसी797185ए	रिसालदार	अवधेश कुमार ठाकुर	01.01.2010
1735	जेसी797347ए	रिसालदार	ब्रजेश शर्मा	01.12.2009
1736	जेसी797329एक्स	रिसालदार	रघुबीर प्रसाद	01.11.2009

आसुचना कोर

1737	जेसी810003एच	सुबेदार	अग्नेन्द्रा कुमार सिंह	01.09.2009
1738	जेसी810432के	सुबेदार	अरबिन्दा कुमार सिंह	01.01.2010
1739	जेसी810405ए	सुबेदार	बलकार सिंह	01.01.2010

1740	जेसी810576एम	सुबेदार	भूबन चंद्रा दास	01.01.2010
1741	जेसी810239एक्स	सुबेदार	धीरज सिंह	01.01.2010
1742	जेसी810254एम	सुबेदार	दिनेश सिंह	01.01.2010
1743	जेसी810182एन	सुबेदार	गनेश मनी त्रिपाठी	01.12.2009
1744	जेसी810266एफ	सुबेदार	किशाना राम चौधरी	01.01.2010
1745	जेसी810616एच	सुबेदार	कुंदन सिंह नगरकोटी	01.10.2009
1746	जेसी810211एक्स	सुबेदार	महेश प्रसाद शुक्ला	01.10.2009
1747	जेसी810245एल	सुबेदार	माखन सिंह	01.11.2009
1748	जेसी810306एक्स	सुबेदार	मोहन लाल यादव	01.12.2009
1749	जेसी810185एफ	सुबेदार	नन्द लाल चाउधी	01.01.2010
1750	जेसी810238पी	सुबेदार	नंदा बल्लभ	01.11.2009
1751	जेसी810545एम	सुबेदार	नरेश कुमार वशिषता	01.10.2009
1752	जेसी810172के	सुबेदार	ओंकार सिंह	01.11.2009
1753	जेसी810676एक्स	सुबेदार	प्रकाश चन्द	01.01.2010
1754	जेसी810409डब्ल्यू	सुबेदार	राम बचन राम	01.01.2010
1755	जेसी810360एल	सुबेदार	रमेश पौल राना	01.09.2009
1756	जेसी810095ए	सुबेदार	संतोख सिंह	01.11.2009
1757	जेसी810183डब्ल्यू	सुबेदार	एस मिंज	01.01.2010
1758	जेसी810638एफ	सुबेदार	श्याम सिंह	01.01.2010
1759	जेसी810255पी	सुबेदार	सूबे सिंह यादव	01.01.2010
1760	जेसी810536एल	सुबेदार	सुरेश कुमार	01.11.2009
1761	जेसी810544के	सुबेदार	टी वी राघवेन्द्रा सूरी	01.10.2009
1762	जेसी810610एफ	सुबेदार	वीरेंद्र कुमार गौतम	01.09.2009

सेना पुलिस कोर

1763	जेसी818745एक्स	सुबेदार	बदारी प्रसाद	01.10.2009
1764	जेसी818751एल	सुबेदार	बृज किशोर यादव	01.10.2009
1765	जेसी818757एम	सुबेदार	बुर्सा नारायणा रेडी	01.12.2009
1766	जेसी818760एम	सुबेदार	चंद्रा मोहन दुबे	01.11.2009
1767	जेसी818583एक्स	सुबेदार	जी. सिंह दलाल	01.12.2009
1768	जेसी818770डब्ल्यू	सुबेदार	गौलाल	01.12.2009
1769	जेसी818750एच	सुबेदार	कंवर सिंह	01.09.2009
1770	जेसी818924एक्स	सुबेदार	एम सम्पथ	01.11.2009
1771	जेसी818769एफ	सुबेदार	परम हंस राय	01.11.2009
1772	जेसी818762एक्स	सुबेदार	राम सजीवन पटेल	01.11.2009
1773	जेसी818850एन	सुबेदार	सतेन्द्र कुमार	01.01.2010
1774	जेसी818573एन	सुबेदार	शिव नरेश शर्मा	01.01.2010
1775	जेसी818893एच	सुबेदार	शिवनाथ सिंह	01.01.2010
1776	जेसी818754वाइ	सुबेदार	श्याम बिहारी राम	01.11.2009
1777	जेसी818794ए	सुबेदार	सूरत सिंह	01.01.2010
1778	जेसी818803डब्ल्यू	सुबेदार	विनोदा नन्द रौय	01.12.2009

सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

1779	जेसी826098एक्स	सुबेदार	हेम बहादुर राना	01.09.2009
1780	जेसी826126वाइ	सुबेदार	कश्मीर सिंह	01.11.2009
1781	जेसी826088एन	सुबेदार	किशोर पाणिग्रही	01.09.2009
1782	जेसी826106एल	सुबेदार	एम कृष्णन	01.09.2009
1783	जेसी826095के	सुबेदार	पाटिल सुरेश भीम राव	01.01.2010
1784	जेसी826101एम	सुबेदार	शेर बहादुर थापा	01.10.2009

पायोनियर कोर

1785	जेसी829282एन	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.11.2009
1786	जेसी829321एफ	सुबेदार	गोतम कुमार चौधरी	01.01.2010
1787	जेसी829284वाइ	सुबेदार	हरी नाथ ठाकुर	01.11.2009
1788	जेसी829283डब्ल्यू	सुबेदार	जगदीश प्रसाद	01.11.2009
1789	जेसी829064पी	सुबेदार	परिमल सरकार	01.12.2009
1790	जेसी829063एम	सुबेदार	सतीश चंद्रा दुबे	01.11.2009
1791	जेसी829305के	सुबेदार	विनोद कुमार चौधरी	01.01.2010

रक्षा सुरक्षा कोर

1792	जेसी841968पी	सुबेदार	ए चंद्रन	01.11.2009
1793	जेसी841590ए	सुबेदार	बलवंत सिंह	01.01.2010
1794	जेसी842117एफ	सुबेदार	चितरंजन डी.	01.12.2009
1795	जेसी840668एन	सुबेदार	दर्शन सिंह	01.09.2009
1796	जेसी840567ए	सुबेदार	दर्शन सिंह	01.12.2009
1797	जेसी840780ए	सुबेदार	गया प्रसाद	01.12.2009
1798	जेसी841395एच	सुबेदार	जोर्ज जोसफ टी	01.09.2009
1799	जेसी841542ए	सुबेदार	हेम राज	01.12.2009
1800	जेसी840951एफ	सुबेदार	के घनवेल	01.11.2009
1801	जेसी841072ए	सुबेदार	मनबीर सिंह	01.12.2009
1802	जेसी841154एच	सुबेदार	मोहिन्दर पाल	01.11.2009
1803	जेसी841344पी	सुबेदार	मोती सिंह राना	01.01.2010
1804	जेसी840686डब्ल्यू	सुबेदार	राज पाल सिंह	01.09.2009
1805	जेसी841005पी	सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.09.2009
1806	जेसी841589एल	सुबेदार	राम अनूप प्रसाद	01.11.2009
1807	जेसी841070पी	सुबेदार	रंगील सिंह	01.11.2009
1808	जेसी841591एच	सुबेदार	ऋषि राम	01.12.2009
1809	जेसी840657एफ	सुबेदार	सिबरिस्टियन एटी	01.11.2009
1810	जेसी840708के	सुबेदार	श्री भगवान सिंह	01.11.2009
1811	जेसी841514एन	सुबेदार	सुरेन्द्र सिंह	01.11.2009
1812	जेसी841236एल	सुबेदार	टीजी. ससेन्द्रणन	01.10.2009

प्रदेशिक सेना

1813	टिजे4198एफ	सुबेदार	अशोक कुमार बारिक	01.12.2009
1814	टिजे3888एच	सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.10.2009

1815	टिजे4608एम	सुबेदार	बी पांडुरंग मसू	01.11.2009
1816	टिजे2720ए	सुबेदार	गुरु प्रसाद डे	01.01.2010
1817	टिजे4299पी	सुबेदार	एल पटनायक	01.08.2009
1818	टिजे2809एम	सुबेदार	महेंद्र सिंह	01.12.2009
1819	टिजे4006वाइ	सुबेदार	रघु नाथ त्रिपाठी	01.12.2009
1820	टिजे4438एन	सुबेदार	वी सिंह	01.12.2009

अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार के रूप में

7 केवेलरी

1	जेसी242512एक्स	नायब रिसालदार अतर सिंह		01.12.2009
2	जेसी242471वाइ	नायब रिसालदार सूरज भान		01.11.2009

2 लार्न्सस

3	जेसी242420एल	नायब रिसालदार किशन वीर सिंह		01.09.2009
4	जेसी242357एफ	नायब रिसालदार एन सिंह		01.09.2009

20 लार्न्सस

5	जेसी241533एफ	नायब रिसालदार मलकियत सिंह		01.09.2009
---	--------------	---------------------------	--	------------

64 केवेलरी

6	जेसी242096वाइ	नायब रिसालदार महेंद्र सिंह		01.10.2009
---	---------------	----------------------------	--	------------

65 आर्मड रेजीमेंट

7	जेसी241974एक्स	नायब रिसालदार आमी लाल जाट		01.10.2009
8	जेसी241860एम	नायब रिसालदार हरी प्रताप सिंह		01.10.2009
9	जेसी242082वाइ	नायब रिसालदार राजवीर सिंह		01.11.2009

73 आर्मड रेजीमेंट

10	जेसी241499एम	नायब रिसालदार अमानुल्ला खान		01.12.2009
----	--------------	-----------------------------	--	------------

48 आर्मड रेजीमेंट

11	जेसी242379ए	नायब रिसालदार सूरज प्रकाश		01.10.2009
----	-------------	---------------------------	--	------------

50 आर्मड रेजीमेंट

12	जेसी241706एन	नायब रिसालदार बलबीर सिंह		01.12.2009
13	जेसी241455पी	नायब रिसालदार सुभाष चन्द		01.10.2009

52 आर्मड रेजीमेंट

14	जेसी241243के	नायब रिसालदार जी. राम		01.10.2009
----	--------------	-----------------------	--	------------

आर्मड कोर

15	जेसी242372डब्ल्यू	नायब रिसालदार बी राम सिंह		01.12.2009
16	जेसी242472एफ	नायब रिसालदार बिशन सिंह		01.11.2009
17	जेसी242486एफ	नायब रिसालदार जी. चरण साहू		01.09.2009

18	जेसी241304डब्ल्यू	नायब रिसालदार इंद्र सिंह	01.09.2009
19	जेसी242440वाइ	नायब रिसालदार जगन सिंह	01.11.2009
20	जेसी241746पी	नायब रिसालदार जय सिंह	01.10.2009
21	जेसी242340एन	नायब रिसालदार केशर सिंह	01.10.2009
22	जेसी242264एम	नायब रिसालदार मूद वन्द	01.10.2009
23	जेसी242456के	नायब रिसालदार एन राम	01.11.2009
24	जेसी240916एफ	नायब रिसालदार नसीब सिंह	01.01.2010
25	जेसी242434एल	नायब रिसालदार ओमबीर सिंह	01.01.2010
26	जेसी241948डब्ल्यू	नायब रिसालदार पूना राम एम	01.10.2009
27	जेसी242477ए	नायब रिसालदार राम कुमार	01.11.2009
28	जेसी242151के	नायब रिसालदार रामबीर	01.09.2009
29	जेसी242324डब्ल्यू	नायब रिसालदार रामजी सिंह	01.12.2009
30	जेसी241835एन	नायब रिसालदार सुभाष चंद्र	01.10.2009
31	जेसी242702के	नायब रिसालदार एस सिंह	01.10.2009
32	जेसी242035एफ	नायब रिसालदार तसवीर सिंह	01.11.2009
33	जेसी241606एच	नायब रिसालदार वीर सिंह	01.10.2009
34	जेसी242461पी	नायब रिसालदार विजय नारायण सिंह	01.11.2009
35	जेसी242642ए	नायब रिसालदार विश्वा नाथ	01.12.2009
36	जेसी241656एन	नायब रिसालदार डब्ल्यू पी	01.10.2009

आर्टिलरी रेजीमेंट

37	जेसी269539वाइ	नायब सुबेदार अनिल कुमार	01.09.2009
38	जेसी270235एन	नायब सुबेदार अनिल कुमार	01.09.2009
39	जेसी270323के	नायब सुबेदार अनिल सिंह	01.09.2009
40	जेसी270196ए	नायब सुबेदार अशोक कुमार	01.09.2009
41	जेसी271523एम	नायब सुबेदार अशोक कुमार	01.12.2009
42	जेसी270926ए	नायब सुबेदार बहादुर सिंह गुर्जर	01.01.2010
43	जेसी270989एच	नायब सुबेदार बैज नाथ यादव	01.11.2009
44	जेसी270771डब्ल्यू	नायब सुबेदार बालाकृष्णन एम वी	01.10.2009
45	जेसी271729के	नायब सुबेदार बलबीर सिंह	01.11.2009
46	जेसी269602एच	नायब सुबेदार बलदेव सिंह	01.01.2010
47	जेसी272584डब्ल्यू	नायब सुबेदार बालकिशन सिंह	01.09.2009
48	जेसी269482पी	नायब सुबेदार बंशीधर	01.10.2009
49	जेसी270156वाइ	नायब सुबेदार बसीरुद्दीन अंसारी	01.10.2009
50	जेसी272159एल	नायब सुबेदार भोले गोपाल पुंडलिक	01.10.2009
51	जेसी270496एफ	नायब सुबेदार बिमल चंद्रा राय	01.12.2009
52	जेसी269487एन	नायब सुबेदार बीरेन बोरा	01.01.2010
53	जेसी270614के	नायब सुबेदार सी विजयन	01.09.2009
54	जेसी269658पी	नायब सुबेदार चंद्रा पाल सिंह	01.11.2009
55	जेसी271332एक्स	नायब सुबेदार चेत राम यादव	01.10.2009
56	जेसी270468पी	नायब सुबेदार दया नन्द	01.10.2009
57	जेसी269471एच	नायब सुबेदार धानाजी एच	01.01.2010
58	जेसी270349वाइ	नायब सुबेदार ई शान्दिनातन	01.01.2010
59	जेसी266086एन	नायब सुबेदार फलगुनन वी	01.11.2009
60	जेसी269938एच	नायब सुबेदार गिरवर सिंह	01.12.2009

61	जेसी270984के	नायब सुबेदार	गोपीनाथ पंडा	01.10.2009
62	जेसी271223एल	नायब सुबेदार	गुलजार सिंह	01.01.2010
63	जेसी269319पी	नायब सुबेदार	गुलजारी लाल यादवा	01.10.2009
64	जेसी268761एन	नायब सुबेदार	गुप्पा रामप्पा किटुर	01.11.2009
65	जेसी270528वाइ	नायब सुबेदार	गुरनाम सिंह	01.01.2010
66	जेसी270617एक्स	नायब सुबेदार	हरभजन सिंह	01.12.2009
67	जेसी269220वाइ	नायब सुबेदार	हरिनाम सिंह	01.09.2009
68	जेसी271560ए	नायब सुबेदार	हिंमत बहादुर सिंह	01.11.2009
69	जेसी270590एल	नायब सुबेदार	जगदीश यादव	01.10.2009
70	जेसी268854एच	नायब सुबेदार	जय प्रकाश शाह	01.01.2010
71	जेसी271106ए	नायब सुबेदार	जनार्दन प्रसाद	01.12.2009
72	जेसी268042पी	नायब सुबेदार	जसवंत सिंह	01.01.2010
73	जेसी270449के	नायब सुबेदार	जुगराज सिंह	01.11.2009
74	जेसी273461डब्ल्यू	नायब सुबेदार	कमलेश प्रसाद सिंह	01.01.2010
75	जेसी268033एन	नायब सुबेदार	किशोर दास धीमान	01.10.2009
76	जेसी270678पी	नायब सुबेदार	कष्णन लाल	01.10.2009
77	जेसी272717एफ	नायब सुबेदार	लखविन्दर सिंह	01.01.2010
78	जेसी271424के	नायब सुबेदार	लाला राम	01.09.2009
79	जेसी269271एम	नायब सुबेदार	एम राजा	01.11.2009
80	जेसी270046के	नायब सुबेदार	महेंद्र प्रसाद	01.01.2010
81	जेसी271035के	नायब सुबेदार	महेंद्र सिंह राठौर	01.12.2009
82	जेसी270152एच	नायब सुबेदार	मायाधर पाणिग्रही	01.01.2010
83	जेसी271141एच	नायब सुबेदार	नरेंदर सिंह	01.01.2010
84	जेसी269325एच	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश	01.10.2009
85	जेसी270223एक्स	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश	01.10.2009
86	जेसी266420के	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश शुक्ला	01.10.2009
87	जेसी271076एन	नायब सुबेदार	पधान सपता सिंधु	01.12.2009
88	जेसी269966पी	नायब सुबेदार	पाटिल चान्द्राकान्त दयानदेव	01.09.2009
89	जेसी269697एन	नायब सुबेदार	प्रभु राम सिंह यादव	01.01.2010
90	जेसी270973एक्स	नायब सुबेदार	प्रदीप कुमार मिश्रा	01.10.2009
91	जेसी268935एच	नायब सुबेदार	राज पाल	01.11.2009
92	जेसी270286एफ	नायब सुबेदार	राजेंद्र प्रसाद	01.10.2009
93	जेसी269629ए	नायब सुबेदार	राजेंद्रा सिंह जे	01.01.2010
94	जेसी269623वाइ	नायब सुबेदार	राजेन्द्रन के	01.01.2010
95	जेसी270506ए	नायब सुबेदार	राजिन्दर सिंह	01.01.2010
96	जेसी269883के	नायब सुबेदार	राम कुमार	01.10.2009
97	जेसी269903एन	नायब सुबेदार	राम प्रवेश प्रसाद	01.01.2010
98	जेसी271485एफ	नायब सुबेदार	रमा नन्द	01.10.2009
99	जेसी270445एच	नायब सुबेदार	रामचन्द्रन पीके	01.11.2009
100	जेसी269267के	नायब सुबेदार	रामआसरे	01.01.2010
101	जेसी269854पी	नायब सुबेदार	रामवीर	01.09.2009
102	जेसी270927एच	नायब सुबेदार	रंगेश चौधरी	01.01.2010

103	जेसी269627पी	नायब सुबेदार	रोहतास सिंह	01.01.2010
104	जेसी270168एन	नायब सुबेदार	रोशन लाल	01.11.2009
105	जेसी271334एच	नायब सुबेदार	एस मनी हर सिंघा	01.01.2010
106	जेसी269371एक्स	नायब सुबेदार	एस राम नाथ बाबू	01.10.2009
107	जेसी269777एल	नायब सुबेदार	साजन सिंह	01.01.2010
108	जेसी271580एन	नायब सुबेदार	शशि कुमार वी	01.09.2009
109	जेसी266602एक्स	नायब सुबेदार	सत्येन्द्र प्रसाद	01.10.2009
110	जेसी269876एन	नायब सुबेदार	शेक पी शरीफ	01.11.2009
111	जेसी272642पी	नायब सुबेदार	श्याम सुंदर सिंह	01.01.2010
112	जेसी270137एन	नायब सुबेदार	सिंह राज	01.01.2010
113	जेसी270824के	नायब सुबेदार	सुभाष चंद्रा राउत	01.01.2010
114	जेसी273287पी	नायब सुबेदार	सुभाष चंद्र	01.11.2009
115	जेसी265335पी	नायब सुबेदार	सुंदर पाल	01.01.2010
116	जेसी267451डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सुरेश कुमार	01.10.2009
117	जेसी268131एन	नायब सुबेदार	सुरिन्दर कुमार	01.01.2010
118	जेसी269473एन	नायब सुबेदार	सुरजन सिंह यादवा	01.09.2009
119	जेसी270611डब्ल्यू	नायब सुबेदार	स्वामी नाथ	01.09.2009
120	जेसी270776पी	नायब सुबेदार	तारा चन्द शर्मा	01.09.2009
121	जेसी269391एल	नायब सुबेदार	ठाकुर यू सिंह	01.01.2010
122	जेसी269148एन	नायब सुबेदार	विजय बहादुर	01.01.2010
123	जेसी271290डब्ल्यू	नायब सुबेदार	विजया रागवन	01.11.2009
124	जेसी264093एल	नायब सुबेदार	विश्वा नाथ सिंह	01.01.2010
125	जेसी271868एन	नायब सुबेदार	विश्वनाथ सिंह	01.01.2010

सेना वायू सुरक्षा

126	जेसी299589वाइ	नायब सुबेदार	अम्बिका प्रसाद मंडल	01.10.2009
127	जेसी299337एम	नायब सुबेदार	अनिल कुमार मिश्रा	01.10.2009
128	जेसी299980डब्ल्यू	नायब सुबेदार	अशोका कुमार सी	01.10.2009
129	जेसी299041एन	नायब सुबेदार	अतर सिंह यादव	01.01.2010
130	जेसी299671एन	नायब सुबेदार	बनवारी सिंह	01.10.2009
131	जेसी300196एक्स	नायब सुबेदार	बी महादेव जगन्मथ	01.09.2009
132	जेसी300010एच	नायब सुबेदार	चौहान प्रभात सिंह मणीलाल	01.11.2009
133	जेसी300009एन	नायब सुबेदार	चितरन्जन प्रमानिक	01.12.2009
134	जेसी299822एफ	नायब सुबेदार	डी. थियागाराजन	01.01.2010
135	जेसी299551पी	नायब सुबेदार	धर्म राज सिंह	01.10.2009
136	जेसी300018पी	नायब सुबेदार	ज्ञान चन्द	01.01.2010
137	जेसी298919ए	नायब सुबेदार	हरनाम सिंह	01.10.2009
138	जेसी300379एन	नायब सुबेदार	करुणाकर स्वेन	01.12.2009
139	जेसी299446वाइ	नायब सुबेदार	कुंवर सिंह	01.10.2009
140	जेसी300025एल	नायब सुबेदार	एम रथाकृशन्	01.12.2009
141	जेसी299711के	नायब सुबेदार	मदन लाल	01.01.2010
142	जेसी299704एन	नायब सुबेदार	राकेश चन्द	01.10.2009

143	जेसी298676ए	नायब सुबेदार	राम बिलास महतो	01.09.2009
144	जेसी300043एन	नायब सुबेदार	राम जन्म सिंह यादव	01.10.2009
145	जेसी299557डब्ल्यू	नायब सुबेदार	राम कुमार	01.01.2010
146	जेसी299976एन	नायब सुबेदार	राम कुमार	01.11.2009
147	जेसी299602एक्स	नायब सुबेदार	राम निवास	01.01.2010
148	जेसी299558वाइ	नायब सुबेदार	रमेश चन्द	01.01.2010
149	जेसी299777ए	नायब सुबेदार	रंजीत सिंह	01.05.2009
150	जेसी299909एच	नायब सुबेदार	संजय कुमार सिंह	01.10.2009
151	जेसी299580के	नायब सुबेदार	शिव चरण	01.10.2009
152	जेसी298731एल	नायब सुबेदार	एस सिंह	01.09.2009
153	जेसी299405पी	नायब सुबेदार	सीता राम रौय	01.11.2009
154	जेसी300477एन	नायब सुबेदार	सुकुमारन के	01.12.2009
मद्रास इंजीनियर समूह				
155	जेसी308851ए	नायब सुबेदार	ए सगयानाथन	01.11.2009
156	जेसी308530एच	नायब सुबेदार	बोद्धू वाइ	01.10.2009
157	जेसी308242डब्ल्यू	नायब सुबेदार	कन्नन सी	01.11.2009
158	जेसी308839वाइ	नायब सुबेदार	जी. पेरुमल	01.09.2009
159	जेसी309207ए	नायब सुबेदार	गिरीशन एम	01.01.2010
160	जेसी308885एन	नायब सुबेदार	गोपिराज के	01.01.2010
161	जेसी308039ए	नायब सुबेदार	गुमान सिंह गुरंग	01.10.2009
162	जेसी309073एम	नायब सुबेदार	हरीकुमार पी	01.12.2009
163	जेसी308875के	नायब सुबेदार	जयराम एस	01.09.2009
164	जेसी308464एल	नायब सुबेदार	के जगदीशन	01.09.2009
165	जेसी309137एम	नायब सुबेदार	के कुलाशेकरन	01.12.2009
166	जेसी308553के	नायब सुबेदार	मंजुनाथ आइ	01.10.2009
167	जेसी309163एन	नायब सुबेदार	मुप्पोया	01.10.2009
168	जेसी309162एल	नायब सुबेदार	आर राजेन्द्रन	01.09.2009
169	जेसी308715के	नायब सुबेदार	आर रवि	01.01.2010
170	जेसी308329एक्स	नायब सुबेदार	राजवीर सिंह	01.01.2010
171	जेसी308767ए	नायब सुबेदार	एस येशुराजन	01.11.2009
172	जेसी308769एल	नायब सुबेदार	शशि वी सी	01.12.2009
173	जेसी308873वाइ	नायब सुबेदार	शिवदासन सी के	01.12.2009
174	जेसी308824डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सोमप्पा जे	01.12.2009
175	जेसी308740एच	नायब सुबेदार	उमेश चन्द	01.10.2009
176	जेसी308825वाइ	नायब सुबेदार	वेनकप्पा	01.01.2010
177	जेसी309167के	नायब सुबेदार	विजया कुमारन नायर	01.12.2009
178	जेसी308340डब्ल्यू	नायब सुबेदार	वाइ एरन	01.01.2010
बंगाल इंजीनियर समूह				
179	जेसी338127एल	नायब सुबेदार	अब्दुल वाहिद	01.12.2009
180	जेसी329593वाइ	नायब सुबेदार	अशोक कुमार	01.09.2009

181	जेसी338010एम	नायब सुबेदार	अवधेश सिंह	01.10.2009
182	जेसी329954एम	नायब सुबेदार	डी. धर प्रधान	01.12.2009
183	जेसी338157एच	नायब सुबेदार	जोर्ज कुट्टी बीएम	01.09.2009
184	जेसी329785डब्ल्यू	नायब सुबेदार	मोहम्मद एस अली	01.09.2009
185	जेसी330847एक्स	नायब सुबेदार	पी चंद्रन	01.09.2009
186	जेसी328984एक्स	नायब सुबेदार	पारस नाथ राय	01.11.2009
187	जेसी329947डब्ल्यू	नायब सुबेदार	राजेंद्रा राम	01.09.2009
188	जेसी329767एन	नायब सुबेदार	रिखी राम	01.10.2009
189	जेसी328822एम	नायब सुबेदार	एस सिंह	01.10.2009
190	जेसी329789एम	नायब सुबेदार	सुमेर ठाकुर	01.10.2009
191	जेसी329021एक्स	नायब सुबेदार	सुनील दत्ता	01.10.2009

बोम्बे इंजीनियर समूह

192	जेसी350452एक्स	नायब सुबेदार	बाबू खान	01.10.2009
193	जेसी350453ए	नायब सुबेदार	बलविन्दर सिंह	01.01.2010
194	जेसी350384पी	नायब सुबेदार	वारगे संजय राम चंद्रा	01.12.2009
195	जेसी350502एक्स	नायब सुबेदार	बसंत कुमार	01.10.2009
196	जेसी350396के	नायब सुबेदार	बीरादर लक्ष्मन मोहन राव	01.09.2009
197	जेसी350337एक्स	नायब सुबेदार	दीदार सिंह	01.09.2009
198	जेसी350571एन	नायब सुबेदार	गोमा राम	01.10.2009
199	जेसी350480के	नायब सुबेदार	गुलफाम अली	01.09.2009
200	जेसी350512एफ	नायब सुबेदार	गुरगोज सिंह	01.01.2010
201	जेसी350569डब्ल्यू	नायब सुबेदार	जगदेव सिंह	01.09.2009
202	जेसी350397एम	नायब सुबेदार	जखबीर सिंह	01.10.2009
203	जेसी350570एल	नायब सुबेदार	नरिंटर सिंह	01.10.2009
204	जेसी350503ए	नायब सुबेदार	प्रताप सिंह	01.11.2009
205	जेसी349456एफ	नायब सुबेदार	राकेश कुमार टी	01.09.2009
206	जेसी350513के	नायब सुबेदार	राम कुमार शर्मा	01.01.2010

सिग्नल्स कोर

207	जेसी377225एफ	नायब सुबेदार	बाबू सिंह देशवाल	01.11.2009
208	जेसी377955एम	नायब सुबेदार	बिमल कुमार सिंह	01.09.2009
209	जेसी377518एम	नायब सुबेदार	जगदीश चन्द	01.11.2009
210	जेसी377316एल	नायब सुबेदार	जसवंत सिंह	01.09.2009
211	जेसी377052पी	नायब सुबेदार	मदन सिंह एस	01.12.2009
212	जेसी377024एच	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश गुप्ता	01.01.2010
213	जेसी376350वाइ	नायब सुबेदार	पी वलपिलाकान्ती	01.11.2009
214	जेसी376923एक्स	नायब सुबेदार	रमेश चंद्रा	01.12.2009
215	जेसी277046एफ	नायब सुबेदार	रमेश कुमार	01.11.2009
216	जेसी377496वाइ	नायब सुबेदार	शिव शंकर सिंह	01.09.2009
217	जेसी377411एक्स	नायब सुबेदार	सिदा संकर सी	01.01.2010
218	जेसी377658वाइ	नायब सुबेदार	टी गोविंद शंकर	01.01.2010

219	जेसी377764एक्स गार्ड्स	नायब सुबेदार	वी आनंधया	01.09.2009
220	जेसी404134के	नायब सुबेदार	अनिल कुमार	01.11.2009
221	जेसी403989ए	नायब सुबेदार	जीबन च. चूतिया	01.12.2009
222	जेसी404143एल	नायब सुबेदार	लन्केसवर राय	01.01.2010
223	जेसी403704एच <u>मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट</u>	नायब सुबेदार	शिव सिंह	01.09.2009
224	जेसी420738एम	नायब सुबेदार	होशियार सिंह	01.12.2009
225	जेसी420558के	नायब सुबेदार	आइ विनयभा मूर्ती	01.10.2009
226	जेसी420862एन	नायब सुबेदार	नार बहादुर	01.09.2009
227	जेसी420706के	नायब सुबेदार	प्रहलाद सिंह	01.10.2009
228	जेसी420564एक्स	नायब सुबेदार	राजपाल सिंह	01.01.2010
229	जेसी420519एल	नायब सुबेदार	एस पाल सिंह	01.10.2009
230	जेसी420374एल <u>मद्रास रेजीमेन्ट</u>	नायब सुबेदार	श्रीनिवासन एस	01.10.2009
231	जेसी439913एल	नायब सुबेदार	अन्दानेप्पा गुम्मीगोल	01.01.2010
232	जेसी439844ए	नायब सुबेदार	गोपाल कृष्णा कुरुप आर	01.10.2009
233	जेसी439704एन	नायब सुबेदार	एस मनोहरन	01.01.2010
234	जेसी439867एफ	नायब सुबेदार	सलाम शेक	01.11.2009
235	जेसी439836एफ <u>ग्रेनेडियर्स</u>	नायब सुबेदार	सुरेश कुमार एम एस	01.10.2009
236	जेसी450332एन	नायब सुबेदार	मोहम्मद तसलीम	01.12.2009
237	जेसी450323एम	नायब सुबेदार	राम चंद्रा	01.11.2009
238	जेसी450132एक्स <u>मराठा लघु सेना</u>	नायब सुबेदार	शिव कुमार	01.10.2009
239	जेसी459715एफ <u>राजपूताना राईफल्स</u>	नायब सुबेदार	कुंजुमोन के	01.01.2010
240	जेसी469784एल	नायब सुबेदार	प्रहलाद राम मान	01.10.2009
241	जेसी469962एच <u>राजपूत रेजीमेन्ट</u>	नायब सुबेदार	राम प्रताप सिंह	01.12.2009
242	जेसी479949एम <u>जाट रेजीमेन्ट</u>	नायब सुबेदार	भवानी सिंह	01.11.2009
243	जेसी490013के	नायब सुबेदार	अमरजीत सिंह	01.10.2009
244	जेसी489731एन	नायब सुबेदार	कष्णन कुमार	01.12.2009

सिख लघु पैदल सेना

245	जेसी509555एल <u>डोगरा रेजीमेन्ट</u>	नायब सुबेदार	प्रेम चन्द	01.11.2009
246	जेसी520271एफ	नायब सुबेदार	ज्ञान चन्द	01.11.2009
247	जेसी520612एफ	नायब सुबेदार	हेम राज	01.11.2009
248	जेसी520362एल	नायब सुबेदार	कष्णन लाल	01.11.2009
249	जेसी520927एल	नायब सुबेदार	लेख राज	01.10.2009
250	जेसी520363एन	नायब सुबेदार	मेस्टन सिंह	01.12.2009
251	जेसी520650एक्स <u>गढवाल राईफल्स</u>	नायब सुबेदार	यश पौल	01.12.2009
252	जेसी530288एच	नायब सुबेदार	हुकम सिंह	01.01.2010
253	जेसी530271पी <u>आसाम रेजीमेन्ट</u>	नायब सुबेदार	जयबीर सिंह	01.01.2010
254	जेसी549498एक्स <u>बिहार रेजीमेन्ट</u>	नायब सुबेदार	टी टिलकोपाओ	01.01.2010
255	जेसी559829एफ	नायब सुबेदार	अनटोनी बेक	01.11.2009
256	जेसी559724एक्स	नायब सुबेदार	लक्ष्मन कुमार मरांती	01.12.2009
257	जेसी560009एफ	नायब सुबेदार	प्रमोद कुमार पांडे	01.01.2010
258	जेसी559779एफ	नायब सुबेदार	पुरुषोत्तम जैना	01.11.2009
259	जेसी559673पी	नायब सुबेदार	रमा नन्द ठाकुर	01.11.2009
260	जेसी559848एम <u>जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स</u>	नायब सुबेदार	रंजीत सिंह के	01.11.2009
261	जेसी580581डब्ल्यू <u>नागा रेजीमेन्ट</u>	नायब सुबेदार	जोहन एम	01.11.2009
262	जेसी590186डब्ल्यू <u>जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल</u>	नायब सुबेदार	एमएच डब्ल्यू	01.01.2010
263	जेसी593460एन <u>1 गोरखा राईफल्स</u>	नायब सुबेदार	बाल कष्णन	01.10.2009
264	जेसी602731के	नायब सुबेदार	देव बहादुर थापा	01.11.2009
265	जेसी602755एन <u>9 गोरखा राईफल्स</u>	नायब सुबेदार	हरी नारायण सिंह	01.01.2010
266	जेसी629770एम	नायब सुबेदार	सुकरा राज लामसल	01.12.2009

11 गोरखा राईफल्स

267	जेसी634648ए <u>सेना सेवा कोर दक्षिण</u>	नायब सुबेदार	मछिन्द्र बहादुर राय	01.01.2010
268	जेसी664258एम	नायब सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	01.12.2009
269	जेसी643132वाइ	नायब सुबेदार	भरत सिंह	01.09.2009
270	जेसी664836डब्ल्यू	नायब सुबेदार	जगवीर सिंह	01.01.2010
271	जेसी664303एन	नायब सुबेदार	जसबीर चन्द	01.01.2010
272	जेसी664965डब्ल्यू	नायब सुबेदार	सुरेश प्रसाद	01.12.2009
273	जेसी664511एच <u>सेना चिकित्सा कोर</u>	नायब सुबेदार	तिलक राज	01.01.2010
274	जेसी695213एन	नायब सुबेदार	अशोक कुमार सिंह	01.09.2009
275	जेसी695555एफ	नायब सुबेदार	गोपाल सिंह	01.01.2010
276	जेसी695843एन	नायब सुबेदार	जनगम पद्मा राव	01.12.2009
277	जेसी695641एम <u>सेना आयुध कोर</u>	नायब सुबेदार	सुरेन्द्रन टी	01.10.2009
278	जेसी727387के	नायब सुबेदार	ए अरुमुगम	01.12.2009
279	जेसी726715ए	नायब सुबेदार	बासुदेब नंदी	01.09.2009
280	जेसी727007ए	नायब सुबेदार	बिजया कुमार परीद	01.12.2009
281	जेसी727485के	नायब सुबेदार	ध्यान सिंह	01.11.2009
282	जेसी727483वाइ	नायब सुबेदार	जी. नाथ बी खोट	01.12.2009
283	जेसी725171के	नायब सुबेदार	लोचन चंद्रा बोराह	01.11.2009
284	जेसी726569एल	नायब सुबेदार	मनमोहन सिंह	01.10.2009
285	जेसी726919एम	नायब सुबेदार	मोहम्मद असफाक	01.12.2009
286	जेसी727377ए	नायब सुबेदार	पी आचार्य	01.12.2009
287	जेसी727292के	नायब सुबेदार	आर रामचन्द्रन	01.10.2009
288	जेसी726781एच	नायब सुबेदार	राजामोहनन सी	01.01.2010
289	जेसी727225वाइ	नायब सुबेदार	राजेश्वर प्रसाद	01.09.2009
290	जेसी727328एक्स	नायब सुबेदार	राम नारायण सिंह	01.12.2009
291	जेसी726625वाइ	नायब सुबेदार	एस अरुलन्दू	01.11.2009
292	जेसी727386एफ	नायब सुबेदार	सहज राम यादव	01.10.2009
293	जेसी727484एफ	नायब सुबेदार	शौकिन सिंह	01.12.2009
294	जेसी726011डब्ल्यू	नायब सुबेदार	श्री कृष्णा	01.01.2010
295	जेसी727273वाइ	नायब सुबेदार	वीजयराज आर	01.10.2009
296	जेसी727486एम <u>इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स</u>	नायब सुबेदार	यशवंत सिंह	01.12.2009
297	जेसी759276ए	नायब सुबेदार	अब्दुल खादर फीटी	01.01.2010
298	जेसी759904के	नायब सुबेदार	अजीत सिंह	01.01.2010

299	जेसी761271ए	नायब सुबेदार	बलजीत सिंह	01.01.2010
300	जेसी759517पी	नायब सुबेदार	बीर सिंह	01.01.2010
301	जेसी761389एफ	नायब सुबेदार	बीर सिंह	01.01.2010
302	जेसी761216के	नायब सुबेदार	बृज मोहन सिंह रावत	01.10.2009
303	जेसी760150एम	नायब सुबेदार	देबेन्द्र नाथ कौन्तिय	01.10.2009
304	जेसी759368एम	नायब सुबेदार	गुरचरण सिंह	01.01.2010
305	जेसी759474एल	नायब सुबेदार	हरेन्द्र नारायण द्विवेदी	01.01.2010
306	जेसी758934पी	नायब सुबेदार	जे सिंह	01.01.2010
307	जेसी760382एल	नायब सुबेदार	कमला प्रसाद वर्मा	01.10.2009
308	जेसी760151पी	नायब सुबेदार	मुकुन्द भारती	01.10.2009
309	जेसी760654ए	नायब सुबेदार	प्रमोद कुमार	01.12.2009
310	जेसी762217वाइ	नायब सुबेदार	पी चन्द	01.01.2010
311	जेसी759791एम	नायब सुबेदार	पुजारी संजय बी	01.10.2009
312	जेसी761154पी	नायब सुबेदार	रघुबीर सिंह	01.01.2010
313	जेसी759890ए	नायब सुबेदार	राज कुमार	01.09.2009
314	जेसी759587एन	नायब सुबेदार	राम नरेश	01.01.2010
315	जेसी761217एम	नायब सुबेदार	रंजीत सिंह	01.09.2009
316	जेसी759915डब्ल्यू	नायब सुबेदार	रोहिताश कुमार	01.01.2010
317	जेसी761694एन	नायब सुबेदार	सदा शिव दलवड़	01.09.2009
318	जेसी761716एफ	नायब सुबेदार	सत्यवान	01.12.2009
319	जेसी759367एक्स	नायब सुबेदार	सुरमुख सिंह	01.01.2010
320	जेसी760786डब्ल्यू	नायब सुबेदार	यू पौल राज	01.12.2009
321	जेसी759905एम	नायब सुबेदार	उमा शंकर	01.01.2010
<u>आसुचना कोर</u>				
322	जेसी811049के	नायब सुबेदार	दीवान सिंह	01.12.2009
323	जेसी810934एम	नायब सुबेदार	हरविंदर सिंह	01.12.2009
<u>रक्षा सुरक्षा कोर</u>				
324	जेसी842455वाइ	नायब सुबेदार	ए इब्राहिम कुट्टी	01.12.2009
325	जेसी842259वाइ	नायब सुबेदार	भजन सिंह	01.09.2009
326	जेसी842049वाइ	नायब सुबेदार	गनेश दत्त	01.09.2009
327	जेसी841790डब्ल्यू	नायब सुबेदार	गोलम जेड	01.01.2010
328	जेसी842222एक्स	नायब सुबेदार	कृष्णापा सिंधु विश्वास	01.10.2009
329	जेसी842297पी	नायब सुबेदार	एन पांडे	01.09.2009
330	जेसी842451एच	नायब सुबेदार	नरेंद्र शेखर	01.01.2010
331	जेसी841584एम	नायब सुबेदार	निरंजन दास	01.11.2009
332	जेसी842338एन	नायब सुबेदार	ओम प्रकाश	01.09.2009
333	जेसी842169एक्स	नायब सुबेदार	पूरन चन्द	01.11.2009
334	जेसी842470एन	नायब सुबेदार	प्रहलाद	01.09.2009
335	जेसी842375एफ	नायब सुबेदार	राजेंद्रा प्रसाद	01.09.2009
336	जेसी842040के	नायब सुबेदार	राजेश्वर सिंह चौहान	01.09.2009

337	जेसी842226एन	नायब सुबेदार	राजे सिंह	01.01.2010
338	जेसी842303एक्स	नायब सुबेदार	सत्य प्रसाद	01.11.2009
339	जेसी841714के	नायब सुबेदार	विजय सिंह	01.10.2009

[सं. बी/43432/आर डी-10/ए जी/सी डब्ल्यू-2]

मुकेश सभरवाल, लै. जनरल, एडजुटेंट जनरल

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2010

No. 2(E) Dated 26 January, 2010.— The President is pleased to grant honorary ranks to the undermentioned Honorary Lieutenants and JCOs on the eve of Republic Day 2010 on retirement under Para 179 of Regulations for the Army 1987 with effect from the dates shown against their names :-

TO BE HONORARY CAPTAINS**8 CAVALRY**

1	JC 240581P	RIS & HONY LT	RAJINDER SINGH	01-01-2010
---	------------	------------------	----------------	------------

63 CAVALRY

2	JC 240293H	RIS & HONY LT	RAM BAHADUR SINGH	01-01-2010
---	------------	------------------	-------------------	------------

64 CAVALRY

3	JC 236849K	RIS MAJ & HONY LT	OM PARKASH	01-11-2009
---	------------	----------------------	------------	------------

65 ARMOURED REGIMENT

4	JC 240082A	RIS & HONY LT	SUBHASH CHANDRA VERMA	01-10-2009
---	------------	------------------	-----------------------	------------

66 ARMOURED REGIMENT

5	JC 240364Y	RIS & HONY LT	VALSANT M	01-10-2009
---	------------	------------------	-----------	------------

71 ARMOURED REGIMENT

6	JC 238116K	RIS MAJ & HONY LT	KARAN SINGH	01-12-2009
---	------------	----------------------	-------------	------------

73 ARMOURED REGIMENT

7	JC 238225W	RIS MAJ & HONY LT	LIYAKAT ALI KHAN	01-11-2009
---	------------	----------------------	------------------	------------

75 ARMOURED REGIMENT

8	JC 238903L	RIS & HONY LT	METTU LAKSHMI REDDY	01-09-2009
---	------------	------------------	---------------------	------------

76 ARMOURED REGIMENT

9	JC 237154N	RIS MAJ & HONY LT	RAJ PAL	01-09-2009
---	------------	----------------------	---------	------------

81 ARMOURED REGIMENT

10	JC 238809F	RIS MAJ & HONY LT	RAM NIWAS BHAMBU	01-10-2009
11	JC 240495K	RIS & HONY LT	MADIRE CPR REDDY	01-09-2009
12	JC 240859L	RIS & HONY LT	SATHEES KUMAR G	01-01-2010

41 ARMOURED REGIMENT

13	JC 239322A	RIS & HONY LT	BIKASH CHANDRA ROY	01-11-2009
----	------------	------------------	--------------------	------------

43 ARMOURED REGIMENT

14	JC 239559X	RIS & HONY LT	ANGAD SINGH	01-01-2010
----	------------	------------------	-------------	------------

48 ARMOURED REGIMENT

15	JC 239520L	RIS & HONY LT	BASANT KUMAR	01-10-2009
----	------------	------------------	--------------	------------

6 ARMOURED REGIMENT

16	JC 240896Y	RIS & HONY LT	GUMAN SINGH RATHORE	01-10-2009
----	------------	------------------	---------------------	------------

11 ARMOURED REGIMENT

17	JC 237359H	RIS MAJ & HONY LT	AWADH BIHARI RAI	01-11-2009
----	------------	----------------------	------------------	------------

13 ARMOURED REGIMENT

18	JC 237469X	RIS MAJ & HONY LT	DEVENDRA SINGH	01-12-2009
----	------------	----------------------	----------------	------------

19 ARMOURED REGIMENT

19	JC 236735Y	RIS MAJ & HONY LT	SATWEER SINGH JHAJHARIA	01-11-2009
----	------------	----------------------	-------------------------	------------

51 ARMOURED REGIMENT

20	JC 237195X	RIS MAJ & HONY LT	RAM KUMAR SINGH	01-10-2009
----	------------	----------------------	-----------------	------------

ARMoured CORPS

21	JC 237208K	RIS MAJ & HONY LT	ARUN KUMAR SINGH	01-09-2009
22	JC 133722F	RIS MAJ & HONY LT	PADAM NABH SHARMA	01-12-2009
23	JC 152321F	RIS & HONY LT	MARKANDEYA TRIPATHI	01-09-2009

REGIMENT OF ARTILLERY

24	JC 226102X	SUB MAJ & HONY LT	AGENT SINGH	01-10-2009
25	JC 256208Y	SUB MAJ & HONY LT	AKSHYA KUMAR SAHOO	01-09-2009
26	JC 257092A	SUB MAJ & HONY LT	BADAN SINGH	01-09-2009
27	JC 257922L	SUB MAJ & HONY LT	BALU R	01-10-2009
28	JC 255709M	SUB MAJ & HONY LT	BALWINDER SINGH	01-12-2009
29	JC 256449Y	SUB MAJ & HONY LT	BHADRAN S	01-09-2009
30	JC 255574W	SUB MAJ & HONY LT	BHAGA RAM	01-11-2009
31	JC 256071X	SUB MAJ & HONY LT	BHIM SINGH	01-10-2009
32	JC 223075N	SUB MAJ & HONY LT	C THANGAM	01-10-2009
33	JC 256210W	SUB MAJ & HONY LT	CHARAT SINGH	01-10-2009
34	JC 259197H	SUB MAJ & HONY LT	DEVI SINGH	01-01-2010
35	JC 256478N	SUB MAJ & HONY LT	GAYA RAM	01-10-2009
36	JC 258859N	SUB MAJ & HONY LT	GREGORY J	01-09-2009
37	JC 258956L	SUB MAJ & HONY LT	GURDEV SINGH	01-11-2009
38	JC 255677P	SUB MAJ & HONY LT	JAI PRAKASH	01-10-2009
39	JC 255705W	SUB MAJ & HONY LT	JOGINDER PAL	01-09-2009
40	JC 255681X	SUB MAJ & HONY LT	MANGE RAM	01-10-2009
41	JC 256109W	SUB MAJ & HONY LT	MOHAN SELVAM S	01-10-2009

42	JC 256506P	SUB MAJ & HONY LT	MOHANAN N	01-10-2009
43	JC 255744P	SUB MAJ & HONY LT	MUNSHI RAM	01-01-2010
44	JC 255672W	SUB MAJ & HONY LT	OM PRAKASH	01-09-2009
45	JC 257954N	SUB MAJ & HONY LT	PAPASANIPALLI RAMI REDDY GARI REDDY NANJI	01-10-2009
46	JC 255782L	SUB MAJ & HONY LT	PARSHOTTAM SINGH, SM	01-12-2009
47	JC 259611W	SUB MAJ & HONY LT	PURAN CHAND	01-12-2009
48	JC 258306X	SUB MAJ & HONY LT	RAJ KUMAR SINGH	01-09-2009
49	JC 130079X	SUB MAJ & HONY LT	RAM KISHORE DWIVEDI	01-01-2010
50	JC 259456A	SUB MAJ & HONY LT	RAM SURESH YADAV	01-01-2010
51	JC 255504X	SUB MAJ & HONY LT	SACHHIDA NAND UPADHYAY	01-09-2009
52	JC 257966H	SUB MAJ & HONY LT	SATYA NARAYAN	01-10-2009
53	JC 256905Y	SUB MAJ & HONY LT	SUDARSANAN NAIR K	01-10-2009
54	JC 257421L	SUB MAJ & HONY LT	THOMAS ANIYAN A	01-09-2009
55	JC 264353L	SUB & HONY LT	AJAY KUMAR	01-12-2009
56	JC 266912H	SUB & HONY LT	ARUN VISHNU MANE	01-01-2010
57	JC 265233Y	SUB & HONY LT	AWADH NARAYAN TRIPATHI	01-10-2009
58	JC 261842L	SUB & HONY LT	BALJIT SINGH CHAUHAN	01-01-2010
59	JC 266653L	SUB & HONY LT	BALKAR SINGH	01-01-2010
60	JC 225435X	SUB & HONY LT	BHAGWAN DIN DWIVEDI	01-12-2009
61	JC 266341P	SUB & HONY LT	BHIM SINGH	01-09-2009
62	JC 259801H	SUB & HONY LT	BHUPINDER SINGH	01-12-2009
63	JC 265796Y	SUB & HONY LT	BHUR SINGH JAT	01-10-2009
64	JC 264540K	SUB & HONY LT	BIR SINGH	01-09-2009

65	JC 263201X	SUB & HONY LT	BRAHMJIT SINGH	01-01-2010
66	JC 265098W	SUB & HONY LT	CHAGGAR SINGH PATHANIA	01-09-2009
67	JC 268019F	SUB & HONY LT	CHAND SINGH	01-01-2010
68	JC 261873L	SUB & HONY LT	DHURV NARAYAN SINGH	01-11-2009
69	JC 267505M	SUB & HONY LT	DUNI CHAND	01-01-2010
70	JC 267856F	SUB & HONY LT	GHISA RAM	01-01-2010
71	JC 266168W	SUB & HONY LT	GHOLAVE VISHNU KISAN	01-01-2010
72	JC 264670M	SUB & HONY LT	GURMEET SINGH	01-10-2009
73	JC 269720W	SUB & HONY LT	ISHWAR SINGH	01-01-2010
74	JC 267726Y	SUB & HONY LT	JASWANT SINGH	01-09-2009
75	JC 265969L	SUB & HONY LT	JHINGOOR BHATT	01-12-2009
76	JC 259797L	SUB & HONY LT	KHIMA NAND JOSHI	01-10-2009
77	JC 262970P	SUB & HONY LT	MAHENDRA SINGH NEGI	01-10-2009
78	JC 268277F	SUB & HONY LT	OM PRAKASH	01-10-2009
79	JC 265525F	SUB & HONY LT	PRABHU LAL BAIRAWA	01-01-2010
80	JC 268271A	SUB & HONY LT	PRAFULLA CHANDRA MALIK	01-01-2010
81	JC 265766F	SUB & HONY LT	RAJAGOPALAN PB	01-01-2010
82	JC 259790F	SUB & HONY LT	RAJENDER SINGH	01-11-2009
83	JC 268738A	SUB & HONY LT	RAJENDER SINGH RAWAT	01-01-2010
84	JC 266639Y	SUB & HONY LT	RAM CHAND	01-09-2009
85	JC 265970A	SUB & HONY LT	RAM KISHORE	01-12-2009
86	JC 267294P	SUB & HONY LT	RAM NARESH	01-10-2009
87	JC 264710H	SUB & HONY LT	RAMANAND SM	01-01-2010

88	JC 267386F	SUB & HONY LT	RAMESH KUMAR	01-10-2009
89	JC 269212A	SUB & HONY LT	RAVISH KUMAR	01-01-2010
90	JC 265370X	SUB & HONY LT	SAWANT SINGH	01-01-2010
91	JC 265539F	SUB & HONY LT	SHANKAR TOTAGI	01-01-2010
92	JC 264709N	SUB & HONY LT	SUBHAS KONI	01-01-2010
93	JC 264457M	SUB & HONY LT	SURAJ PAL SINGH YADAV	01-11-2009
94	JC 263391P	SUB & HONY LT	SYAM KUMAR KR	01-09-2009
95	JC 265702W	SUB & HONY LT	YOGENDRA SINGH	01-12-2009

ARMY AIR DEFENCE

96	JC 296875P	SUB MAJ & HONY LT	ASHOK KUMAR SINGH RATHAUR	01-11-2009
97	JC 296294X	SUB MAJ & HONY LT	BAHADUR SINGH	01-01-2010
98	JC 296619A	SUB MAJ & HONY LT	KARAM SINGH	01-11-2009
99	JC 296715P	SUB MAJ & HONY LT	UPENDRA PRASAD	01-11-2009
100	JC 297041P	SUB MAJ & HONY LT	VIJAY SINGH	01-01-2010
101	JC 298034L	SUB & HONY LT	ABBAL SINGH	01-12-2009
102	JC 296336Y	SUB & HONY LT	DEBENDRA KUMAR ACHARYA	01-11-2009
103	JC 297573P	SUB & HONY LT	KARAKAVALSA GOPINATHA PATNAIK	01-10-2009
104	JC 297183M	SUB & HONY LT	MAJJI KRISHNA	01-10-2009
105	JC 297489P	SUB & HONY LT	OM PRAKASH SAH	01-09-2009
106	JC 297705X	SUB & HONY LT	PADMANABHAN K P	01-01-2010
107	JC 298768M	SUB & HONY LT	PARMANAND	01-10-2009
108	JC 298605Y	SUB & HONY LT	PREM CHAND	01-09-2009
109	JC 297971W	SUB & HONY LT	RAMNIWAS YADAVA	01-01-2010

110	JC 296330X	SUB & HONY LT	SATENDER MALIK	01-10-2009
111	JC 298151W	SUB & HONY LT	SUBE SINGH	01-01-2010
112	JC 297922N	SUB & HONY LT	YOGENDRA KUMAR TIWARI	01-01-2010

MADRAS ENGINEER GROUP

113	JC 305646N	SUB MAJ & HONY LT	A RAMAN	01-01-2010
114	JC 305059H	SUB MAJ & HONY LT	AJITHAKUMAR VV	01-11-2009
115	JC 305108A	SUB MAJ & HONY LT	JOHN MS	01-12-2009
116	JC 305079W	SUB MAJ & HONY LT	RAVI KUMAR	01-12-2009
117	JC 305843W	SUB MAJ & HONY LT	V MANICKAM	01-11-2009
118	JC 225774X	SUB MAJ & HONY LT	VIJAYAN NAIR V	01-12-2009
119	JC 307211K	SUB & HONY LT	ABRAHAM THOMAS	01-01-2010
120	JC 306927W	SUB & HONY LT	ASOKAN K	01-11-2009
121	JC 307588N	SUB & HONY LT	B ARUMUGAM	01-12-2009
122	JC 307682X	SUB & HONY LT	BABU VD	01-12-2009
123	JC 307763X	SUB & HONY LT	BALLA SUBRAMANIYAM	01-01-2010
124	JC 307554A	SUB & HONY LT	BYRAN	01-12-2009
125	JC 307246A	SUB & HONY LT	C LAWRENCE	01-12-2009
126	JC 307480W	SUB & HONY LT	D ASAITHAMBI RAJA KUMAR	01-09-2009
127	JC 307872K	SUB & HONY LT	E DASARATHAN	01-01-2010
128	JC 306641F	SUB & HONY LT	JOSEPH TM	01-12-2009
129	JC 307590L	SUB & HONY LT	K SHAFIULLA	01-01-2010
130	JC 306964K	SUB & HONY LT	KUTTAPPAN C	01-12-2009
131	JC 307589W	SUB & HONY LT	M GANAPATHI	01-12-2009

132	JC 307834N	SUB & HONY LT	M SAKADEVAN	01-12-2009
133	JC 306963F	SUB & HONY LT	M SEKARAN	01-09-2009
134	JC 307760K	SUB & HONY LT	MN NANDAGOPAL	01-12-2009
135	JC 307477W	SUB & HONY LT	MT VENUGOPALAN	01-01-2010
136	JC 307657Y	SUB & HONY LT	P RAVI	01-09-2009
137	JC 307970K	SUB & HONY LT	P UDAYA KUMAR	01-10-2009
138	JC 307713M	SUB & HONY LT	S MURTHY	01-01-2010
139	JC 307860P	SUB & HONY LT	S RAVI	01-12-2009
140	JC 306049L	SUB & HONY LT	SHIVAJI JADHAV	01-10-2009
141	JC 307658F	SUB & HONY LT	SIVADASAN K	01-12-2009
142	JC 307296L	SUB & HONY LT	V MARIDASS	01-12-2009
143	JC 307141W	SUB & HONY LT	Y SARADHI	01-01-2010

BENGAL ENGINEER GROUP

144	JC 326787W	SUB MAJ & HONY LT	ASHOK KUMAR TRIPATHI	01-01-2010
145	JC 326429L	SUB MAJ & HONY LT	DIWAN SINGH SHAHI	01-10-2009
146	JC 326451W	SUB MAJ & HONY LT	HEM CHANDRA PATHAK	01-12-2009
147	JC 326651M	SUB MAJ & HONY LT	MAHENDER NATH SINGH	01-11-2009
148	JC 326564Y	SUB MAJ & HONY LT	MAKHAN SINGH	01-10-2009
149	JC 326500N	SUB MAJ & HONY LT	NARENDRA SINGH NEGI	01-09-2009
150	JC 327184M	SUB MAJ & HONY LT	PARAMJIT SINGH	01-09-2009
151	JC 327940N	SUB MAJ & HONY LT	PRASAN KUMAR MISRO	01-09-2009
152	JC 131982N	SUB MAJ & HONY LT	RAM KISHOR SHARMA	01-10-2009
153	JC 216012H	SUB MAJ & HONY LT	RAM SANEHI SHAKYA	01-09-2009

154	JC 326533Y	SUB MAJ & HONY LT	SUKH RAM	01-09-2009
155	JC 328697N	SUB & HONY LT	ANAND SINGH	01-12-2009
156	JC 328722F	SUB & HONY LT	BAIJ NATH	01-01-2010
157	JC 328678H	SUB & HONY LT	BIJAY SINGH	01-11-2009
158	JC 328798F	SUB & HONY LT	JANARDAN PRASAD SINGH	01-12-2009
159	JC 328701L	SUB & HONY LT	MAHENDRA SINGH	01-12-2009
160	JC 328721Y	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	01-12-2009
161	JC 328677A	SUB & HONY LT	NAND KISHOR	01-11-2009
162	JC 328817F	SUB & HONY LT	PRATAP SINGH	01-11-2009
163	JC 328743X	SUB & HONY LT	PURSHOTAM LAL	01-01-2010
164	JC 328735Y	SUB & HONY LT	RAM JIT SINGH YADAV	01-01-2010
165	JC 328703W	SUB & HONY LT	SHAMINDER SINGH	01-12-2009
166	JC 328787P	SUB & HONY LT	SURESH SINGH	01-11-2009

BOMBAY ENGINEER GROUP

167	JC 347429Y	SUB MAJ & HONY LT	ABDUL RAUF KHAN	01-11-2009
168	JC 347448K	SUB MAJ & HONY LT	HARBANS SINGH	01-10-2009
169	JC 347304F	SUB MAJ & HONY LT	PARAMJIT SHARMA	01-01-2010
170	JC 347173F	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH RAM	01-12-2009
171	JC 347167N	SUB MAJ & HONY LT	RAMYASH SINGH	01-11-2009
172	JC 347503P	SUB MAJ & HONY LT	SWARN SINGH	01-12-2009
173	JC 348955K	SUB & HONY LT	BADRUDDIN KHAN	01-10-2009
174	JC 348906F	SUB & HONY LT	DALJIT SINGH	01-09-2009
175	JC 349504W	SUB & HONY LT	GIRJA SHANKAR TRIPATHI	01-11-2009

176	JC 349428P	SUB & HONY LT	HASABE JANARDHAN TUKARAM	01-09-2009
177	JC 348986K	SUB & HONY LT	HIMAT SINGH	01-01-2010
178	JC 349061A	SUB & HONY LT	JAGTAR SINGH, SM	01-09-2009
179	JC 349602W	SUB & HONY LT	KANE VITHAL RAO SAHEB	01-09-2009
180	JC 349249P	SUB & HONY LT	KHALIL MOHD	01-11-2009
181	JC 349063L	SUB & HONY LT	LASHAKAR SINGH	01-12-2009
182	JC 349172X	SUB & HONY LT	MOHAMMAD AFZAL	01-12-2009
183	JC 347860X	SUB & HONY LT	SAJJAN RAM	01-12-2009
184	JC 349290L	SUB & HONY LT	SHAM SINGH	01-12-2009
185	JC 348808F	SUB & HONY LT	SHAMSHER SINGH DUGGAL	01-09-2009
186	JC 349355N	SUB & HONY LT	SHER MOHAMAD	01-12-2009
187	JC 347337M	SUB & HONY LT	SHIV CHANDRA SINGH	01-12-2009
188	JC 348815X	SUB & HONY LT	SOM DATT	01-09-2009

CORPS OF SIGNALS

189	JC 370447N	SUB MAJ & HONY LT	ANNA SAHEB SAVALAGI	01-11-2009
190	JC 367074A	SUB MAJ & HONY LT	BHANU PRATAP	01-09-2009
191	JC 367081W	SUB MAJ & HONY LT	BISHWA NATH PATHAK	01-09-2009
192	JC 370449Y	SUB MAJ & HONY LT	NANDESWAR BORUAH	01-12-2009
193	JC 370416N	SUB MAJ & HONY LT	NATHA SINGH	01-10-2009
194	JC 370372F	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDER KUMAR	01-09-2009
195	JC 370326M	SUB MAJ & HONY LT	RAM DYAL ROY LALIT	01-09-2009
196	JC 368139P	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH CHANDRA BISWAL	01-11-2009
197	JC 370457X	SUB MAJ & HONY LT	YASHIWANT SINGH	01-01-2010

198	JC 373647P	SUB & HONY LT	ACHHE LAL	01-11-2009
199	JC 375282K	SUB & HONY LT	BHARAT PRASAD SHUKLA	01-11-2009
200	JC 374592H	SUB & HONY LT	DALEL SINGH MALIK	01-01-2010
201	JC 374478L	SUB & HONY LT	GOPAL KRISHAN	01-09-2009
202	JC 372076P	SUB & HONY LT	HARDEEP SINGH	01-11-2009
203	JC 375249M	SUB & HONY LT	HUSAIN ALAM KHAN	01-01-2010
204	JC 373471P	SUB & HONY LT	JAGDISH CHAND	01-09-2009
205	JC 374483W	SUB & HONY LT	JAI KRISHAN	01-12-2009
206	JC 373736N	SUB & HONY LT	JAYA BABU P V	01-01-2010
207	JC 374038X	SUB & HONY LT	KEDARNATH SUNDARAY	01-12-2009
208	JC 375404H	SUB & HONY LT	KRISHAN CHANDER	01-10-2009
209	JC 373581K	SUB & HONY LT	KRISHAN KUMAR	01-10-2009
210	JC 374173L	SUB & HONY LT	M S PATHANIA	01-01-2010
211	JC 374696K	SUB & HONY LT	MAHAVEER SINGH RAWAT	01-09-2009
212	JC 374127W	SUB & HONY LT	MEHAR SINGH	01-10-2009
213	JC 375431M	SUB & HONY LT	NADARAJAN D	01-11-2009
214	JC 371262Y	SUB & HONY LT	NAWAL KISHORE SHARMA	01-11-2009
215	JC 372779W	SUB & HONY LT	OM PARKASH BOURNEY	01-11-2009
216	JC 374813K	SUB & HONY LT	RAJ KUMAR OJHA	01-01-2010
217	JC 374120M	SUB & HONY LT	RAJPAL SINGH	01-11-2009
218	JC 373290K	SUB & HONY LT	RAM NIWAS	01-10-2009
219	JC 374221A	SUB & HONY LT	RAM PRATAP SINGH	01-01-2010
220	JC 372447M	SUB & HONY LT	RAM PRAVESH SINGH	01-09-2009

221	JC 371757L	SUB & HONY LT	RAM SAGAR PANDEY	01-12-2009
222	JC 375248K	SUB & HONY LT	RAMA KANT MISRA	01-11-2009
223	JC 372497X	SUB & HONY LT	RAMAN K	01-09-2009
224	JC 373271Y	SUB & HONY LT	RAMESH CHAND	01-11-2009
225	JC 372585N	SUB & HONY LT	RAMESH GIRI	01-01-2010
226	JC 372999A	SUB & HONY LT	S LOURDU RAJ	01-12-2009
227	JC 370990M	SUB & HONY LT	SADHAN CHANDRA PATRA	01-01-2010
228	JC 374335L	SUB & HONY LT	SANJAI KUMAR SHARMA	01-09-2009
229	JC 375728N	SUB & HONY LT	SHREE BHAGWAN SINGH	01-01-2010
230	JC 372961W	SUB & HONY LT	SUKHWINDER SINGH	01-11-2009
231	JC 373482F	SUB & HONY LT	SURENDER SINGH	01-01-2010
232	JC 373701X	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR	01-09-2009
233	JC 372371X	SUB & HONY LT	THAKUR DASS	01-11-2009
234	JC 374885N	SUB & HONY LT	VISHNU DATT	01-09-2009
235	JC 373731P	SUB & HONY LT	WAZIR SINGH CHAHEL	01-12-2009

THE BRIGADE OF GUARDS

236	JC 402095X	SUB MAJ & HONY LT	KASHID MOHAN ANAND RAO	01-12-2009
237	JC 402473L	SUB MAJ & HONY LT	RAM BALI RAI	01-11-2009
238	JC 402392L	SUB MAJ & HONY LT	RAM KUMAR	01-10-2009
239	JC 208273F	SUB MAJ & HONY LT	RAM LAGAN DWIVEDI	01-10-2009
240	JC 402212X	SUB MAJ & HONY LT	TOTA KRISHAN UNIYAL	01-09-2009
241	JC 403228P	SUB & HONY LT	BAHADUR SINGH	01-12-2009
242	JC 403212K	SUB & HONY LT	DHARAMVIR SINGH	01-12-2009

243	JC 403184H	SUB & HONY LT	RAMESH CHANDRA	01-12-2009
244	JC 402924A	SUB & HONY LT	SATENDER DATT	01-12-2009
245	JC 402807P	SUB & HONY LT	SIYA RAM DUBEY	01-10-2009
246	JC 403294X	SUB & HONY LT	TARA CHAND SHARMA	01-10-2009
247	JC 403366W	SUB & HONY LT	TARA CHANDRA JOSHI	01-01-2010

THE PARACHUTE REGIMENT

248	JC 412121F	SUB MAJ & HONY LT	AMAR SINGH	01-10-2009
249	JC 412785P	SUB & HONY LT	BACHU SINGH	01-01-2010
250	JC 412697Y	SUB & HONY LT	GAWADE POPAT BAJIRAO	01-01-2010
251	JC 412696W	SUB & HONY LT	JAGMOHAN SINGH	01-01-2010
252	JC 412749K	SUB & HONY LT	LALIT NARAYAN SINGH	01-01-2010
253	JC 412532A	SUB & HONY LT	LAXMI NARAYAN	01-11-2009
254	JC 412685K	SUB & HONY LT	MOHAN SINGH	01-12-2009
255	JC 412466H	SUB & HONY LT	RANJIT SINGH	01-10-2009
256	JC 412533H	SUB & HONY LT	SOBAN SINGH RAWAT	01-10-2009
257	JC 412622F	SUB & HONY LT	TUSAR KANTI MAHANTY	01-12-2009

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

258	JC 225978K	SUB MAJ & HONY LT	GURMEET SINGH	01-09-2009
259	JC 418136A	SUB MAJ & HONY LT	RATAN SINGH	01-09-2009
260	JC 419460K	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH	01-09-2009
261	JC 419566W	SUB & HONY LT	GEORGE VC	01-10-2009
262	JC 418565F	SUB & HONY LT	GOKUL RAM	01-10-2009
263	JC 419372N	SUB & HONY LT	LACHHIMAN CHAND	01-01-2010

264	JC 419511M	SUB & HONY LT	OM PRAKASH SINGH	01-01-2010
265	JC 419745W	SUB & HONY LT	RAJESHWAR RAM	01-01-2010
266	JC 419340L	SUB & HONY LT	SUNIL KUMAR KN	01-01-2010
267	JC 419292W	SUB & HONY LT	THAM BAHADUR PUN	01-12-2009
268	JC 418782X	SUB & HONY LT	VERENDRA KUMAR AVASTHI	01-10-2009

THE PUNJAB REGIMENT

269	JC 428227X	SUB MAJ & HONY LT	HARMIT SINGH	01-09-2009
270	JC 428614M	SUB MAJ & HONY LT	KIRPAL SINGH	01-12-2009
271	JC 429314X	SUB & HONY LT	AMARJIT SINGH	01-09-2009
272	JC 429442P	SUB & HONY LT	BABU RAM	01-11-2009
273	JC 429487P	SUB & HONY LT	BALBIR CHAND	01-11-2009
274	JC 429536M	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	01-01-2010
275	JC 428962N	SUB & HONY LT	BALKAR SINGH	01-11-2009
276	JC 429441M	SUB & HONY LT	HANS RAJ	01-01-2010
277	JC 429296A	SUB & HONY LT	JARNAIL SINGH VASHIST	01-12-2009
278	JC 429710N	SUB & HONY LT	JEEI KUMAR	01-01-2010
279	JC 429837W	SUB & HONY LT	MAHESH CHANDER	01-01-2010
280	JC 429561L	SUB & HONY LT	NARENDER SINGH THAKUR	01-11-2009
281	JC 428950Y	SUB & HONY LT	NIRWAIR SINGH	01-09-2009
282	JC 429476H	SUB & HONY LT	OM PARKASH	01-11-2009
283	JC 429345X	SUB & HONY LT	SAT PAUL	01-01-2010
284	JC 429060L	SUB & HONY LT	SATWINDER SINGH	01-12-2009
285	JC 429119A	SUB & HONY LT	SHARAM SINGH	01-11-2009

286	JC 429644W	SUB & HONY LT	SURESH CHAND	01-01-2010
<u>THE MADRAS REGIMENT</u>				
287	JC 438541Y	SUB MAJ & HONY LT	SASIDHARAN PM	01-11-2009
288	JC 438114H	SUB MAJ & HONY LT	VASUDEVAN M	01-10-2009
289	JC 439124Y	SUB & HONY LT	B NAGARAJ	01-01-2010
290	JC 438840X	SUB & HONY LT	KRISHNAN M	01-01-2010
291	JC 548310L	SUB & HONY LT	MOHANAN TR	01-12-2009
292	JC 439522A	SUB & HONY LT	N RAJENDRA	01-01-2010
293	JC 439010N	SUB & HONY LT	P KRISHNASAMY	01-01-2010
294	JC 438870P	SUB & HONY LT	PRAKASAN K	01-09-2009
295	JC 439085L	SUB & HONY LT	RAJAN PILLAI KS	01-01-2010
296	JC 438741P	SUB & HONY LT	RAJENDIRAN K	01-10-2009
<u>THE GRENADIERS</u>				
297	JC 448658L	SUB MAJ & HONY LT	GOPI RAM PUNIA	01-12-2009
298	JC 448215K	SUB MAJ & HONY LT	GYAN CHAND	01-09-2009
299	JC 448489P	SUB MAJ & HONY LT	KAMAL JAKHU BHAI MULJI	01-09-2009
300	JC 448711L	SUB MAJ & HONY LT	MAHABIR PARSAD	01-11-2009
301	JC 448432A	SUB MAJ & HONY LT	MAHAVIR SINGH YADAV	01-01-2010
302	JC 448630L	SUB MAJ & HONY LT	NARENDRA SINGH	01-10-2009
303	JC 449249K	SUB & HONY LT	BHIM SINGH GUJAR	01-11-2009
304	JC 449428K	SUB & HONY LT	JAI SINGH	01-11-2009
305	JC 449941L	SUB & HONY LT	LIYAKAT ALI	01-01-2010
306	JC 449145H	SUB & HONY LT	MAHENDRA SINGH	01-11-2009

307	JC 449487W	SUB & HONY LT	NAWAB ALI	01-10-2009
308	JC 450018A	SUB & HONY LT	PRAHLAD	01-01-2010
309	JC 450011W	SUB & HONY LT	PURSHOTAM CHAND KATOCH	01-01-2010
310	JC 449061P	SUB & HONY LT	SAHI RAM	01-01-2010
311	JC 449472N	SUB & HONY LT	SANTOSH KUMAR SHARMA	01-11-2009
312	JC 449962F	SUB & HONY LT	SANTOSH SINGH	01-01-2010
313	JC 450103H	SUB & HONY LT	SATYA NARAYAN	01-01-2010
314	JC 449418A	SUB & HONY LT	SHYAMBIR SINGH TOMAR	01-10-2009
315	JC 449750W	SUB & HONY LT	SURESH KUMAR DHALOCH	01-01-2010

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

316	JC 220160L	SUB MAJ & HONY LT	DASRATH BABU CHAUHAN	01-01-2010
317	JC 488234X	SUB MAJ & HONY LT	DESHMUKH RAOSAHEB SUKDEO	01-12-2009
318	JC 212869Y	SUB MAJ & HONY LT	FAKEERAPPA MANAGUTTI	01-10-2009
319	JC 205524P	SUB MAJ & HONY LT	GHORPADE VISHNU BHAGVAN	01-09-2009
320	JC 130877L	SUB MAJ & HONY LT	JAGATAP GAJANAN NARAYAN	01-12-2009
321	JC 216495L	SUB MAJ & HONY LT	PANALKAR PANDURANG BHIMARAO	01-12-2009
322	JC 222655W	SUB MAJ & HONY LT	PATREPPA YALLAPPA ADDVI	01-11-2009
323	JC 205511X	SUB MAJ & HONY LT	RAM BHAU DANWE	01-01-2010
324	JC 204018X	SUB MAJ & HONY LT	SHEWALE HIMMATRAO RATAN	01-10-2009
325	JC 458802H	SUB & HONY LT	ANWAR	01-10-2009
326	JC 458805W	SUB & HONY LT	CHANDRAKANT TUKARAM MANDE	01-01-2010
327	JC 458497F	SUB & HONY LT	CHAVAN KRISHNARAO MARUTI	01-10-2009
328	JC 458687N	SUB & HONY LT	HANAMANT DESHWAL	01-01-2010

329	JC 458595F	SUB & HONY LT	KUMBHAR CHANDRAKANT GUNDU	01-09-2009
330	JC 458725Y	SUB & HONY LT	LOKARE SANDIPAN DATTU	01-10-2009
331	JC 458204L	SUB & HONY LT	MADHUKAR RAMAJI MANE	01-10-2009
332	JC 458816H	SUB & HONY LT	PARIT Sampat Shankar	01-10-2009
333	JC 458774F	SUB & HONY LT	PASTE TANAJI	01-09-2009
334	JC 458428L	SUB & HONY LT	RAJENDRAN A	01-10-2009
335	JC 458869F	SUB & HONY LT	SAWANT DATTARAM VITTHAL	01-10-2009
336	JC 458481W	SUB & HONY LT	SHRISAIL MALLESHAPPA YALAMALI	01-12-2009

THE RAJPUTANA RIFLES

337	JC 468306P	SUB MAJ & HONY LT	BHAWANI SINGH SHEKHAWAT	01-11-2009
338	JC 468853K	SUB MAJ & HONY LT	CHHOTU LAL	01-11-2009
339	JC 216783X	SUB MAJ & HONY LT	FAJRU KHAN	01-09-2009
340	JC 469380H	SUB & HONY LT	AJMAT SINGH	01-11-2009
341	JC 469312P	SUB & HONY LT	DANESHWAR PRATAP SINGH	01-11-2009
342	JC 469614F	SUB & HONY LT	DHARAM SINGH	01-01-2010
343	JC 469549M	SUB & HONY LT	MAHESH CHAND	01-09-2009
344	JC 469633M	SUB & HONY LT	MOHD MUMTAZ KHAN	01-01-2010
345	JC 469009N	SUB & HONY LT	MORDHAWAJ SINGH	01-12-2009
346	JC 469554X	SUB & HONY LT	NARAYAN SINGH	01-01-2010
347	JC 469508H	SUB & HONY LT	NARENDRA SINGH	01-09-2009
348	JC 469381L	SUB & HONY LT	PAWAN KUMAR	01-12-2009
349	JC 469712F	SUB & HONY LT	RAJ KISHOR SINGH	01-09-2009
350	JC 469289M	SUB & HONY LT	RAJENDER KUMAR	01-01-2010

351	JC 469115M	SUB & HONY LT	RAM SINGH MOJAWAT	01-10-2009
352	JC 469471M	SUB & HONY LT	RANJIT SINGH	01-09-2009
353	JC 469470K	SUB & HONY LT	RIPU DAVAN	01-11-2009
354	JC 469419K	SUB & HONY LT	ROHTASH KUMAR	01-01-2010
355	JC 468917K	SUB & HONY LT	SANJIV SINGH	01-11-2009
356	JC 469359A	SUB & HONY LT	SATYAVIR SINGH PATTAR	01-12-2009
357	JC 469315H	SUB & HONY LT	TEJA RAM JAT	01-01-2010

THE RAJPUT REGIMENT

358	JC 478245W	SUB MAJ & HONY LT	BADAN SINGH GUJAR	01-09-2009
359	JC 478089X	SUB MAJ & HONY LT	DHAN SINGH	01-12-2009
360	JC 478670F	SUB MAJ & HONY LT	RAM NIWAS	01-10-2009
361	JC 478518N	SUB MAJ & HONY LT	SATISH CHAND	01-12-2009
362	JC 479560Y	SUB & HONY LT	BAJRANG LAL GUJAR	01-10-2009
363	JC 478894F	SUB & HONY LT	JANAK SINGH GUJAR	01-10-2009
364	JC 478777W	SUB & HONY LT	KRISHAN KUMAR SINGH	01-10-2009
365	JC 479485A	SUB & HONY LT	MANORANJAN OJHA	01-01-2010
366	JC 479473L	SUB & HONY LT	RAJINDER SINGH GOUR	01-09-2009
367	JC 478906L	SUB & HONY LT	RAJVIR SINGH PARMAR	01-09-2009
368	JC 478893Y	SUB & HONY LT	RAM KISHAN	01-10-2009
369	JC 479161P	SUB & HONY LT	RANVIR SINGH	01-09-2009
370	JC 479557Y	SUB & HONY LT	RAVINDRA KUMAR SHARMA	01-01-2010
371	JC 479341X	SUB & HONY LT	ROHITASH	01-09-2009
372	JC 478539K	SUB & HONY LT	SANTOSH KUMAR SINGH	01-09-2009

373	JC 479546M	SUB & HONY LT	SUBEDAR SINGH	01-09-2009
374	JC 479275A	SUB & HONY LT	VIRENDRA SINGH	01-11-2009

THE JAT REGIMENT

375	JC 488199A	SUB MAJ & HONY LT	SHRAWAN KUMAR	01-11-2009
376	JC 489218M	SUB & HONY LT	BACHCHU SINGH	01-11-2009
377	JC 489475K	SUB & HONY LT	DHARMATAMA NAND KUNWAR	01-01-2010
378	JC 489087M	SUB & HONY LT	ISHWAR SINGH	01-01-2010
379	JC 489096N	SUB & HONY LT	RADHEY SHYAM	01-11-2009
380	JC 489173X	SUB & HONY LT	RAJA RAM	01-11-2009
381	JC 489525K	SUB & HONY LT	SHIV RAM SINGH	01-01-2010
382	JC 489474F	SUB & HONY LT	VIJAY SINGH SAINI	01-01-2010

THE SIKH REGIMENT

383	JC 498339P	SUB MAJ & HONY LT	RAJ BAHADUR DHAKA	01-12-2009
384	JC 498268Y	SUB MAJ & HONY LT	RAJABHOOSHANAN KA	01-12-2009
385	JC 498066X	SUB MAJ & HONY LT	TARLOK SINGH	01-11-2009
386	JC 499009H	SUB & HONY LT	AMRIK SINGH	01-01-2010
387	JC 498964W	SUB & HONY LT	AVTAR SINGH	01-09-2009
388	JC 498656W	SUB & HONY LT	BAHADUR SINGH	01-01-2010
389	JC 499073A	SUB & HONY LT	SANJAY PRASAD SINGH	01-01-2010
390	JC 498534M	SUB & HONY LT	SAWINDER SINGH	01-01-2010
391	JC 498860P	SUB & HONY LT	SUKHDEV SINGH	01-10-2009
392	JC 498929N	SUB & HONY LT	SUKHDEV SINGH	01-10-2009
393	JC 498894H	SUB & HONY LT	WAKIL SINGH	01-12-2009

THE SIKH LIGHT INFANTRY

394	JC 508005W	SUB MAJ & HONY LT	AVTAR SINGH	01-12-2009
395	JC 508267M	SUB MAJ & HONY LT	HIMMAT SINGH	01-01-2010
396	JC 508405H	SUB MAJ & HONY LT	POORAN SINGH	01-12-2009
397	JC 508345Y	SUB MAJ & HONY LT	RAMPAL RANA	01-09-2009
398	JC 226897W	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	01-09-2009
399	JC 508754M	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH	01-01-2010
400	JC 508722K	SUB & HONY LT	GAJRAJ SINGH	01-11-2009
401	JC 508174X	SUB & HONY LT	GURMUKH SINGH	01-11-2009
402	JC 509047P	SUB & HONY LT	GURNAM SINGH	01-12-2009
403	JC 509246H	SUB & HONY LT	INDERJIT SINGH	01-01-2010
404	JC 508858N	SUB & HONY LT	KEWAL SINGH	01-01-2010
405	JC 508873H	SUB & HONY LT	MEHAR SINGH	01-10-2009
406	JC 508582H	SUB & HONY LT	SATNAM SINGH	01-10-2009
407	JC 508621W	SUB & HONY LT	SURJEET SINGH BOGAL	01-09-2009
408	JC 509029M	SUB & HONY LT	TRILOCHAN SINGH	01-11-2009
409	JC 508982P	SUB & HONY LT	YADVINDER SINGH	01-10-2009

THE DOGRA REGIMENT

410	JC 518531H	SUB MAJ & HONY LT	BAINI CHAND	01-01-2010
411	JC 518543X	SUB MAJ & HONY LT	KAMLESH CHAND	01-01-2010
412	JC 519026M	SUB MAJ & HONY LT	ROMESH SINGH, SM	01-09-2009
413	JC 518901X	SUB MAJ & HONY LT	SUNDER SINGH THAKUR	01-10-2009
414	JC 519513M	SUB & HONY LT	BALDEV SINGH	01-11-2009

415	JC 519708X	SUB & HONY LT	JAGDISH CHAND	01-01-2010
416	JC 519835M	SUB & HONY LT	JAGDISH CHAND PATYAL	01-11-2009
417	JC 519693A	SUB & HONY LT	MAKHOLI RAM	01-10-2009
418	JC 519669K	SUB & HONY LT	MANOHAR SINGH	01-09-2009
419	JC 519989Y	SUB & HONY LT	PARSHOTAM LAL	01-11-2009
420	JC 519700L	SUB & HONY LT	RAM PAL	01-12-2009
421	JC 519688P	SUB & HONY LT	RAVINDER SINGH	01-12-2009
422	JC 519698Y	SUB & HONY LT	SHAVIL SINGH	01-11-2009
423	JC 519739X	SUB & HONY LT	SHER SINGH	01-11-2009

THE GARHWAL RIFLES

424	JC 528329H	SUB MAJ & HONY LT	DIGVIJAY JOSHI	01-12-2009
425	JC 528540X	SUB MAJ & HONY LT	MATBAR SINGH	01-01-2010
426	JC 528654H	SUB MAJ & HONY LT	NARENDRA BALLABH	01-11-2009
427	JC 528241Y	SUB MAJ & HONY LT	RAM SINGH	01-09-2009
428	JC 528681M	SUB MAJ & HONY LT	RAM SINGH	01-10-2009
429	JC 528984F	SUB MAJ & HONY LT	SURENDRA SINGH	01-01-2010
430	JC 529679F	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH	01-10-2009
431	JC 529706A	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH	01-01-2010
432	JC 529324W	SUB & HONY LT	BHARAT SINGH	01-10-2009
433	JC 529741H	SUB & HONY LT	BIRENDRA SINGH	01-09-2009
434	JC 529545H	SUB & HONY LT	BRIJ PAL SINGH	01-01-2010
435	JC 529211N	SUB & HONY LT	CHANDI PRASAD	01-10-2009
436	JC 529804A	SUB & HONY LT	GUMAN SINGH	01-09-2009

437	JC 529724H	SUB & HONY LT	JAYPAL SINGH	01-01-2010
438	JC 529421N	SUB & HONY LT	KUNDAN SINGH	01-11-2009
439	JC 529340W	SUB & HONY LT	MADHO SINGH	01-09-2009
440	JC 529422W	SUB & HONY LT	MAHAVIR SINGH	01-10-2009
441	JC 529167P	SUB & HONY LT	MAHENDRA SINGH	01-12-2009
442	JC 529023M	SUB & HONY LT	NARENDRA SINGH	01-01-2010
443	JC 529414X	SUB & HONY LT	PARTAP SINGH	01-10-2009
444	JC 529632W	SUB & HONY LT	PRAVENDRA SINGH	01-01-2010
445	JC 529480A	SUB & HONY LT	RAJENDER SINGH, SM	01-09-2009
446	JC 529755H	SUB & HONY LT	RAKESH CHANDER	01-01-2010
447	JC 529760N	SUB & HONY LT	RAM CHARAN PRASAD	01-09-2009
448	JC 529756L	SUB & HONY LT	SANGRAM SINGH	01-01-2010
449	JC 529453W	SUB & HONY LT	SHOORBIR SINGH	01-01-2010
450	JC 529223H	SUB & HONY LT	SURENDRA SINGH	01-01-2010
451	JC 529768A	SUB & HONY LT	TRILOK SINGH	01-01-2010

THE KUMAON REGIMENT

452	JC 538067L	SUB MAJ & HONY LT	GAJENDER SINGH	01-09-2009
453	JC 538062M	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDRA SINGH NAGARKOTI	01-09-2009
454	JC 539425X	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR SINGH	01-12-2009
455	JC 539352W	SUB & HONY LT	BALVIR SINGH	01-12-2009
456	JC 539493L	SUB & HONY LT	BASANT BALLABH JOSHI	01-01-2010
457	JC 539365N	SUB & HONY LT	HIMAT SINGH	01-12-2009
458	JC 538704W	SUB & HONY LT	HOSHIYAR SINGH	01-10-2009

459	JC 538884K	SUB & HONY LT	NARAYAN SINGH JAMJYAL	01-12-2009
460	JC 539373M	SUB & HONY LT	OM PRAKASH	01-01-2010
461	JC 539190W	SUB & HONY LT	PRATAP SINGH GARIYA	01-10-2009
462	JC 539150P	SUB & HONY LT	RAMESH SINGH	01-01-2010
463	JC 539268W	SUB & HONY LT	RAMOTAR	01-11-2009
464	JC 539411X	SUB & HONY LT	SHAMBHU YADAV	01-01-2010
465	JC 539275M	SUB & HONY LT	SHYAM DATT	01-12-2009
466	JC 539776M	SUB & HONY LT	SUBE SINGH	01-09-2009
467	JC 539811K	SUB & HONY LT	SURENDRA SINGH BISHT	01-09-2009
468	JC 539489H	SUB & HONY LT	YASWANT SINGH	01-11-2009

THE ASSAM REGIMENT

469	JC 548133W	SUB MAJ & HONY LT	HEM NARAYAN MALLICK	01-10-2009
470	JC 107849M	SUB MAJ & HONY LT	INDRADEO PANDEY	01-09-2009
471	JC 548140M	SUB MAJ & HONY LT	JATIN CHANDRA ROY	01-12-2009
472	JC 548879M	SUB & HONY LT	ARUP GOGOI	01-09-2009
473	JC 549067L	SUB & HONY LT	BABA SENA SINGHA	01-01-2010
474	JC 548742A	SUB & HONY LT	H JOY CHANDRA SINGHA	01-11-2009
475	JC 548900K	SUB & HONY LT	K SATKHOSEI KUKI	01-11-2009
476	JC 548699K	SUB & HONY LT	KALA SENA SINHA	01-10-2009
477	JC 548815F	SUB & HONY LT	NENGCHINHAO ZOU	01-01-2010
478	JC 549107F	SUB & HONY LT	PABITRA MEDIII	01-09-2009
479	JC 548618Y	SUB & HONY LT	SAMARENDRA SINHA	01-10-2009
480	JC 549160M	SUB & HONY LT	SHER BAHADUR CHHETRI	01-01-2010

THE BIHAR REGIMENT

481	JC 224274N	SUB MAJ & HONY LT	SRINIBAS MALLIK	01-09-2009
482	JC 559327Y	SUB & HONY LT	ARJUN KUMAR SINGH	01-12-2009
483	JC 559124P	SUB & HONY LT	DEVENDRA SINGH	01-12-2009
484	JC 559053Y	SUB & HONY LT	HARE RAM SINGH	01-01-2010
485	JC 558916H	SUB & HONY LT	ISWAR CHANDRA RAUTRAY	01-01-2010
486	JC 559087M	SUB & HONY LT	KAPILDEV PRASAD	01-01-2010
487	JC 559300F	SUB & HONY LT	KUSHESWAR SINGH	01-01-2010
488	JC 558924F	SUB & HONY LT	MAHESHWAR RAY	01-12-2009
489	JC 558950H	SUB & HONY LT	PABITRA KUMAR PANDA	01-01-2010
490	JC 558787N	SUB & HONY LT	RAM KUMAR SINGH	01-12-2009
491	JC 558986F	SUB & HONY LT	RAMESHWAR RAI	01-01-2010
492	JC 558914X	SUB & HONY LT	SATENDRA PRASAD SINGH	01-09-2009
493	JC 558781M	SUB & HONY LT	SUNIL KUMAR CHOUDHARY	01-12-2009
494	JC 559140M	SUB & HONY LT	UMA KANT PRASAD YADAV	01-09-2009
495	JC 559205P	SUB & HONY LT	VIDYARTHI YADAV	01-12-2009

THE MAHAR REGIMENT

496	JC 568202H	SUB MAJ & HONY LT	GURBACHAN SINGH	01-11-2009
497	JC 568276X	SUB MAJ & HONY LT	GYAN CHAND	01-10-2009
498	JC 109488X	SUB MAJ & HONY LT	JAGIR SINGH	01-10-2009
499	JC 568275P	SUB MAJ & HONY LT	KARAMBIR SINGH	01-09-2009
500	JC 568360X	SUB MAJ & HONY LT	RAMESH CHAND	01-10-2009
501	JC 568177P	SUB MAJ & HONY LT	SUDHIR RAMDAS AHIRE	01-10-2009

502	JC 569374K	SUB & HONY LT	GOVIND SINGH	01-11-2009
503	JC 569502W	SUB & HONY LT	HARI DATT BHAT	01-09-2009
504	JC 569503Y	SUB & HONY LT	PARAS NATH YADAV	01-01-2010
505	JC 568492L	SUB & HONY LT	PREM PAUL	01-10-2009
506	JC 569346X	SUB & HONY LT	RADHEY SHYAM	01-09-2009
507	JC 569009H	SUB & HONY LT	RATTAN CHAND	01-01-2010
508	JC 569600W	SUB & HONY LT	SUKHDEV SINGH	01-01-2010
509	JC 569458X	SUB & HONY LT	SURENDER KUMAR	01-01-2010
510	JC 569077W	SUB & HONY LT	TARA CHAND	01-12-2009
511	JC 569737H	SUB & HONY LT	VIJAY KUMAR SINGH	01-01-2010

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

512	JC 578700H	SUB MAJ & HONY LT	ABDUL QAYOOM	01-10-2009
513	JC 579044Y	SUB MAJ & HONY LT	JAGJIT SINGH	01-09-2009
514	JC 579090N	SUB MAJ & HONY LT	SUDARSHAN KUMAR SHARMA	01-09-2009
515	JC 579567X	SUB & HONY LT	ANIL KUMAR	01-12-2009
516	JC 579525L	SUB & HONY LT	ASHWANI KUMAR RANA	01-09-2009
517	JC 579713M	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH	01-12-2009
518	JC 579540A	SUB & HONY LT	DES RAJ JASWAL	01-12-2009
519	JC 579646M	SUB & HONY LT	DHARAM PAUL	01-01-2010
520	JC 579953K	SUB & HONY LT	GURBACHAN SINGH	01-11-2009
521	JC 579737W	SUB & HONY LT	JASVIR SINGH	01-01-2010
522	JC 578878Y	SUB & HONY LT	JHABINDRA GHIMIRA	01-01-2010
523	JC 579610N	SUB & HONY LT	KIKAR SINGH	01-11-2009

524	JC 579670H	SUB & HONY LT	MADAN LAL	01-12-2009
525	JC 579629W	SUB & HONY LT	OM PARKASH	01-01-2010
526	JC 579699L	SUB & HONY LT	PRITHI CHAND	01-12-2009
527	JC 579589W	SUB & HONY LT	RACHHPAL SINGH	01-09-2009
528	JC 579841K	SUB & HONY LT	RAJ PAUL	01-12-2009
529	JC 579316L	SUB & HONY LT	SATENDRA SINGH CHHETRI	01-09-2009
530	JC 579736N	SUB & HONY LT	SHIV KUMAR	01-12-2009
531	JC 579077K	SUB & HONY LT	SUNIL KUMAR	01-09-2009
532	JC 579199N	SUB & HONY LT	TEK BAHADUR	01-10-2009
533	JC 578967X	SUB & HONY LT	THAMAN BAHADUR KHATRI	01-01-2010
534	JC 579575W	SUB & HONY LT	TILAK RAJ	01-12-2009
535	JC 579526N	SUB & HONY LT	UTTAM SINGH	01-09-2009

THE LADAKH SCOUTS

536	JC 220838N	SUB MAJ & HONY LT	SONAM MURUP	01-11-2009
537	JC 588029L	SUB & HONY LT	RIGZIN DORJE	01-09-2009
538	JC 588168P	SUB & HONY LT	SONAM CHHERING	01-09-2009

THE NAGA REGIMENT

539	JC 590046K	SUB MAJ & HONY LT	RAM CHANDER SINGH	01-11-2009
540	JC 590167L	SUB & HONY LT	HOM BAHADUR THAPA	01-01-2010
541	JC 590154N	SUB & HONY LT	JAI PRAKASH TAMANAG	01-10-2009
542	JC 590165A	SUB & HONY LT	VIRENDRA SINGH THAPA	01-10-2009

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

543	JC 592374W	SUB MAJ & HONY LT	DILAWAR SINGH	01-12-2009
-----	------------	----------------------	---------------	------------

544	JC 592929M	SUB & HONY LT	ABDUL HAMID	01-12-2009
545	JC 592413K	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR	01-10-2009
546	JC 592540X	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR	01-01-2010
547	JC 592869H	SUB & HONY LT	BABU RAM	01-01-2010
548	JC 592572F	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	01-10-2009
549	JC 593061K	SUB & HONY LT	BHARAT BHUSHAN	01-09-2009
550	JC 592575P	SUB & HONY LT	BIKRAM SINGH	01-01-2010
551	JC 593037N	SUB & HONY LT	JAGDISH KUMAR	01-10-2009
552	JC 593119W	SUB & HONY LT	JASWANT SINGH	01-12-2009
553	JC 592714N	SUB & HONY LT	KALI DASS	01-10-2009
554	JC 592602N	SUB & HONY LT	KAMAL LAL	01-01-2010
555	JC 593008Y	SUB & HONY LT	KRISHAN LAL	01-10-2009
556	JC 592550F	SUB & HONY LT	MOHD GULZAR	01-09-2009
557	JC 592785F	SUB & HONY LT	MOHD NAZIR	01-09-2009
558	JC 592277Y	SUB & HONY LT	MUSHTAQ AHMED	01-09-2009
559	JC 592700N	SUB & HONY LT	RACHHPAL SINGH	01-01-2010
560	JC 592876Y	SUB & HONY LT	RAJ KUMAR	01-10-2009
561	JC 593136W	SUB & HONY LT	RAJ SINGH	01-09-2009
562	JC 592780W	SUB & HONY LT	RATTAN LAL	01-01-2010
563	JC 592819X	SUB & HONY LT	SHANKAR SINGH	01-09-2009
564	JC 593180A	SUB & HONY LT	SUBREN SINGH	01-09-2009
565	JC 592831Y	SUB & HONY LT	SURINDER KUMAR	01-01-2010

1 GORKHA RIFLES

566	JC 602078F	SUB MAJ & HONY LT	ANIL KUMAR KANWAR	01-01-2010
567	JC 602529W	SUB & HONY LT	DEVI RAM THAPA	01-01-2010
568	JC 602501W	SUB & HONY LT	FAUDA SINGH GURUNG	01-01-2010
569	JC 602468K	SUB & HONY LT	GANGA BAHADUR THAPA	01-10-2009
570	JC 602438M	SUB & HONY LT	LAL BAHADUR RANA	01-10-2009
571	JC 602530L	SUB & HONY LT	PURNA BAHADUR GURUNG	01-12-2009
572	JC 602540P	SUB & HONY LT	SAT BAHADUR GURUNG	01-10-2009
573	JC 602484F	SUB & HONY LT	TUL BAHADUR GURUNG	01-11-2009

3 GORKHA RIFLES

574	JC 607255A	SUB MAJ & HONY LT	MEG BAHADUR THAPA	01-12-2009
575	JC 607459M	SUB & HONY LT	BISNU BAHADUR THAPA	01-01-2010
576	JC 607465A	SUB & HONY LT	MOTI BAHADUR GURUNG	01-09-2009

4 GORKHA RIFLES

577	JC 612069N	SUB MAJ & HONY LT	RAJENDRA NATH GOLAY	01-10-2009
578	JC 612214A	SUB MAJ & HONY LT	SUBASH CHANDER	01-12-2009
579	JC 612512W	SUB & HONY LT	SURJA BAHADUR GURUNG	01-09-2009

5 GORKHA RIFLES

580	JC 617174N	SUB MAJ & HONY LT	BARTA MAN GURUNG	01-12-2009
581	JC 617611H	SUB & HONY LT	CHANDRA BAHADUR PUN	01-01-2010
582	JC 617652M	SUB & HONY LT	DHAN PRASAD GURUNG	01-01-2010
583	JC 617588L	SUB & HONY LT	MATI LAL THAPA	01-12-2009
584	JC 617593L	SUB & HONY LT	SURVEER SINGH GURUNG	01-12-2009

8 GORKHA RIFLES

585	JC 623034X	SUB MAJ & HONY LT	DEB BAHADUR GURUNG	01-12-2009
586	JC 623070H	SUB MAJ & HONY LT	KEDAR SINGH GURUNG	01-12-2009
587	JC 623575Y	SUB & HONY LT	BHAKTA BAHADUR THAPA	01-11-2009
588	JC 623533M	SUB & HONY LT	BHIM BAHADUR CHHETRI	01-01-2010
589	JC 623535X	SUB & HONY LT	BHIM BAHADUR THAPA	01-10-2009
590	JC 623659M	SUB & HONY LT	DAL BAHADUR THAPA	01-09-2009
591	JC 623440X	SUB & HONY LT	DURGA BAHADUR THAPA	01-12-2009
592	JC 623486A	SUB & HONY LT	KARAN THAPA	01-09-2009
593	JC 623481F	SUB & HONY LT	ROVIN RANA, SM	01-01-2010

9 GORKHA RIFLES

594	JC 629321X	SUB & HONY LT	BIMAL KUMAR	01-12-2009
595	JC 629494P	SUB & HONY LT	DIPAK CHHETRI	01-12-2009

11 GORKHA RIFLES

596	JC 634033P	SUB MAJ & HONY LT	CHANDRA BAHADUR SUBBA	01-11-2009
597	JC 634064P	SUB MAJ & HONY LT	RAM KUMAR LIMBU	01-01-2010
598	JC 634424A	SUB & HONY LT	KHURPA RAJ LIMBU	01-12-2009
599	JC 634406X	SUB & HONY LT	MAN BAHADUR TAMANG	01-01-2010
600	JC 634451K	SUB & HONY LT	SUK BIR TAMANG	01-01-2010

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

601	JC 640923L	SUB MAJ & HONY LT	ATMA RAM MISHRA	01-11-2009
602	JC 662167K	SUB MAJ & HONY LT	BALA GOPALAN V	01-12-2009
603	JC 215553X	SUB MAJ & HONY LT	KARAM CHAND SHARMA	01-09-2009

604	JC 104329W	SUB MAJ & HONY LT	MAULVI MD OZEIR ASDAQUE	01-11-2009
605	JC 640671K	SUB MAJ & HONY LT	MURUGESAN C	01-09-2009
606	JC 640664N	SUB MAJ & HONY LT	NARESH CHANDER UPADHYAY	01-09-2009
607	JC 661167X	SUB MAJ & HONY LT	OM PRAKASH JOSHI	01-01-2010
608	JC 640935A	SUB MAJ & HONY LT	S SURESH KUMAR	01-12-2009
609	JC 217847K	SUB MAJ & HONY LT	VAYAS MISHRA	01-12-2009
610	JC 661737H	SUB MAJ & HONY LT	WANVE PANDURANG VITHAL	01-09-2009
611	JC 641972A	SUB & HONY LT	BANSHI DHAR	01-10-2009
612	JC 662659H	SUB & HONY LT	BINDESHWAR PRASAD	01-12-2009
613	JC 662746W	SUB & HONY LT	BIRENDER SINGH	01-01-2010
614	JC 641112M	SUB & HONY LT	CHAUHAN HEMAT SANG KHIMAJI	01-11-2009
615	JC 662690P	SUB & HONY LT	DHARM CHAND	01-12-2009
616	JC 662651W	SUB & HONY LT	HARI KANT DWIVEDI	01-10-2009
617	JC 663037N	SUB & HONY LT	HARINDER KUMAR	01-01-2010
618	JC 641853K	SUB & HONY LT	JAGJIT SINGH	01-09-2009
619	JC 641856X	SUB & HONY LT	KANHAYA RAM	01-09-2009
620	JC 642254W	SUB & HONY LT	KARAM CHAND	01-12-2009
621	JC 642835N	SUB & HONY LT	MAM CHAND SINGH	01-09-2009
622	JC 662647N	SUB & HONY LT	MASTER LAL	01-09-2009
623	JC 642694K	SUB & HONY LT	MOHANAN PILLAI V N	01-12-2009
624	JC 662692A	SUB & HONY LT	NIPEN KALITA	01-12-2009
625	JC 642412A	SUB & HONY LT	OM PAL	01-01-2010
626	JC 641470X	SUB & HONY LT	PARAMJIT SINGH	01-11-2009

627	JC 641858H	SUB & HONY LT	PREM PAL SINGH	01-09-2009
628	JC 642226K	SUB & HONY LT	RAJBIR SINGH	01-01-2010
629	JC 662710X	SUB & HONY LT	RAM CHANDER	01-09-2009
630	JC 662899A	SUB & HONY LT	RAMCHANDER SINGH CHOUHAN	01-12-2009
631	JC 641424H	SUB & HONY LT	RAMESH PANDEY	01-10-2009
632	JC 642826M	SUB & HONY LT	RATAN SINGH	01-01-2010
633	JC 662817M	SUB & HONY LT	RAVINDER KUMAR	01-11-2009
634	JC 642137L	SUB & HONY LT	RISHI PRAKASH DAHIYA	01-12-2009
635	JC 642834L	SUB & HONY LT	SANTI SWARUP PANDEY	01-10-2009
636	JC 642527N	SUB & HONY LT	SANTOSH KUMAR	01-01-2010
637	JC 663237K	SUB & HONY LT	SHESADEV MAJHI	01-11-2009
638	JC 642483F	SUB & HONY LT	SHRIPAL	01-10-2009
639	JC 642404F	SUB & HONY LT	SOHAN LAL	01-12-2009
640	JC 662684F	SUB & HONY LT	TEK CHAND SHARMA	01-01-2010
641	JC 641852F	SUB & HONY LT	UDAYA KUMARAN P	01-09-2009

ARMY SERVICE CORPS(ANIMAL TRANSPORT)

642	JC 680165F	RIS MAJ & HONY LT	DURGA RAM KHATI	01-09-2009
643	JC 680222X	RIS MAJ & HONY LT	RAJ KUMAR JOSHI	01-12-2009
644	JC 680766M	RIS & HONY LT	CHAMI T K	01-09-2009
645	JC 680746Y	RIS & HONY LT	RAJVIR SINGH	01-11-2009
646	JC 680736P	RIS & HONY LT	SATYA NARAYAN SHARMA	01-10-2009

ARMY MEDICAL CORPS

647	JC 692390H	SUB MAJ & HONY LT	ANANDA RAMA WANKHEDE	01-12-2009
-----	------------	----------------------	----------------------	------------

648	JC 691140P	SUB MAJ & HONY LT	BABAN RAI	01-12-2009
649	JC 692701L	SUB MAJ & HONY LT	BHANWAR LAL	01-10-2009
650	JC 692403P	SUB MAJ & HONY LT	BHIMASEN NAYAK	01-01-2010
651	JC 692387H	SUB MAJ & HONY LT	JAI NARAIN SINGH	01-12-2009
652	JC 693604A	SUB MAJ & HONY LT	JIWAN SINGH	01-01-2010
653	JC 690544L	SUB MAJ & HONY LT	K BASKAR	01-10-2009
654	JC 692391L	SUB MAJ & HONY LT	KRISHNA KUMAR RAWAT	01-12-2009
655	JC 690346A	SUB MAJ & HONY LT	MAHENDER SINGH	01-10-2009
656	JC 692383M	SUB MAJ & HONY LT	PITHA RAM	01-10-2009
657	JC 692374L	SUB MAJ & HONY LT	R SALVENDRAN	01-09-2009
658	JC 692384P	SUB MAJ & HONY LT	RAMESHWAR OJHA	01-11-2009
659	JC 692238P	SUB MAJ & HONY LT	SAKTI PADA GOSWAMI	01-01-2010
660	JC 692874H	SUB MAJ & HONY LT	TRILOKINATH GOSWAMI	01-01-2010
661	JC 691540F	SUB MAJ & HONY LT	VIJAY SHANKAR SHARMA	01-11-2009
662	JC 694581W	SUB & HONY LT	BIKRAM SINGH KALAKOTTI	01-01-2010
663	JC 694156L	SUB & HONY LT	KUNDAN LAL VERMA	01-10-2009
664	JC 691925Y	SUB & HONY LT	P DURAISAMI	01-09-2009
665	JC 695112A	SUB & HONY LT	PRASAD K	01-10-2009
666	JC 693007L	SUB & HONY LT	SANTI NATH DEY	01-11-2009

ARMY ORDNANCE CORPS

667	JC 723093Y	SUB MAJ & HONY LT	BADRI NARAYAN HAZRA	01-10-2009
668	JC 723308M	SUB MAJ & HONY LT	HARENDRA SINGH	01-12-2009
669	JC 722712P	SUB MAJ & HONY LT	JAGDISH CHANDER KHAJURIA	01-09-2009

670	JC 722768F	SUB MAJ & HONY LT	MOHANAN K	01-09-2009
671	JC 723028Y	SUB MAJ & HONY LT	N S VADIVEL	01-10-2009
672	JC 723189F	SUB MAJ & HONY LT	PRABHAT KUMAR	01-01-2010
673	JC 722771F	SUB MAJ & HONY LT	RAM MILAN	01-01-2010
674	JC 723072H	SUB MAJ & HONY LT	TULSI RAM	01-09-2009
675	JC 724659N	SUB & HONY LT	DEEP RAJ BHAN	01-12-2009
676	JC 723648P	SUB & HONY LT	K PRAKASH	01-09-2009
677	JC 724818A	SUB & HONY LT	KAILASH NATH SINGH	01-01-2010
678	JC 724916A	SUB & HONY LT	LAXMI KANT SHUKLA	01-11-2009
679	JC 723910M	SUB & HONY LT	MUNI RAM	01-10-2009
680	JC 725085Y	SUB & HONY LT	OPENDRA NARAYAN PANDEY	01-12-2009
681	JC 723973P	SUB & HONY LT	RAJENDRA KUMAR CHATURVEDI	01-01-2010
682	JC 724390Y	SUB & HONY LT	RAMAYAN PRASAD VERMA	01-12-2009
683	JC 725547A	SUB & HONY LT	S K ASGAR ALI	01-12-2009
684	JC 724743N	SUB & HONY LT	SHATRUGHAN MISHRA	01-12-2009
685	JC 724579W	SUB & HONY LT	SHYAM LAL YADAV	01-09-2009
686	JC 724666K	SUB & HONY LT	SRIRAM TIWARI	01-01-2010
687	JC 723911P	SUB & HONY LT	SURENDRA SINGH CHAUHAN	01-12-2009
688	JC 724813F	SUB & HONY LT	TEK CHAND SHARMA	01-01-2010

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

689	JC 750821X	SUB MAJ & HONY LT	BHADRESWAR CHOUDHURY	01-11-2009
690	JC 750819A	SUB MAJ & HONY LT	DHARUMVIR	01-11-2009
691	JC 748074Y	SUB MAJ & HONY LT	DYAL SINGH	01-01-2010

692	JC 752976L	SUB MAJ & HONY LT	GAJENDRAPAL SINGH	01-10-2009
693	JC 752977N	SUB MAJ & HONY LT	GAURAV SINGH	01-09-2009
694	JC 748564M	SUB MAJ & HONY LT	GIRJA SHANKAR	01-10-2009
695	JC 748825P	SUB MAJ & HONY LT	ISWAR CHANDRA SAMANTRAY	01-01-2010
696	JC 750061A	SUB MAJ & HONY LT	JAI PRAKASH YADAV	01-01-2010
697	JC 748730P	SUB MAJ & HONY LT	KALANDI CHANDRA SAMAL	01-10-2009
698	JC 748742K	SUB MAJ & HONY LT	KALYAN DATTA	01-12-2009
699	JC 123862A	SUB MAJ & HONY LT	KAMALA PRASAD PANDEY	01-11-2009
700	JC 748264L	SUB MAJ & HONY LT	KARNAIL SINGH	01-10-2009
701	JC 751185F	SUB MAJ & HONY LT	PRAFULLA KUMAR PALLAI	01-09-2009
702	JC 748197L	SUB MAJ & HONY LT	PRANABANDHU NAYAK	01-12-2009
703	JC 748249W	SUB MAJ & HONY LT	RACHHPAL SINGH MANHAS	01-10-2009
704	JC 753721X	SUB MAJ & HONY LT	RADHEY SHYAM DIXIT	01-01-2010
705	JC 751159A	SUB MAJ & HONY LT	RAGHUVIR SINGH	01-11-2009
706	JC 748179H	SUB MAJ & HONY LT	RAM PYARE PRASAD	01-09-2009
707	JC 751153Y	SUB MAJ & HONY LT	RANDHIR SINGH DHANKER	01-09-2009
708	JC 747097M	SUB MAJ & HONY LT	RATTAN CHAND SHARMA	01-11-2009
709	JC 748822F	SUB MAJ & HONY LT	SILWESTER SORENG	01-01-2010
710	JC 751068W	SUB MAJ & HONY LT	SURENDRA SINGH	01-01-2010
711	JC 755649L	SUB & HONY LT	ASHOK KUMAR SAMAL	01-11-2009
712	JC 753109N	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	01-11-2009
713	JC 758643P	SUB & HONY LT	BASKU NATH PANDEY	01-01-2010
714	JC 752648X	SUB & HONY LT	BIPUL CH BORAH	01-09-2009

715	JC 753307Y	SUB & HONY LT	BRIJ BIHARI	01-11-2009
716	JC 754624M	SUB & HONY LT	DENNIS KURIAN	01-10-2009
717	JC 757942F	SUB & HONY LT	DEWANAND THAKUR	01-10-2009
718	JC 750803P	SUB & HONY LT	DHRUAV SINGH	01-10-2009
719	JC 754299X	SUB & HONY LT	DHRUVA NARAYAN DWIVEDI	01-09-2009
720	JC 751561K	SUB & HONY LT	DINESH CHANDER	01-11-2009
721	JC 755468A	SUB & HONY LT	DINESH CHANDER	01-10-2009
722	JC 755151L	SUB & HONY LT	DWARIKA NATH-RAI	01-01-2010
723	JC 750623M	SUB & HONY LT	GANGADHAR SAHOO	01-10-2009
724	JC 752889X	SUB & HONY LT	GOPAL DUTT	01-09-2009
725	JC 753210N	SUB & HONY LT	HARIDASAN P	01-09-2009
726	JC 756850H	SUB & HONY LT	KABIRAJA JENA	01-10-2009
727	JC 753822L	SUB & HONY LT	KONA BABU RAO	01-11-2009
728	JC 751763L	SUB & HONY LT	LAL CHAND	01-01-2010
729	JC 753303H	SUB & HONY LT	LALIT MOHAN SINGH	01-09-2009
730	JC 751378F	SUB & HONY LT	MAHAVIR PRASAD NAI	01-10-2009
731	JC 750908Y	SUB & HONY LT	MALLESWARA RAO CHILAMKURTY	01-12-2009
732	JC 753022M	SUB & HONY LT	MANIK CHANDRA KARMAKAR	01-12-2009
733	JC 750411F	SUB & HONY LT	MATHEW KUTTY JACOB	01-10-2009
734	JC 758639M	SUB & HONY LT	NARESWAR BARMAN	01-10-2009
735	JC 755969A	SUB & HONY LT	NITAI CHANDRA SARKAR	01-09-2009
736	JC 758230L	SUB & HONY LT	PARSOTAM SINGH	01-11-2009
737	JC 752681P	SUB & HONY LT	PURNA CHANDRA BRAHMA	01-11-2009

738	JC 756539H	SUB & HONY LT	RAJ NARAYAN GIRI	01-10-2009
739	JC 750417H	SUB & HONY LT	RAJENDER SINGH	01-10-2009
740	JC 170667N	SUB & HONY LT	RAJESHWAR MISHRA	01-09-2009
741	JC 753471F	SUB & HONY LT	RAM NARAYAN SHARMA	01-01-2010
742	JC 759241K	SUB & HONY LT	RAM NARESH YADAV	01-09-2009
743	JC 755418P	SUB & HONY LT	SEBASTIAN THOMAS	01-09-2009
744	JC 759250L	SUB & HONY LT	SHREE CHAND SINGH	01-10-2009
745	JC 758633L	SUB & HONY LT	SHYAM LAL	01-10-2009
746	JC 752660Y	SUB & HONY LT	SURENDRAN PILLAI VR	01-10-2009
747	JC 756313X	SUB & HONY LT	SURJIT SINGH	01-11-2009
748	JC 758294W	SUB & HONY LT	SUSHIL KUMAR SHUKLA	01-01-2010
749	JC 752661F	SUB & HONY LT	YOGENDRA PRATAP SINGH	01-10-2009

ARMY EDUCATION CORPS

750	JC 217156X	SUB MAJ & HONY LT	KALYAN SINGH	01-09-2009
751	JC 216189W	SUB MAJ & HONY LT	LAXMI NARAYAN	01-01-2010
752	JC 217174A	SUB MAJ & HONY LT	SURENDER PAL	01-01-2010
753	JC 802447X	SUB & HONY LT	BHUP SINGH	01-09-2009
754	JC 802751F	SUB & HONY LT	RAJ PAL SINGH	01-11-2009
755	JC 802750Y	SUB & HONY LT	RAMANAND YADAV	01-10-2009
756	JC 802460F	SUB & HONY LT	SATISH CHANDRA	01-10-2009
757	JC 802465A	SUB & HONY LT	SHASTI PRASAD PANDE	01-12-2009
758	JC 802462M	SUB & HONY LT	SHYAM NARAYAN DUBEY	01.11.2009

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

759	JC 797090A	RIS MAJ & HONY LT	KAILASH PRASAD SINGH	01-01-2010
760	JC 797184X	RIS & HONY LT	ALAKH NIRANJAN SHARMA	01-01-2010
761	JC 797352L	RIS & HONY LT	CHANDRA BHUSHAN CHOUBEY	01-12-2009
762	JC 797257Y	RIS & HONY LT	LAL MAN	01-12-2009
763	JC 797345P	RIS & HONY LT	SHRI RAM	01-11-2009

THE INTELLIGENCE CORPS

764	JC 810385X	SUB MAJ & HONY LT	RATHEESH KUMAR S	01-01-2010
765	JC 218734N	SUB MAJ & HONY LT	TARSEM SINGH	01-01-2010
766	JC 810265Y	SUB & HONY LT	CHARANJIT SINGH SEKHON	01-01-2010
767	JC 810548A	SUB & HONY LT	DILWAR SINGH	01-01-2010
768	JC 810621N	SUB & HONY LT	DINA NATH	01-01-2010
769	JC 810209A	SUB & HONY LT	GIAN SINGH	01-09-2009
770	JC 810252F	SUB & HONY LT	JAI KISHAN RANA	01-01-2010
771	JC 810506N	SUB & HONY LT	KIRPAL SINGH NAGAR	01-10-2009
772	JC 810169K	SUB & HONY LT	KULDIP SINGH	01-10-2009
773	JC 810090F	SUB & HONY LT	MUSAFIR YADAV	01-09-2009
774	JC 810372A	SUB & HONY LT	PREM SINGH	01-01-2010
775	JC 810551A	SUB & HONY LT	SHYAM LAL	01-01-2010
776	JC 810235F	SUB & HONY LT	SURESH CHANDRA DESHWAL	01-09-2009

CORPS OF MILITARY POLICE

777	JC 818319K	SUB MAJ & HONY LT	HARI OM SINGH	01-11-2009
778	JC 108323M	SUB MAJ & HONY LT	PREM CHAND SHARMA	01-09-2009

779	JC 818737Y	SUB & HONY LT	BADRI PRASAD	01-09-2009
780	JC 818830A	SUB & HONY LT	RAJ KUMAR	01-01-2010
781	JC 818771Y	SUB & HONY LT	RAMA SHANKAR SHARMA	01-12-2009

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

782	JC 826133P	SUB & HONY LT	KADAM SURESH SANDIPAN	01-12-2009
-----	------------	------------------	-----------------------	------------

THE PIONEER CORPS

783	JC 829286K	SUB & HONY LT	MD BABU MIA CHOWDHURY	01-12-2009
784	JC 829285F	SUB & HONY LT	SAWALIA PRASAD	01-12-2009

DEFENCE SECURITY CORPS

785	JC 840428W	SUB MAJ & HONY LT	YADHUNATH SINGH	01-09-2009
786	JC 840610W	SUB & HONY LT	GIAN CHAND	01-11-2009
787	JC 841111N	SUB & HONY LT	KALWANT SINGH	01-12-2009

TERRITORIAL ARMY

788	TJ 3781K	SUB MAJ & HONY LT	JAGDEV SINGH	01-01-2010
789	TJ 3985W	SUB & HONY LT	BADAN SINGH	01-10-2009
790	TJ 3060W	SUB & HONY LT	BALBIR SINGH	01-04-2009
791	TJ 3731Y	SUB & HONY LT	BALWAN SINGH	01-08-2009
792	TJ 3851X	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH	01-01-2010
793	TJ 4275L	SUB & HONY LT	BALWANT SINGH	01-02-2009
794	TJ 2653A	SUB & HONY LT	CH NARSI REDDY	01-04-2009
795	TJ 5128P	SUB & HONY LT	DAULAT KAUSHAL	01-10-2009
796	TJ 4036W	SUB & HONY LT	JITENDRA KUMAR	01-06-2009
797	TJ 4116N	SUB & HONY LT	KAKADE JALINDER MARUTI	01-11-2009

798	TJ 4013P	SUB & HONY LT	KAMAL SINGH	01-10-2009
799	TJ 3984N	SUB & HONY LT	KRISHAN AUTAR	01-10-2009
800	TJ 3465L	SUB & HONY LT	KRISHAN DATT	01-11-2009
801	TJ 3771A	SUB & HONY LT	LEHAR SINGH	01-08-2009
802	TJ 4142P	SUB & HONY LT	NAGENDRA PRASAD PANDEY	01-12-2009
803	TJ 4186M	SUB & HONY LT	P JAYARAJ	01-04-2009
804	TJ 4188X	SUB & HONY LT	P KARUPPANAN	01-06-2009
805	TJ 3842W	SUB & HONY LT	RAVINDER SINGH	01-01-2010
806	TJ 5219X	SUB & HONY LT	RAM NATH SINGH TOMAR	01-07-2009

EX-POST-FACTO
GRANT OF HONORARY CAPTAIN
WITH EFFECT FROM 26 JAN 1999
(ON RETIREMENT)

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEE

1.	JC 144408N	EX-SUB MAJ & HONY LT	GURJIT SINGH BAJWA	01-01-1999
----	------------	-------------------------	--------------------	------------

TO BE HONORARY LIEUTENANTS**CENTRAL INDIA HORSE**

1 JC 237900L RIS MAJ ROHITASH SINGH MALIK 01-09-2009
66 ARMOURED REGIMENT

2 JC 237349Y RIS MAJ MAHESH CHANDRA 01-09-2009
3 JC 238603K RIS MAJ SANATH KUMAR K 01-12-2009
76 ARMOURED REGIMENT

4 JC 236930W RIS MAJ KANWAR PAL SINGH GURGAR 01-11-2009
88 ARMOURED REGIMENT

5 JC 237905K RIS MAJ BIRWAL SINGH 01-12-2009
46 ARMOURED REGIMENT

6 JC 237750A RIS MAJ PARSHOTAM LAL 01-12-2009
15 ARMOURED REGIMENT

7 JC 237070A RIS MAJ MD MOZAFFAR RAHAMAN 01-11-2009
19 ARMOURED REGIMENT

8 JC 236986H RIS MAJ RAJENDER PAL 01-01-2010
REGIMENT OF ARTILLERY

9 JC 259508L SUB MAJ ASHOK KUMAR SINGH 01-01-2010
10 JC 259096P SUB MAJ B CHENNAKESAVULU 01-12-2009
11 JC 256616K SUB MAJ BABURAJ KURUVAI KANDY 01-01-2010
EARANKANDY
12 JC 258066L SUB MAJ BALAKRISHNAN K 01-12-2009
13 JC 257252P SUB MAJ BALJIT SINGH 01-09-2009
14 JC 255615P SUB MAJ DHARAMENDER SINGH 01-09-2009
15 JC 258485H SUB MAJ GANESH RAM JAT 01-09-2009
16 JC 258683N SUB MAJ GOPI CHAND JANGIR 01-09-2009
17 JC 258706K SUB MAJ MOHAR PAL 01-12-2009
18 JC 258587Y SUB MAJ MUKHTAR SINGH 01-09-2009
19 JC 257153M SUB MAJ MUNNI SINGH 01-12-2009
20 JC 256678K SUB MAJ PARDEEP KUMAR RAJPUT 01-12-2009
21 JC 255708K SUB MAJ PARSHOTAM CHAND DETWALA 01-12-2009
22 JC 256199H SUB MAJ PRADEEP KUMAR BOSE 01-10-2009
23 JC 255373X SUB MAJ RAJINDER SINGH 01-11-2009
24 JC 257851P SUB MAJ RANBIR SINGH YADAV 01-12-2009
25 JC 255512W SUB MAJ S PONNU DURAI 01-09-2009

ARMY AIR DEFENCE

26 JC 225737K SUB MAJ AJIT KUMAR 01-09-2009

27	JC 296862X	SUB MAJ	B THANGARAJ	01-01-2010
28	JC 221190P	SUB MAJ	BHASKARAN A V	01-09-2009
29	JC 296874M	SUB MAJ	C KUMARESAM	01-09-2009

MADRAS ENGINEER GROUP

30	JC 305612A	SUB MAJ	HARIKRISHNA PILLAI R	01-09-2009
31	JC 305752M	SUB MAJ	K CHANDRASEKARAN	01-10-2009
32	JC 305741A	SUB MAJ	M ANANDAN	01-12-2009
33	JC 305754X	SUB MAJ	RAJAN TA	01-11-2009
34	JC 305999N	SUB MAJ	S VADIVEL	01-12-2009
35	JC 305881M	SUB MAJ	SHAJI GEORGE	01-12-2009
36	JC 306061M	SUB MAJ	SIVA RAMAN KUTTY AV	01-01-2010
37	JC 306145A	SUB MAJ	STEPHEN KT	01-01-2010

BENGAL ENGINEER GROUP

38	JC 326420W	SUB MAJ	ANIL SINGH	01-09-2009
39	JC 326417W	SUB MAJ	ASHOK KUMAR SAHA	01-10-2009
40	JC 327201F	SUB MAJ	BHUPAL SINGH	01-01-2010
41	JC 325299F	SUB MAJ	BROJADHAN SHARMA	01-10-2009
42	JC 325301N	SUB MAJ	DALER SINGH	01-01-2010
43	JC 325306M	SUB MAJ	DHARAMBIR SINGH	01-01-2010
44	JC 327331K	SUB MAJ	HARISH SINGH	01-11-2009
45	JC 326316H	SUB MAJ	JAGDISH CHANDRA JOSHI	01-01-2010
46	JC 174753W	SUB MAJ	KHUSHALI RAM DANGI	01-09-2009
47	JC 325495F	SUB MAJ	KULBIR SINGH KANWAR	01-09-2009
48	JC 326441M	SUB MAJ	M MEHANATHAN	01-12-2009
49	JC 327193N	SUB MAJ	MOHINDER SINGH	01-11-2009
50	JC 326515W	SUB MAJ	NANDI REDDY SURYAM NARAYANA REDDY	01-09-2009
51	JC 327338N	SUB MAJ	NARAYANAN C	01-11-2009
52	JC 327049Y	SUB MAJ	P SURENDRAN	01-01-2010
53	JC 326446L	SUB MAJ	PONNACHAN O	01-12-2009
54	JC 327047N	SUB MAJ	SANTOSH KUMAR T	01-01-2010
55	JC 326536M	SUB MAJ	SAT PAL SINGH	01-09-2009
56	JC 326419F	SUB MAJ	SATISH KUMAR	01-09-2009
57	JC 326518K	SUB MAJ	SATYA NARAYAN SINGH	01-09-2009
58	JC 325294H	SUB MAJ	SUKHBIR SINGH	01-09-2009
59	JC 327342W	SUB MAJ	SUKHDEV SINGH	01-12-2009
60	JC 325295L	SUB MAJ	VAKEEL SINGH TOMAR	01-09-2009

BOMBAY ENGINEER GROUP

61	JC 347238K	SUB MAJ	AJUDIA NARAD VITHAL	01-09-2009
62	JC 347298Y	SUB MAJ	AMI CHAND	01-09-2009
63	JC 347240F	SUB MAJ	BIRPAL SINGH	01-10-2009
64	JC 347541L	SUB MAJ	HARNAM SINGH	01-12-2009
65	JC 347246L	SUB MAJ	JAGDISH SINGH	01-01-2010
66	JC 347226P	SUB MAJ	KALYAN SINGH	01-11-2009

67	JC 347212P	SUB MAJ	KARAMBIR SINGH	01-11-2009
68	JC 347413N	SUB MAJ	KARAMJIT SINGH	01-10-2009
69	JC 347272K	SUB MAJ	MAHAVIR SINGH PARIHAR	01-01-2010
70	JC 347249W	SUB MAJ	RAMPHAL SINGH	01-12-2009
71	JC 468888A	SUB MAJ	ROOP SINGH	01-11-2009
72	JC 347198N	SUB MAJ	SATYA NARAIN DALOHAR	01-11-2009
73	JC 347591W	SUB MAJ	SHYAM LAL	01-10-2009
74	JC 347171W	SUB MAJ	SOMAN PILLAI G	01-11-2009
75	JC 347177X	SUB MAJ	SURENDRA KRISHNA RAO YERMULKAR	01-09-2009
76	JC 347169Y	SUB MAJ	VINOD KUMAR SHARMA	01-12-2009

CORPS OF SIGNALS

77	JC 370461A	SUB MAJ	B CHAKRABORTY	01-01-2010
78	JC 220659N	SUB MAJ	BALDEV SINGH	01-10-2009
79	JC 370413A	SUB MAJ	BALWAN SINGH	01-09-2009
80	JC 367885L	SUB MAJ	DEV RAJ	01-01-2010
81	JC 370463L	SUB MAJ	DURGESH PRASAD SINGH	01-01-2010
82	JC 368314Y	SUB MAJ	GHANI SHYAM SHARMA	01-10-2009
83	JC 221453H	SUB MAJ	GOPI CHAND	01-12-2009
84	JC 367242N	SUB MAJ	JAGAT SINGH BUNGLA	01-10-2009
85	JC 220657H	SUB MAJ	JOSEPH MATHEW	01-09-2009
86	JC 370464N	SUB MAJ	JUNUL MUNDU	01-12-2009
87	JC 370412X	SUB MAJ	K P MISHRA	01-09-2009
88	JC 367083F	SUB MAJ	KARAN SINGH NEGI	01-01-2010
89	JC 370451W	SUB MAJ	KASAM ALI	01-12-2009
90	JC 370398W	SUB MAJ	MAI RAM AHLAWAT	01-09-2009
91	JC 370381H	SUB MAJ	MIR CHAND	01-09-2009
92	JC 367087X	SUB MAJ	N PRABHAKAR	01-09-2009
93	JC 368315F	SUB MAJ	N S C SATAPATHY	01-10-2009
94	JC 370432L	SUB MAJ	NIRANJAN HALDER	01-11-2009
95	JC 370417W	SUB MAJ	NISHOK KUMAR CHATURVADI	01-10-2009
96	JC 370434W	SUB MAJ	RAJENDRA SINGH	01-10-2009
97	JC 220661L	SUB MAJ	RAM BILAS	01-11-2009
98	JC 367086P	SUB MAJ	S BHARATLAL DADU	01-09-2009
99	JC 367887W	SUB MAJ	S C KOSHILA	01-01-2010
100	JC 370435Y	SUB MAJ	SABU K K	01-11-2009
101	JC 370460X	SUB MAJ	SACHENDRA KUMAR	01-12-2009
102	JC 370453F	SUB MAJ	SALIK SINGH	01-12-2009
103	JC 368173P	SUB MAJ	SASANKA SEKHAR DAS	01-09-2009
104	JC 223788Y	SUB MAJ	SITARE HIND	01-10-2009
105	JC 368150N	SUB MAJ	SUJIT BISWAS	01-01-2010
106	JC 369440X	SUB MAJ	V K THAKUR	01-09-2009
107	JC 369980W	SUB MAJ	WAZIR SINGH LATHWAL	01-01-2010

THE BRIGADE OF GUARDS

108	JC 220678Y	SUB MAJ	JAWAHAR SINGH	01-09-2009
109	JC 222603A	SUB MAJ	SATYA NARAIN	01-10-2009

110	JC 402413W	SUB MAJ	SHIV KUMAR	01-10-2009
<u>THE PARACHUTE REGIMENT</u>				
111	JC 412088P	SUB MAJ	KHIM SINGH	01-01-2010
112	JC 412206X	SUB MAJ	SHER BHADUR SINGH	01-11-2009
<u>THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT</u>				
113	JC 418335N	SUB MAJ	GHATAGE NARAYAN BHIMA RAO	01-09-2009
114	JC 418382L	SUB MAJ	VEER SINGH GULEIRA	01-12-2009
<u>THE PUNJAB REGIMENT</u>				
115	JC 428522A	SUB MAJ	SURINDER KUMAR	31-10-2009
<u>THE GRENADIERS</u>				
116	JC 448624X	SUB MAJ	OM RAJ	01-01-2010
117	JC 448317A	SUB MAJ	PADAM DEV	01-09-2009
118	JC 448913M	SUB MAJ	SHRI RAM SINGH	01-09-2009
<u>THE MARATHA LIGHT INFANTRY</u>				
119	JC 212864A	SUB MAJ	VIJAY APPASO SURYAVANSHI	01-01-2010
<u>THE RAJPUT REGIMENT</u>				
120	JC 478400M	SUB MAJ	ASGAR HUSSAIN	01-11-2009
121	JC 478273H	SUB MAJ	SHIV SINGH	01-09-2009
<u>THE JAT REGIMENT</u>				
122	JC 488152P	SUB MAJ	KARAN SINGH	01-09-2009
<u>THE DOGRA REGIMENT</u>				
123	JC 518605M	SUB MAJ	BISHAMBER DASS	01-11-2009
<u>THE GARHWAL RIFLES</u>				
124	JC 528390M	SUB MAJ	RAMESH CHANDRA	01-10-2009
125	JC 528352W	SUB MAJ	VIJAY SINGH RAWAT	01-10-2009
<u>8 GORKHA RIFLES</u>				
126	JC 623125F	SUB MAJ	INDRA SING THAPA	01-11-2009
<u>11 GORKHA RIFLES</u>				
127	JC 218097H	SUB MAJ	KIRAN LAMA	01-11-2009
<u>ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)</u>				
128	JC 119948F	SUB MAJ	AMRIK SINGH LABANA	01-11-2009
129	JC 640669M	SUB MAJ	BALU A	01-09-2009
130	JC 217839L	SUB MAJ	HARBHAJAN SINGH	01-11-2009
131	JC 217835P	SUB MAJ	JAGILI PALO	01-12-2009
132	JC 217849P	SUB MAJ	JOHNSON P I	01-12-2009

133	JC 640771P	SUB MAJ	KAILASH SHARMA	01-12-2009
134	JC 217854A	SUB MAJ	LAKSHMANAN K	01-12-2009
135	JC 215570X	SUB MAJ	RAJAN SINGH	01-12-2009
136	JC 217848M	SUB MAJ	RAM BIR SINGH	01-12-2009
137	JC 215568A	SUB MAJ	S MAYANDI	01-11-2009
138	JC 661165M	SUB MAJ	SOBH NATH	01-12-2009
139	JC 661218A	SUB MAJ	TILAK RAJ	01-11-2009
140	JC 215565M	SUB MAJ	UTTAM SINGH NEGI	01-10-2009
141	JC 217837A	SUB MAJ	VIJAYA KUMARAN NAIR M	01-12-2009

ARMY MEDICAL CORPS

142	JC 690347H	SUB MAJ	ANIL KUMAR	01-12-2009
143	JC 691719P	SUB MAJ	ASHOK KUMAR ROY	01-11-2009
144	JC 690984Y	SUB MAJ	BHARAT SINGH	01-10-2009
145	JC 690348L	SUB MAJ	BRAHMANAND SAMAL	01-11-2009
146	JC 690703X	SUB MAJ	K KASIPRASAD	01-11-2009
147	JC 692001X	SUB MAJ	RAM KUMAR	01-12-2009
148	JC 692194H	SUB MAJ	SATYANRYAN GHOSH	01-12-2009

ARMY ORDNANCE CORPS

149	JC 724462X	SUB MAJ	HANS RAJ	01-10-2009
150	JC 722996K	SUB MAJ	KUNDAN LAL SHARMA	01-10-2009
151	JC 723487X	SUB MAJ	P SAMBASIVA REDDY	01-11-2009
152	JC 723053X	SUB MAJ	PREM PAL	01-09-2009
153	JC 724160L	SUB MAJ	PURAN SINGH	01-10-2009
154	JC 722887X	SUB MAJ	RAMA NAND SHARMA	01-09-2009
155	JC 724805H	SUB MAJ	SHANKAR LAL	01-12-2009

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

156	JC 749265A	SUB MAJ	ABHIMANYU MAHARANA	01-09-2009
157	JC 747689X	SUB MAJ	AMARA RAM SAREL	01-12-2009
158	JC 751951M	SUB MAJ	BALWANT SINGH KAUSHAL	01-12-2009
159	JC 751595X	SUB MAJ	BHUBAN GOGOI	01-01-2010
160	JC 751950K	SUB MAJ	GIAN CHAND	01-10-2009
161	JC 750287L	SUB MAJ	MOHAN K	01-09-2009
162	JC 748913L	SUB MAJ	RAJIMON PC	01-10-2009
163	JC 751301Y	SUB MAJ	RAM BACHAN SINGH YADAV	01-10-2009
164	JC 753260Y	SUB MAJ	RAM BAHADUR THAPA	01-01-2010
165	JC 751344N	SUB MAJ	RAM PRASAD SINGH	01-11-2008
166	JC 749025H	SUB MAJ	RAMESH CHANDER PUROHIT	01-11-2009
167	JC 751315Y	SUB MAJ	RISHI PAL SINGH	01-10-2009
168	JC 748219Y	SUB MAJ	SATISH KUMAR SHARMA	01-09-2009
169	JC 749094Y	SUB MAJ	SHIVJI SINGH	01-10-2009

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

170	JC 797092L	RIS MAJ	RAM SWARUP	01-09-2009
-----	------------	---------	------------	------------

DEFENCE SECURITY CORPS

171	JC 840022H	SUB MAJ	KARNAIL SINGH	01-11-2009
172	JC 840019H	SUB MAJ	MADAN LAL	01-11-2009
173	JC 840855M	SUB MAJ	MAN SINGH	01-10-2009

TO BE HONORARY RISALDAR/SUBEDAR MAJOR**16 CAVALRY**

1	JC 240055W	RIS	MAHADEVAPPA BADA KAPPA NAVAR	01-09-2009
2	JC 240301W	RIS	MODALAVALASA NARAYANA RAO	01-09-2009
3	JC 240433K	RIS	S AROKKIASAMY	01-10-2009
4	JC 238854N	RIS	SANJEEVA	01-11-2009
5	JC 239117Y	RIS	SIVA PRAKASAM V	01-12-2009

7 CAVALRY

6	JC -241692Y	RIS	BALWINDER SINGH	01-01-2010
7	JC 240770Y	RIS	JAGVEER SINGH POONIA	01-09-2009
8	JC 241289M	RIS	MOOL CHAND DUDI	01-01-2010

8 CAVALRY

9	JC 240816W	RIS	JASBIR SINGH	01-01-2010
10	JC 241369K	RIS	VISHVA NATH SINGH	01-01-2010

2 LANCERS

11	JC 241312P	RIS	BHOM SINGH	01-01-2010
12	JC 241546Y	RIS	KUVER BAHADUR SINGH	01-01-2010
13	JC 241267N	RIS	RAGHVENDRA SINGH	01-09-2009

17 HORSE

14	JC 239653F	RIS	AWADH BIHARI SINGH	01-09-2009
15	JC 239282K	RIS	JATINDER SINGH	01-09-2009

9 HORSE

16	JC 238728F	RIS	ARJUN LAL RAYAL	01-10-2009
17	JC 240372X	RIS	DARSHAN KUMAR	01-10-2009
18	JC 240472H	RIS	OM PAL SINGH	01-01-2010
19	JC 239409F	RIS	SAHIB SINGH	01-09-2009

14 HORSE

20	JC 240342A	RIS	BALWINDER SINGH	01-01-2010
21	JC 240811X	RIS	JAGDISH SINGH POONIA	01-01-2010
22	JC 240727X	RIS	JASPAL SINGH	01-01-2010
23	JC 240738K	RIS	JOGINDER SINGH	01-01-2010
24	JC 240451M	RIS	NARINDER SINGH	01-01-2010
25	JC 240447K	RIS	PURAN SINGH	01-01-2010
26	JC 240450K	RIS	RASHPAL SINGH	01-10-2009
27	JC 239235M	RIS	RISHI PAL	01-10-2009

4 HORSE

28	JC 240675M	RIS	JORAVER SINGH	01-01-2010
----	------------	-----	---------------	------------

CENTRAL INDIA HORSE

29	JC 239991Y	RIS	ASHOK KUMAR GOUR	01-01-2010
30	JC 241206W	RIS	BHUMI CHAND	01-01-2010
31	JC 240733L	RIS	HANS RAJ	01-09-2009
32	JC 241115M	RIS	NEK RAM SHARMA	01-10-2009
33	JC 239573K	RIS	OM PRAKASH SINGH	01-01-2010
34	JC 241105H	RIS	SANTOSH KUMAR	01-10-2009

62 CAVALRY

35	JC 239910N	RIS	KHYALI RAM KOTHARI	01-10-2009
36	JC 158225H	RIS	NARINDERJEET SINGH	01-10-2009

20 LANCERS

37	JC 240623W	RIS	MAHABIR SINGH	01-09-2009
38	JC 240173K	RIS	MANBIR SINGH	01-01-2010
39	JC 240749W	RIS	RAM SINGH	01-01-2010
40	JC 241052P	RIS	SEWAK SINGH	01-01-2010

63 CAVALRY

41	JC 240244A	RIS	BAJRANG SINGH	01-01-2010
42	JC 240179L	RIS	JAI PAL	01-09-2009
43	JC 239630A	RIS	PRAHLAD SINGH JAT	01-09-2009
44	JC 240237K	RIS	SATNAM SINGH	01-01-2010
45	JC 240037N	RIS	UMMED SINGH	01-10-2009

61 CAVALRY

46	JC 238782P	RIS	PRAKASHAN MK	01-05-2009
----	------------	-----	--------------	------------

45 CAVALRY

47	JC 240387A	RIS	BHOOP SINGH	01-09-2009
48	JC 240167W	RIS	MAHA DEVAN J	01-01-2010
49	JC 239343W	RIS	RENGARAJ C	01-10-2009

64 CAVALRY

50	JC 239911W	RIS	HAWA SINGH	01-10-2009
----	------------	-----	------------	------------

65 ARMOURED REGIMENT

51	JC 239915M	RIS	BANSHIDHAR	01-10-2009
52	JC 239918A	RIS	DINESH SINGH	01-01-2010

66 ARMOURED REGIMENT

53	JC 240884K	RIS	ASHOK JADHAV	01-01-2010
54	JC 240376N	RIS	MUNESHWAR PURSOTAM KASHIRAM	01-10-2009

67 ARMOURED REGIMENT

55	JC 239472W	RIS	ASHOK KUMAR	01-10-2009
----	------------	-----	-------------	------------

56	JC 240377W	RIS	SHAMSHER SINGH	01-10-2009
68 ARMoured REGIMENT				
57	JC 240610Y	RIS	BAJRANGLAL FAGANA	01-01-2010
58	JC 240662P	RIS	SURAJ BHAN	01-01-2010
69 ARMoured REGIMENT				
59	JC 240328N	RIS	KESHAR SINGH MEHRA	01-01-2010
60	JC 240743P	RIS	R SAKHARA THALWAR	01-09-2009
70 ARMoured REGIMENT				
61	JC 241362A	RIS	UPENDER PRASAD SHARMA	01-01-2010
72 ARMoured REGIMENT				
62	JC 241032F	RIS	GHARU RAM	01-01-2010
73 ARMoured REGIMENT				
63	JC 240962W	RIS	BHOLE SHANKAR SINGH	01-09-2009
64	JC 238721X	RIS	GURCHARAN SINGH	01-10-2009
74 ARMoured REGIMENT				
65	JC 241264A	RIS	PAWAN KUMAR	01-10-2009
76 ARMoured REGIMENT				
66	JC 239587K	RIS	CHHUTTEN LAL GURJAR	01-01-2010
67	JC 240502P	RIS	DEVI SINGH YADAV	01-01-2010
68	JC 239354H	RIS	JAI SINGH	01-10-2009
69	JC 239584W	RIS	SAMAYA SINGH	01-10-2009
81 ARMoured REGIMENT				
70	JC 241098X	RIS	B TAMIL SELVAM	01-01-2010
71	JC 240914W	RIS	BAKHEROO RAM	01-01-2010
72	JC 240856X	RIS	GODKARI SAYAJI RAMCHANDRA	01-01-2010
83 ARMoured REGIMENT				
73	JC 241565K	RIS	GAJENDRA KUMAR TIWARI	01-01-2010
74	JC 242053K	RIS	MITHILESH KUMAR	01-01-2010
75	JC 241435F	RIS	NEMALA PURI VENKATA TIRUPATI	01-10-2009
76	JC 241436K	RIS	R NARAYANA SAMY	01-10-2009
77	JC 241281A	RIS	RAMESH BASUMATARI	01-10-2009
84 ARMoured REGIMENT				
78	JC 239814Y	RIS	ARJUN ADIVASI	01-01-2010
79	JC 239964P	RIS	VEERANDRA SINGH	01-01-2010
85 ARMoured REGIMENT				
80	JC 240832N	RIS	BIJAN KANTI SEN	01-09-2009

81	JC 240891A	RIS	GYANSHWAR PRASAD MANDAL	01-10-2009
82	JC 240890X	RIS	MAHARAJ SINGH GOSWAMI	01-10-2009
83	JC 240883W	RIS	N RAVINDRAN	01-10-2009
84	JC 240654W	RIS	PURNA CHANDRA PANDA	01-09-2009
85	JC 240956H	RIS	RAJ KISHORE SINGH	01-01-2010
86	JC 240959W	RIS	VIRENDRA BAHADUR SINGH	01-01-2010
<u>86 ARMOURED REGIMENT</u>				
87	JC 240939H	RIS	BISHNUDEO PRASAD	01-10-2009
88	JC 240840M	RIS	KRIPAN KANTI DEB ROY	01-09-2009
89	JC 240841P	RIS	RAJENDRA MAHTO	01-09-2009
90	JC 240938A	RIS	REYYI GANDHI	01-09-2009
<u>87 ARMOURED REGIMENT</u>				
91	JC 240078X	RIS	AMAR NATH SINGH	01-09-2009
92	JC 240177A	RIS	HARENDRA RAI	01-09-2009
93	JC 240533P	RIS	MORE RAMESH YASHAWANT	01-01-2010
94	JC 240514K	RIS	S RAVEENDRAN	01-10-2009
<u>88 ARMOURED REGIMENT</u>				
95	JC 240553H	RIS	PREM PAL	01-10-2009
<u>89 ARMOURED REGIMENT</u>				
96	JC 240411L	RIS	DIWAKAR PATHAK	01-01-2010
97	JC 240763H	RIS	PRAMOD KUMAR SINGHA	01-10-2009
98	JC 238747M	RIS	PREM CHAND	01-12-2009
<u>90 ARMOURED REGIMENT</u>				
99	JC 241441P	RIS	ASHOK KUMAR	01-01-2010
100	JC 241616M	RIS	DEO NAYAK UPADHYAY	01-01-2010
101	JC 241422K	RIS	PATIL VIJAY DASHRATH	01-01-2010
<u>41 ARMOURED REGIMENT</u>				
102	JC 241601K	RIS	GOBIND CHANDRA SAHU	01-09-2009
103	JC 241445L	RIS	SRI SATISH	01-09-2009
104	JC 240615X	RIS	SUBHASH CHANDRA	01-01-2010
<u>42 ARMOURED REGIMENT</u>				
105	JC 239348P	RIS	C GOPAL	01-01-2010
106	JC 239218M	RIS	HUMAYUN KABIR	01-10-2009
107	JC 238429H	RIS	JAWAHAR LAL THAKUR	01-11-2009
108	JC 238760W	RIS	KAN SINGH RATHORE	01-12-2009
109	JC 239629L	RIS	MUNESH PAL	01-10-2009
110	JC 239657X	RIS	RAGHAV PRASAD KESHARI	01-01-2010
111	JC 239786X	RIS	SURENDRA PRASAD	01-01-2010

43 ARMoured REGIMENT

112	JC 241378L	RIS	AKSHAYA KUMAR SAHOO	01-10-2009
113	JC 241258M	RIS	DIBAKAR PRADHAN	01-10-2009

44 ARMoured REGIMENT

114	JC 240004H	RIS	AWADHESH SINGH	01-09-2009
115	JC 241385F	RIS	K G BABU RAO	01-09-2009
116	JC 241450W	RIS	KAMLESH KUMAR SHARMA	01-01-2010
117	JC 239993K	RIS	KRISHNA PRASAD	01-09-2009
118	JC 240963Y	RIS	LAXMAN KUMAR	01-01-2010
119	JC 240982H	RIS	RAJESH KUMAR	01-01-2010
120	JC 240736Y	RIS	RAM KISHAN MEENA	01-10-2009
121	JC 239992F	RIS	SURAT SINGH	01-09-2009
122	JC 239988Y	RIS	SUSANTA ROY	01-09-2009
123	JC 240964F	RIS	UDAM SINGH	01-01-2010

46 ARMoured REGIMENT

124	JC 239694L	RIS	ANUP KUMAR PANDEY	01-10-2009
125	JC 239148Y	RIS	JITENDRA SINGH	01-09-2009
126	JC 239442Y	RIS	MUKESH TYAGI	01-10-2009
127	JC 239693H	RIS	NAMAI CHAND MANDAL	01-10-2009
128	JC 239379P	RIS	NAND KISHORE JOSHI	01-09-2009
129	JC 238906Y	RIS	PRABIR KUMAR NANDY	01-09-2009
130	JC 239482A	RIS	RAMJIBAN SANNIGRAHI	01-09-2009
131	JC 239030X	RIS	RANVEER SINGH	01-09-2009
132	JC 239445M	RIS	SETHI AJAY KUMAR ISHWAR DAS	01-10-2009
133	JC 239441W	RIS	SUKH RAM	01-10-2009

47 ARMoured REGIMENT

134	JC 239467L	RIS	A RAJA GOPAL	01-10-2009
135	JC 240530F	RIS	ATANKA BHANJAN MIDYA	01-10-2009
136	JC 240529M	RIS	BAIDYA NATH SAHU	01-10-2009
137	JC 239407W	RIS	BISHNO DEO ROY	01-09-2009
138	JC 239324L	RIS	MANMATH RAM	01-10-2009
139	JC 239533H	RIS	PRATAP KUMAR JAS	01-10-2009
140	JC 239609X	RIS	RAMA PATI TEWARI	01-10-2009
141	JC 240519H	RIS	TAPAN KUMAR GHOSH	01-10-2009

48 ARMoured REGIMENT

142	JC 240388H	RIS	BALBIR SINGH	01-01-2010
143	JC 240705Y	RIS	BISWANATH GOSWAMI	01-10-2009
144	JC 240454A	RIS	DINESH YADAV	01-01-2010
145	JC 239934X	RIS	MD NURSHED ALI	01-10-2009
146	JC 239319A	RIS	PRAKASH NARAYAN	01-10-2009
147	JC 240641Y	RIS	R HARI KRISHNAN	01-10-2009
148	JC 240076M	RIS	SHANKAR DAYAL SINGH	01-01-2010

149	JC 240599L	RIS	SHIV BALAK SINGH	01-01-2010
150	JC 240019L	RIS	SUNIL MANDAL	01-10-2009
151	JC 240443N	RIS	TIKESWAR RAM	01-10-2009
152	JC 239933P	RIS	TRIPT NARAYAN JHA	01-10-2009
<u>49 ARMoured REGIMENT</u>				
153	JC 239636F	RIS	VIJAY SANKAR SHUKLA	01-10-2009
<u>5 ARMoured REGIMENT</u>				
154	JC 238937Y	RIS	CHANDRA BHANU GUPTA	01-10-2009
155	JC 238939K	RIS	NIMAI KUMAR MALLICK	01-10-2009
<u>10 ARMoured REGIMENT</u>				
156	JC 239647N	RIS	ASHIS CHOUDHURY	01-09-2009
<u>11 ARMoured REGIMENT</u>				
157	JC 238862M	RIS	NITEN DUTTA	01-01-2010
158	JC 238861K	RIS	PARASHA RAM RAGHOCHHE	01-01-2010
159	JC 239268X	RIS	SUDHIR KUMAR SHARMA	01-01-2010
<u>13 ARMoured REGIMENT</u>				
160	JC 238440F	RIS	BALWINDER SINGH	01-01-2010
161	JC 238263M	RIS	RAMACHANDRA SINGH	01-10-2009
<u>15 ARMoured REGIMENT</u>				
162	JC 239920X	RIS	ARVIND KUMAR SINGH	01-10-2009
163	JC 239053Y	RIS	NEPAL SINGH	01-01-2010
<u>19 ARMoured REGIMENT</u>				
164	JC 237863H	RIS	BHAGWAN SINGH	01-10-2009
165	JC 239036Y	RIS	DHARAM VIR SINGH	01-11-2009
166	JC 237701X	RIS	HOSHIYAR SINGH YADAV	01-10-2009
167	JC 237831A	RIS	SAHADEVAN K	01-10-2009
168	JC 237997F	RIS	SOMA SUNDRAN K	01-10-2009
169	JC 239069K	RIS	SURESH A	01-01-2010
<u>50 ARMoured REGIMENT</u>				
170	JC 239429P	RIS	PRATAP SINGH	01-01-2010
171	JC 237626Y	RIS	SUBHASH RAM	01-10-2009
<u>51 ARMoured REGIMENT</u>				
172	JC 240285K	RIS	BACHAN LAL	01-01-2010
173	JC 240477F	RIS	M RADHA KRISHNAN	01-09-2009
<u>53 ARMoured REGIMENT</u>				
174	JC 240367M	RIS	ANGRAJ LAL	01-01-2010
175	JC 240335K	RIS	BARBOI L. RAM CHANDRA ADUMBAR	01-10-2009

176	JC 240371P	RIS	M M INBARAJ	01-10-2009
<u>ARMoured CORPS</u>				
177	JC 239337H	RIS	BAHULAYAN T	01-11-2009
178	JC 239305A	RIS	BAJRANG SINGH	01-10-2009
179	JC 239338L	RIS	DHARAMBIR SINGH	01-11-2009
180	JC 237305F	RIS	HARKESH SINGH	01-12-2009
181	JC 240067L	RIS	INDER SINGH JARYAL	01-10-2009
182	JC 240261A	RIS	INDRAJEET SINGH	01-12-2009
183	JC 239892W	RIS	JAI SINGH	01-12-2009
184	JC 240970P	RIS	KIRPAL SINGH	01-12-2009
185	JC 240352K	RIS	RAGHUNATH MAITY	01-01-2010
186	JC 240180A	RIS	RAJENDRAN K	01-12-2009
187	JC 240085N	RIS	RAMESH CHAND	01-11-2009
188	JC 238100Y	RIS	RATHOD ANIL KUMAR BAVJI BHAI	01-11-2009
189	JC 239387N	RIS	SURESH KUMAR CHAUHAN	01-01-2010
190	JC 239082N	RIS	VIDYADHAR	01-01-2010

REGIMENT OF ARTILLERY

191	JC 264371N	SUB	ABHEY SINGH	01-11-2009
192	JC 266066A	SUB	ABHILASH SINGH	01-01-2010
193	JC 268039P	SUB	AJIT SINGH	01-01-2010
194	JC 262723F	SUB	AKBAR SINGH YADAV	01-09-2009
195	JC 265357N	SUB	ANJANI KUMAR SHARMA	01-01-2010
196	JC 263537X	SUB	ANOP SINGH	01-10-2009
197	JC 266158M	SUB	ANUJ KUMAR	01-11-2009
198	JC 263343P	SUB	ARBIND KUMAR SINGH	01-11-2009
199	JC 264982H	SUB	ARJUN SINGH JAGGI	01-09-2009
200	JC 268841L	SUB	ARJUN SINGH RANA	01-10-2009
201	JC 267701M	SUB	ASHOK DOLEKAR	01-01-2010
202	JC 264186A	SUB	ASHOK KUMAR	01-01-2010
203	JC 266138Y	SUB	ASHOK KUMAR	01-10-2009
204	JC 265871X	SUB	AVTAR SINGH	01-09-2009
205	JC 267763M	SUB	AVTAR SINGH	01-01-2010
206	JC 268489M	SUB	BABU LAL	01-10-2009
207	JC 262958N	SUB	BAHADUR SINGH	01-09-2009
208	JC 265091M	SUB	BAIANT SINGH DHADWAL	01-01-2010
209	JC 265503H	SUB	BALARAM P	01-01-2010
210	JC 268625X	SUB	BALBIR SINGH	01-01-2010
211	JC 262437A	SUB	BALENDRA BHUSHAN SHUKLA	01-10-2009
212	JC 260663Y	SUB	BALJIT SINGH	01-11-2009
213	JC 264548W	SUB	BALJIT SINGH	01-11-2009
214	JC 268816M	SUB	BALKAR SINGH	01-01-2010
215	JC 266289X	SUB	BALWANT SINGH	01-10-2009
216	JC 268569K	SUB	BALWINDER KUMAR	01-01-2010
217	JC 270084A	SUB	BALWINDER SINGH	01-01-2010
218	JC 265800W	SUB	BARMESHWAR PANDEY	01-10-2009

219	JC 268110X	SUB	BASAVARAJ BASANTAPPA GOURI	01-01-2010
220	JC 266787K	SUB	BATTURI VENKATA SRINIVASA RAO	01-09-2009
221	JC 266672W	SUB	BHAGWANT SINGH	01-10-2009
222	JC 266586L	SUB	BHOLA NATH TIWARI	01-10-2009
223	JC 268577H	SUB	BHOLA PRASAD MISHRA	01-01-2010
224	JC 268495A	SUB	BHUJANG MARITI GANPATI	01-01-2010
225	JC 259789M	SUB	BHUPAL SHARMA	01-11-2009
226	JC 266330H	SUB	BIRBAL SINGH	01-10-2009
227	JC 267332A	SUB	BRAHAM PAL SINGH	01-11-2009
228	JC 267506P	SUB	BUDH RAM	01-01-2010
229	JC 267187N	SUB	BUGE SANJAY GANGADHAR	01-10-2009
230	JC 267265A	SUB	CHANCHAL SINGH	01-09-2009
231	JC 267735A	SUB	CHENTHAMARA K	01-09-2009
232	JC 263355K	SUB	CHIRANJI LAL YADAVA	01-10-2009
233	JC 265300Y	SUB	CHUNI LAL SHARMA	01-01-2010
234	JC 265051L	SUB	D GOVINDA RAJAN	01-01-2010
235	JC 267413A	SUB	DAREKAR BHAUSAHED RAMCHANDRA	01-10-2009
236	JC 266408H	SUB	DARWAN SINGH	01-11-2009
237	JC 261840A	SUB	DEEP NARAIN ROY	01-12-2009
238	JC 266190F	SUB	DEVESH CHANDRA SHUKLA	01-11-2009
239	JC 263961A	SUB	DEVI SINGH THAKUR	01-09-2009
240	JC 263671H	SUB	DHANWANT SINGH	01-01-2010
241	JC 266130M	SUB	DHARM VIR	01-01-2010
242	JC 267401L	SUB	DHURVE BAJIRAO VITHOBA	01-01-2010
243	JC 268595L	SUB	DILBAGH SINGH	01-01-2010
244	JC 265076X	SUB	G JAGANNATHAN	01-09-2009
245	JC 268963P	SUB	GAIKWAD RAJARAM SHIVAJI	01-01-2010
246	JC 265476K	SUB	GARJE ANGAD SOMINATH	01-10-2009
247	JC 261230N	SUB	GAYA PRASAD	01-12-2009
248	JC 259927H	SUB	GAYA PRASAD SINGH	01-12-2009
249	JC 266523H	SUB	GEORGE VARGHESE	01-01-2010
250	JC 265930Y	SUB	GHAN SHYAM	01-11-2009
251	JC 265647L	SUB	GOLAP SAIKIA	01-01-2010
252	JC 266790K	SUB	GORE BABAN BABOO	01-01-2010
253	JC 260650F	SUB	GOUR CHAND SINHA	01-11-2009
254	JC 264833P	SUB	GULAB PRASAD	01-09-2009
255	JC 264391F	SUB	GURDIAL SINGH	01-01-2010
256	JC 265081H	SUB	GURDIP SINGH	01-01-2010
257	JC 264539P	SUB	HANS RAJ CHAUHAN	01-10-2009
258	JC 267244K	SUB	HARBANS SINGH	01-01-2010
259	JC 267433N	SUB	HARBANS SINGH	01-01-2010
260	JC 264217P	SUB	HARI PRASAD PANDEY	01-10-2009
261	JC 266716H	SUB	HARI RAM	01-01-2010
262	JC 266649H	SUB	HARI RAM PRASAD YADAV	01-12-2009
263	JC 267886Y	SUB	HARINAM SINGH	01-01-2010
264	JC 266777A	SUB	HARISH CHANDRA SHUKLA	01.01.2010
265	JC 264218X	SUB	HARJINDER LAL	01-10-2009

266	JC 257456F	SUB	HIRA KUMAR PANDEY	01-01-2010
267	JC 264845K	SUB	HIRA NAND	01-09-2009
268	JC 259795A	SUB	HIRA SINGH	01-12-2009
269	JC 264990F	SUB	HUKAM SINGH	01-11-2009
270	JC 266307P	SUB	IBUNGCHOU SINGHA	01-01-2010
271	JC 265003L	SUB	IDICULA VARGHESE	01-10-2009
272	JC 269557F	SUB	INDERJEET SINGH	01-01-2010
273	JC 268486Y	SUB	INDERJET SINGH	01-01-2010
274	JC 265113A	SUB	INDRAKANT SHRIVASTAVA	01-12-2009
275	JC 266783N	SUB	JAGARNATH	01-09-2009
276	JC 263831X	SUB	JAGDISH CHANDER	01-10-2009
277	JC 265762L	SUB	JAGDISH PRASAD	01-10-2009
278	JC 266058F	SUB	JAI SINGH	01-01-2010
279	JC 259783L	SUB	JAI SINGH VAZIR PURIYA	01-12-2009
280	JC 266391A	SUB	JANARDANA KC	01-12-2009
281	JC 268532H	SUB	JASWANT SINGH	01-10-2009
282	JC 265587F	SUB	JAWAHAR ROY	01-09-2009
283	JC 265858N	SUB	JAWALHAR LAL SHARMA	01-01-2010
284	JC 267124L	SUB	JAY PRAKASH MANDAL	01-10-2009
285	JC 266060Y	SUB	JAYA RAM	01-01-2010
286	JC 263540X	SUB	JITENDRA NATH KAR	01-01-2010
287	JC 260531L	SUB	JIWAN SINGH ADHIKARI	01-09-2009
288	JC 258264W	SUB	JOGENDER SINGH YADAV	01-01-2010
289	JC 265105F	SUB	K MURUGESAN	01-11-2009
290	JC 266552X	SUB	KAILASH CHAND	01-11-2009
291	JC 265310H	SUB	KAILASH CHAND SHARMA	01-10-2009
292	JC 266037L	SUB	KALYAN SINGH	01-01-2010
293	JC 265044P	SUB	KAMER SINGH	01-12-2009
294	JC 266013X	SUB	KASHMIR SINGH	01-11-2009
295	JC 266195A	SUB	KAUSHAL KISHOR CHOUDHARY	01-09-2009
296	JC 267336W	SUB	KAUSHAL THAKUR	01-12-2009
297	JC 259938P	SUB	KHEM RAJ	01-09-2009
298	JC 264128W	SUB	KISHAN CHAND SHARMA	01-09-2009
299	JC 264985W	SUB	KRISHNA PRASAD YADAV	01-09-2009
300	JC 267641H	SUB	KRISHNAN NM	01-01-2010
301	JC 266558Y	SUB	KUNDAN SINGH	01-01-2010
302	JC 269562M	SUB	KURUVILA PT	01-01-2010
303	JC 266844A	SUB	LAXMAN SINGH	01-10-2009
304	JC 262210M	SUB	MADAN LAL	01-12-1909
305	JC 268015L	SUB	MADHU SUDAN YADAV	01-12-2009
306	JC 266009Y	SUB	MADHUSOODANAN C	01-10-2009
307	JC 266417K	SUB	MAHADIK MAHADEV BABAJI	01-09-2009
308	JC 265513M	SUB	MAHATAM MAURYA	01-01-2010
309	JC 264688H	SUB	MAHENDRA SINGH	01-09-2009
310	JC 257257N	SUB	MALI RAJA RAM BALU	01-01-2010
311	JC 262246L	SUB	MANE BALI RAM MARUTI	01-01-2010
312	JC 264273W	SUB	MATA DEEN SINGH	01-10-2009

313	JC 266845H	SUB	MD SAHABUDDIN SK	01-10-2009
314	JC 268102Y	SUB	MEDILAL SINGH YADAV	01-01-2010
315	JC 266961L	SUB	MILKHI RAM	01-10-2009
316	JC 264793Y	SUB	MOCHI RAM BISOYI	01-09-2009
317	JC 265087K	SUB	MOHAMMAD ADAM KHAN	01-11-2009
318	JC 268363M	SUB	MOHAMMED IQBAL OLI	01-01-2010
319	JC 264807N	SUB	MOHAN LAL PANDEY	01-11-2009
320	JC 268496H	SUB	MOHAR PAL SINGH	01-10-2009
321	JC 258444Y	SUB	MOOL CHANDRA	01-12-2009
322	JC 269253K	SUB	MUKHTAR SINGH	01-09-2009
323	JC 264260W	SUB	MURALEEDHARAN C	01-10-2009
324	JC 265922A	SUB	MURALIDHARAN C	01-01-2010
325	JC 265659A	SUB	MUSTKIM MIYA	01-12-2009
326	JC 266372P	SUB	N RAJKISHORE SINGHA	01-01-2010
327	JC 266193P	SUB	NAGENDRA KUMAR YADAV	01-12-2009
328	JC 267208Y	SUB	NAMJAN AIND	01-01-2010
329	JC 262717N	SUB	NANDA RAM DARJI	01-01-2010
330	JC 262885M	SUB	NARENDER SINGH RAWAT	01-12-2009
331	JC 265224X	SUB	NIL KAMAL BISWAS	01-11-2009
332	JC 266934F	SUB	NIRMAL SINGH	01-10-2009
333	JC 268620Y	SUB	NIVRUTTI SHELAR	01-01-2010
334	JC 261703F	SUB	NOOR HASAN KHAN	01-01-2010
335	JC 257500A	SUB	OM PRAKASH	01-09-2009
336	JC 268221P	SUB	OM PRAKASH	01-10-2009
337	JC 269564X	SUB	P ANNA PANDI	01-09-2009
338	JC 266135L	SUB	PAIDI PEDDI VARAHALU NAIDU	01-10-2009
339	JC 263185L	SUB	PARAMJIT SINGH	01-12-2009
340	JC 265765Y	SUB	PARAS NATH SINGH YADAV	01-11-2009
341	JC 260258F	SUB	PARTAP SINGH	01-01-2010
342	JC 267980H	SUB	PAWAR DILIP SHANKAR RAO	01-01-2010
343	JC 265152Y	SUB	PHOOL CHANDRA GIRI	01-01-2010
344	JC 267936Y	SUB	PITAMBAR SINGH	01-01-2010
345	JC 264493X	SUB	PRABHAKARAN K	01-12-2009
346	JC 259295H	SUB	PRABHU DAYAL	01-09-2009
347	JC 263390M	SUB	PRABIR KUMAR SAMADDAR	01-12-2009
348	JC 265041F	SUB	PRADIP KUMAR DIRGHANGI	01-11-2009
349	JC 266291P	SUB	PRAKASH SINGH	01-01-2010
350	JC 257474K	SUB	PRANAB KUMAR CHATTOPADHYAY	01-10-2009
351	JC 267634M	SUB	PREM BAHADUR CHHETRI	01-10-2009
352	JC 263706N	SUB	PREM CHAND SHARMA	01-01-2010
353	JC 268197K	SUB	PREM KUMAR	01-01-2010
354	JC 265467H	SUB	PREM PARKASH	01-01-2010
355	JC 265475F	SUB	PYORE LAL DANGI	01-10-2009
356	JC 264322L	SUB	RAGHUBIR SINGH	01-11-2009
357	JC 266267Y	SUB	RAGHUVVEER SINGH	01.12.2009
358	JC 267933L	SUB	RAGHUVVEER SINGH	01-01-2010
359	JC 264767X	SUB	RAJ PATI DUBEY	01-10-2009

360	JC 263303N	SUB	RAJ SINGH	01-12-2009
361	JC 268272H	SUB	RAJA RAM MAURYA	01-01-2010
362	JC 268873N	SUB	RAJENDER SINGH	01-01-2010
363	JC 258103N	SUB	RAJENDER SINGH KAUSHIK	01-01-2010
364	JC 266882W	SUB	RAJINDER SINGH	01-09-2009
365	JC 266232H	SUB	RAJNEESH KUMAR	01-11-2009
366	JC 264846M	SUB	RAJPAL YADAV	01-11-2009
367	JC 269923A	SUB	RAJWANT SINGH	01-10-2009
368	JC 266900N	SUB	RAKAM SINGH	01-11-2009
369	JC 265977K	SUB	RAM BABU THAKUR	01-01-2010
370	JC 263372K	SUB	RAM BAHADUR GURUNG	01-01-2010
371	JC 266318F	SUB	RAM BAHADUR YADAV	01-01-2010
372	JC 262131X	SUB	RAM BHAJ	01-12-2009
373	JC 256675W	SUB	RAM GANESH DWIVEDI	01-11-2009
374	JC 265146L	SUB	RAM KISHOR	01-01-2010
375	JC 261886H	SUB	RAM NATH RAM	01-09-2009
376	JC 265090K	SUB	RAM PRAKASH	01-10-2009
377	JC 266177X	SUB	RAM PRAKASH PRASAD	01-10-2009
378	JC 261891N	SUB	RAM SHRINGAR PANDEY	01-01-2010
379	JC 258884M	SUB	RAM SINGH	01-01-2010
380	JC 265720Y	SUB	RAMESH CHAND	01-01-2010
381	JC 268082W	SUB	RAMESH KUMAR	01-10-2009
382	JC 266642N	SUB	RAMESH SINGH	01-10-2009
383	JC 262714A	SUB	RANBIR SINGH	01-01-2010
384	JC 264278M	SUB	RANBIR SINGH	01-11-2009
385	JC 260533W	SUB	RANJIT SINGH	01-09-2009
386	JC 268044A	SUB	RATNALA RAGHU	01-09-2009
387	JC 259471P	SUB	RATTAN SINGH	01-11-2009
388	JC 265890H	SUB	RAVEENDRA KUMAR	01-11-2009
389	JC 264608A	SUB	RAVI DATT SHARMA	01-09-2009
390	JC 266157K	SUB	RAVI SHANKER SHARMA	01-09-2009
391	JC 267540P	SUB	RESHAM SINGH	01-10-2009
392	JC 268587N	SUB	ROHITASAV NAI	01-10-2009
393	JC 266654N	SUB	ROHTASH SINGH	01-09-2009
394	JC 255682A	SUB	S GANESHAN	01-12-2009
395	JC 265750W	SUB	S RAJENDRAN	01-12-2009
396	JC 267671A	SUB	S RAMAN	01-11-2009
397	JC 259798N	SUB	SABIR KATHAT	01-12-2009
398	JC 264240H	SUB	SAGAR MAL	01-10-2009
399	JC 269256X	SUB	SAJJAN SINGH	01-01-2010
400	JC 264272L	SUB	SAMBHAJI SINDHE	01-11-2009
401	JC 267593N	SUB	SANDEEP SHARMA	01-10-2009
402	JC 267590A	SUB	SANT LAL	01-10-2009
403	JC 268615N	SUB	SARWAN DASS	01-01-2010
404	JC 266943H	SUB	SARWAN SINGH	01-01-2010
405	JC 268093H	SUB	SASI KUMAR K	01-01-2010
406	JC 264776Y	SUB	SATWINDER SINGH	01-10-2009

407	JC 267480L	SUB	SAVIOUR PS	01-12-2009
408	JC 266210K	SUB	SAWAI SINGH CHAUHAN	01-09-2009
409	JC 266782L	SUB	SELVADASAN P	01-01-2010
410	JC 264830F	SUB	SHAJI G	01-01-2010
411	JC 268605K	SUB	SHIS RAM	01-10-2009
412	JC 264285H	SUB	SHIVENDRA KUMAR	01-01-2010
413	JC 265261L	SUB	SHRI RAM	01-10-2009
414	JC 267340Y	SUB	SIPAHI RAM	01-01-2010
415	JC 264547N	SUB	SUBASH CHANDER	01-11-2009
416	JC 264928P	SUB	SUBHASH KUMAR	01-10-2009
417	JC 265677H	SUB	SUCHA SINGH	01-01-2010
418	JC 266118L	SUB	SUDARSHAN	01-12-2009
419	JC 267372F	SUB	SUKH DAYAL	01-01-2010
420	JC 268069M	SUB	SUKUMARAN A	01-10-2009
421	JC 266348Y	SUB	SURAJ BHAN	01-01-2010
422	JC 269806P	SUB	SURENDRA PRAKASH	01-01-2010
423	JC 265241X	SUB	SURENDRA SINGH	01-12-2009
424	JC 266409L	SUB	SURESH BABOO	01-12-2009
425	JC 265230L	SUB	SURESH CHANDRA MISHRA	01-12-2009
426	JC 265187P	SUB	SURESH KUMAR	01-10-2009
427	JC 264505F	SUB	SURESH PRASAD SINGH	01-12-2009
428	JC 268755A	SUB	SURESH SINGH	01-01-2010
429	JC 262289A	SUB	SURINDER KUMAR	01-01-2010
430	JC 267192Y	SUB	SURYA PRAKASH	01-01-2010
431	JC 263411X	SUB	SUSHIL PRAKASH	01-10-2009
432	JC 268612A	SUB	SWARAN SINGH	01-10-2009
433	JC 266736W	SUB	T SIVANNARAYANA	01-01-2010
434	JC 259792M	SUB	TARIF SINGH DAHIYA	01-11-2009
435	JC 259603X	SUB	TARJAN RAI	01-01-2010
436	JC 258405A	SUB	TARSHEM SINGH	01-01-2010
437	JC 266225M	SUB	TEJ PAL SINGH	01-09-2009
438	JC 264051Y	SUB	TEJVIR SINGH	01-10-2009
439	JC 262940X	SUB	UJAGAR SINGH	01-01-2010
440	JC 264268H	SUB	UMA SHANKER TRIPATHI	01-10-2009
441	JC 268499W	SUB	UMAKANTH	01-10-2009
442	JC 265707P	SUB	UMESH PRASAD SINGH	01-12-2009
443	JC 267337Y	SUB	UMMED SINGH	01-12-2009
444	JC 268017W	SUB	UTEKAR SUNIL RAJARAM	01-10-2009
445	JC 260903L	SUB	VED NARAIN BHATT	01-01-2010
446	JC 265258L	SUB	VED PRAKASH	01-01-2010
447	JC 265147N	SUB	VIJAY SHANKAR RAI	01-12-2009
448	JC 267114F	SUB	VIKRAM SINGH	01-01-2010
449	JC 263366W	SUB	VINOD KUMAR	01-01-2010
450	JC 265240P	SUB	VIRENDER KUMAR SHUKLA	01-01-2010
ARMY AIR DEFENCE				
451	JC 297510M	SUB	A PANDIAN	01.10.2009

452	JC 298385A	SUB	ABHEY SINGH	01-09-2009
453	JC 297434L	SUB	AJIT KUMAR PATRA	01-12-2009
454	JC 297422W	SUB	AMRIK SINGH	01-10-2009
455	JC 297839W	SUB	BALJIT SINGH	01-11-2009
456	JC 298180L	SUB	BAPOOJI	01-09-2009
457	JC 297444P	SUB	BENJAMIN KERKETTA	01-10-2009
458	JC 297889F	SUB	BHAGIRATHI SUBUDHI	01-11-2009
459	JC 297754A	SUB	BHANWAR LAL	01-10-2009
460	JC 297709N	SUB	BIKRAMA SINGH	01-12-2009
461	JC 297776Y	SUB	BRIJ BHUSHAN SHUKLA	01-11-2009
462	JC 298581A	SUB	BRIJPAL SINGH TOMER	01-12-2009
463	JC 927176W	SUB	BROJENDRA NATH MANDAL	01-01-2010
464	JC 298647L	SUB	C SUNDARESAN	01-01-2010
465	JC 298910L	SUB	DADAN PRASAD	01-01-2010
466	JC 298212H	SUB	DEVANAND	01-10-2009
467	JC 298033H	SUB	DEVENDRA KUMAR JHA	01-01-2010
468	JC 297944M	SUB	DEVENDRAPP DEVAKKI	01-12-2009
469	JC 298382M	SUB	DINESH KUMAR	01-10-2009
470	JC 297253A	SUB	GANGA SINGH BAGHEL	01-11-2009
471	JC 299357A	SUB	GOPALA KRISHNAN S	01-01-2010
472	JC 298030P	SUB	GOVIND SINGH	01-12-2009
473	JC 299050P	SUB	HARISHA CHANDRA THAKUR	01-12-2009
474	JC 298362Y	SUB	HODAGE ARUN	01-01-2010
475	JC 297540K	SUB	JAGBIR SINGH	01-01-2010
476	JC 297543X	SUB	JAGDEV SINGH	01-01-2010
477	JC 298264Y	SUB	JAGDISH PRASAD	01-09-2009
478	JC 299015M	SUB	JAI RAM SINGH	01-10-2009
479	JC 296995N	SUB	JIWAT GIRI	01-12-2009
480	JC 299293A	SUB	K E PRASAD	01-10-2009
481	JC 296854Y	SUB	KARAN SINGH	01-11-2009
482	JC 299470P	SUB	KAUSHAL PRASAD DWIVEDI	01-01-2010
483	JC 297743N	SUB	KHIROD CHANDRA DAS	01-11-2009
484	JC 297293F	SUB	KISHORI LAL	01-10-2009
485	JC 298888L	SUB	KOTTAIYAN	01-01-2010
486	JC 297004F	SUB	LAKSHMIKANT SHARMA	01-01-2010
487	JC 299084H	SUB	LAXMAN MASARADDI	01-01-2010
488	JC 298104Y	SUB	M DORAI	01-01-2010
489	JC 298898P	SUB	M VENKETESAN	01-01-2010
490	JC 298083N	SUB	MAHENDRA NATH SHARMA	01-12-2009
491	JC 298364K	SUB	MOHAN CHANDRA DAS	01-11-2009
492	JC 298020L	SUB	MUNSHI SINGH	01-01-2010
493	JC 297925F	SUB	NAGENDRA KUMAR SINGH	01-12-2009
494	JC 298548H	SUB	NARAYAN DATT	01-01-2010
495	JC 297682F	SUB	NARENDAR PRASAD	01-10-2009
496	JC 298038F	SUB	NARENDRA KUMAR SINGH	01-11-2009
497	JC 298079L	SUB	NARESH PRASAD YADAV	01-10-2009
498	JC 299016P	SUB	OM PRAKASH SINGH	01-01-2010

01-12-2009	OMBIR SINGH	SUB	JC 297458P	499
01-10-2009	PASANG TAMANG	SUB	JC 297199X	500
01-01-2010	RAJ SINGH	SUB	JC 298715N	501
01-01-2010	RAKAM SINGH	SUB	JC 297606P	502
01-01-2010	RAKESH CHANDRA	SUB	JC 297167P	503
01-12-2009	RAM AVTAR	SUB	JC 298411W	504
01-01-2010	RAM CHANDER SINGH	SUB	JC 299402F	505
01-10-2009	RAM NIWAS	SUB	JC 2988355M	506
01-01-2010	RAM PHOOL SINGH	SUB	JC 299014K	507
01-01-2010	RAM SINGH SAKLANI	SUB	JC 297008X	508
01-12-2009	RAM SWAROOP	SUB	JC 298057M	509
01-10-2009	RAM SWAROOP	SUB	JC 299211M	510
01-01-2010	RAMESH SINGH	SUB	JC 298854X	511
01-01-2010	RANDHIR SINGH	SUB	JC 297300M	512
01-09-2009	RATHOD LAXMAN SINH B S	SUB	JC 298431K	513
01-01-2010	S SEENIVASAN	SUB	JC 297904L	514
01-01-2010	SAJJAN SINGH	SUB	JC 298992Y	515
01-01-2010	SANDESH SHARMA	SUB	JC 299002P	516
01-01-2010	SANGAPPA HANCHINAL	SUB	JC 297450H	517
01-10-2009	SARJIT SINGH	SUB	JC 296272Y	518
01-01-2010	SASIDHARAN N	SUB	JC 298370X	519
01-01-2010	SAWINDER SINGH	SUB	JC 298224X	520
01-01-2010	SHIBRAJ SINGH	SUB	JC 299051X	521
01-01-2010	SHISHU PAL	SUB	JC 298036W	522
01-01-2010	SIDDHESWAR DAS	SUB	JC 298464P	523
01-01-2010	SIVE NARAIN SINGH YADAV	SUB	JC 299178A	524
01-12-2009	SUKADEBA MAHARANA	SUB	JC 297504Y	525
01-09-2009	SUKHDEV SINGH	SUB	JC 298549L	526
01-01-2010	SUKHINDER SINGH	SUB	JC 298047H	527
01-09-2009	SUKHWINDER SINGH	SUB	JC 299295L	528
01-12-2009	SUKUMARAN T P	SUB	JC 298554W	529
01-01-2010	SUNIL KUMAR SHARMA	SUB	JC 296778X	530
01-12-2009	SUPADA SARKAR	SUB	JC 296683X	531
01-12-2009	SURESH KUMAR	SUB	JC 297269L	532
01-10-2009	TARA CHAND	SUB	JC 299027F	533
01-10-2010	TARA SINGH	SUB	JC 298082L	534
01-01-2010	TET SINGH TANWAL	SUB	JC 298913Y	535
01-10-2009	U AYYANAR	SUB	JC 299030F	536
01-10-2009	UDHAKRAJ SINGH	SUB	JC 298717Y	537
01-10-2010	VANAMASIVAYAM	SUB	JC 299073W	538
01-01-2010	VIJAY SINGH	SUB	JC 298478P	539
01-12-2009	VIJAY SINGH YADAV	SUB	JC 296846A	540
01-10-2009	VIJAYAN P K	SUB	JC 299123W	541
01-12-2009	VIPINAN R	SUB	JC 298632H	542
01-10-2009	VISHWANBHAR DAYAL	SUB	JC 298801Y	543
01-12-2009	YAGVED SINGH	SUB	JC 297325Y	544

MADRAS ENGINEER GROUP

545	JC 306855X	SUB	A VIJAYA BHASKAR	01-01-2010
546	JC 306453A	SUB	AJAYAKUMAR CV	01-09-2009
547	JC 306991N	SUB	BATHAVACHALAM	01-12-2009
548	JC 224801K	SUB	C LOGANATHAN	01-09-2009
549	JC 306856A	SUB	CHANDRA SHEKARA BM	01-01-2010
550	JC 306808A	SUB	G SEBASTIAN	01-12-2009
551	JC 307764A	SUB	GEORGE JOHN	01-01-2010
552	JC 306885P	SUB	JOHN BOSCO P	01-10-2009
553	JC 307631K	SUB	K MASILAMANI	01-01-2010
554	JC 307113K	SUB	K RUBAN	01-10-2009
555	JC 307295H	SUB	K SETTU	01-12-2009
556	JC 307421K	SUB	KARUNANITHY T	01-12-2009
557	JC 306269P	SUB	M MURTHY	01-09-2009
558	JC 307919K	SUB	MAHAMMAD IBRAHIM	01-10-2009
559	JC 307420F	SUB	PALANI K	01-01-2010
560	JC 307887M	SUB	R BALIYA	01-12-2009
561	JC 307330A	SUB	RADHAKRISHNA PILLAI K	01-12-2009
562	JC 307591N	SUB	RAVINDIRAN V	01-01-2010
563	JC 307051P	SUB	RVV SATHYANARAYANA	01-10-2009
564	JC 305746Y	SUB	S GUNASEKARAN	01-09-2009
565	JC 307412H	SUB	S SADASIVAM	01-01-2010
566	JC 306798F	SUB	SHARANAPPA	01-12-2009
567	JC 307918F	SUB	SURENDRAN AV	01-11-2009
568	JC 307237Y	SUB	VITHAL SAWANT	01-10-2009

BENGAL ENGINEER GROUP

569	JC 330453Y	SUB	AHMED KHAN	01-12-2009
570	JC 328829W	SUB	AJIT KUMAR SINGH	01-10-2009
571	JC 328759H	SUB	AMOL SINGH	01-01-2010
572	JC 325602X	SUB	ASHOK KUMAR SAHNI	01-01-2010
573	JC 328800N	SUB	BALBIR SINGH	01-01-2010
574	JC 328941H	SUB	BALJIT SINGH	01-10-2009
575	JC 327937N	SUB	BALVIR SINGH	01-09-2009
576	JC 328400F	SUB	BALWINDER SINGH	01-10-2009
577	JC 328797Y	SUB	BASANT SINGH	01-09-2009
578	JC 328320K	SUB	BHARAT CHANDRA ROY	01-10-2009
579	JC 328683N	SUB	BIHARI LAL TAMTA	01-11-2009
580	JC 328788X	SUB	CHANDAN SINGH	01-11-2009
581	JC 137406A	SUB	CHANNAVEERAPPA B R	01-11-2009
582	JC 328937A	SUB	CHHATRA PAL SINGH YADAV	01-11-2009
583	JC 328679L	SUB	DAN SINGH	01-11-2009
584	JC 330168A	SUB	DARSHAN SINGH DHEER	01-12-2009
585	JC 326543M	SUB	DAYA RAM	01-09-2009
586	JC 325744P	SUB	DEVENDRA PRASAD DAS	01-12-2009
587	JC 328948M	SUB	DINESH KUMAR	01-12-2009

588	JC 326805N	SUB	DULAL KUMAR CHATTERJEE	01-01-2010
589	JC 326505M	SUB	GHULAM QADIR SHEIKH	01-09-2009
590	JC 328731H	SUB	GIRISH CHANDRA PATHAK	01-01-2010
591	JC 330171A	SUB	GUNA NAND CHAUDHARY	01-01-2010
592	JC 328806P	SUB	GURDIAL SINGH	01-12-2009
593	JC 224868H	SUB	HARBHAJAN SINGH	01-11-2009
594	JC 328707M	SUB	HARISH CHANDRA	01-12-2009
595	JC 328730N	SUB	HARISH CHANDRA	01-01-2010
596	JC 325603A	SUB	HARISH CHANDRA PANDEY	01-01-2010
597	JC 325305K	SUB	INDER SINGH	01-12-2009
598	JC 328720W	SUB	JAGDISH CHANDRA PANDEY	01-12-2009
599	JC 330405Y	SUB	JAGDISH SINGH RAWAL	01-01-2010
600	JC 328772M	SUB	JAGMOHAN SINGH	01-09-2009
601	JC 329113K	SUB	JAMAN SINGH	01-10-2009
602	JC 328807X	SUB	JANARDHAN SINGH	01-01-2010
603	JC 325304F	SUB	JOGINDER SINGH	01-01-2010
604	JC 325554H	SUB	JOSHIL KUMAR	01-09-2009
605	JC 328974N	SUB	KISHAN SINGH	01-01-2010
606	JC 328709X	SUB	KUMAR NALIN	01-01-2010
607	JC 330086X	SUB	LINGA RAJU B G	01-11-2009
608	JC 328449X	SUB	MAHESH PAL SINGH	01-01-2010
609	JC 328702N	SUB	MAHIPAL SINGH	01-12-2009
610	JC 328789A	SUB	MAKAN SINGH	01-11-2009
611	JC 328856A	SUB	MITHLESH KUMAR JHA	01-01-2010
612	JC 328732L	SUB	MITHLESH KUMAR SINGH	01-09-2009
613	JC 330692N	SUB	NASIRUDDIN	01-11-2009
614	JC 224867A	SUB	PARESH CHANDRA DAS	01-10-2009
615	JC 328901F	SUB	PREM SINGH	01-09-2009
616	JC 328688M	SUB	PRUTHI RAJ DAS	01-12-2009
617	JC 327038M	SUB	PURSHOTAM SHARMA	01-12-1909
618	JC 326524X	SUB	R BALACHANDAR	01-01-2010
619	JC 326865H	SUB	RAJU M	01-11-2009
620	JC 328733N	SUB	RAKESH KUMAR	01-01-2010
621	JC 326544L	SUB	RAKESH KUMAR SHARMA	01-09-2009
622	JC 328760X	SUB	RAMA SHANKAR DUBEY	01-01-2010
623	JC 327769A	SUB	RAMAN SINGH YADAV	01-12-2009
624	JC 325389H	SUB	RAMESH CHANDRA KAUSHIK	01-12-2009
625	JC 327222X	SUB	RAMESH KUMAR TANWAR	01-10-2009
626	JC 328698W	SUB	RAMESHWAR SINGH	01-12-2009
627	JC 327298X	SUB	RANJEET SINGH	01-01-2010
628	JC 328799K	SUB	RATNESWAR DAS	01-12-2009
629	JC 328413Y	SUB	RATNESWAR NATH	01-01-2010
630	JC 328818K	SUB	RAVINDRA NATH SINGH	01-01-2010
631	JC 329066X	SUB	RUHAM SINGH	01-12-2009
632	JC 326470F	SUB	SANT LAL KUSHWAHA	01.09.2009
633	JC 327079W	SUB	SASEENDRAN K R	01-12-2009
634	JC 156343X	SUB	SATBIR SINGH	01-09-2009

635	JC 329690W	SUB	SURESH BAHADUR SINGH	01-12-2009
636	JC 328852K	SUB	SURESH KUMAR	01-12-2009
637	JC 325797N	SUB	SWAPAN KUMAR SINHA	01-11-2009
638	JC 328833Y	SUB	TAJWAR SINGH	01-01-2010
639	JC 328904P	SUB	UDAY NARAYAN SINGH	01-12-2009
640	JC 328973L	SUB	UTTAM SINGH	01-01-2010
641	JC 328652N	SUB	VIJAI PRATAP SINGH	01-09-2009

BOMBAY ENGINEER GROUP

642	JC 349855L	SUB	AKBAR HUSAIN	01-01-2010
643	JC 349136M	SUB	AVTAR SINGH	01-12-2009
644	JC 348612N	SUB	BADRINATH PATANKAR	01-11-2009
645	JC 349099K	SUB	BALDEV SINGH	01-09-2009
646	JC 349353H	SUB	BALWANT SINGH	01-01-2010
647	JC 349424Y	SUB	BALWANT SINGH	01-12-2009
648	JC 349371L	SUB	BANT SINGH	01-01-2010
649	JC 349630H	SUB	BAWA SINGH	01-09-2009
650	JC 348377A	SUB	DESAI MARUTI GANAPATI	01-09-2009
651	JC 349217M	SUB	DEV SINGH	01-09-2009
652	JC 349411F	SUB	GAWAS VITHAL KRISHNA	01-01-2010
653	JC 349230W	SUB	GURMIT LAL	01-10-2009
654	JC 347190F	SUB	HARI SINGH YADAV	01-09-2009
655	JC 348688N	SUB	HARJINDER SINGH	01-12-2009
656	JC 349016N	SUB	HARJINDER SINGH	01-09-2009
657	JC 348859P	SUB	HARJIT SINGH	01-09-2009
658	JC 349214Y	SUB	IBRAHIM KHAN	01-10-2009
659	JC 349892Y	SUB	INGLE RAJARAM MAHADEO	01-09-2009
660	JC 348897L	SUB	JADHAV DASHRATH PANDURANG	01-09-2009
661	JC 347855M	SUB	JADHAV TANAJI SHIVAJI	01-09-2009
662	JC 348670K	SUB	JAGANNATH SACHDEVA P	01-10-2009
663	JC 349028H	SUB	JAGTAP SHIRISH KUMAR BAPU SAHEB	01-09-2009
664	JC 348643N	SUB	JAGTAR SINGH	01-12-2009
665	JC 349223A	SUB	JAIBIR SINGH SIRWAG	01-11-2009
666	JC 349325W	SUB	JARNAIL SINGH	01-12-2009
667	JC 348975X	SUB	JITENDRANATH SHUKLA	01-11-2009
668	JC 349154P	SUB	KAMAL SINGH	01-09-2009
669	JC 347172Y	SUB	KEDAR PRASAD	01-11-2009
670	JC 348970Y	SUB	MAN SINGH THAKUR	01-11-2009
671	JC 349148F	SUB	MATE DATTATRAYA MATHU	01-01-2010
672	JC 349156A	SUB	MOHAMMAD ALI	01-09-2009
673	JC 348733P	SUB	MOINUDDIN	01-01-2010
674	JC 349554F	SUB	PAWAR MOHAN RAMA RAO	01-11-2009
675	JC 347871K	SUB	PREM LAL	01-01-2010
676	JC 349438Y	SUB	RADHEY SINGH	01-10-2009
677	JC 348360M	SUB	RAGHUNANDAN	01-10-2009
678	JC 349229F	SUB	RAM KISHORE	01-12-2009
679	JC 347969X	SUB	RAM PRAKASH	01-09-2009

680	JC 347825P	SUB	RAM SARAN SINGH	01-09-2009
681	JC 347906P	SUB	RAMA NAND KAUSHIK	01-01-2010
682	JC 349020W	SUB	RAMESH RAJARAM DAHAKE	01-09-2009
683	JC 349691A	SUB	RAMESHWAR SINGH	01-01-2010
684	JC 347170N	SUB	RAMJI DASS	01-11-2009
685	JC 348018M	SUB	ROSHAN LAL BAKSHI	01-11-2009
686	JC 349564L	SUB	SADHU SINGH	01-09-2009
687	JC 349389F	SUB	SAGAR SINGH	01-01-2010
688	JC 348687L	SUB	SAKPAL RAVINDRA HANAMANT	01-01-2010
689	JC 347253Y	SUB	SANTOSH SINGH	01-01-2010
690	JC 348676Y	SUB	SHIWJEE CHOUDHARY	01-10-2009
691	JC 349019F	SUB	SRIDHAR BHAU UTTEKAR	01-09-2009
692	JC 347394N	SUB	SUBODH BISHT	01-12-2009
693	JC 349119M	SUB	SUKHIVIR SINGH	01-12-2009
694	JC 349122M	SUB	TIRATH SINGH	01-01-2010
695	JC 349562A	SUB	UDIT NARAYAN	01-10-2009
696	JC 349498N	SUB	WAIFALKAR ANANADA RAMU	01-09-2009
697	JC 349098F	SUB	YASH PAUL	01-01-2010

CORPS OF SIGNALS

698	JC 374356F	SUB	A K CHAUDHARY	01-12-2009
699	JC 371607P	SUB	ABHILAKH SINGH	01-11-2009
700	JC 370444A	SUB	AK CHAKRABORTY	01-11-2009
701	JC 371259Y	SUB	ALBEL SINGH	01-09-2009
702	JC 371778F	SUB	AMAR KRISHNA BISWAS	01-01-2010
703	JC 371467N	SUB	AMLA RAM	01-11-2009
704	JC 372198Y	SUB	ANAND SINGH	01-10-2009
705	JC 369862H	SUB	ANIL KUMAR	01-01-2010
706	JC 372965M	SUB	ARVIND KUMAR	01-01-2010
707	JC 373702A	SUB	ASHOK KUMAR PATRA	01-11-2009
708	JC 373241F	SUB	ASHOK KUMAR SINGH	01-12-2009
709	JC 374675N	SUB	AYUB KHAN	01-12-2009
710	JC 374960M	SUB	B S GREWAL	01-10-2009
711	JC 374850X	SUB	B SIVADAS	01-01-2010
712	JC 372607F	SUB	BALARAM MAHATA	01-09-2009
713	JC 375102W	SUB	BALWAN SINGH	01-10-2009
714	JC 372095A	SUB	BANWARI LAL	01-11-2009
715	JC 374171A	SUB	BHAGURAM CHOUDHARY	01-12-2009
716	JC 372270K	SUB	BHARAT KUMAR JHA	01-12-2009
717	JC 372727A	SUB	BHOOP CHANDRA	01-12-2009
718	JC 373580F	SUB	BHULETAN SINGH	01-01-2010
719	JC 374767A	SUB	BHUPENDRA SINGH	01-01-2010
720	JC 375215Y	SUB	BIKRAM SINGH	01-09-2009
721	JC 373906M	SUB	BOKADE MADHU	01-01-2010
722	JC 374486K	SUB	BRAJ KISHOR THAKUR	01-01-2010
723	JC 373667H	SUB	CHUNNI LAL	01-12-2009
724	JC 373348W	SUB	D KUPPAN	01-11-2009

725	JC 373648X	SUB	D MURUGA DASS	01-11-2009
726	JC 371600L	SUB	D RAJANGAM	01-12-2009
727	JC 374255N	SUB	D S DANGI	01-01-2010
728	JC 372324A	SUB	DC MOHANTY	01-09-2009
729	JC 372929F	SUB	DEO SUNDER SAHU	01-09-2009
730	JC 372098N	SUB	DEVENDRA PRASAD ROY	01-10-2009
731	JC 373221N	SUB	DHARAM PAL	01-10-2009
732	JC 373336F	SUB	G C KATOCH	01-11-2009
733	JC 374449W	SUB	GANGA PRASAD YADAV	01-09-2009
734	JC 373468P	SUB	GIAN CHAND SHARMA	01-12-2009
735	JC 367924Y	SUB	GONNA BATHULA KAMAL KUMAR	01-12-2009
736	JC 372143P	SUB	HANS RAJ SHARMA	01-01-2010
737	JC 375046H	SUB	HARI KUMAR G	01-12-2009
738	JC 373578K	SUB	HARI SINGH MANN	01-01-2010
739	JC 368456W	SUB	HARIDAS K P	01-11-2009
740	JC 371612A	SUB	HARIVIR SINGH	01-01-2010
741	JC 373378N	SUB	HARMOHAN LAL	01-10-2009
742	JC 375506Y	SUB	HARNAM CHAND	01-01-2010
743	JC 370080Y	SUB	HARPAL SINGH	01-09-2009
744	JC 373960A	SUB	HUB NARAYAN	01-10-2009
745	JC 373907P	SUB	ISHWAR SINGH	01-12-2009
746	JC 374010X	SUB	ISHWAR SINGH	01-11-2009
747	JC 375243L	SUB	ISRAR BABU	01-11-2009
748	JC 375393F	SUB	JAG BALI SINGH	01-12-2009
749	JC 374290W	SUB	JAI KARAN	01-11-2009
750	JC 371527X	SUB	JAI PRAKASH SINGH	01-01-2010
751	JC 369868K	SUB	JAI SINGH	01-12-2009
752	JC 371622K	SUB	JANARDANAN P	01-10-2009
753	JC 368571W	SUB	JASPAL SINGH	01-10-1909
754	JC 372864Y	SUB	JASRAM	01-11-2009
755	JC 374699X	SUB	JEET SINGH	01-12-2009
756	JC 374245K	SUB	JN SAHARIA	01-12-2009
757	JC 373925X	SUB	JOGINDER SINGH	01-12-2009
758	JC 374315X	SUB	K BALAJI RAO	01-11-2009
759	JC 375158H	SUB	K RAMA SAMY	01-12-2009
760	JC 374069X	SUB	K SEENIVASAN	01-09-2009
761	JC 373985M	SUB	KAMTA PRASAD CHAUDHARY	01-12-2009
762	JC 373574N	SUB	KARAM CHAND KAPIL	01-12-2009
763	JC 370797A	SUB	KARTHIKEYAN E	01-09-2009
764	JC 373332L	SUB	KRISHAN KUMAR	01-01-2010
765	JC 374301X	SUB	KRISHNAN KUTTY NAIR	01-01-2010
766	JC 373316N	SUB	KULESHWAR SHARMA	01-10-2009
767	JC 373697A	SUB	KUNHI RAMAN M	01-01-2010
768	JC 374278P	SUB	LACHHMAN SINGH	01-01-2010
769	JC 374126N	SUB	LALJI YADAV	01-10-2009
770	JC 371752M	SUB	M N SINGH	01-12-2009
771	JC 370243F	SUB	M S VERMA	01-01-2010

772	JC 372279Y	SUB	MAHARAJ SINGH	01-01-2010
773	JC 374479N	SUB	MAHAVIR SINGH	01-01-2010
774	JC 374587X	SUB	MAHINDER SINGH	01-01-2010
775	JC 371909F	SUB	MATHEW E M	01-12-2009
776	JC 373974A	SUB	MEER SINGH	01-11-2009
777	JC 374869W	SUB	MEER SINGH LAMBA	01-09-2009
778	JC 372094X	SUB	MOHAN LAL	01-11-2009
779	JC 374101F	SUB	MOHAN SINGH	01-12-2009
780	JC 375511K	SUB	NALLAGATLA GOPALIAH	01-09-2009
781	JC 372871P	SUB	NARAYANAN M T	01-12-2009
782	JC 371611X	SUB	NENU SINGH RAWAT	01-11-2009
783	JC 373799W	SUB	NIRANJAN MISRA	01-10-2009
784	JC 373729X	SUB	NIRMAL KUMAR	01-12-2009
785	JC 372814N	SUB	OM PARKASH	01-11-2009
786	JC 371882P	SUB	OM PRAKASH	01-10-2009
787	JC 370778P	SUB	OM PRAKASH OJHA	01-10-2009
788	JC 373466K	SUB	P K SAHU	01-12-2009
789	JC 373210F	SUB	PARLAD SINGH SALARJA	01-01-2010
790	JC 374166P	SUB	PARTAP CHAND	01-12-2009
791	JC 372927W	SUB	PARVEEN SINGH	01-12-2009
792	JC 374081Y	SUB	PAVITHARA MOHANAN K	01-11-2009
793	JC 374776F	SUB	PHOOL CHAND	01-11-2009
794	JC 373732X	SUB	PRABHU SINGH RAWAT	01-11-2009
795	JC 370897L	SUB	PRASIDHA THAKUR	01-09-2009
796	JC 374666M	SUB	PRATAP CHAND	01-10-2009
797	JC 371261W	SUB	PREM SINGH	01-10-2009
798	JC 374655A	SUB	R G CHANDRA SEKHAR	01-09-2009
799	JC 373273K	SUB	R L BHARI	01-11-2009
800	JC 370081F	SUB	RADHA KRISHAN SHARMA	01-09-2009
801	JC 371686P	SUB	RADHE SHYAM OJHA	01-10-2009
802	JC 370931A	SUB	RAJ KISHOR	01-01-2010
803	JC 375242H	SUB	RAJENDER SINGH	01-01-2010
804	JC 375051N	SUB	RAJENDRA PRASAD	01-10-2009
805	JC 373510H	SUB	RAJESH KUMAR	01-12-2009
806	JC 371217M	SUB	RAJINDER SINGH	01-12-2009
807	JC 371009X	SUB	RAJMER DUBEY	01-01-2010
808	JC 372570L	SUB	RAJVEER MEENA	01-11-2009
809	JC 373247H	SUB	RAM KARAN	01-01-2010
810	JC 372365K	SUB	RAM KISHOR NAYAK	01-11-2009
811	JC 372071W	SUB	RAM MURAT	01-01-2010
812	JC 374342F	SUB	RAM NIWAS	01-10-2009
813	JC 374807W	SUB	RAM PATI	01-01-2010
814	JC 374307Y	SUB	RAM PRATAP	01-10-2009
815	JC 372739P	SUB	RAMESH DATT	01-10-2009
816	JC 375533H	SUB	RAMESH KUMAR VERMA	01-11-2009
817	JC 373543N	SUB	RAMESH SINGH	01-12-2009
818	JC 371920A	SUB	RAMJEET SINGH	01-01-2010

819	JC 374492X	SUB	RAMJI SINGH	01-01-2010
820	JC 375467L	SUB	RAMPAL DUTT	01-12-2009
821	JC 373991A	SUB	RATTAN SINGH	01-11-2009
822	JC 375164W	SUB	RATTAN SINGH	01-01-2010
823	JC 370579F	SUB	RAVEENDRAN K P	01-11-2009
824	JC 374277M	SUB	RAVEENDRAN NAIR M N	01-01-2010
825	JC 374162Y	SUB	RAVI KUMAR R	01-12-2009
826	JC 373737W	SUB	S C PATRA	01-10-2009
827	JC 375275N	SUB	S G CHATTERJEE	01-01-2010
828	JC 372742P	SUB	S GAUTAM SHEKU	01-01-2010
829	JC 372964K	SUB	S SHANMUGAM	01-12-2009
830	JC 368991W	SUB	S SHEKHAR PANDEY	01-11-2009
831	JC 373767N	SUB	SADHU RAM	01-10-2009
832	JC 370510X	SUB	SANKARA NARAYANAN CT	01-11-2009
833	JC 369026Y	SUB	SANSAR SINGH JASWAL	01-12-2009
834	JC 374749X	SUB	SASHI BHUSHAN SINGH	01-11-2009
835	JC 375583N	SUB	SAT NARAYAN	01-12-2009
836	JC 374224N	SUB	SATVIR SINGH	01-01-2010
837	JC 371258W	SUB	SATYA NARAYAN PRASAD	01-09-2009
838	JC 372831N	SUB	SAWAI SINGH	01-11-2009
839	JC 373242K	SUB	SHIV NARAYAN YADAV	01-01-2010
840	JC 200670L	SUB	SHIV PRASAD SINGH	01-01-2010
841	JC 374045N	SUB	SHYAMAL KRISHNA PAL	01-01-2010
842	JC 372623Y	SUB	SIYA RAM SINGH	01-12-2009
843	JC 372621N	SUB	SRI RAM SHARMA	01-10-2009
844	JC 373465F	SUB	SUBHAS CHAND	01-12-2009
845	JC 371635F	SUB	SUBHASH CHANDER	01-12-2009
846	JC 374068P	SUB	SUDHAKAR RAI	01-12-2009
847	JC 373379W	SUB	SUDHIR KUMAR WALIA	01-10-2009
848	JC 375125X	SUB	SUNIL KUMAR	01-10-2009
849	JC 371510K	SUB	SURAJ MAL	01-01-2010
850	JC 372866K	SUB	SURESH CHANDER	01-01-2010
851	JC 372963F	SUB	SURINDER SINGH	01-11-2009
852	JC 372523N	SUB	TARAK NATH SHAW	01-09-2009
853	JC 374382H	SUB	TEEKAM SINGH	01-10-2009
854	JC 374073A	SUB	TRILOK CHAND	01-12-2009
855	JC 374317H	SUB	UGMA RAM MUNDAIL	01-12-2009
856	JC 374525X	SUB	V K RAI	01-12-2009
857	JC 368672K	SUB	V S P SINGH	01-01-2010
858	JC 373311P	SUB	VIDHWAN SINGH	01-09-2009
859	JC 374372Y	SUB	VIJAYA KUMAR G	01-10-2009
860	JC 374485F	SUB	VIKRAM SINGH	01-12-2009
861	JC 374654X	SUB	VINOD BIHARI PRASAD	01-09-2009
862	JC 371560P	SUB	VINOD KUMAR GHELAWAT	01-12-2009
863	JC 371682Y	SUB	VIRENDER KUMAR	01-09-2009

THE BRIGADE OF GUARDS

864	JC 403270N	SUB	DURGA PRASAD	01-01-2010
855	JC 402980Y	SUB	JAGDISH CHAND	01-10-2009
866	JC 403028Y	SUB	M ALAGAR SAMY	01-09-2009
867	JC 402929Y	SUB	MANSA RAM LAMBA	01-11-2009
868	JC 403192F	SUB	MOHAN SINGH MEHTA	01-01-2010
869	JC 403375X	SUB	MOHANAN C	01-01-2010
870	JC 402923X	SUB	RAGHUBIR SINGH RAWAT	01-10-2009
871	JC 403376A	SUB	RAKHPAL SHAKYA	01-12-2009
872	JC 403331A	SUB	RANA RAM CHOUDHARY	01-10-2009
873	JC 403424P	SUB	SATENDER SINGH	01-09-2009
874	JC 403118A	SUB	SUBHASH CHANDER	01-01-2010
875	JC 402830H	SUB	SURAJ BHAN SINGH	01-09-2009

THE PARACHUTE REGIMENT

876	JC 412526M	SUB	BIPUL CHANDRA HAZARIKA	01-12-2009
877	JC 412738X	SUB	C V DINESHAN	01-12-2009
878	JC 412579L	SUB	CHANDRA BAHADUR CHAND	01-11-2009
879	JC 412549N	SUB	DIGAR SINGH	01-11-2009
880	JC 412723P	SUB	JAGDEESH PRASAD SHARMA	01-09-2009
881	JC 412684F	SUB	JAIPAL SINGH	01-09-2009
882	JC 412617W	SUB	MALA RAM JAT	01-01-2010
883	JC 412846F	SUB	PHOOL SINGH	01-01-2010
884	JC 412610M	SUB	PRAHLAD SINGH	01-01-2010
885	JC 412632L	SUB	RAJENDER SINGH	01-01-2010
886	JC 412589P	SUB	SAB SINGH	01-01-2010
887	JC 412668K	SUB	SHAMSHER SINGH	01-01-2010
888	JC 412524F	SUB	SHIV CHARAN SINGH	01-10-2008
889	JC 412621Y	SUB	SURESH CHANDER	01-11-2009
890	JC 412433X	SUB	TEJ PAL	01-01-2010

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

891	JC 419337L	SUB	AMIN CHAND SARYAL	01-01-2010
892	JC 419967L	SUB	ANUP BIR LAMA	01-10-2009
893	JC 419985N	SUB	ARJUN RAM	01-01-2010
894	JC 419631L	SUB	BABUL CHETIA	01-01-2010
895	JC 420053N	SUB	BACHA BABU	01-01-2010
896	JC 419501H	SUB	BACHE SINGH	01-01-2010
897	JC 419952H	SUB	BANWAR SINGH	01-01-2010
898	JC 419704M	SUB	BECHOO LAL	01-01-2010
899	JC 418594W	SUB	BHAWAR LAL JATAV	01-10-2009
900	JC 419724A	SUB	BHOLA SINGH	01-12-2009
901	JC 418597F	SUB	CHANDRA BAHADUR GURUNG	01-01-2010
902	JC 420347F	SUB	CHANDRAPAL SINGH	01-01-2010
903	JC 419252P	SUB	DHRUPA YADAV	01-01-2010
904	JC 418713F	SUB	DINESH CHAND PATHAK	01-09-2009

905	JC 419332M	SUB	DOODA RAM CHOWDHARY	01-09-2009
906	JC 419732Y	SUB	GOPA KUMAR K	01-01-2010
907	JC 420174P	SUB	HARISH CHAND GUPTA	01-01-2010
908	JC 420050A	SUB	INDER SINGH SHEKHAWAT	01-10-2009
909	JC 419756H	SUB	ISHWAR SINGH	01-10-2009
910	JC 419718M	SUB	J FRANCIS	01-10-2009
911	JC 419553Y	SUB	JUMSHED KHAN	01-10-2009
912	JC 419636K	SUB	KAILASH	01-01-2010
913	JC 419945M	SUB	KAMAL SINGH	01-01-2010
914	JC 418817H	SUB	KUTTY SANKARAN CP	01-10-2009
915	JC 419192L	SUB	LO JIS JOSEPH	01-10-2009
916	JC 419038M	SUB	MAHA SINGH PACHAR	01-01-2010
917	JC 419797M	SUB	MAN BAHADUR GURUNG	01-10-2009
918	JC 418595Y	SUB	MAN MOHAN	01-01-2010
919	JC 419368L	SUB	MANGU LAL	01-01-2010
920	JC 419241H	SUB	MATHEW KM	01-10-2009
921	JC 419539M	SUB	MOHANA KUMAR P	01-10-2009
922	JC 419733F	SUB	MOHANAN NAIR KK	01-01-2010
923	JC 419482H	SUB	NANDJI GOSOWAMI	01-10-2009
924	JC 419369N	SUB	NUR ISLAM	01-01-2010
925	JC 419798P	SUB	PHOOL SINGH	01-01-2010
926	JC 419950X	SUB	PONA RAM GOGOI	01-01-2010
927	JC 419946P	SUB	PROMOD KUMAR SINGH	01-01-2010
928	JC 419632N	SUB	RADHA KSIRHNA PILLAI D	01-01-2010
929	JC 419614L	SUB	RAGHUNATHAN E	01-10-2009
930	JC 419915P	SUB	RAJ KUMAR	01-10-2009
931	JC 419894K	SUB	RAJESH KUMAR TIWARI	01-10-2009
932	JC 419509P	SUB	RAM BAHADUR	01-01-2010
933	JC 419629N	SUB	RAM LACHHAN	01-01-2010
934	JC 419565N	SUB	RAM NARAYAN SINGH	01-10-2009
935	JC 418836N	SUB	RAM RATAN PRASAD	01-10-2009
936	JC 419278K	SUB	RAMENDAR SINGH	01-10-2009
937	JC 419592X	SUB	RAMESH KUMAR	01-01-2010
938	JC 420037W	SUB	RATAN KUMAR ROY	01-01-2010
939	JC 420049L	SUB	RUKAM PAL	01-10-2009
940	JC 418966W	SUB	SAMPURAN SINGH	01-01-2010
941	JC 418473P	SUB	SANWAR MAL	01-10-2009
942	JC 419339W	SUB	SHEKHAR CHANDRA TIWARI	01-01-2010
943	JC 419436N	SUB	SHER SINGH	01-01-2010
944	JC 419102Y	SUB	SHIV KUMAR	01-11-2009
945	JC 419043X	SUB	SHREE KISHAN	01-10-2009
946	JC 419191H	SUB	SHYAMAL KUMAR MANDAL	01-10-2009
947	JC 419567Y	SUB	SOMA KUMARAN K	01-10-2009
948	JC 419768X	SUB	SUBHASH CHAND	01-01-2010
949	JC 419948A	SUB	SUDAMA	01-01-2010
950	JC 419269H	SUB	SUGRIV YADAV	01-10-2009
951	JC 419240A	SUB	SUNDER LAL SAINI	01-10-2009

952	JC 419445P	SUB	SUNDER SINGH	01-01-2010
953	JC 419085K	SUB	SURENDRA BAHADUR SINGH	01-11-2009
954	JC 420262L	SUB	SURESH KUMAR	01-01-2010
955	JC 419714W	SUB	VARGHESE GEORGE	01-10-2009

THE PUNJAB REGIMENT

956	JC 429318N	SUB	JAGDISH CHAND SHARMA	01-12-2009
957	JC 429699A	SUB	MAN SINGH	01-01-2010

THE MADRAS REGIMENT

958	JC 439129X	SUB	KK DEVAIAH	01-09-2009
959	JC 438492F	SUB	PRAKASH BABU K	01-12-2009
960	JC 438265F	SUB	RAMA SIDDAPPA B KOULAPUR	01-08-2009

THE GRENADIERS

961	JC 449358W	SUB	ALADIN KHAN	01-01-2010
962	JC 449488Y	SUB	BASHIR MOHUMMAD	01-01-2010
963	JC 449474Y	SUB	DINKER JOSHI	01-11-2009
964	JC 449900F	SUB	GUL FAHAM	01-10-2009
965	JC 449731L	SUB	HARBIR SINGH	01-01-2010
966	JC 449099Y	SUB	INDRA PAL SINGH	01-11-2009
967	JC 449741P	SUB	ISHWAR SINGH	01-01-2010
968	JC 449325L	SUB	JAGBIR SINGH	01-01-2010
969	JC 449742X	SUB	JAGDISH	01-01-2010
970	JC 449804M	SUB	JAIPAL	01-12-2009
971	JC 450263H	SUB	JOGINDER KUMAR	01-01-2010
972	JC 450094M	SUB	JOGINDER SINGH	01-10-2009
973	JC 449868X	SUB	MADANA RAM	01-01-2010
974	JC 449551H	SUB	MOHINDER SINGH	01-01-2010
975	JC 449443Y	SUB	NANAK CHAND	01-01-2010
976	JC 448667M	SUB	NASRUDDIN	01-10-2009
977	JC 448606P	SUB	NATHI KHAN	01-10-2009
978	JC 449228N	SUB	RASUL KHAN	01-10-2009
979	JC 449856H	SUB	RATI RAM JAT	01-09-2009
980	JC 449337A	SUB	RATTAN SINGH	01-09-2009
981	JC 449134W	SUB	SAHABUDDIN	01-10-2009
982	JC 449873H	SUB	SAHID AHMED KHAN	01-09-2009
983	JC 449368A	SUB	SARIF KHAN	01-01-2010
984	JC 449909W	SUB	SARVES SINGH	01-01-2010
985	JC 449132L	SUB	SHAH JAHAN KHAN	01-10-2009
986	JC 449229W	SUB	SHOKAT ALI	01-10-2009
987	JC 449988W	SUB	SHOKAT ALI KHAN	01-01-2010
988	JC 449473W	SUB	SURINDER KUMAR THAKUR	01-11-2009
989	JC 449810A	SUB	YAKUB ALI KHAN	01-01-2010

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

990	JC 458709F	SUB	BASAVARAJ PARAPPA AMMANAGI	01-10-2009
-----	------------	-----	----------------------------	------------

991	JC 458955M	SUB	BHOSALE PRABHAKAR SHIVAJIRAO	01-01-2010
992	JC 459137X	SUB	BORAGALLI DUNDAPPA RAMU	01-10-2009
993	JC 458580Y	SUB	BORE GOWDA	01-11-2009
994	JC 458610L	SUB	DANAPPA JADAR	01-01-2010
995	JC 459173H	SUB	DANGE JYOTIRAM SHAMRAO	01-10-2009
996	JC 459157L	SUB	GANAPATI ALLOLKAR	01-01-2010
997	JC 458996W	SUB	GHOCALE VILAS MAHADEV	01-01-2010
998	JC 224519Y	SUB	LODRIC PASKU ZUJE	01-01-2010
999	JC 458748A	SUB	MANGAONKAR KHANDERAO KRISHNA	01-01-2010
1000	JC 458981N	SUB	MARUTI DATTATRAY KUMBHAR,	01-01-2010
1001	JC 458926X	SUB	MOTARI SHAMBHAJI	01-10-2009
1002	JC 459012A	SUB	NAMDEO MARUTI PATIL	01-01-2010
1003	JC 458891M	SUB	NIKAM CHANDRAKANT GULAB	01-01-2010
1004	JC 459191L	SUB	PATIL PRAKASH PANDURANG	01-10-2009
1005	JC 458888M	SUB	PUNDALIK MOKASHI	01-01-2010
1006	JC 458967F	SUB	RAMANAGOUDA BIRADAR	01-01-2010
1007	JC 458695M	SUB	RANGRAO BIRU HARALE	01-10-2009
1008	JC 458864H	SUB	SIDDAPPA BIRADAR	01-10-2009
1009	JC 458853W	SUB	VILAS DATARAM AMBRE	01-01-2010

THE RAJPUTANA RIFLES

1010	JC 469489H	SUB	BADROOL HASAN	01-01-2010
1011	JC 469583M	SUB	FAZALUR REHMAN KHAN	01-01-2010
1012	JC 469511H	SUB	INDRAJ SINGH	01-12-2009
1013	JC 469074N	SUB	KAMAL SINGH	01-10-2009
1014	JC 469316H	SUB	LALJI SINGH	01-11-2009
1015	JC 469015F	SUB	MADHO SINGH	01-09-2009
1016	JC 469382N	SUB	RAFIQ MOHAMMAD CHOUHAN	01-01-2010
1017	JC 469420Y	SUB	RAJ SINGH	01-11-2009
1018	JC 469233A	SUB	RAM KAILASH SINGH	01-09-2009
1019	JC 469005X	SUB	RANBIR SINGH PANWAR	01-01-2010
1020	JC 469352W	SUB	RANJIT SINGH	01-12-2009
1021	JC 469702X	SUB	SHAMSAD AHMAD	01-01-2010
1022	JC 469092W	SUB	SHER SINGH	01-02-2009
1023	JC 469363H	SUB	SHIV RAM SINGH	01-10-2009
1024	JC 469004P	SUB	SUMER SINGH SHEKHAWAT	01-01-2010
1025	JC 469356M	SUB	SURENDRA SINGH CHAUHAN	01-11-2009
1026	JC 469003M	SUB	TANWAR SINGH RATHORE	01-12-2009
1027	JC 468885M	SUB	UMESH NANDAN SINGH	01-11-2009
1028	JC 469116P	SUB	VINOD KUMAR SINGH	01-11-2009

THE RAJPUT REGIMENT

1029	JC 479494F	SUB	AMANULLAH KHAN	01-01-2010
1030	JC 479076M	SUB	ATAR SINGH	01-09-2009
1031	JC 218264N	SUB	BABU LAL VERMA	01-09-2009
1032	JC 478882M	SUB	DEVENDER SINGH	01-09-2009
1033	JC 478779F	SUB	ISHWAR SINGH	01-11-2009

1034	JC 479338X	SUB	JAY PAL	01-01-2010
1035	JC 479431Y	SUB	POORAN MAL	01-11-2009
1036	JC 479212X	SUB	PRAKASH CHANDRA	01-12-2009
1037	JC 479320F	SUB	RIYASAT ALI	01-09-2009
1038	JC 478778Y	SUB	SHYAM LAL	01-10-2009
1039	JC 205888F	SUB	SURESH BHADUR SINGH	01-10-2009
1040	JC 479192P	SUB	TILAK RAJ SHARMA	01-01-2010

THE JAT REGIMENT

1041	JC 488996L	SUB	BALJOR SINGH	01-11-2009
1042	JC 489435H	SUB	BHAKER RAM	01-01-2010
1043	JC 489405L	SUB	DHARAMBIR SINGH	01-12-2009
1044	JC 489295F	SUB	JAGAT SINGH	01-10-2009
1045	JC 489535N	SUB	KRISHAN CHANDER SHARMA	01-09-2009
1046	JC 489241A	SUB	KRISHAN KUMAR	01-10-2009
1047	JC 489621Y	SUB	NIRANJAN SINGH	01-09-2009
1048	JC 489350M	SUB	RANDHIR SINGH	01-10-2009
1049	JC 489573K	SUB	SATYABIR SINGH	01-01-2010
1050	JC 489094H	SUB	UMRAWAT SINGH	01-11-2009

THE SIKH LIGHT INFANTRY

1051	JC 508320M	SUB	AROORH SINGH	01-01-2010
1052	JC 508534H	SUB	ASHOK KUMAR RAKWAL	01-01-2010
1053	JC 509195A	SUB	BALKAR SINGH	01-01-2010
1054	JC 508438N	SUB	BALWINDER SINGH	01-01-2010
1055	JC 164329A	SUB	CHUHAR SINGH	01-12-2009
1056	JC 508241X	SUB	GURCHARAN SINGH	01-12-2009
1057	JC 509087W	SUB	HARDEV SINGH	01-01-2010
1058	JC 508709A	SUB	NIRMAL SINGH	01-09-2009
1059	JC 508688P	SUB	PAL SINGH	01-10-2009
1060	JC 508732N	SUB	SHIV CHAND	01-09-2009

THE DOGRA REGIMENT

1061	JC 519332F	SUB	ASHOK KUMAR MANDHOTRA	01-09-2009
1062	JC 520107Y	SUB	BALBIR SINGH	01-11-2009
1063	JC 519816F	SUB	DARSHAN SINGH	01-01-2010
1064	JC 520010N	SUB	GOPAL DASS	01-09-2009
1065	JC 519346F	SUB	HEM SINGH	01-11-2009
1066	JC 519713H	SUB	ISHWAR DASS	01-11-2009
1067	JC 519958Y	SUB	KULDIP KUMAR	01-12-2009
1068	JC 520171W	SUB	MOHINDER SINGH	01-09-2009
1069	JC 520172Y	SUB	MOHINDER SINGH	01-10-2009
1070	JC 520144M	SUB	NURATA RAM	01-01-2010
1071	JC 519829Y	SUB	ONKAR SINGH	01-11-2009
1072	JC 519957W	SUB	PARKASH CHAND	01-11-2009
1073	JC 519676A	SUB	PARKASH CHAND PATIAL	01-09-2009
1074	JC 519846Y	SUB	PRITTAM CHAND	01-11-2009

1075	JC 520091Y	SUB	RAJINDER KUMAR	01-10-2009
1076	JC 519726A	SUB	RAKESH CHAND	01-01-2010
1077	JC 519485L	SUB	SHAMSHER SINGH THAKUR	01-09-2009
1078	JC 518994X	SUB	VIJAY KUMAR	01-09-2009

THE GARHWAL RIFLES

1079	JC 529123X	SUB	AMAR SINGH	01-10-2009
1080	JC 529208N	SUB	ANIL KUMAR CHAUHAN	01-11-2009
1081	JC 528999K	SUB	ASHOK KUMAR	01-10-2009
1082	JC 529794F	SUB	BACHU SINGH	01-10-2009
1083	JC 529662N	SUB	BAG SINGH	01-01-2010
1084	JC 529099M	SUB	BALWANT SINGH	01-01-2010
1085	JC 529103K	SUB	BIR SINGH	01-01-2010
1086	JC 529848X	SUB	CHANDAR SINGH	01-10-2009
1087	JC 529442K	SUB	CHANDER SINGH	01-01-2010
1088	JC 529052F	SUB	DARWAN SINGH	01-01-2010
1089	JC 529425K	SUB	DAYAL SINGH	01-01-2010
1090	JC 529744W	SUB	DHARAM GIRI	01-01-2010
1091	JC 529709N	SUB	DHARAM SINGH	01-01-2010
1092	JC 529642A	SUB	DHIRAJ SINGH	01-01-2010
1093	JC 529426M	SUB	GANESH SINGH	01-09-2009
1094	JC 529758W	SUB	GOWERDHAN PRASAD UPRAI	01-01-2010
1095	JC 529049F	SUB	JASHPAL SINGH	01-10-2009
1096	JC 529176W	SUB	JEET SINGH	01-09-2009
1097	JC 529731Y	SUB	KUNWAR SINGH	01-01-2010
1098	JC 529560X	SUB	KUSHI RAM	01-01-2010
1099	JC 529840L	SUB	LAXMAN SINGH	01-01-2010
1100	JC 530062X	SUB	MANOJ KUMAR	01-01-2010
1101	JC 529349H	SUB	MOHAN SINGH	01-01-2010
1102	JC 529793Y	SUB	MOHAN SINGH	01-01-2010
1103	JC 529849A	SUB	MOHAN SINGH	01-01-2010
1104	JC 529277K	SUB	OM PARKASH	01-12-2009
1105	JC 528934W	SUB	PAR SINGH	01-10-2009
1106	JC 529852A	SUB	PRATAP SINGH	01-01-2010
1107	JC 529677W	SUB	PUSHKAR SINGH	01-09-2009
1108	JC 529824N	SUB	PUSKAR SINGH	01-09-2009
1109	JC 529355W	SUB	RAJENDER SINGH	01-10-2009
1110	JC 529473K	SUB	RAJENDER SINGH NEGI	01-10-2009
1111	JC 528883N	SUB	RAKESH CHANDER	01-09-2009
1112	JC 529735P	SUB	RAM PARSAD	01-01-2010
1113	JC 529314M	SUB	RATTAN LAL	01-10-2009
1114	JC 529897A	SUB	SANTAN SINGH BHANDARI	01-10-2009
1115	JC 529851X	SUB	SARAT SINGH	01-10-2009
1116	JC 529325Y	SUB	SATENDER SINGH	01-01-2010
1117	JC 528746P	SUB	SATESHWAR PRASAD	01-09-2009
1118	JC 529050W	SUB	SHISHU PAL SINGH	01-10-2009
1119	JC 529150F	SUB	SISHUPAL SINGH	01-10-2009

1120	JC 529609H	SUB	SUDARSHAN NEGI	01-10-2009
1121	JC 529733K	SUB	SURENDER PRASAD	01-01-2010
1122	JC 529655X	SUB	SURENDER SINGH	01-10-2009
1123	JC 529261Y	SUB	SURESHA NAND JOSHI	01-01-2010
1124	JC 529839W	SUB	SURIYA SINGH	01-01-2010
1125	JC 529616Y	SUB	TIRATH SINGH	01-10-2009
1126	JC 529475P	SUB	UDEY SINGH	01-09-2009
1127	JC 529826Y	SUB	VIKRAM SINGH	01-09-2009
1128	JC 529857Y	SUB	YADHUVIR SINGH	01-10-2009
1129	JC 529835A	SUB	YODHVIR SINGH	01-01-2010
1130	JC 529805H	SUB	YOGAMBAR SINGH	01-09-2009

THE KUMAON REGIMENT

1131	JC 539432N	SUB	AMIR SINGH	01-11-2009
1132	JC 539288K	SUB	ANAND BALLABH	01-10-2009
1133	JC 539670A	SUB	ANAND SINGH	01-01-2010
1134	JC 539482Y	SUB	ATAR SINGH	01-01-2010
1135	JC 539536P	SUB	ATTAR SINGH	01-11-2009
1136	JC 539412A	SUB	BALWAN SINGH	01-01-2010
1137	JC 539334N	SUB	BIKRAM SINGH	01-09-2009
1138	JC 539361X	SUB	CHAMU SINGH	01-01-2010
1139	JC 539939P	SUB	CHAND SINGH	01-01-2010
1140	JC 539133P	SUB	CHHAVI NATH SINGH	01-01-2010
1141	JC 538934K	SUB	DEEP CHANDRA PANDEY	01-10-2009
1142	JC 539308M	SUB	GANESH SINGH	01-10-2009
1143	JC 539830P	SUB	GANGA SINGH	01-01-2010
1144	JC 539647M	SUB	HARAK SINGH	01-01-2010
1145	JC 539323F	SUB	HEERA SINGH	01-10-2009
1146	JC 539460A	SUB	HIRA SINGH	01-01-2010
1147	JC 538997M	SUB	INDRA SINGH	01-01-2010
1148	JC 539363H	SUB	JAGBIR SINGH	01-12-2009
1149	JC 539385F	SUB	JAGDISH SINGH	01-01-2010
1150	JC 539625N	SUB	KRISHAN SINGH	01-01-2010
1151	JC 539553P	SUB	KRISHNA NAND BHATT	01-10-2009
1152	JC 539362A	SUB	LALIT KUMAR	01-11-2009
1153	JC 539988X	SUB	LAXMI NARAYAN	01-01-2010
1154	JC 539645F	SUB	MADAN SINGH	01-01-2010
1155	JC 539490X	SUB	PIRTHAVI SINGH	01-12-2009
1156	JC 539082M	SUB	RAJ KUMAR SINGH	01-01-2010
1157	JC 539251H	SUB	RAJENDRA SINGH	01-12-2009
1158	JC 539533F	SUB	RAM BALI YADAV	01-10-2009
1159	JC 539829A	SUB	SOBAN SINGH RATHORE	01-01-2010
1160	JC 539256F	SUB	SUBHASH YADAV	01-11-2009
1161	JC 539063F	SUB	VIR SINGH	01-01-2010

THE ASSAM REGIMENT

1162	JC 548621Y	SUB	FALGUNI SINHA	01-01-2010
------	------------	-----	---------------	------------

1163	JC 548769X	SUB	NISHI KANTA SINHA	01-11-2009
1164	JC 548923L	SUB	OM BAHADUR SUNAR	01-01-2010
1165	JC 548749K	SUB	SAIENDRA KUMAR MALLIK	01-12-2009

THE BIHAR REGIMENT

1166	JC 558989P	SUB	ANIL KUMAR	01-10-2009
1167	JC 559114L	SUB	ASHOK KUMAR MOHAPATRA	01-01-2010
1168	JC 558688L	SUB	AWADHESH PRASAD SINGH	01-09-2009
1169	JC 558776F	SUB	BERTHOLOMIUS TIRKEY	01-01-2010
1170	JC 559216F	SUB	BHAGWAN LAL ROY	01-01-2010
1171	JC 558660L	SUB	BHAGWAN SINGH	01-11-2009
1172	JC 559051N	SUB	BIJAY KUMAR SINGH	01-01-2010
1173	JC 559511K	SUB	CYRIL TOPPO	01-01-2010
1174	JC 559268X	SUB	FUDAN MAJHI	01-10-2009
1175	JC 559091P	SUB	HARIHAR NAYAK	01-01-2010
1176	JC 558944P	SUB	JOHN KONGARI	01-01-2010
1177	JC 559302M	SUB	KAILASH CHANDRA LENKA	01-01-2010
1178	JC 559439Y	SUB	MAHESH KUMAR SINGH	01-01-2010
1179	JC 558779P	SUB	NAR SINGH MISHRA	01-11-2009
1180	JC 559022Y	SUB	PARMESHWAR SINGH	01-10-2009
1181	JC 558882A	SUB	PREM CHANDRA MISHRA	01-10-2009
1182	JC 559162L	SUB	RAGHUVANS PRASAD SINGH	01-11-2009
1183	JC 559203K	SUB	RAJ KISHORE SINGH	01-11-2009
1184	JC 559174A	SUB	RAMA NAND SINGH	01-01-2010
1185	JC 559025M	SUB	RAMA SHANKAR SINGH	01-01-2010
1186	JC 559276W	SUB	SILVANES BILUNG	01-11-2009
1187	JC 558863P	SUB	SONIKA HEMBROM	01-01-2010
1188	JC 558900X	SUB	SRIDHAR DASH	01-01-2010
1189	JC 559331F	SUB	SUDARSHAN SINGH	01-01-2010
1190	JC 558917L	SUB	SURENDRA KUMAR SINGH	01-12-2009
1191	JC 558689N	SUB	TAPESHWAR YADAV	01-09-2009
1192	JC 559288L	SUB	UPENDRA CHANDRA SARKAR	01-01-2010
1193	JC 559308N	SUB	VIRENDRA SINGH	01-01-2010

THE MAHAR REGIMENT

1194	JC 569215M	SUB	AAN SINGH	01-10-2009
1195	JC 569029W	SUB	ADHAWE AMBADAS TUKARAM	01-01-2010
1196	JC 569484Y	SUB	BIKRAM SINGH KARKI	01-09-2009
1197	JC 568818W	SUB	DAYARAM ISHRAM GANANDA	01-01-2010
1198	JC 569061L	SUB	JIWAN LAL SHARMA	01-10-2009
1199	JC 568937M	SUB	KARANVIR SINGH PANWAR	01-09-2009
1200	JC 569434N	SUB	LAKHAN SINGH	01-09-2009
1201	JC 569578W	SUB	MAHAKANT JHA	01-01-2010
1202	JC 568939X	SUB	NASIB SINGH	01-12-2009
1203	JC 569295P	SUB	PARTAP SINGH	01-01-2010
1204	JC 569561H	SUB	PRAMOD KUMAR	01-01-2010
1205	JC 569139L	SUB	PURAN RAM	01-10-2009

1206	JC 569501N	SUB	RAJ KUWAR	01-01-2010
1207	JC 569505K	SUB	RAM LAL	01-01-2010
1208	JC 569362P	SUB	RAM PRAKASH	01-01-2010
1209	JC 568886K	SUB	RAMPAL SINGH TOMAR	01-09-2009
1210	JC 568941P	SUB	REGHUNADHA PILLAI R B	01-12-2009
1211	JC 568997F	SUB	SURENDRA PRASAD SAH	01-12-2009
1212	JC 569488P	SUB	SURESH SINGH	01-01-2010

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

1213	JC 579814A	SUB	AMIN CHAND	01-01-2010
1214	JC 579927H	SUB	GANESH BAHADUR THAPA	01-01-2010
1215	JC 579441X	SUB	KASHMIR SINGH	01-12-2009
1216	JC 579577F	SUB	MAST RAM	01-12-2009
1217	JC 579944H	SUB	NAVEEN KUMAR RANA	01-09-2009
1218	JC 579638N	SUB	PARAMJIT SINGH	01-12-2009
1219	JC 579661F	SUB	RAGHUBIR SINGH	01-09-2009
1220	JC 580095Y	SUB	SULTAN SINGH	01-10-2009
1221	JC 580079F	SUB	TARSEM SINGH	01-10-2009

THE LADAKH SCOUTS

1222	JC 588169X	SUB	SONAM ZANGBO	01-10-2009
1223	JC 588045H	SUB	TSERING ANGCHOK	01-10-2009

THE NAGA REGIMENT

1224	JC 590155W	SUB	AJAY KUMAR GURUNG	01-01-2010
1225	JC 590140N	SUB	KAMAL BAHADUR	01-01-2010
1226	JC 590126F	SUB	KAMAL BAHADUR THAPA	01-10-2009
1227	JC 590174F	SUB	TEK BAHADUR CHETRI	01-01-2010

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

1228	JC 592594A	SUB	DES RAJ	01-10-2009
------	------------	-----	---------	------------

1 GORKHA RIFLES

1229	JC 602531N	SUB	BAL BAHADUR THAPA	01-12-2009
1230	JC 602536M	SUB	BHARAT BAHADUR THAPA	01-12-2009
1231	JC 602397N	SUB	BHES SHANKER PURI	01-10-2009
1232	JC 602198A	SUB	PARVINDRA RANA	01-12-2009
1233	JC 602504K	SUB	RAM BAHADUR THAPA MAGAR	01-12-2009
1234	JC 602633K	SUB	RAM BHAGAT MOR	01-11-2009
1235	JC 602478N	SUB	RAN BAHADUR THAPA	01-09-2009

3 GORKHA RIFLES

1236	JC 607570W	SUB	GUMAN SINGH THAPA	01-12-2009
1237	JC 607491F	SUB	PREM BAHADUR THAPA	01-01-2010
1238	JC 607493M	SUB	PURNA BAHADUR GURUNG	01-01-2010
1239	JC 607489K	SUB	RAM BAHADUR THAPA	01-09-2009
1240	JC 607216F	SUB	ROHTAS	01-11-2009

4 GORKHA RIFLES

1241	JC 612342X	SUB	ARVIND SINGH THAPA	01-09-2009
1242	JC 612407A	SUB	HARI BAHADUR THAPA	01-10-2009
1243	JC 612479K	SUB	LAL BAHADUR RANA	01-01-2010
1244	JC 612447F	SUB	MAN RAJ GURUNG	01-01-2010
1245	JC 612439H	SUB	MOHAN BAHADUR GURUNG	01-12-2009
1246	JC 612496K	SUB	PADAM BAHADUR THAPA	01-01-2010
1247	JC 612371M	SUB	RAJ BAHADUR GURUNG	01-09-2009
1248	JC 612385M	SUB	RUDRA BAHADUR GURUNG	01-09-2009
1249	JC 612211M	SUB	SUBASH CHAND GUPTA	01-09-2009
1250	JC 612472A	SUB	YAM BAHADUR DHUREL MAGAR	01-01-2010
1251	JC 612180X	SUB	YOUNGUL PRASAD	01-01-2010

5 GORKHA RIFLES

1252	JC 617675N	SUB	BAL BAHADUR ALE	01-12-2009
1253	JC 617757N	SUB	GANGA BAHADUR THAPA	01-01-2010
1254	JC 617582Y	SUB	KHIM BAHADUR THAPA	01-01-2010
1255	JC 617724L	SUB	KRISHNA BAHADUR RANA	01-11-2009
1256	JC 617553K	SUB	MAN BAHADUR GURUNG	01-01-2010
1257	JC 617674L	SUB	NAR BAHADUR THAPA	01-12-2009
1258	JC 617605M	SUB	SURYA BAHADUR THAPA	01-01-2010

8 GORKHA RIFLES

1259	JC 623516M	SUB	BABU RAM ADHIKARI	01-01-2010
1260	JC 623607W	SUB	BISHNU BAHADUR THAPA	01-01-2010
1261	JC 623408H	SUB	DANDA BAHADUR ALE	01-12-2009
1262	JC 623562F	SUB	PURNA BAHADUR THAPA	01-09-2009
1263	JC 623632P	SUB	RAM BAHADUR THAPA	01-01-2010
1264	JC 623568H	SUB	TUK BAHADUR RANA	01-11-2009
1265	JC 623541L	SUB	YAM BAHADUR TAMANG	01-12-2009

9 GORKHA RIFLES

1266	JC 629541F	SUB	DEBENDRA PRASAD CHHETRI	01-12-2009
1267	JC 629495X	SUB	PUSHKAR CHAND	01-01-2010
1268	JC 629490Y	SUB	SUDESH KUMAR	01-11-2009

11 GORKHA RIFLES

1269	JC 634146X	SUB	ARUN RAI	01-10-2009
1270	JC 634540H	SUB	BIKARAM PACHABHAIYA	01-09-2009
1271	JC 634445W	SUB	BIR BAHADUR SHRATHA	01-10-2009
1272	JC 634322K	SUB	DIL KUMAR SHRESTA	01-12-2009
1273	JC 634397F	SUB	LIL BAHADUR LIMBU	01-12-2009
1274	JC 634476W	SUB	MADHAV SHRESTHA	01-12-2009
1275	JC 634455A	SUB	MANI KUMAR RAI	01-09-2009
1276	JC 634474L	SUB	MOHINDER BAHADUR RAI	01-12-2009
1277	JC 634568H	SUB	NAR BAHADUR RAI	01-09-2009

1278	JC 634585H	SUB	PADAM BAHADUR LIMBU	01-01-2010
1279	JC 634560W	SUB	PRAKASH CHANDRA TAMANG	01-01-2010
1280	JC 634370K	SUB	PRAKASH LIMBU	01-12-2009
1281	JC 634529K	SUB	RATNA THAPA	01-01-2010
1282	JC 634441A	SUB	SAHAR MAN LIMBU	01-01-2010
1283	JC 634374A	SUB	SUDAN RAI	01-01-2010
1284	JC 634500F	SUB	SURENDER KUMAR	01-01-2010

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

1285	JC 662729W	SUB	ABHAI RAJ SINGH	01-12-2009
1286	JC 641425L	SUB	ABHIMANYU BAHADUR SINGH	01-10-2009
1287	JC 662669M	SUB	ARVIND KUMAR	01-11-2009
1288	JC 662869H	SUB	AVAY KUMAR JHA	01-10-2009
1289	JC 642409A	SUB	AVAY KUMAR PANDEY	01-12-2009
1290	JC 662888N	SUB	BAJRANG BALI	01-01-2010
1291	JC 641792Y	SUB	BALWINDER PAL SINGH	01-01-2010
1292	JC 662745N	SUB	BANARASH SINGH	01-11-2009
1293	JC 663236F	SUB	BARIA RANJIT SINH SUR SINH	01-11-2009
1294	JC 641105W	SUB	BASHISHT NARAYAN SINGH	01-11-2009
1295	JC 641003A	SUB	BHAWAN SINGH ADHIKARI	01-10-2009
1296	JC 641850W	SUB	BIJOYA KUMAR SAHU	01-09-2009
1297	JC 641849F	SUB	BIRANCHI NARAYAN DAS	01-09-2009
1298	JC 662693H	SUB	BRAJ NATH	01-01-2010
1299	JC 662823A	SUB	CHINTA MANI	01-09-2009
1300	JC 642126Y	SUB	DAMODAR NAYAK	01-12-2009
1301	JC 640970H	SUB	DARSHAN KUMAR SHARMA	01-01-2010
1302	JC 662940L	SUB	DAYA SHANKAR SINGH	01-12-2009
1303	JC 642413H	SUB	DHANANJAYA SINGH CHAUHAN	01-01-2010
1304	JC 642125W	SUB	DHOOM SINGH	01-10-2009
1305	JC 662695N	SUB	DINESHWAR SINGH	01-01-2010
1306	JC 662901M	SUB	GAGAN CHANDRA BARUAH	01-09-2009
1307	JC 662719M	SUB	GEDELA NAGESWAR RAO	01-10-2009
1308	JC 641428Y	SUB	GOPAL SINGH YADAV	01-12-2009
1309	JC 642765A	SUB	GOVIND SINGH GEHLOT	01-11-2009
1310	JC 662694L	SUB	HARI KUNWAR PRASAD	01-01-2010
1311	JC 642518M	SUB	HARI RAM YADAV	01-01-2010
1312	JC 662747Y	SUB	HARI SINGH MEHRA	01-01-2010
1313	JC 641268K	SUB	HARINAM SINGH	01-01-2010
1314	JC 641769K	SUB	HEM RAJ	01-01-2010
1315	JC 642524A	SUB	HEMANTA KUMAR DAS	01-01-2010
1316	JC 642515Y	SUB	HIRA CHAND	01-01-2010
1317	JC 662632L	SUB	HIRA SINGH ADHIKARI	01-11-2009
1318	JC 662635Y	SUB	HOSHIYAR SINGH	01-11-2009
1319	JC 641774P	SUB	INDRAJIT MISHRA	01-10-2009
1320	JC 642516F	SUB	INDRAJIT PRASAD	01-01-2010
1321	JC 642054A	SUB	ISHWAR SINGH	01-09-2009
1322	JC 663337P	SUB	JAGROOP SINGH	01-11-2009

1323	JC 641120L	SUB	JASBIR SINGH KANWAR	01-12-2009
1324	JC 642406M	SUB	K NEDUNCHELIYAN	01-12-2009
1325	JC 662688X	SUB	KAILASH CHAND	01-12-2009
1326	JC 641116H	SUB	KAMAL KANT TIWARI	01-11-2009
1327	JC 662887L	SUB	KARAKAR MANASUKH PREMAJI	01-01-2010
1328	JC 641970P	SUB	KHADGA SINGH CHAUHAN	01-10-2009
1329	JC 641430W	SUB	KISHORI LAL	01-12-2009
1330	JC 662660X	SUB	KRISHAN SINGH	01-12-2009
1331	JC 641265W	SUB	KRUPA SINDHU SAHOO	01-01-2010
1332	JC 642974X	SUB	LALA RAM	01-10-2009
1333	JC 662714N	SUB	LIYAKAT ALI	01-01-2010
1334	JC 662895K	SUB	MADAN CHOUBEY	01-10-2009
1335	JC 662676H	SUB	MAHARAJ SINGH	01-11-2009
1336	JC 642411X	SUB	MAHARAJAN J	01-12-2009
1337	JC 641523L	SUB	MAHENDER SINGH NAGRA	01-01-2010
1338	JC 641694X	SUB	MASTAN SINGH	01-12-2009
1339	JC 662664N	SUB	MEER IMAME JAFAR	01-12-2009
1340	JC 642708Y	SUB	MOHAN SINGH	01-01-2010
1341	JC 642528W	SUB	MURLI PRASAD	01-01-2010
1342	JC 641423A	SUB	N GUNINDRA SINGHA	01-01-2010
1343	JC 641126M	SUB	NAFE SINGH KADIAN	01-10-2009
1344	JC 641513F	SUB	NANDAN SINGH	01-11-2009
1345	JC 662652Y	SUB	NARBDESHWAR SINGH	01-10-2009
1346	JC 641086W	SUB	OM PRAKASH VERMA	01-11-2009
1347	JC 642837Y	SUB	PANKAJAKSHAN K P	01-12-2009
1348	JC 642045Y	SUB	PATWARI	01-10-2009
1349	JC 662811L	SUB	PAWAR VILU HARI CHANDRA	01-09-2009
1350	JC 662656P	SUB	PRASANNA KUMAR BARIK	01-11-2009
1351	JC 641429F	SUB	PRASANTA KUMAR RAKSHIT	01-11-2009
1352	JC 642525H	SUB	PRAVAKAR MOHANTA	01-01-2010
1353	JC 641330L	SUB	PRAVIN KUMAR	01-12-2009
1354	JC 662686M	SUB	PRITHI SINGH	01-11-2009
1355	JC 662657X	SUB	PRIYA DARSHI JHA	01-11-2009
1356	JC 642121A	SUB	PUSHKAR SINGH	01-11-2009
1357	JC 642403Y	SUB	R VELUCHAMY	01-12-2009
1358	JC 642762M	SUB	RADHA KRISHAN UNNITHAN R	01-01-2010
1359	JC 641260X	SUB	RAGUPATHI V D	01-12-2009
1360	JC 662711A	SUB	RAJ KUMAR MISHRA	01-11-2009
1361	JC 642971K	SUB	RAJENDER KUMAR SONI	01-10-2009
1362	JC 662634W	SUB	RAJENDRA PRASAD TIWARI	01-11-2009
1363	JC 641084L	SUB	RAJESH BAHADUR SINGH	01-10-2009
1364	JC 641376N	SUB	RAM KISHAN	01-12-2009
1365	JC 662682W	SUB	RAM KRISHAN PANDEY	01-11-2009
1366	JC 662689A	SUB	RAM NARESH PAL	01-12-2009
1367	JC 662730L	SUB	RAM NARESH SINGH	01-12-2009
1368	JC 662662H	SUB	RAMBINOD SINGH	01-12-2009
1369	JC 663239P	SUB	RAMESH CHANDER	01-01-2010

1370	JC 663460N	SUB	RAMESH CHANDRA	01-12-2009
1371	JC 640351P	SUB	RANJIT SINGH SAGAR	01-09-2009
1372	JC 662700N	SUB	RASHIDUL ISLAM	01-10-2009
1373	JC 642578F	SUB	RATNESH KUMAR SINGH	01-12-2009
1374	JC 642416W	SUB	REWAT SINGH	01-01-2010
1375	JC 641259H	SUB	RISHI RAJ	01-12-2009
1376	JC 662715W	SUB	SADA RAM	01-01-2010
1377	JC 642547F	SUB	SAHAJALAL MIA	01-01-2010
1378	JC 662712H	SUB	SAJAN SINGH	01-12-2009
1379	JC 662713L	SUB	SALIK RAM	01-12-2009
1380	JC 642486P	SUB	SATWINDER SINGH	01-01-2010
1381	JC 642526L	SUB	SHANTANU KUMAR SUBUDHI	01-01-2010
1382	JC 641992N	SUB	SHATRUGHAN MISHRA	01-10-2009
1383	JC 642081P	SUB	SHER SINGH YADAV	01-09-2009
1384	JC 662661A	SUB	SHIRISH KUMAR BISWAS	01-12-2009
1385	JC 642847H	SUB	SHRI MANNARAYAN RAM	01-01-2010
1386	JC 641790M	SUB	SUDHAKARAN N V	01-12-2009
1387	JC 641911H	SUB	SUDHAKARAN P	01-01-2010
1388	JC 642521M	SUB	SUKH MAN RAI	01-01-2010
1389	JC 641104N	SUB	SUNDAR TIWARI	01-11-2009
1390	JC 641859L	SUB	SURENDRA SINGH BISHTA	01-09-2009
1391	JC 663177A	SUB	SURESH BABU CH	01-10-2009
1392	JC 641672Y	SUB	SURESH CHAND SAINI	01-09-2009
1393	JC 642144F	SUB	SURESH KUMAR	01-12-2009
1394	JC 662654K	SUB	SURESH KUMAR	01-11-2009
1395	JC 641696H	SUB	SURESH KUMAR PANDEY	01-12-2009
1396	JC 642027W	SUB	TARA CHAND	01-12-2009
1397	JC 662728N	SUB	TRILOKI SINGH	01-12-2009
1398	JC 641282W	SUB	UDAI PAL SINGH	01-01-2010
1399	JC 641118N	SUB	UDAY KUMAR YADAV	01-11-2009
1400	JC 641108K	SUB	UMA SHANKAR MISHRA	01-11-2009
1401	JC 641788P	SUB	UNNI KRISHNAN PALADAN	01-09-2009
1402	JC 641145X	SUB	UNNIKRISHNAN NAIR K	01-09-2009
1403	JC 641085N	SUB	UTTAM KUMAR BARUA	01-10-2009
1404	JC 662724X	SUB	V GOPAL ACHARI	01-01-2010
1405	JC 662675A	SUB	VIJAY KUMAR	01-10-2009
1406	JC 641862L	SUB	VIJAY KUMAR BHATIA	01-10-2009
1407	JC 662685K	SUB	VIRPAL SINGH	01-09-2009

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

1408	JC 680744N	RIS	KEDAR NATH MISHRA	01-10-2009
1409	JC 680745W	RIS	RAM DAS KURMI	01-11-2009
1410	JC 680720K	RIS	SANMAN SINGH	01-10-2009
1411	JC 680735M	RIS	TOTA RAM	01-09-2009
1412	JC 680661H	RIS	UMAKANTA MOHANTY	01-10-2009

ARMY MEDICAL CORPS

1413	JC 694441K	SUB	AJIT KUMAR TALUKDAR	01-10-2009
1414	JC 693577F	SUB	AJIT SINGH CHHILLAR	01-01-2010
1415	JC 694524P	SUB	ANAND SINGH	01-10-2009
1416	JC 691410Y	SUB	ANIL KUMAR SINGH	01-11-2009
1417	JC 694134M	SUB	ANIRUDH PRASAD	01-10-2009
1418	JC 691928M	SUB	ASHOK KUMAR SHRIVASTAVA	01-09-2009
1419	JC 691675H	SUB	BABU R	01-01-2010
1420	JC 694953W	SUB	BAG SINGH RAWAT	01-09-2009
1421	JC 692612M	SUB	BALDEV SHANKAR	01-10-2009
1422	JC 694094W	SUB	BRAJA KISHOR PANDA	01-11-2009
1423	JC 691414P	SUB	CHITA RANJAN MUNI	01-10-2009
1424	JC 693624N	SUB	CHITTARANJAN KAR	01-12-2009
1425	JC 691189L	SUB	DAYA SHANKAR RAI	01-09-2009
1426	JC 693933W	SUB	DEENA NATH PRASAD	01-12-2009
1427	JC 694526A	SUB	DESH RAJ	01-11-2009
1428	JC 691519Y	SUB	DEVENDRA NATH TIWARI	01-10-2009
1429	JC 691598Y	SUB	DHANESWAR SAMAL	01-09-2009
1430	JC 693374X	SUB	DHARM NATH PRASAD	01-12-2009
1431	JC 694087A	SUB	DHARM VIR SINGH	01-09-2009
1432	JC 691435L	SUB	DHRUBANANDA KAR	01-10-2009
1433	JC 694681F	SUB	DINESH KUMAR PANDEY	01-01-2010
1434	JC 694080W	SUB	GAWALI SURESH DNYANARAJ	01-09-2009
1435	JC 691513X	SUB	HARE RAM SINGH	01-09-2009
1436	JC 694079F	SUB	HARI MOHAN	01-09-2009
1437	JC 695031A	SUB	INDRAJEET THAKUR	01-12-2009
1438	JC 693626Y	SUB	JAGJIT SINGH	01-01-2010
1439	JC 695593X	SUB	JALESHWAR RAI	01-08-2009
1440	JC 693861X	SUB	JAYANT KUMAR NAYAK	01-10-2009
1441	JC 691671M	SUB	JUGAL KISHORE BIRDI	01-12-2009
1442	JC 692515P	SUB	KAILASH CHANDRA JOSHI	01-12-2009
1443	JC 692979M	SUB	KAILASH CHANDRA MOHANTY	01-10-2009
1444	JC 694185A	SUB	KALI KUMAR DUTTA	01-10-2009
1445	JC 694103M	SUB	KAMAL SINGH DASILA	01-09-2009
1446	JC 694195K	SUB	KHAJUR SINGH	01-10-2009
1447	JC 691899H	SUB	KORE ASHOK RAM CHANDRA	01-10-2009
1448	JC 691522Y	SUB	LALLAN BAITHA	01-11-2009
1449	JC 694707L	SUB	M MANOHARAN	01-12-2009
1450	JC 693947W	SUB	MANGAL SINGH	01-01-2010
1451	JC 692217Y	SUB	MURUGAIYAN S	01-10-2009
1452	JC 691673X	SUB	NET RAM SHARMA	01-12-2009
1453	JC 694082F	SUB	NILMANI SINGHA RAJKUMAR	01-09-2009
1454	JC 690188W	SUB	NIMAI CHANDRA MANDAL	01-11-2009
1455	JC 691515H	SUB	OM PRAKASH RAI	01-09-2009
1456	JC 693030Y	SUB	PHOOL BADAN SINGH	01-10-2009
1457	JC 691602W	SUB	PRAFULLA KUMAR SAHOO	01-09-2009

1458	JC 691495A	SUB	PRAVAT KUMAR BEHERA	01-09-2009
1459	JC 694299L	SUB	R K SHARMA	01-01-2010
1460	JC 695122K	SUB	RADHEY SHYAM PARSAD YADAV	01-11-2009
1461	JC 694104P	SUB	RAGHUNATH NAYAK	01-10-2009
1462	JC 694956K	SUB	RAJAN PANJAT	01-01-2010
1463	JC 691517N	SUB	RAJENDRA MAHTO	01-10-2009
1464	JC 693618A	SUB	RAM ABHILASH	01-11-2009
1465	JC 694054P	SUB	RAM KESHAR	01-09-2009
1466	JC 694583F	SUB	RAMESHWAR SINGH	01-01-2010
1467	JC 691518W	SUB	RANBIR SINGH	01-10-2009
1468	JC 694133K	SUB	S C NAYAK	01-10-2009
1469	JC 691528A	SUB	S K GHOSH	01-12-2009
1470	JC 693320W	SUB	S VIAJAYA KUMARAN	01-09-2009
1471	JC 691677N	SUB	SADANANDA MUKHERJEE	01-10-2009
1472	JC 694044L	SUB	SASIDHARAN PILLAI S	01-10-2009
1473	JC 694585M	SUB	SATISH KUMAR RAI	01-01-2010
1474	JC 691523F	SUB	SITANGSHU ROY	01-11-2009
1475	JC 691521W	SUB	SIYA RAM	01-11-2009
1476	JC 694857F	SUB	SUDARSHAN SINGH CHAND	01-11-2009
1477	JC 691929P	SUB	SUKHBIR SINGH	01-10-2009
1478	JC 691514A	SUB	SUNIL KUMAR PANDEY	01-09-2009
1479	JC 694680Y	SUB	SURESH KUMAR	01-01-2010
1480	JC 694153X	SUB	SURESH PRASAD	01-10-2009
1481	JC 691865P	SUB	UDAY NARAYAN MISHRA	01-10-2009
1482	JC 691600L	SUB	UMESH KUMAR SHARMA	01-09-2009
1483	JC 693541H	SUB	VED PRAKASH MISHRA	01-01-2010
1484	JC 691991F	SUB	VINOD KUMAR THAKUR	01-12-2009
1485	JC 691512P	SUB	YOGESH CHANDRA SINGH YADAV	01-09-2009

ARMY ORDNANCE CORPS

1486	JC 724848X	SUB	ANUP KUMAR	01-01-2010
1487	JC 723734A	SUB	ASHOK KUMAR GUPTA	01-10-2009
1488	JC 725718F	SUB	BALRAJ SINGH	01-10-2009
1489	JC 724820X	SUB	BHATT DAYANAND HARIDATT	01-10-2009
1490	JC 723731M	SUB	BHUP SINGH	01-11-2009
1491	JC 723735H	SUB	BHUPAL SINGH	01-12-2009
1492	JC 724741H	SUB	BIJAY NARAIN	01-12-2009
1493	JC 723654H	SUB	BIRENDRA KUMAR SINGH	01-10-2009
1494	JC 724566Y	SUB	BISHAMBAR SINGH	01-09-2009
1495	JC 724339Y	SUB	CHAKRADHAR	01-12-2009
1496	JC 724849A	SUB	CHUNI LAL	01-01-2010
1497	JC 726593F	SUB	DEVESH PANDEY	01-01-2010
1498	JC 725588K	SUB	DHARAM PAL	01-10-2009
1499	JC 723001F	SUB	DIGAMBAR SINGH	01-01-2010
1500	JC 298699F	SUB	DINKAR DHONDIBA PANDHRE	01-09-2009
1501	JC 723649X	SUB	GAJANDER SINGH	01-10-2009
1502	JC 724673A	SUB	GANESH PRASAD YADAV	01-11-2009

1503	JC	724587P	SUB	GURNAM SINGH	01-09-2009
1504	JC	724950A	SUB	HARE RAM SINGH	01-09-2009
1505	JC	725275L	SUB	HOSHIAR SINGH	01-09-2009
1506	JC	724959P	SUB	JAGDISH SINGH	01-01-2010
1507	JC	724742L	SUB	JAGMAL SINGH	01-12-2009
1508	JC	725269X	SUB	JANARDHANAN MAVILA	01-12-2009
1509	JC	722982K	SUB	JEEWAN SINGH	01-01-2010
1510	JC	724867H	SUB	JOGINDER SINGH YADAV	01-01-2010
1511	JC	724409M	SUB	K R MADHUSUDHAN	01-01-2010
1512	JC	725335P	SUB	KARUNAN C V	01-12-2009
1513	JC	724779M	SUB	KASHMIR SINGH	01-01-2010
1514	JC	725137K	SUB	KEWAL SINGH MUAL	01-09-2009
1515	JC	724670M	SUB	KRISHAN LAL GOGAYAN	01-10-2009
1516	JC	724611A	SUB	KRISHNA CHAND SWANSI	01-12-2009
1517	JC	722713X	SUB	KULJEET SINGH	01-11-2009
1518	JC	724606P	SUB	MADAN LAL	01-09-2009
1519	JC	726509W	SUB	MAFIZUL HAQUE	01-10-2009
1520	JC	723820L	SUB	MAHENDER SINGH	01-09-2009
1521	JC	724396A	SUB	MILAN KUMAR BASU	01-01-2010
1522	JC	724590P	SUB	MOHINDER PAL	01-09-2009
1523	JC	724506K	SUB	MONIRUDDIN SHEIKH	01-07-2009
1524	JC	723724W	SUB	NANDAKUMAR K K	01-09-2009
1525	JC	726487H	SUB	NANDKISHORE THAKUR	01-09-2009
1526	JC	723089W	SUB	NIRANJAN GHOSH	01-10-2009
1527	JC	723176K	SUB	NIRMAL SINGH	01-10-2009
1528	JC	724674H	SUB	NITYA NAND SHARMA	01-11-2009
1529	JC	724588X	SUB	PANJAB SINGH	01-09-2009
1530	JC	724672X	SUB	PARSHOTAM CHAND	01-10-2009
1531	JC	724591X	SUB	PREM SINGH RAWAT	01-10-2009
1532	JC	726073W	SUB	RABENDRA SINGH RAGHAV	01-01-2010
1533	JC	724797P	SUB	RAJ KISHORE TIWARI	01-01-2010
1534	JC	722855P	SUB	RAJAN SINGH	01-10-2009
1535	JC	724777F	SUB	RAJENDRA KUMAR	01-01-2010
1536	JC	723818N	SUB	RAJIBA CHARAN MAHAPATRA	01-12-2009
1537	JC	723840Y	SUB	RAJVIR SINGH RANA	01-11-2009
1538	JC	724589A	SUB	RAM BACHAN	01-10-2009
1539	JC	724723A	SUB	RAM BILASH YADAV	01-12-2009
1540	JC	724800K	SUB	RAM KISHORE VERMA	01-01-2010
1541	JC	726505A	SUB	RAM PRAYAG RAM	01-09-2009
1542	JC	724981A	SUB	RAM SWAROOP MISHRA	01-01-2010
1543	JC	725107M	SUB	RAMANAND MOURIYA	01-01-2010
1544	JC	724569M	SUB	RAMESWAR	01-10-2009
1545	JC	723737N	SUB	RANVIR SINGH	01-09-2009
1546	JC	723815A	SUB	RATAN SINGH KARAWASARA	01-12-2009
1547	JC	724814K	SUB	RAVEENDRA DEVALAPUR	01-01-2010
1548	JC	726065X	SUB	RAVI LAL	01-11-2009
1549	JC	725531P	SUB	RAVINDRA KUMAR	01-11-2009

1550	JC 724197M	SUB	SAT PAUL	01-01-2010
1551	JC 724516N	SUB	SD JALALUDDIN AHMED	01-01-2010
1552	JC 724716K	SUB	SHESHA DEVA MISHRA	01-12-2009
1553	JC 725319X	SUB	SHYAMAL KUMAR MANDAL	01-12-2009
1554	JC 724761W	SUB	SIYA RAM	01-01-2010
1555	JC 724041P	SUB	SUBH RAM	01-09-2009
1556	JC 724657H	SUB	SUDHAKER LAL	01-10-2009
1557	JC 724568K	SUB	SUDHIR SINGH PARIHAR	01-10-2009
1558	JC 725822P	SUB	SUKHDEV SINGH	01-12-2009
1559	JC 724775W	SUB	SUMER SINGH	01-12-2009
1560	JC 724687A	SUB	SURENDRA NATH YADAV	01-11-2009
1561	JC 724750K	SUB	SURESH CHANDRA	01-01-2010
1562	JC 724798X	SUB	TARA CHAND	01-01-2010
1563	JC 726614M	SUB	TOPLAL CHHETRI	01-01-2010
1564	JC 724608A	SUB	TRILOK SINGH	01-11-2009
1565	JC 724722X	SUB	UMA SHANKAR SHARMA	01-10-2009
1566	JC 723870W	SUB	UTTAM KUMAR LIMBU	01-12-2009
1567	JC 723740N	SUB	VIJAYAKUMARAN NAIR	01-11-2009
1568	JC 725086F	SUB	YADU NATH SINGH	01-12-2009
1569	JC 723653A	SUB	YASIN KHAN	01-10-2009
1570	JC 724557X	SUB	YERRAM REDDY LAKSHNA REDDY	01-09-2009
1571	JC 724755H	SUB	YUDHBIR SINGH RAGHAWA	01-01-2010

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

1572	JC 751526F	SUB	ABINASH TIGGA	01-12-2009
1573	JC 752037H	SUB	ANIL KUMAR CHAUDHARY	01-11-2009
1574	JC 754236P	SUB	ANTONY RAJ M	01-12-2009
1575	JC 751559M	SUB	ARUN BORA	01-09-2009
1576	JC 751935P	SUB	ASHOK KUMAR	01-10-2009
1577	JC 753057H	SUB	ASHOK KUMAR	01-12-2009
1578	JC 751675P	SUB	ASHOK KUMAR SHARMA	01-01-2010
1579	JC 759243P	SUB	ATAR SINGH PAL	01-10-2009
1580	JC 751747N	SUB	AVTAR SINGH	01-10-2009
1581	JC 757203P	SUB	B LAL BAHADUR	01-11-2009
1582	JC 756312P	SUB	BALESHWAR PRASAD VARMA	01-10-2009
1583	JC 751203Y	SUB	BALRAJ SINGH	01-09-2009
1584	JC 754676H	SUB	BALWAN SINGH	01-10-2009
1585	JC 755906X	SUB	BANSHU PRASAD VERMA	01-09-2009
1586	JC 758088M	SUB	BHAGWAN DAS	01-11-2009
1587	JC 752246A	SUB	BHRIGUNATH RAM	01-10-2009
1588	JC 758636Y	SUB	BHUBANESWAR NAYAK	01-10-2009
1589	JC 757218X	SUB	BHUP NARAIN THAKUR	01-09-2009
1590	JC 759242M	SUB	BIDHAN CHANDRA RAY	01-10-2009
1591	JC 753788W	SUB	BIDHI SINGH VERMA	01-10-2009
1592	JC 750622K	SUB	BIMBADHAR SWAIN	01-10-2009
1593	JC 758866N	SUB	BINOD KUMAR SINGH	01-10-2009
1594	JC 756770L	SUB	BISHAN PAL SINGH	01-09-2009

1595	JC 756087L	SUB	BISHNU PADA MISHRA	01-09-2009
1596	JC 753446H	SUB	BORKAR MARUTI JAIWANTA	01-10-2009
1597	JC 752658F	SUB	BRIJ KISHORE	01-10-2009
1598	JC 750588P	SUB	C RAMACHANDRAN	01-11-2009
1599	JC 751471H	SUB	CHAIN SINGH	01-10-2009
1600	JC 751476F	SUB	CHANDER PARKASH	01-01-2010
1601	JC 752691Y	SUB	CHANDRA SEKHAR LAKKUNDI	01-12-2009
1602	JC 759246H	SUB	CHANDRA SHEKHAR TRIPATHI	01-10-2009
1603	JC 753912M	SUB	DAHAT BALADHAN SHRAWAN	01-10-2009
1604	JC 754179Y	SUB	DAYANAND	01-10-2009
1605	JC 758641K	SUB	DEBI DATT	01-11-2009
1606	JC 758642M	SUB	DESH RAJ	01-01-2010
1607	JC 751836M	SUB	DEVANAND VASISHTHA	01-10-2009
1608	JC 750504W	SUB	DHARAM BIR	01-09-2009
1609	JC 750593A	SUB	DHARAMVIR KAUSHIK	01-09-2009
1610	JC 750619K	SUB	DINESH SINGH CHAND	01-09-2009
1611	JC 759092F	SUB	DOODH NATH RAM	01-09-2009
1612	JC 759150A	SUB	GOKAL LAL REGAR	01-09-2009
1613	JC 756131K	SUB	GOPAL MISHRA	01-12-2009
1614	JC 756172N	SUB	GOPAL UPADHYAY	01-09-2009
1615	JC 752956X	SUB	GOUR CHANDRA MANDAL	01-10-2009
1616	JC 753914X	SUB	GRISH CHANDRA	01-10-2009
1617	JC 751324A	SUB	GURDIP SINGH	01-12-2009
1618	JC 752653H	SUB	HARGOVIND NAMDEV	01-10-2009
1619	JC 750436N	SUB	HA WALDAR SINGH	01-12-2009
1620	JC 754048N	SUB	JACOB CHERIAN	01-12-2009
1621	JC 754052W	SUB	JAGANATHA KURUP KB	01-10-2009
1622	JC 752720H	SUB	JAI KANWAR SINGH	01-01-2010
1623	JC 756424P	SUB	JAI SINGH	01-12-2009
1624	JC 754339N	SUB	JOGINDER SINGH	01-12-2009
1625	JC 752201A	SUB	K SAMBATH	01-12-2009
1626	JC 752647P	SUB	KAMATA PRASAD SINHA	01-09-2009
1627	JC 753305N	SUB	KAMLAPAT AHIRWAR	01-10-2009
1628	JC 754328F	SUB	KAMLESH RAI	01-09-2009
1629	JC 757157L	SUB	KASHI NATH	01-09-2009
1630	JC 757280K	SUB	KASI RAJAN VP	01-09-2009
1631	JC 755037N	SUB	LAL BABU RAY	01-12-2009
1632	JC 751294N	SUB	M JUNAID AKHTAR	01-01-2010
1633	JC 751825A	SUB	MAHAK SINGH	01-09-2009
1634	JC 755658M	SUB	MAHENDRA KUMAR	01-10-2009
1635	JC 753997N	SUB	MAHENDRA NARAIN SINGH	01-01-2010
1636	JC 751331W	SUB	MAN SINGH	01-01-2010
1637	JC 759093K	SUB	MANDEO RAM	01-09-2009
1638	JC 754849P	SUB	MANMADHAN NAIR K	01-10-2009
1639	JC 760099X	SUB	MOHAN BHADUR THAPA	01-10-2009
1640	JC 753147K	SUB	MOHAN SINGH MANRAJ	01-10-2009
1641	JC 752064M	SUB	MOHANAN TC	01-11-2009

1642	JC 754152F	SUB	MOHD MUSTAFA	01-01-2010
1643	JC 753107H	SUB	MOHD SHAMIM	01-10-2009
1644	JC 750627H	SUB	MOOL CHAND BHARIA	01-09-2009
1645	JC 756221L	SUB	NAGENDER NATH MISHRA	01-10-2009
1646	JC 754329K	SUB	NAHAR SINGH	01-10-2009
1647	JC 759249W	SUB	NARINDER KUMAR	01-10-2009
1648	JC 751018L	SUB	NILAMANI SAHOO	01-11-2009
1649	JC 750618F	SUB	NIZAMUDDIN ANSARI	01-09-2009
1650	JC 753286N	SUB	NUPUR CHAKRABORTY	01-11-2009
1651	JC 754012P	SUB	OM PAL	01-10-2009
1652	JC 758488Y	SUB	OM PRAKASH VISHWAKARMA	01-09-2009
1653	JC 756307K	SUB	P VENKATESWARLU	01-11-2009
1654	JC 751528M	SUB	PADMA RAM KALWANIA	01-12-2009
1655	JC 751527K	SUB	PANCHANAN ROY	01-12-2009
1656	JC 752871F	SUB	PATIL HARI SAKHARAM	01-10-2009
1657	JC 754365P	SUB	PATOLE NARAYAN RAJARAM	01-09-2009
1658	JC 751610F	SUB	PRABIR KUMAR DE	01-10-2009
1659	JC 757341W	SUB	PRAMOD KUMAR	01-10-2009
1660	JC 751024Y	SUB	PRANAB KUMAR ROY	01-12-2009
1661	JC 751704Y	SUB	PRATAP SINGH	01-12-2009
1662	JC 753341Y	SUB	PRETHAPAN K	01-10-2009
1663	JC 752960A	SUB	PRITHVI SINGH	01-10-2009
1664	JC 759244X	SUB	PROAMODA CHANDRA MAJHI	01-10-2009
1665	JC 753110H	SUB	PURAN CHAND	01-11-2009
1666	JC 752659K	SUB	PV JANARDANAN NAMBIAR	01-10-2009
1667	JC 750343Y	SUB	QUDAD UDDIN AHMED	01-10-2009
1668	JC 756116P	SUB	R MARIMUTHU	01-09-2009
1669	JC 751473N	SUB	RABINDRA SINGH	01-10-2009
1670	JC 753710L	SUB	RAGHAVAN TV	01-11-2009
1671	JC 752867Y	SUB	RAJ NATH SINGH	01-09-2009
1672	JC 750620Y	SUB	RAJ SINGH PARMAR	01-10-2009
1673	JC 751236K	SUB	RAJ SINGH REBRIYA	01-09-2009
1674	JC 751658P	SUB	RAJAGOPALAN K	01-12-2009
1675	JC 758637F	SUB	RAJENDRA SINGH	01-10-2009
1676	JC 751071W	SUB	RAJESH RAJ SINGH KHATRI	01-01-2010
1677	JC 751679L	SUB	RAJESHWAR SINGH	01-01-2010
1678	JC 751780L	SUB	RAJINDER SINGH PANISHAN	01-11-2009
1679	JC 753085P	SUB	RAJPAL SINGH	01-11-2009
1680	JC 750751K	SUB	RAM CHARAN SINGH	01-11-2009
1681	JC 758773X	SUB	RAM SHARAN	01-11-2009
1682	JC 754447X	SUB	RAMPHAL SINGH	01-01-2010
1683	JC 753724L	SUB	RANJEET SINGH	01-09-2009
1684	JC 753111L	SUB	REGHUNATHAN PILLAI R	01-12-2009
1685	JC 752651X	SUB	SAJJAN SINGH	01-10-2009
1686	JC 753646Y	SUB	SATENDRA PAL SINGH	01-10-2009
1687	JC 753304L	SUB	SATYA PRAKASH	01-10-2009
1688	JC 750560P	SUB	SATYA RANJAN MAHATA	01-01-2010

1689	JC 751234Y	SUB	SHAIR SINGH	01-12-2009
1690	JC 751326L	SUB	SHATRUGHAN SINGH	01-12-2009
1691	JC 756522P	SUB	SHELENDER SINGH	01-12-2009
1692	JC 754555F	SUB	SHIV SHANKAR	01-10-2009
1693	JC 756771N	SUB	SHYAM NANDAN CHOUDHARY	01-10-2009
1694	JC 757267A	SUB	SIS PAL SINGH NEGI	01-11-2009
1695	JC 754644A	SUB	SITA RAM DASH	01-11-2009
1696	JC 753637X	SUB	SOHAN SINGH	01-01-2010
1697	JC 755224M	SUB	SUBAL KISHORE PAL	01-12-2009
1698	JC 757941Y	SUB	SUBE SINGH	01-10-2009
1699	JC 751163H	SUB	SUBODH KUMAR SINGH	01-10-2009
1700	JC 752747A	SUB	SUKHDEV SINGH	01-12-2009
1701	JC 753449W	SUB	SUKHDEV SINGH	01-11-2009
1702	JC 751521H	SUB	SUNIL KUMAR EP	01-12-2009
1703	JC 758945F	SUB	SURABUDDIN MONDAL	01-11-2009
1704	JC 758640F	SUB	SURESH SINGH	01-11-2009
1705	JC 759153N	SUB	SURJA KUMAR MITRA	01-10-2009
1706	JC 754268X	SUB	SURJAN SINGH	01-09-2009
1707	JC 753705A	SUB	TARCITIUS EKKA	01-10-2009
1708	JC 751657M	SUB	TAUKEER ALI	01-11-2009
1709	JC 758634N	SUB	TEJRAM JAGAN BHANDARKAR	01-10-2009
1710	JC 753215M	SUB	TULSI CHARAN	01-09-2009
1711	JC 750753P	SUB	VIJAY PRATAP SINGH	01-01-2010
1712	JC 753522K	SUB	VIJAYA KUMAR PANDEY	01-10-2009
1713	JC 759245A	SUB	VINOD KUMAR SHUKLA	01-10-2009
1714	JC 751332Y	SUB	ZALAM SINGH	01-01-2010

ARMY EDUCATION CORPS

1715	JC 803187K	SUB	DHARAM SINGH YADAV	01-12-2009
1716	JC 803170W	SUB	DWIJABARA SAHU	01-01-2010
1717	JC 802458K	SUB	JAI SINGH KUSHWAH	01-09-2009
1718	JC 802471N	SUB	JAIVIR SINGH	01-01-2010
1719	JC 802318X	SUB	KESHAVA NARAYAN DWIVEDI	01-11-2009
1720	JC 803175P	SUB	OMENDRA PAL SINGH	01-09-2009
1721	JC 802475K	SUB	PRABHAKAR PANDEY	01-01-2010
1722	JC 802385H	SUB	PRADEEP KUMAR	01-01-2010
1723	JC 802469W	SUB	RAJ BAHADUR	01-01-2010
1724	JC 802537Y	SUB	RAM DUTT SHARMA	01-01-2010
1725	JC 802461K	SUB	RAM NARESH MUDGAL	01-10-2009
1726	JC 802372L	SUB	RAMESHWAR PRASAD SHARMA	01-09-2009
1727	JC 802373N	SUB	SHIV SINGH SOLANKI	01-09-2009
1728	JC 802476M	SUB	SHRI PAL	01-01-2010
1729	JC 802456Y	SUB	SUBE SINGH	01-09-2009
1730	JC 802641M	SUB	SUDARSHAN SINGH	01-12-2009
1731	JC 802474F	SUB	SURESH KUMAR	01-01-2010
1732	JC 802459M	SUB	SURJAN SINGH	01-10-2009
1733	JC 802455W	SUB	UMA SHANKAR TRIVEDI	01-09-2009

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

1734	JC 797185A	RIS	AWADHESH KUMAR THAKUR	01-01-2010
1735	JC 797347A	RIS	BRAJESH SHARMA	01-12-2009
1736	JC 797329X	RIS	RAGHUBIR PRASAD	01-11-2009

THE INTELLIGENCE CORPS

1737	JC 810003H	SUB	AMRENDRA KUMAR SINGH	01-09-2009
1738	JC 810432K	SUB	ARBINDA KUMAR SINGH	01-01-2010
1739	JC 810405A	SUB	BALKAR SINGH	01-01-2010
1740	JC 810576M	SUB	BHUBAN CHANDRA DAS	01-01-2010
1741	JC 810239X	SUB	DHIRAJ SINGH	01-01-2010
1742	JC 810254M	SUB	DINESH SINGH	01-01-2010
1743	JC 810182N	SUB	GANESH MANI TRIPATHI	01-12-2009
1744	JC 810266F	SUB	KISHANA RAM CHAUDHARY	01-01-2010
1745	JC 810616H	SUB	KUNDAN SINGH NAGARKOTI	01-10-2009
1746	JC 810211X	SUB	MAHESH PRASAD SHUKLA	01-10-2009
1747	JC 810245L	SUB	MAKHAN SINGH	01-11-2009
1748	JC 810306X	SUB	MOHAN LAL YADAV	01-12-2009
1749	JC 810185F	SUB	NAND LAL CHAUDHRY	01-01-2010
1750	JC 810238P	SUB	NANDA BALLABH	01-11-2009
1751	JC 810545M	SUB	NARESH KUMAR VASHISHTA	01-10-2009
1752	JC 810172K	SUB	ONKAR SINGH	01-11-2009
1753	JC 810676X	SUB	PRAKASH CHAND	01-01-2010
1754	JC 810409W	SUB	RAM BACHAN RAM	01-01-2010
1755	JC 810360L	SUB	RAMESH PAUL RANA	01-09-2009
1756	JC 810095A	SUB	SANTOKH SINGH	01-11-2009
1757	JC 810183W	SUB	SHAKLU MINZ	01-01-2010
1758	JC 810638F	SUB	SHYAM SINGH	01-01-2010
1759	JC 810255P	SUB	SUBE SINGH YADAV	01-01-2010
1760	JC 810536L	SUB	SURESH KUMAR	01-11-2009
1761	JC 810544K	SUB	THIRUNAVALLI V RAGHVENDRA SURI	01-10-2009
1762	JC 810610F	SUB	VIRENDRA KUMAR GAUTAM	01-09-2009

CORPS OF MILITARY POLICE

1763	JC 818745X	SUB	BADRI PRASHAD	01-10-2009
1764	JC 818751L	SUB	BRIJ KISHOR YADAV	01-10-2009
1765	JC 818757M	SUB	BURRA NARAYANA REDDY	01-12-2009
1766	JC 818760M	SUB	CHANDRA MOHAN DUBEY	01-11-2009
1767	JC 818583X	SUB	GAJANDERA SINGH DALAL	01-12-2009
1768	JC 818770W	SUB	GAULAL	01-12-2009
1769	JC 818750H	SUB	KANWAR SINGH	01-09-2009
1770	JC 818924X	SUB	M SAMPATH	01-11-2009
1771	JC 818769F	SUB	PARAM HANS RAY	01-11-2009
1772	JC 818762X	SUB	RAM SAJIWAN PATEL	01-11-2009
1773	JC 818850N	SUB	SATENDAR KUMAR	01-01-2010
1774	JC 818573N	SUB	SHIV NARESH SHARMA	01-01-2010

1775	JC 818893H	SUB	SHIVNATH SINGH	01-01-2010
1776	JC 818754Y	SUB	SHYAM BIHARI RAM	01-11-2009
1777	JC 818794A	SUB	SURAT SINGH	01-01-2010
1778	JC 818803W	SUB	VINODA NAND ROY	01-12-2009

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

1779	JC 826098X	SUB	HEM BAHADUR RANA	01-09-2009
1780	JC 826126Y	SUB	KASHMIR SINGH	01-11-2009
1781	JC 826088N	SUB	KISHOR PANIGRAHY	01-09-2009
1782	JC 826106L	SUB	M KRISHNAN	01-09-2009
1783	JC 826095K	SUB	PATIL SURESH BHIM RAO	01-01-2010
1784	JC 826101M	SUB	SHER BAHADUR THAPA	01-10-2009

THE PIONEER CORPS

1785	JC 829282N	SUB	BALWANT SINGH	01-11-2009
1786	JC 829321F	SUB	GOUTAM KUMAR CHOWDHURY	01-01-2010
1787	JC 829284Y	SUB	HARI NATH THAKUR	01-11-2009
1788	JC 829283W	SUB	JAGDISH PRASAD	01-11-2009
1789	JC 829064P	SUB	PARIMAL SARKAR	01-12-2009
1790	JC 829063M	SUB	SATISH CHANDRA DUBEY	01-11-2009
1791	JC 829305K	SUB	VINOD KUMAR CHOUDHARY	01-01-2010

DEFENCE SECURITY CORPS

1792	JC 841968P	SUB	A CHANDRAN	01-11-2009
1793	JC 841590A	SUB	BALWANT SINGH	01-01-2010
1794	JC 842117F	SUB	CHITHARANJAN D	01-12-2009
1795	JC 840668N	SUB	DARSHAN SINGH	01-09-2009
1796	JC 840567A	SUB	DARSHAN SINGH	01-12-2009
1797	JC 840780A	SUB	GAYA PRASAD	01-12-2009
1798	JC 841395H	SUB	GEORGE JOSEPH T	01-09-2009
1799	JC 841542A	SUB	HEM RAJ	01-12-2009
1800	JC 840951F	SUB	K DHANAVEL	01-11-2009
1801	JC 841072A	SUB	MANBIR SINGH	01-12-2009
1802	JC 841154H	SUB	MOHINDER PAL	01-11-2009
1803	JC 841344P	SUB	MOTI SINGH RANA	01-01-2010
1804	JC 840686W	SUB	RAJ PAL SINGH	01-09-2009
1805	JC 841005P	SUB	RAJINDER SINGH	01-09-2009
1806	JC 841589L	SUB	RAM ANUP PRASAD	01-11-2009
1807	JC 841070P	SUB	RANGIL SINGH	01-11-2009
1808	JC 841591H	SUB	RISHI RAM	01-12-2009
1809	JC 840657F	SUB	SEBASTIAN AT	01-11-2009
1810	JC 840708K	SUB	SHRI BHAGWAN SINGH	01-11-2009
1811	JC 841514N	SUB	SURENDAR SINGH	01-11-2009
1812	JC 841236L	SUB	TG SASEENDRAN	01-10-2009

TERRITORIAL ARMY

1813	TJ 4198F	SUB	ASHOK KUMAR BARIK	01-12-2009
------	----------	-----	-------------------	------------

1814	TJ 3888H	SUB	BALWINDER SINGH	01-10-2009
1815	TJ 4608M	SUB	BELAWALEKAR PANDURANG MASU	01-11-2009
1816	TJ 2720A	SUB	GURU PRASAD DEY	01-01-2010
1817	TJ 4299P	SUB	LALATENDU PATTNAIK	01-08-2009
1818	TJ 2809M	SUB	MAHENDRA SINGH	01-12-2009
1819	TJ 4006Y	SUB	RAGHU NATH TRIPATHI	01-12-2009
1820	TJ 4438N	SUB	VISAL SINGH	01-12-2009

TO BE HONORARY RISALDARS/SUBEDARS

7 CAVALRY

1	JC 242512X	NB RIS	ATAR SINGH	01-12-2009
2	JC 242471Y	NB RIS	SURAJ BHAN	01-11-2009

2 LANCERS

3	JC 242420L	NB RIS	KISHAN VIR SINGH	01-09-2009
4	JC 242357F	NB RIS	NANDE SINGH	01-09-2009

20 LANCERS

5	JC 241533F	NB RIS	MALKIAT SINGH	01-09-2009
---	------------	--------	---------------	------------

64 CAVALRY

6	JC 242096Y	NB RIS	MAHENDRA SINGH	01-10-2009
---	------------	--------	----------------	------------

65 ARMoured REGIMENT

7	JC 241974X	NB RIS	AMI LAL JAT	01-10-2009
8	JC 241860M	NB RIS	HARI PRATAP SINGH	01-10-2009
9	JC 242082Y	NB RIS	RAJVIR SINGH	01-11-2009

73 ARMoured REGIMENT

10	JC 241499M	NB RIS	AMANULLA KHAN	01-12-2009
----	------------	--------	---------------	------------

48 ARMoured REGIMENT

11	JC 242379A	NB RIS	SURAJ PARKASH	01-10-2009
----	------------	--------	---------------	------------

50 ARMoured REGIMENT

12	JC 241706N	NB RIS	BALBIR SINGH	01-12-2009
13	JC 241455P	NB RIS	SUBHASH CHAND	01-10-2009

52 ARMoured REGIMENT

14	JC 241243K	NB RIS	GANAGA RAM	01-10-2009
----	------------	--------	------------	------------

ARMoured CORPS

15	JC 242372W	NB RIS	BHED RAM SINGH	01-12-2009
16	JC 242472F	NB RIS	BISHAN SINGH	01-11-2009
17	JC 242486F	NB RIS	GANDHRAB CHARAN SAHU	01-09-2009
18	JC 241304W	NB RIS	INDER SINGH	01-09-2009
19	JC 242440Y	NB RIS	JAGAN SINGH	01-11-2009
20	JC 241746P	NB RIS	JAI SINGH	01-10-2009
21	JC 242340N	NB RIS	KESHAR SINGH	01-10-2009
22	JC 242264M	NB RIS	MOOD CHAND	01-10-2009

23	JC 242456K	NB RIS	NAKE RAM	01-11-2009
24	JC 240916F	NB RIS	NASEEB SINGH	01-01-2010
25	JC 242434L	NB RIS	OMBIR SINGH	01-01-2010
26	JC 241948W	NB RIS	POONA RAM MUNDEL	01-10-2009
27	JC 242477A	NB RIS	RAM KUMAR	01-11-2009
28	JC 242151K	NB RIS	RAMBIR	01-09-2009
29	JC 242324W	NB RIS	RAMJI SINGH	01-12-2009
30	JC 241835N	NB RIS	SUBHASH CHANDER	01-10-2009
31	JC 242702K	NB RIS	SUCHHA SINGH	01-10-2009
32	JC 242035F	NB RIS	TASVIR SINGH	01-11-2009
33	JC 241606H	NB RIS	VEER SINGH	01-10-2009
34	JC 242461P	NB RIS	VIJAY NARAYAN SINGH	01-11-2009
35	JC 242642A	NB RIS	VISHWA NATH	01-12-2009
36	JC 241656N	NB RIS	WILLINGTON P	01-10-2009

REGIMENT OF ARTILLERY

37	JC 269539Y	NB SUB	ANIL KUMAR	01-09-2009
38	JC 270235N	NB SUB	ANIL KUMAR	01-09-2009
39	JC 270323K	NB SUB	ANIL SINGH	01-09-2009
40	JC 270196A	NB SUB	ASHOK KUMAR	01-09-2009
41	JC 271523M	NB SUB	ASHOK KUMAR	01-12-2009
42	JC 270926A	NB SUB	BAHADUR SINGH GURJAR	01-01-2010
43	JC 270989H	NB SUB	BAIJ NATH YADAV	01-11-2009
44	JC 270771W	NB SUB	BALAKRISHNAN M V	01-10-2009
45	JC 271729K	NB SUB	BALBIR SINGH	01-11-2009
46	JC 269602H	NB SUB	BALDEV SINGH	01-01-2010
47	JC 272584W	NB SUB	BALKISHAN SINGH	01-09-2009
48	JC 269482P	NB SUB	BANSHIDHAR	01-10-2009
49	JC 270156Y	NB SUB	BASIRUDDIN ANSARI	01-10-2009
50	JC 272159L	NB SUB	BHOLE GOPAL PUNDLIK	01-10-2009
51	JC 270496F	NB SUB	BIMAL CHANDRA RAY	01-12-2009
52	JC 269487N	NB SUB	BIREN BORA	01-01-2010
53	JC 270614K	NB SUB	C VIJAYAN	01-09-2009
54	JC 269658P	NB SUB	CHANDRA PAL SINGH	01-11-2009
55	JC 271332X	NB SUB	CHET RAM YADAV	01-10-2009
56	JC 270468P	NB SUB	DAYA NAND	01-10-2009
57	JC 269471H	NB SUB	DHANAJI HADABE	01-01-2010
58	JC 270349Y	NB SUB	ELAGOUDAR SHANTINATH	01-01-2010
59	JC 266086N	NB SUB	FALGUNAN V	01-11-2009
60	JC 269938H	NB SUB	GIRVAR SINGH	01-12-2009
61	JC 270984K	NB SUB	GOPINATH PANDA	01-10-2009
62	JC 271223L	NB SUB	GULZAR SINGH	01-01-2010
63	JC 269319P	NB SUB	GULZARI LAL YADAVA	01-10-2009
64	JC 268761N	NB SUB	GURAPPA RAMAPPA KITTUR	01-11-2009
65	JC 270528Y	NB SUB	GURNAM SINGH	01-01-2010
66	JC 270617X	NB SUB	HARBHAJAN SINGH	01-12-2009
67	JC 269220Y	NB SUB	HARINAM SINGH	01-09-2009
68	JC 271560A	NB SUB	HIMMAT BHADUR SINGH	01-11-2009
69	JC 270590L	NB SUB	JAGDISH YADAV	01-10-2009
70	JC 268854H	NB SUB	JAI PRAKASH SHAW	01-01-2010

71	JC 271106A	NB SUB	JANARDHAN PRASAD	01-12-2009
72	JC 268042P	NB SUB	JASWANT SINGH	01-01-2010
73	JC 270449K	NB SUB	JUGRAJ SINGH	01-11-2009
74	JC 273461W	NB SUB	KAMLESH PRASAD SINGH	01-01-2010
75	JC 268033N	NB SUB	KISHORE DASS DHIMAN	01-10-2009
76	JC 270678P	NB SUB	KRISHAN LAL	01-10-2009
77	JC 272717F	NB SUB	LAKHWINDER SINGH	01-01-2010
78	JC 271424K	NB SUB	LALA RAM	01-09-2009
79	JC 269271M	NB SUB	M RAJA	01-11-2009
80	JC 270046K	NB SUB	MAHENDRA PRASAD	01-01-2010
81	JC 271035K	NB SUB	MAHENDRA SINGH RATHORE	01-12-2009
82	JC 270152H	NB SUB	MAYADHAR PANIGRAHI	01-01-2010
83	JC 271141H	NB SUB	NARENDER SINGH	01-01-2010
84	JC 269325H	NB SUB	OM PRAKASH	01-10-2009
85	JC 270223X	NB SUB	OM PRAKASH	01-10-2009
86	JC 266420K	NB SUB	OM PRAKASH SHUKLA	01-10-2009
87	JC 271076N	NB SUB	PADHAN SAPTA SINDHU	01-12-2009
88	JC 269966P	NB SUB	PATIL CHANDRAKANT DNYANADEV	01-09-2009
89	JC 269697N	NB SUB	PRABHU RAM SINGH YADAV	01-01-2010
90	JC 270973X	NB SUB	PRADEEP KUMAR MISHRA	01-10-2009
91	JC 268935H	NB SUB	RAJ PAL	01-11-2009
92	JC 270286F	NB SUB	RAJENDER PRASAD	01-10-2009
93	JC 269629A	NB SUB	RAJENDRA SINGH JIMI WAL	01-01-2010
94	JC 269623Y	NB SUB	RAJENDRAN K	01-01-2010
95	JC 270506A	NB SUB	RAJINDER SINGH	01-01-2010
96	JC 269883K	NB SUB	RAM KUMAR	01-10-2009
97	JC 269903N	NB SUB	RAM PRAVESH PRASAD	01-01-2010
98	JC 271485F	NB SUB	RAMA NAND	01-10-2009
99	JC 270445H	NB SUB	RAMACHANDRAN PK	01-11-2009
100	JC 269267K	NB SUB	RAMASARE	01-01-2010
101	JC 269854P	NB SUB	RAMVEER	01-09-2009
102	JC 270927H	NB SUB	RANGESH CHAUDHARY	01-01-2010
103	JC 269627P	NB SUB	ROHTAS SINGH	01-01-2010
104	JC 270168N	NB SUB	ROSHAN LAL	01-11-2009
105	JC 271334H	NB SUB	S MANI HAR SINGHA	01-01-2010
106	JC 269371X	NB SUB	S RAM NATH BABU	01-10-2009
107	JC 269777L	NB SUB	SAJAN SINGH	01-01-2010
108	JC 271580N	NB SUB	SASI KUMAR V	01-09-2009
109	JC 266602X	NB SUB	SATENDER PARSAD	01-10-2009
110	JC 269876N	NB SUB	SHAIK PHUSSAIN SHARIEF	01-11-2009
111	JC 272642P	NB SUB	SHYAM SUNDAR SINGH	01-01-2010
112	JC 270137N	NB SUB	SINGH RAJ	01-01-2010
113	JC 270824K	NB SUB	SUBASH CHANDRA ROUT	01-01-2010
114	JC 273287P	NB SUB	SUBHASH CHANDER	01-11-2009
115	JC 265335P	NB SUB	SUNDER PAL	01-01-2010
116	JC 267451W	NB SUB	SURESH KUMAR	01-10-2009
117	JC 268131N	NB SUB	SURINDER KUMAR	01-01-2010

118	JC 269473N	NB SUB	SURJAN SINGH YADAVA	01-09-2009
119	JC 270611W	NB SUB	SWAMI NATH	01-09-2009
120	JC 270776P	NB SUB	TARA CHAND SHARMA	01-09-2009
121	JC 269391L	NB SUB	THAKUR UDAIRAJ SINGH	01-01-2010
122	JC 269148N	NB SUB	VIJAY BAHADUR	01-01-2010
123	JC 271290W	NB SUB	VIJAYA RAGAWAN	01-11-2009
124	JC 264093L	NB SUB	VISHWA NATH SINGH	01-01-2010
125	JC 271868N	NB SUB	VISHWANATH SINGH	01-01-2010

ARMY AIR DEFENCE

126	JC 299589Y	NB SUB	AMBIKA PRASAD MANDAL	01-10-2009
127	JC 299337M	NB SUB	ANIL KUMAR MISHRA	01-10-2009
128	JC 299980W	NB SUB	ASHOKA KUMAR C	01-10-2009
129	JC 299041N	NB SUB	ATAR SINGH YADAV	01-01-2010
130	JC 299671N	NB SUB	BANWARI SINGH	01-10-2009
131	JC 300196X	NB SUB	BHESATE MAHADEO JAGANNATH	01-09-2009
132	JC 300010H	NB SUB	CHAUHAN PRABHAT SINH MANILAL	01-11-2009
133	JC 300009N	NB SUB	CHITTARANJAN PRAMANICK	01-12-2009
134	JC 299822F	NB SUB	D THIAGARAJAN	01-01-2010
135	JC 299551P	NB SUB	DHARAM RAJ SINGH	01-10-2009
136	JC 300018P	NB SUB	GIAN CHAND	01-01-2010
137	JC 298919A	NB SUB	HARNAM SINGH	01-10-2009
138	JC 300379N	NB SUB	KARUNAKAR SWAIN	01-12-2009
139	JC 299446Y	NB SUB	KUNWAR SINGH	01-10-2009
140	JC 300025L	NB SUB	M RATHAKRISHNAN	01-12-2009
141	JC 299711K	NB SUB	MADAN LAL	01-01-2010
142	JC 299704N	NB SUB	RAKESH CHAND	01-10-2009
143	JC 298676A	NB SUB	RAM BILAS MAHTO	01-09-2009
144	JC 300043N	NB SUB	RAM JANM SINGH YADAV	01-10-2009
145	JC 299557W	NB SUB	RAM KUMAR	01-01-2010
146	JC 299976N	NB SUB	RAM KUMAR	01-11-2009
147	JC 299602X	NB SUB	RAM NIWAS	01-01-2010
148	JC 299558Y	NB SUB	RAMESH CHAND	01-01-2010
149	JC 299777A	NB SUB	RANJIT SINGH	01-05-2009
150	JC 299909H	NB SUB	SANJAY KUMAR SINGH	01-10-2009
151	JC 299580K	NB SUB	SHIV CHARAN	01-10-2009
152	JC 298731L	NB SUB	SISPAL SINGH	01-09-2009
153	JC 299405P	NB SUB	SITA RAM ROY	01-11-2009
154	JC 300477N	NB SUB	SUKUMARAN K	01-12-2009

MADRAS ENGINEER GROUP

155	JC 308851A	NB SUB	A SAGAYANATHAN	01-11-2009
156	JC 308530H	NB SUB	BODDU YESHAIAH	01-10-2009
157	JC 308242W	NB SUB	CANNIN C	01-11-2009
158	JC 308839Y	NB SUB	G PERUMAL	01-09-2009
159	JC 309207A	NB SUB	GIREESHAN M	01-01-2010
160	JC 308885N	NB SUB	GOPIRAJ K	01-01-2010

161	JC 308039A	NB SUB	GUMAN SINGH GURUNG	01-10-2009
162	JC 309073M	NB SUB	HARIKUMAR P	01-12-2009
163	JC 308875K	NB SUB	JAYARAM SUNAGAR	01-09-2009
164	JC 308464L	NB SUB	K JAGADESHAN	01-09-2009
165	JC 309137M	NB SUB	K KULASEKARAN	01-12-2009
166	JC 308553K	NB SUB	MANJUNATH INGALAGI	01-10-2009
167	JC 309163N	NB SUB	MUPPAYYA	01-10-2009
168	JC 309162L	NB SUB	R RAJENDRAN	01-09-2009
169	JC 308715K	NB SUB	R RAVI	01-01-2010
170	JC 308329X	NB SUB	RAJVIR SINGH	01-01-2010
171	JC 308767A	NB SUB	S YESURAJAN	01-11-2009
172	JC 308769L	NB SUB	SASI V C	01-12-2009
173	JC 308873Y	NB SUB	SIVADASAN CK	01-12-2009
174	JC 308824W	NB SUB	SOMAPPA JOLAD	01-12-2009
175	JC 308740H	NB SUB	UMESH CHAND	01-10-2009
176	JC 308825Y	NB SUB	VENKAPPA	01-01-2010
177	JC 309167K	NB SUB	VIJAYA KUMARAN NAIR	01-12-2009
178	JC 308340W	NB SUB	Y AARON	01-01-2010

BENGAL ENGINEER GROUP

179	JC 338127L	NB SUB	ABDUL WAHID	01-12-2009
180	JC 329593Y	NB SUB	ASHOK KUMAR	01-09-2009
181	JC 338010M	NB SUB	AWADESH SINGH	01-10-2009
182	JC 329954M	NB SUB	DAMBARU DHAR PRADHAN	01-12-2009
183	JC 338157H	NB SUB	GEORGE KUTTY BM	01-09-2009
184	JC 329785W	NB SUB	MD SHAJHAN ALI	01-09-2009
185	JC 330847X	NB SUB	P CHANDRAN	01-09-2009
186	JC 328984X	NB SUB	PARAS NATH RAI	01-11-2009
187	JC 329947W	NB SUB	RAJENDRA RAM	01-09-2009
188	JC 329767N	NB SUB	RIKHI RAM	01-10-2009
189	JC 328822M	NB SUB	SHIWJEE SINGH	01-10-2009
190	JC 329789M	NB SUB	SUMER THAKUR	01-10-2009
191	JC 329021X	NB SUB	SUNIL DUTT	01-10-2009

BOMBAY ENGINEER GROUP

192	JC 350452X	NB SUB	BABU KHAN	01-10-2009
193	JC 350453A	NB SUB	BALWINDER SINGH	01-01-2010
194	JC 350384P	NB SUB	BARGE SANJAY RAM CHANDRA	01-12-2009
195	JC 350502X	NB SUB	BASANT KUMAR	01-10-2009
196	JC 350396K	NB SUB	BIRADAR LAXMAN MOHAN RAO	01-09-2009
197	JC 350337X	NB SUB	DIDAR SINGH	01-09-2009
198	JC 350571N	NB SUB	GOMA RAM	01-10-2009
199	JC 350480K	NB SUB	GULFAM ALI	01-09-2009
200	JC 350512F	NB SUB	GURMEJ SINGH	01-01-2010
201	JC 350569W	NB SUB	JAGDEV SINGH	01-09-2009
202	JC 350397M	NB SUB	LAKHBIR SINGH	01-10-2009
203	JC 350570L	NB SUB	NARINDER SINGH	01-10-2009

204	JC 350503A	NB SUB	PRATAP SINGH	01-11-2009
205	JC 349456F	NB SUB	RAKESH KUMAR TOMAER	01-09-2009
206	JC 350513K	NB SUB	RAM KUMAR SHARMA	01-01-2010

CORPS OF SIGNALS

207	JC 377225F	NB SUB	BABU SINGH DESHWAL	01-11-2009
208	JC 377955M	NB SUB	BIMAL KUMAR SINGH	01-09-2009
209	JC 377518M	NB SUB	JAGDISH CHAND	01-11-2009
210	JC 377316L	NB SUB	JASWANT SINGH	01-09-2009
211	JC 377052P	NB SUB	MADAN SINGH SINSINBAR	01-12-2009
212	JC 377024H	NB SUB	OM PRAKASH GUPTA	01-01-2010
213	JC 376350Y	NB SUB	P VALAPPILAKKANDY	01-11-2009
214	JC 376923X	NB SUB	RAMESH CHANDRA	01-12-2009
215	JC 277046F	NB SUB	RAMESH KUMAR	01-11-2009
216	JC 377496Y	NB SUB	SHIV SHANKAR SINGH	01-09-2009
217	JC 377411X	NB SUB	SIVA SANKAR C	01-01-2010
218	JC 377656Y	NB SUB	TIKONE GOVIND SHANKAR	01-01-2010
219	JC 377764X	NB SUB	VELUVOLU ANANDAIAH	01-09-2009

THE BRIGADE OF GUARDS

220	JC 404134K	NB SUB	ANIL KUMAR	01-11-2009
221	JC 403989A	NB SUB	JIBAN CH CHUTIA	01-12-2009
222	JC 404143L	NB SUB	LANKESWAR RAY	01-01-2010
223	JC 403704H	NB SUB	SHIV SINGH	01-09-2009

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

224	JC 420738M	NB SUB	HOSHIAR SINGH	01-12-2009
225	JC 420558K	NB SUB	I VINAYAGA MOORTY	01-10-2009
226	JC 420862N	NB SUB	NAR BAHADUR	01-09-2009
227	JC 420706K	NB SUB	PRAHLAD SINGH	01-10-2009
228	JC 420564X	NB SUB	RAJPAL SINGH	01-01-2010
229	JC 420519L	NB SUB	SOAM PAL SINGH	01-10-2009
230	JC 420374L	NB SUB	SRINIVASAN S	01-10-2009

THE MADRAS REGIMENT

231	JC 439913L	NB SUB	ANDANEPPA GUMMAGOL	01-01-2010
232	JC 439844A	NB SUB	GOPALA KRISHNA KURUP R	01-10-2009
233	JC 439704N	NB SUB	S MANOHARAN	01-01-2010
234	JC 439867F	NB SUB	SALAM SHAIK	01-11-2009
235	JC 439836F	NB SUB	SURESH KUMAR MS	01-10-2009

THE GRENADIERS

236	JC 450332N	NB SUB	MOHD TASLIM	01-12-2009
237	JC 450323M	NB SUB	RAM CHANDRA	01-11-2009
238	JC 450132X	NB SUB	SHIV KUMAR	01-10-2009

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

239	JC 459715F	NB SUB	KUNJUMON K	01-01-2010
-----	------------	--------	------------	------------

THE RAJPUTANA RIFLES

240	JC 469784L	NB SUB	PRAHLAD RAM MAAN	01-10-2009
241	JC 469962H	NB SUB	RAM PRATAP SINGH	01-12-2009

THE RAJPUT REGIMENT

242	JC 479949M	NB SUB	BHAWANI SINGH	01-11-2009
-----	------------	--------	---------------	------------

THE JAT REGIMENT

243	JC 490013K	NB SUB	AMARJIT SINGH	01-10-2009
244	JC 489731N	NB SUB	KRISHAN KUMAR	01-12-2009

THE SIKH LIGHT INFANTRY

245	JC 509555L	NB SUB	PREM CHAND	01-11-2009
-----	------------	--------	------------	------------

THE DOGRA REGIMENT

246	JC 520271F	NB SUB	GIAN CHAND	01-11-2009
247	JC 520612F	NB SUB	HEM RAJ	01-11-2009
248	JC 520362L	NB SUB	KRISHAN LAL	01-11-2009
249	JC 520927L	NB SUB	LEKH RAJ	01-10-2009
250	JC 520363N	NB SUB	MASTAN SINGH	01-12-2009
251	JC 520650X	NB SUB	YASH PAUL	01-12-2009

THE GARHWAL RIFLES

252	JC 530288H	NB SUB	HUKAM SINGH	01-01-2010
253	JC 530271P	NB SUB	JAIBIR SINGH	01-01-2010

THE ASSAM REGIMENT

254	JC 549498X	NB SUB	T PILKHOPAO	01-01-2010
-----	------------	--------	-------------	------------

THE BIHAR REGIMENT

255	JC 559829F	NB SUB	ANTONY BECK	01-11-2009
256	JC 559724X	NB SUB	LAXMAN KUMAR MARNDI	01-12-2009
257	JC 560009F	NB SUB	PRAMOD KUMAR PANDEY	01-01-2010
258	JC 559779F	NB SUB	PURUSOTTAM JENA	01-11-2009
259	JC 559673P	NB SUB	RAMA NAND THAKUR	01-11-2009
260	JC 559848M	NB SUB	RANJEET SINGH KUNTIYA	01-11-2009

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

261	JC 580581W	NB SUB	JOHAN MOHAMME	01-11-2009
-----	------------	--------	---------------	------------

THE NAGA REGIMENT

262	JC 590186W	NB SUB	MH WUNGREIO	01-01-2010
-----	------------	--------	-------------	------------

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

263 JC 593460N NB SUB BAL KRISHAN 01-10-2009
1 GORKHA RIFLES

264 JC 602731K NB SUB DEV BAHADUR THAPA 01-11-2009
 265 JC 602755N NB SUB HARI NARAYAN SINGH 01-01-2010
9 GORKHA RIFLES

266 JC 629770M NB SUB SUKRA RAJ LAMSAL 01-12-2009
11 GORKHA RIFLES

267 JC 634648A NB SUB MACHINDRA BAHADUR RAI 01-01-2010
ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

268 JC 664258M NB SUB ASHOK KUMAR SINGH 01-12-2009
 269 JC 643132Y NB SUB BHARAT SINGH 01-09-2009
 270 JC 664836W NB SUB JAGVIR SINGH 01-01-2010
 271 JC 664303N NB SUB JASBIR CHAND 01-01-2010
 272 JC 664965W NB SUB SURESH PRASAD 01-12-2009
 273 JC 664511H NB SUB TILAK RAJ 01-01-2010

ARMY MEDICAL CORPS

274 JC 695213N NB SUB ASHOK KUMAR SINGH 01-09-2009
 275 JC 695555F NB SUB GOPAL SINGH 01-01-2010
 276 JC 695843N NB SUB JANGAM PADMA RAO 01-12-2009
 277 JC 695641M NB SUB SURENDRAN TORAGALLA 01-10-2009

ARMY ORDNANCE CORPS

278 JC 727387K NB SUB ARAMUGHAN V 01-12-2009
 279 JC 726715A NB SUB BASUDEB NANDI 01-09-2009
 280 JC 727007A NB SUB BIJAYA KUMAR PARIDA 01-12-2009
 281 JC 727485K NB SUB DHYAN SINGH 01-11-2009
 282 JC 727483Y NB SUB GORAK NATH BHUJINGA KHOT 01-12-2009
 283 JC 725171K NB SUB LOCHAN CHANDRA BORAH 01-11-2009
 284 JC 726569L NB SUB MANMOHAN SINGH 01-10-2009
 285 JC 726919M NB SUB MOHAMMED ASFAQUE 01-12-2009
 286 JC 727377A NB SUB PRIYADARSI ACHARYA 01-12-2009
 287 JC 727292K NB SUB R RAMACHANDRAN 01-10-2009
 288 JC 726781H NB SUB RAJAMOHANAN C 01-01-2010
 289 JC 727225Y NB SUB RAJESHWAR PRASAD 01-09-2009
 290 JC 727328X NB SUB RAM NARAYAN SINGH 01-12-2009
 291 JC 726625Y NB SUB S ARULANDU 01-11-2009
 292 JC 727386F NB SUB SAHAJ RAM YADAV 01-10-2009
 293 JC 727484F NB SUB SHAUKIN SINGH 01-12-2009
 294 JC 726011W NB SUB SHRI KRISHNA 01-01-2010
 295 JC 727273Y NB SUB VIJAYRAJ R 01-10-2009

296	JC 727486M	NB SUB	YASHWANT SINGH	01-12-2009
<u>CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS</u>				
297	JC 759276A	NB SUB	ABDUL KHADER PT	01-01-2010
298	JC 759904K	NB SUB	AJIT SINGH	01-01-2010
299	JC 761271A	NB SUB	BALJIT SINGH	01-01-2010
300	JC 759517P	NB SUB	BIR SINGH	01-01-2010
301	JC 761389F	NB SUB	BIR SINGH	01-01-2010
302	JC 761216K	NB SUB	BRIJ MOHAN SINGH RAWAT	01-10-2009
303	JC 760150M	NB SUB	DEBENDRA NATH KHUNTIA	01-10-2009
304	JC 759368M	NB SUB	GURCHARAN SINGH	01-01-2010
305	JC 759474L	NB SUB	HARENDRA NARAYAN DWIVEDI	01-01-2010
306	JC 758934P	NB SUB	JAGWINDER SINGH	01-01-2010
307	JC 760382L	NB SUB	KAMLA PRASAD VERMA	01-10-2009
308	JC 760151P	NB SUB	MUKUNDA BHARATI	01-10-2009
309	JC 760654A	NB SUB	PARMODH KUMAR	01-12-2009
310	JC 762217Y	NB SUB	PRASASH CHAND	01-01-2010
311	JC 759791M	NB SUB	PUJARI SANJAY BHIMNA	01-10-2009
312	JC 761154P	NB SUB	RAGHUBIR SINGH	01-01-2010
313	JC 759890A	NB SUB	RAJ KUMAR	01-09-2009
314	JC 759587N	NB SUB	RAM NARESH	01-01-2010
315	JC 761217M	NB SUB	RANJEET SINGH	01-09-2009
316	JC 759915W	NB SUB	ROHITASH KUMAR	01-01-2010
317	JC 761694N	NB SUB	SADA SHIV DALAWAI	01-09-2009
318	JC 761716F	NB SUB	SATYAVAN	01-12-2009
319	JC 759367X	NB SUB	SURMUKH SINGH	01-01-2010
320	JC 760786W	NB SUB	U PAUL RAJ	01-12-2009
321	JC 759905M	NB SUB	UMA SHANKAR	01-01-2010

THE INTELLIGENCE CORPS

322	JC 811049K	NB SUB	DIWAN SINGH	01-12-2009
323	JC 810934M	NB SUB	HARWINDER SINGH	01-12-2009

DEFENCE SECURITY CORPS

324	JC 842455Y	NB SUB	A IBRAHIM KUTTY	01-12-2009
325	JC 842259Y	NB SUB	BHAJAN SINGH	01-09-2009
326	JC 842049Y	NB SUB	GANESH DATT	01-09-2009
327	JC 841790W	NB SUB	GOLAM ZIKRIA	01-01-2010
328	JC 842222X	NB SUB	KRIPA SINDHU BISWAS	01-10-2009
329	JC 842297P	NB SUB	NAKULESHWAR PANDEY	01-09-2009
330	JC 842451H	NB SUB	NARENDER SHEKHAR	01-01-2010
331	JC 841584M	NB SUB	NIRANJAN DASS	01-11-2009
332	JC 842338N	NB SUB	OM PARKASH	01-09-2009
333	JC 842169X	NB SUB	PURAN CHAND	01-11-2009
334	JC 842470N	NB SUB	PRAHLAD	01-09-2009
335	JC 842375F	NB SUB	RAJENDRA PRASAD	01-09-2009
336	JC 842040K	NB SUB	RAJESHWAR SINGH CHAUHAN	01-09-2009

337	JC 842226N	NB SUB	RAJE SINGH	01-01-2010
338	JC 842303X	NB SUB	SATYA PRASAD	01-11-2009
339	JC 841714K	NB SUB	VIJAI SINGH	01-10-2009

[No. B/43432/RID-10/AG/CW-2]

MUKESH SABHARWAL, Lt. Gen., Adjutant General

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2010

सं. 3(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2010.— राष्ट्रपति गणत्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित हवलदार एव दफादार को उनकी सेवा पूरी होने पर उनके नामों के सामने दी हुई तिथी से सेना विनियामावली 1987 के पैरा 180 के अधीन उनको अवैतनिक पद प्रदान करते हैं :-

अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार मेजर के रूप में**राष्ट्रपति अंगरक्षक**

1	13700404पी	हवलदार	जगजीत सिंह	01.12.2009
16 केवेलरी				
2	1078488के	दफादार	के रविचंद्रन	01.10.2009
8 केवेलरी				
3	1077976ए	दफादार	चंद्रपाल	01.10.2009
4	1078497एल	दफादार	जगत पाल सिंह	01.11.2009
5	1077901एच	दफादार	के सिंह	01.09.2009
6	1078885एच	दफादार	रविन्द्र सिंह	01.12.2009
7	1077941के	दफादार	विनोद कुमार सिंह	01.09.2009
2 लार्न्सिस				
8	1078455वाइ	दफादार	सुरेन्द्रा सिंह तनवर	01.10.2009
14 होर्स				
9	1078305एच	दफादार	सुरजीत सिंह	01.10.2009
18 केवेलरी				
10	1079325एच	दफादार	भूपेंद्र प्रताप सिंह	01.01.2010
11	1078388वाइ	दफादार	रमेश चंद्र	01.10.2009
केन्द्रीय भारत अश्व				
12	1078163डब्ल्यू	दफादार	करनैल सिंह	01.10.2009

62 केवेलरी

13 1078161एल दफादार कर्म चन्द 01.10.2009

54 केवेलरी

14 1078259वाइ दफादार जसविन्दर सिंह 01.10.2009

65 आर्मड रेजीमेंट

15 1079103एन दफादार सुरिन्दर सिंह 01.12.2009

71 आर्मड रेजीमेंट

16 1079117एन दफादार पूरन चन्द बी 01.12.2009

72 आर्मड रेजीमेंट

17 1079352एम दफादार किशोरी लाल 01.01.2010

18 1078489एम दफादार सत्यवीर 01.10.2009

82 आर्मड रेजीमेंट

19 1078947एक्स दफादार दलवीर सिंह 01.12.2009

85 आर्मड रेजीमेंट

20 1078133वाइ दफादार गोपाल चंद्रा राउत 01.10.2009

41 आर्मड रेजीमेंट

21 1078173ए दफादार अभेन्द्रा कुमार सिंह 01.11.2009

44 आर्मड रेजीमेंट

22 1077917एन दफादार ए सिंह 01.09.2009

46 आर्मड रेजीमेंट

23 1078462पी दफादार सतीश चंद्र 01.11.2009

47 आर्मड रेजीमेंट

24 1077751एक्स दफादार सुरेन्द्रा प्रसाद यादव 01.09.2009

49 आर्मड रेजीमेंट

25 1078763वाइ दफादार सुनील कुमार शर्मा 01.12.2009

आर्मड कोर

26 1078839एन दफादार अमर पाल सिंह 01.11.2009

27 1078244डब्ल्यू दफादार बीर पाल 01.10.2009

28	1077682एम	दफादार	बुल्ला राम	01.09.2009
29	1078012एक्स	दफादार	बूटन बैठा	01.10.2009
30	1078776डब्ल्यू	दफादार	डी. एन	01.12.2009
31	1078011पी	दफादार	जी. गनेश	01.10.2009
32	1079046एक्स	दफादार	गनेश चंद्र	01.01.2010
33	1079359डब्ल्यू	दफादार	काली पाडा बोस	01.01.2010
34	1078964एक्स	दफादार	राम प्रावेश सिंह	01.12.2009
35	1078765के	दफादार	राम सुरेश सिंह	01.12.2009
36	1078614एल	दफादार	रमेश प्रसाद भारतीय	01.11.2009
37	1079255पी	दफादार	रण बहादुर सिंह	01.01.2010
38	13965265एन	दफादार	रांगी लाल	01.12.2009
39	1078243एन	दफादार	रोशन लाल	01.10.2009
40	1077594डब्ल्यू	दफादार	शिव दयाल	01.09.2009
41	1078939वाइ	दफादार	सुदामा सिंह	01.12.2009
42	1079199एफ	दफादार	विद्या प्रकाश राम	01.01.2010
43	1079342एच	दफादार	विजय कुमार	01.01.2010
44	1087579पी	दफादार	वाइ सिंह	01.11.2009

आर्टिलरी रेजीमेंट

45	15106127ए	हवलदार	ए सैन्थामराई	01.12.2009
46	14391072के	हवलदार	अब्दुर रहीम	01.10.2009
47	14390817ए	हवलदार	अभे सिंह	01.09.2009
48	14392617एच	हवलदार	अब्राहम एम वी	01.11.2009
49	15104170एच	हवलदार	एडी.आई वी रमना बाबू	01.09.2009
50	14373639एम	हवलदार	आदित्य कुमार बिस्वाल	01.09.2009
51	14376343वाइ	हवलदार	अजय कुमार सिंह	01.11.2009
52	15104901एल	हवलदार	अजय कुमार यादव	01.10.2009
53	15103988एल	हवलदार	अजीत कुमार	01.09.2009
54	15106475एफ	हवलदार	अजीत सिंह	01.12.2009
55	15106432एम	हवलदार	अखाया कुमार दलाई	01.12.2009
56	14390447एल	हवलदार	अमल काकाति	01.09.2009
57	15104451वाइ	हवलदार	अमर नाथ सिंह यादव	01.09.2009
58	15104501वाइ	हवलदार	अमृत देब वर्मा	01.09.2009
59	15105954डब्ल्यू	हवलदार	आनंद मनी दीक्षित	01.11.2009
60	15105332पी	हवलदार	आनंद प्रताप सिंह	01.11.2009
61	15104775के	हवलदार	अनन्त पाल	01.10.2009
62	14373523डब्ल्यू	हवलदार	अंगद सिंह	01.09.2009
63	14391874एन	हवलदार	अनिल कुमार एस	01.10.2009
64	14489138एल	हवलदार	अनिल कुमार सिंह	01.01.2010
65	14374021ए	हवलदार	अरविन्दाक्षन पी	01.09.2009
66	14377698डब्ल्यू	हवलदार	अरुमुगम के	01.12.2009

67	14487943डब्ल्यू	हवलदार	अरुण कुमार	01.11.2009
68	14373565एच	हवलदार	अशोक कुमार	01.09.2009
69	14391568वाइ	हवलदार	अशोक कुमार	01.10.2009
70	14489366एन	हवलदार	अशोक यशवंत माने	01.01.2010
71	14393108डब्ल्यू	हवलदार	अशवनी कुमार	01.12.2009
72	15106773एक्स	हवलदार	आटा मोहन राव	01.01.2010
73	15104181पी	हवलदार	अददेश कुमार मिश्रा	01.09.2009
74	14394733के	हवलदार	अवधेश नारायण सिंह	01.01.2010
75	14391077एच	हवलदार	ए हुक	01.10.2009
76	14391078एल	हवलदार	बी रवि	01.10.2009
77	14376909एफ	हवलदार	बाबू लाल	01.12.2009
78	14392090वाइ	हवलदार	बाबू लाल यादव	01.11.2009
79	14377124के	हवलदार	बाबू राम	01.12.2009
80	14374856पी	हवलदार	बाला दीन	01.10.2009
81	14391238ए	हवलदार	बलबीर सिंह	01.10.2009
82	14394042एक्स	हवलदार	बलबीर सिंह	01.01.2010
83	14487109एक्स	हवलदार	बलबीर सिंह	01.11.2009
84	15107133ए	हवलदार	बलेश्वर महतो	01.01.2010
85	15104436के	हवलदार	बलजीत सिंह	01.09.2009
86	14392032पी	हवलदार	बलजीत सिंह	01.11.2009
87	14392768एफ	हवलदार	बांके सिंह	01.11.2009
88	15104813पी	हवलदार	बनवारी लाल शर्मा	01.10.2009
89	15105087एक्स	हवलदार	बारिया भरत सिंह वी एस	01.10.2009
90	15105348ए	हवलदार	बारिया डी. भाई एस भाई	01.11.2009
91	15106888एल	हवलदार	बेद राम अहीर	01.01.2010
92	14392293एच	हवलदार	भगत सिंह	01.11.2009
93	14391913एफ	हवलदार	भगवान सिंह	01.10.2009
94	14377702एन	हवलदार	भगवान सिंह	01.12.2009
95	14488540एच	हवलदार	भगवान सिंह बिष्ट	01.12.2009
96	15107075एफ	हवलदार	भगवान श्रीराम गडेकर	01.01.2010
97	14487077ए	हवलदार	भागवत सिंह धपोला	01.10.2009
98	15105394पी	हवलदार	भरत सिंह	01.11.2009
99	15104593डब्ल्यू	हवलदार	भरत सिंह	01.10.2009
100	14489263पी	हवलदार	भरत एस	01.01.2010
101	14486576एच	हवलदार	बी नाथ सिंह	01.10.2009
102	14489118एक्स	हवलदार	भवानी फेर	01.01.2010
103	14392565एक्स	हवलदार	भीम सिंह जाट	01.11.2009
104	14394375के	हवलदार	भूप सिंह यादव	01.01.2010
105	14487039के	हवलदार	भूरा सिंह	01.10.2009
106	14393722एल	हवलदार	बिदयाधर परीद	01.12.2009
107	15104006ए	हवलदार	बिजय कुमार साहा	01.09.2009

108	15104098एक्स	हवलदार	बिजय पाल	01.09.2009
109	14378061वाइ	हवलदार	बिजया कुमार प्रसाद	01.01.2010
110	14373341एच	हवलदार	बिजया कुमार सत्पथी	01.09.2009
111	15104396एन	हवलदार	बिकाश चंद्रा सेन	01.09.2009
112	15104220एच	हवलदार	बिनय कुमार	01.09.2009
113	14391334पी	हवलदार	बिपिन बिहारी पांडे	01.10.2009
114	14377141के	हवलदार	बिपिन बिहारी राउत	01.12.2009
115	15104131के	हवलदार	बीर सिंह रावत	01.09.2009
116	14392279डब्ल्यू	हवलदार	बीर सिंह यादव	01.11.2009
117	14376406डब्ल्यू	हवलदार	बिरेन्द्रा बैठा	01.11.2009
118	15105287एन	हवलदार	बिरमा राम	01.10.2009
119	15105489पी	हवलदार	बीरपाल सिंह भादौरिया	01.11.2009
120	14376612ए	हवलदार	बिशेष्वर सिंह	01.12.2009
121	14373545पी	हवलदार	बिशू धारी सिंह	01.09.2009
122	14376274एन	हवलदार	बोदू राम	01.11.2009
123	15107105एन	हवलदार	बी कसईयाह	01.01.2010
124	14393383डब्ल्यू	हवलदार	बी बाल सिंह	01.12.2009
125	14393962एच	हवलदार	ब्रमा सिंह	01.01.2010
126	14392831एल	हवलदार	बी सिंह	01.11.2009
127	15104887के	हवलदार	ब्रिजेश चंद्र	01.10.2009
128	14389838के	हवलदार	बी संकर राव	01.09.2009
129	15106795डब्ल्यू	हवलदार	सी ए रामचंद्र	01.01.2010
130	14394204एक्स	हवलदार	सी इसरायल	01.01.2010
131	14374406एक्स	हवलदार	सी आर जोसफ	01.10.2009
132	14390453वाइ	हवलदार	सी एस चौधरी	01.09.2009
133	14390995एच	हवलदार	सी वाइ मलप्पा जी.ओएल	01.10.2009
134	14390648के	हवलदार	चन्द सिंह	01.09.2009
135	14488169वाइ	हवलदार	चंद्रा पाल सिंह	01.11.2009
136	15107215एच	हवलदार	चरनजीत सिंह	01.01.2010
137	14485753एल	हवलदार	छज्जू राम	01.09.2009
138	14375570एम	हवलदार	छोटू राम	01.11.2009
139	14377212ए	हवलदार	डी. ए एस एच भाई	01.12.2009
140	14377177एच	हवलदार	देबराज. एम	01.12.2009
141	14392272एम	हवलदार	दल चंद्रा	01.11.2009
142	15106728एल	हवलदार	दलबीर सिंह	01.01.2010
143	14391158एच	हवलदार	दलबीर सिंह	01.10.2009
144	15106050एच	हवलदार	दलेल सिंह	01.12.2009
145	14393524ए	हवलदार	दामोर रमा भाई नाना भाई	01.12.2009
146	14390595डब्ल्यू	हवलदार	दरबारा सिंह	01.09.2009
147	14487219एम	हवलदार	दर्शन सिंह रावत	01.10.2009
148	14376367एच	हवलदार	दयानन्द कुमार डी.	01.11.2009

149	14393726एफ	हवलदार	देबेन्द्र दास	31.10.2009
150	14488975एल	हवलदार	दीप सिंह	01.01.2010
151	15106323ए	हवलदार	देशराज सिंह तोमर	01.12.2009
152	14392967पी	हवलदार	देवी शरण प्रसाद	01.11.2009
153	14485814एक्स	हवलदार	देविन्द्र प्रसाद सिंह	01.09.2009
154	14374185डब्ल्यू	हवलदार	धन राज	01.10.2009
155	14391692ए	हवलदार	धानन जॉय तिवारी	01.10.2009
156	15105696एफ	हवलदार	धन्नजय दास	01.11.2009
157	15105564एन	हवलदार	धनवीर सिंह	01.11.2009
158	14374919एम	हवलदार	धर्मवीर सिंह	01.10.2009
159	14392924ए	हवलदार	ध्यानपाल सिंह	01.11.2009
160	14393053एक्स	हवलदार	दिलबाग सिंह नैन	01.12.2009
161	14393529वाइ	हवलदार	दिलभाग सिंह	01.12.2009
162	15104921वाइ	हवलदार	डिसल्ला वी	01.10.2009
163	14394354एन	हवलदार	डी. सिंह	01.01.2010
164	14389870वाइ	हवलदार	द्वारिका नाथ शर्मा	01.09.2009
165	14390832एन	हवलदार	ई देवा बाथम	01.09.2009
166	14486869एन	हवलदार	ई सिरन्जीवेलू	01.10.2009
167	14394067के	हवलदार	ई श्रीधर	01.01.2010
168	14378526एन	हवलदार	ई सत्यप्पा डी. कोप्पा	01.01.2010
169	14487716डब्ल्यू	हवलदार	जी. जी. टोरसल्ले	01.11.2009
170	14392797डब्ल्यू	हवलदार	जी. वी. राव	01.11.2009
171	15104060एन	हवलदार	गजेन्द्र पाल सिंह	01.09.2009
172	14391314एफ	हवलदार	गंगा राम	01.10.2009
173	14391850के	हवलदार	गमपति प्रसाद मिश्रा	01.10.2009
174	14377045पी	हवलदार	गोरांगा परीद	01.12.2009
175	14373472एन	हवलदार	गोरी शंकर	01.09.2009
176	15105026ए	हवलदार	गिरधारी लाल	01.10.2009
177	14393407पी	हवलदार	गिरि जे	01.12.2009
178	15106329एफ	हवलदार	गोपाल चंद्रा प्रधान	01.12.2009
179	15106062एक्स	हवलदार	गोपाल सिंह	01.12.2009
180	14373010एफ	हवलदार	गुलाब सिंह	01.09.2009
181	15106922ए	हवलदार	गुना कृष्णा राव	01.01.2010
182	14392828एल	हवलदार	गुरचरण सिंह	01.11.2009
183	15106660पी	हवलदार	गुरदेव सिंह	01.01.2010
184	14487902एम	हवलदार	गुरदयाल सिंह	01.11.2009
185	15105742एल	हवलदार	गुरमेज सिंह	01.11.2009
186	15105012ए	हवलदार	गुरनाम सिंह	01.10.2009
187	14488386पी	हवलदार	जी. प्रसाद कुशवाह	01.12.2009
188	14374000के	हवलदार	एच ए कथाल	01.09.2009
189	14377448पी	हवलदार	एच आर एफ सक्कारकर	01.12.2009

190	15105372डब्ल्यू	हवलदार	हकीम सिंह	01.11.2009
191	15104785एन	हवलदार	हकीम सिंह	01.10.2009
192	14393648पी	हवलदार	हक्के शिवराज राव साहेब	01.12.2009
193	14389793पी	हवलदार	हनीफ खान	01.09.2009
194	14374695एक्स	हवलदार	हनोमान	01.10.2009
195	15106215डब्ल्यू	हवलदार	हरेन्द्र नाथ तिवारी	01.12.2009
196	15106182डब्ल्यू	हवलदार	हरी कुमार वी	01.12.2009
197	14391579एल	हवलदार	हरी सिंह	01.10.2009
198	14486680डब्ल्यू	हवलदार	हरी सिंह सहारन	01.10.2009
199	15105374एफ	हवलदार	हरिओम दुर्गा प्रसाद	01.11.2009
200	14488453पी	हवलदार	हरीश चंद्रा मिश्रा	01.12.2009
201	14391499एन	हवलदार	हेम कांथ बर्मन	01.10.2009
202	14374352एफ	हवलदार	हेम राज	01.10.2009
203	14394552वाइ	हवलदार	हीरा सिंह	01.01.2010
204	15103989एन	हवलदार	होशियार सिंह	01.09.2009
205	14383796एम	हवलदार	आइ चंद्रन	01.11.2009
206	14487128एच	हवलदार	इन्द्रा पाल सिंह कुशवाह	01.11.2009
207	15107012वाइ	हवलदार	इंदराज सिंह	01.01.2010
208	14378660वाइ	हवलदार	ईश्वर सिंह	01.01.2010
209	14391224ए	हवलदार	जादव दत्ताजी राव नारायण राव	01.10.2009
210	15104987पी	हवलदार	जादव विजय रामचंद्र	01.10.2009
211	15105294के	हवलदार	जे सिंह यादव	01.10.2009
212	15107030एफ	हवलदार	जगदीश प्रसाद	01.01.2010
213	14374360ए	हवलदार	जागीर सिंह	01.10.2009
214	15105436डब्ल्यू	हवलदार	जगपाल सिंह	01.11.2009
215	15106593पी	हवलदार	जगतार सिंह	01.01.2010
216	14391394के	हवलदार	जगतार सिंह	01.10.2009
217	14488267वाइ	हवलदार	जय चन्द	01.12.2009
218	14489690एल	हवलदार	जय प्रकाश पांडे	01.01.2010
219	14389950डब्ल्यू	हवलदार	जय सिंह	01.09.2009
220	14393212के	हवलदार	जयपाल सिंह परिहार	01.12.2009
221	14392212एक्स	हवलदार	जमुना प्रसाद	01.11.2009
222	15104001एफ	हवलदार	जनक देव यादव	01.09.2009
223	15104719एल	हवलदार	जनक कुमार	01.10.2009
224	14489483वाइ	हवलदार	जनार्दन तिवारी	01.01.2010
225	14488501के	हवलदार	जसवंत सिंह	01.12.2009
226	14393128के	हवलदार	जसवंत सिंह	01.12.2009
227	15104221एल	हवलदार	जया रमन पी	01.09.2009
228	14489107एल	हवलदार	जयकृष्णा प्रधान	01.01.2010
229	14391614एच	हवलदार	जयकुमारन के	01.10.2009
230	14390362पी	हवलदार	जीत सिंह	01.09.2009

231	15107153एन	हवलदार	जे राम	01.01.2010
232	15106741पी	हवलदार	जोगिंदर कुमार	01.01.2010
233	14392243एक्स	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.11.2009
234	15105487के	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.11.2009
235	14393512एल	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.12.2009
236	14378490ए	हवलदार	जॉन सोन	01.01.2010
237	14389860पी	हवलदार	जोशी टी वी	01.09.2009
238	14486134के	हवलदार	जोत राम	01.09.2009
239	14377779डब्ल्यू	हवलदार	के मरियप्पन	01.12.2009
240	14392388एच	हवलदार	के निरंजन रेडी	01.11.2009
241	14378037एच	हवलदार	के याराया	01.01.2010
242	14487799एम	हवलदार	कबीर चन्द	01.11.2009
243	15105898एच	हवलदार	कादम्बाला पापा राव	01.11.2009
244	14488730पी	हवलदार	कैलाश चन्द गूजर	01.12.2009
245	14389911एक्स	हवलदार	काका राम	01.09.2009
246	14374334वाइ	हवलदार	कालू राम	01.10.2009
247	14392482एम	हवलदार	कलविन्द्र सिंह	01.11.2009
248	15106925एन	हवलदार	के सिंह	01.01.2010
249	14488929डब्ल्यू	हवलदार	के प्रसाद एम	01.01.2010
250	14375414एच	हवलदार	कमलेश कुमार	01.11.2009
251	14487918एक्स	हवलदार	कमलेसवर राय	01.11.2009
252	14377528एम	हवलदार	कंडासामी एम	01.12.2009
253	15106010एफ	हवलदार	कर्म सिंह	01.12.2009
254	14391930एफ	हवलदार	करन सिंह यादव	01.10.2009
255	14390994ए	हवलदार	कर्ण शोशाईयाह	01.10.2009
256	15106473डब्ल्यू	हवलदार	करतार सिंह	01.12.2009
257	14487590एफ	हवलदार	कश्मीर सिंह	01.11.2009
258	14377797वाइ	हवलदार	केसर सिंह परिहार	01.01.2010
259	15106433पी	हवलदार	के हरेश कुमार हीरालाल	01.12.2009
260	14486606पी	हवलदार	के सिंह	01.10.2009
261	14374389एच	हवलदार	खनीन्द्रा नाथ	01.10.2009
262	14374431डब्ल्यू	हवलदार	खीम सिंह	01.10.2009
263	14393417वाइ	हवलदार	खिम बहादुर कुंवर	01.12.2009
264	15106632एच	हवलदार	खिम बहादुर थापा	01.01.2010
265	14488001एम	हवलदार	खुशी राम	01.11.2009
266	15106643पी	हवलदार	किरोदी मल	01.01.2010
267	14392720एन	हवलदार	कीर्तन बिहारी नाइक	01.11.2009
268	14377788एक्स	हवलदार	किशन लाल	01.01.2010
269	14393956पी	हवलदार	किशोर छत्री	01.01.2010
270	15105899एल	हवलदार	के कृष्णा राव	01.11.2009
271	14390718एक्स	हवलदार	कोनारी डी.	01.09.2009

272	14486105पी	हवलदार	कशना कुमार	01.09.2009
273	15106757ए	हवलदार	कष्णन चन्द यादव	01.01.2010
274	14487917पी	हवलदार	कष्णन चौधरी	01.11.2009
275	14377873ए	हवलदार	कष्णन देव प्रसाद	01.01.2010
276	15105114डब्ल्यू	हवलदार	कष्णन सिंह	01.10.2009
277	15106956एन	हवलदार	कृष्णा देव राव	01.01.2010
278	14488750एच	हवलदार	कृष्णा कुमार	01.12.2009
279	14376480एक्स	हवलदार	कृष्णादासन एम	01.11.2009
280	14376617वाइ	हवलदार	कुबेर नाथ ठाकुर	01.12.2009
281	14391998एच	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.11.2009
282	15106254पी	हवलदार	कुलदीप राज	01.12.2009
283	15107203एन	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.01.2010
284	15106764डब्ल्यू	हवलदार	कुमार	01.01.2010
285	14376592एक्स	हवलदार	कुंवर सिंह	01.09.2009
286	15104728एम	हवलदार	एलएके चन्द यादव	01.10.2009
287	14376096डब्ल्यू	हवलदार	लख्मी चंद्रा	01.11.2009
288	15105161एन	हवलदार	लखविन्दर सिंह	01.10.2009
289	14486570एफ	हवलदार	लाल बहदुर रौय	01.10.2009
290	15104346एच	हवलदार	लाल मान	01.09.2009
291	14377889एल	हवलदार	लाल मनी चाउबे	01.01.2010
292	15106544एम	हवलदार	लाल मनी यादव	01.12.2009
293	14392235वाइ	हवलदार	लाल साहेब मिश्रा	01.11.2009
294	14392023एन	हवलदार	लाल सिंह यादव	01.11.2009
295	14394335एच	हवलदार	ललित कुमार	01.01.2010
296	14390098एम	हवलदार	ललता प्रसाद	01.09.2009
297	15106057एम	हवलदार	लक्ष्मन राम	01.12.2009
298	14373435ए	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.09.2009
299	15106789एच	हवलदार	एम ए मोहम्मद इब्राहिम	01.01.2010
300	14377736एफ	हवलदार	एम डी. अबुलेश	01.01.2010
301	15104968के	हवलदार	एम डी. मुस्लिम अंसारी	01.10.2009
302	14391331एफ	हवलदार	एम डी. जेड खलीफा	01.10.2009
303	14377855एक्स	हवलदार	एम नागप्पन	01.01.2010
304	15106644एक्स	हवलदार	एम आर नारायण सामी	01.01.2010
305	14375878ए	हवलदार	एम रवि	01.11.2009
306	15104843एम	हवलदार	एम संपतु	01.10.2009
307	14486316एक्स	हवलदार	एम शंकरप्पा	01.10.2009
308	14392790एम	हवलदार	मदन बीडीआर थापा	01.11.2009
309	15105947ए	हवलदार	मदन दुबे	01.11.2009
310	14390473एम	हवलदार	मदन लाल	01.09.2009
311	15107123डब्ल्यू	हवलदार	मधुकर	01.01.2010
312	15107806के	हवलदार	महा सिंह	01.01.2010

313	14391372एल	हवलदार	महाबीर प्रसाद	01.10.2009
314	15107069एन	हवलदार	महाजन जी. भाओ	01.01.2010
315	14373474वाइ	हवलदार	महावीर प्रसाद शर्मा	01.09.2009
316	14392992एन	हवलदार	महेंद्र पाल	01.12.2009
317	15105137एक्स	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.10.2009
318	14373381के	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.09.2009
319	14391553डब्ल्यू	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.10.2009
320	15104875पी	हवलदार	महेंद्र सिंह एम	01.10.2009
321	14487293एन	हवलदार	महेश चंद्र	01.11.2009
322	14393547एफ	हवलदार	महेश सिंह	01.12.2009
323	14394538एम	हवलदार	महीपाल सिंह	01.01.2010
324	14390253एच	हवलदार	महीपाल सिंह	01.09.2009
325	14374239एम	हवलदार	मेजर सिंह	01.10.2009
326	14393415एन	हवलदार	माखन सिंह	01.12.2009
327	15105054एम	हवलदार	मल्ली महा देव वी	01.10.2009
328	14373740एम	हवलदार	मान सिंह	01.09.2009
329	15104599एक्स	हवलदार	मान सिंह	01.10.2009
330	14377896एफ	हवलदार	मंगल सिंह	01.01.2010
331	14393248एच	हवलदार	मांगे राम	01.12.2009
332	15104214पी	हवलदार	मणिकंदन एन	01.09.2009
333	14392314एन	हवलदार	मनजीत सिंह	01.11.2009
334	14374306एम	हवलदार	एम मिश्रा	01.10.2009
335	14390211डब्ल्यू	हवलदार	मेघ नाथ धाकल	01.09.2009
336	14392457एन	हवलदार	मोहन लाल	01.11.2009
337	14393175एफ	हवलदार	मोहन सिंह	01.12.2009
338	14392239पी	हवलदार	मोहन सिंह	01.11.2009
339	15105123एक्स	हवलदार	मूला राम यादव	01.10.2009
340	14499038एन	हवलदार	मुरारी लाल	01.11.2009
341	15106650एल	हवलदार	मुथ्याला नागेश्वर राव	01.01.2010
342	14376304ए	हवलदार	एन बसवंताप्पा	01.11.2009
343	15105065वाइ	हवलदार	नाहर सिंह	01.10.2009
344	14376799एक्स	हवलदार	नन्द किशोर राम	01.12.2009
345	14488009वाइ	हवलदार	नंदा गोपाल मंडल	01.11.2009
346	15104740एन	हवलदार	नारद साह	01.10.2009
347	15105835ए	हवलदार	नारायन दास	01.11.2009
348	14486624एक्स	हवलदार	नारायन सिंह	01.10.2009
349	14391733वाइ	हवलदार	नरेन्द्रा कुमार गुरंग	01.10.2009
350	14376622के	हवलदार	नरेन्द्रा पांडे	01.12.2009
351	14377198वाइ	हवलदार	नरेश चंद्रा	01.12.2009
352	15107192एम	हवलदार	नरेश कुमार	01.01.2010
353	15105211एन	हवलदार	नरेश कुमार	01.10.2009

354	14485695एम	हवलदार	नरेश कुमार	01.09.2009
355	14486532एल	हवलदार	नरेश कुमार यादवा	01.10.2009
356	14376801के	हवलदार	नरेश प्रसाद सिंह	01.12.2009
357	14377649एन	हवलदार	नरेश्वर खकलारी	01.12.2009
358	15106332एफ	हवलदार	नाजरि अहमद शाह	01.12.2009
359	14392077पी	हवलदार	एन पाल सिंह	01.11.2009
360	14393218एल	हवलदार	निरंजन सिंह	01.10.2009
361	15105047डब्ल्यू	हवलदार	एन नाथ	01.10.2009
362	14376554एफ	हवलदार	निवास कुमार स्वेन	01.11.2009
363	14378632एम	हवलदार	नूर एन सहिक	01.01.2010
364	15105445एक्स	हवलदार	ओम प्रकाश	01.11.2009
365	14377182एन	हवलदार	ओम प्रकाश	01.12.2009
366	15104278ए	हवलदार	ओम प्रकाश	01.09.2009
367	15104499एम	हवलदार	ओम प्रकाश	01.10.2009
368	15104404एफ	हवलदार	ओम प्रकाश शिसोदिया	01.09.2009
369	14392704डब्ल्यू	हवलदार	ओमाना के	01.11.2009
370	14390533डब्ल्यू	हवलदार	ओमवीर सिंह	01.09.2009
371	15104664एम	हवलदार	पी सी एस नायडू	01.10.2009
372	14389955पी	हवलदार	पी च. रौय	01.09.2009
373	14375426एक्स	हवलदार	पलानी के	01.11.2009
374	15104073एल	हवलदार	पलविंदर सिंह	01.09.2009
375	14391836एक्स	हवलदार	पंचान्न मिश्रा	01.10.2009
376	15106233वाइ	हवलदार	परमजीत सिंह	01.12.2009
377	14391939डब्ल्यू	हवलदार	परमजीत सिंह	01.10.2009
378	14393807एफ	हवलदार	परमजीत सिंह	01.12.2009
379	15103998पी	हवलदार	परशु पाठक	01.09.2009
380	15106218के	हवलदार	परेशनाथ घोष	01.12.2009
381	15104713के	हवलदार	परसुराम सिंह	01.10.2009
382	14374639वाइ	हवलदार	प्रवीन सिंह	01.10.2009
383	14394624एक्स	हवलदार	पाती फत्ते सिंह कृष्णा	01.01.2010
384	14377027एम	हवलदार	पाती राम सिंह	01.12.2009
385	14376809डब्ल्यू	हवलदार	पी श्याम सुंदर	01.12.2009
386	15103933एफ	हवलदार	फूल सिंह	01.09.2009
387	14389965वाइ	हवलदार	प्यार चन्द	01.09.2009
388	14392159एक्स	हवलदार	प्रभात चन्द	01.11.2009
389	14392539डब्ल्यू	हवलदार	प्रभु दयाल	01.11.2009
390	14376526पी	हवलदार	प्रदीप कुमार	01.11.2009
391	14390724एल	हवलदार	प्रजा पाती लालजी भाई विथल भाई	01.09.2009
392	15104760एफ	हवलदार	प्रकाश चन्द	01.10.2009
393	15106205एम	हवलदार	प्रमोद सिंह	01.12.2009
394	15106770के	हवलदार	प्रताप सिंह	01.01.2010

395	15104942पी	हवलदार	प्रवाकर लेनका	01.10.2009
396	14489480एल	हवलदार	प्रवीन कुमार	01.01.2010
397	14487328वाइ	हवलदार	प्रेम चन्द	01.11.2009
398	14393694के	हवलदार	प्रीतम सिंह	01.12.2009
399	14390462ए	हवलदार	पूरन चंद्रा मुरमु	01.09.2009
400	15106138एम	हवलदार	पूरन सिंह	01.12.2009
401	15103911एच	हवलदार	पूरन सिंह	01.09.2009
402	15104129एम	हवलदार	आर पी कुशवाहा	01.09.2009
403	14377595एक्स	हवलदार	आर रवि	01.12.2009
404	14389973एक्स	हवलदार	राबिन च. दास	01.09.2009
405	15104886एफ	हवलदार	रबींद्र नाथ सिंह	01.10.2009
406	14393294एक्स	हवलदार	राधाकृष्ण आर	01.12.2009
407	15106124एम	हवलदार	राधे श्याम सिंह	01.12.2009
408	14390314पी	हवलदार	रफिउल्ला बी ए	01.09.2009
409	14390594एन	हवलदार	रघबीर सिंह	01.09.2009
410	14394141ए	हवलदार	रघुमनि बिस्वाल	01.01.2010
411	14392774पी	हवलदार	राज कंवर	01.11.2009
412	15104409ए	हवलदार	राजा एम	01.09.2009
413	14393340एफ	हवलदार	राजशेखरन जी.	01.12.2009
414	15104967एफ	हवलदार	राजदेव प्रसाद सिंह	01.10.2009
415	15106178एन	हवलदार	राजीव कुमार सिंह	01.12.2009
416	15104555ए	हवलदार	राजेंद्र पण्डित	01.10.2009
417	15103847डब्ल्यू	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद	01.09.2009
418	15104210वाइ	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद साह	01.09.2009
419	15103956एच	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.09.2009
420	14375717एक्स	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.11.2009
421	14375163के	हवलदार	राजेंद्रा	01.10.2009
422	14489265ए	हवलदार	राजेंद्रा कुमार	01.01.2010
423	14376398एच	हवलदार	राजेंद्रा प्रसाद वर्मा	01.11.2009
424	14394402एच	हवलदार	राजेंद्रा प्रसाद यादवा	01.01.2010
425	14488181ए	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.12.2009
426	14392526वाइ	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.11.2009
427	14487265एफ	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.11.2009
428	14489357एम	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.01.2010
429	14390772एल	हवलदार	राजेश कुमार मिश्रा	01.09.2009
430	14393490एक्स	हवलदार	राजिन्दर कुमार	01.12.2009
431	14488486ए	हवलदार	राजपाल सिंह	01.12.2009
432	15106028एक्स	हवलदार	राजपाल सिंह	01.12.2009
433	15106857एल	हवलदार	राजपाल यादव	01.01.2010
434	14373867पी	हवलदार	राजू बाल्मीकि	01.09.2009
435	15106130ए	हवलदार	राकेश चंद्रा	01.12.2009

436	14486179के	हवलदार	राम बाबू शर्मा	01.09.2009
437	14376546एच	हवलदार	राम बाबू सिंह	01.11.2009
438	14377704वाइ	हवलदार	राम भान सिंह	01.12.2009
439	15104896एल	हवलदार	राम बिलास सिंह	01.10.2009
440	15105973एफ	हवलदार	राम दास सिंह बघेल	01.12.2009
441	14376085के	हवलदार	राम गोपाल	01.11.2009
442	14488018ए	हवलदार	राम गोपाल गर्ग	01.11.2009
443	14373612पी	हवलदार	राम गुलाम	01.09.2009
444	14485773वाइ	हवलदार	राम किशोर	01.09.2009
445	14394372डब्ल्यू	हवलदार	राम कष्णन यादव	01.01.2010
446	14374468एक्स	हवलदार	राम कुमार	01.10.2009
447	14375096के	हवलदार	राम कुमार	01.10.2009
448	14377156एम	हवलदार	राम नारायण राम	01.12.2009
449	14489627डब्ल्यू	हवलदार	राम नरेश यादव	01.01.2010
450	14489611एल	हवलदार	राम पारश पण्डित	01.01.2010
451	14393902एन	हवलदार	राम राज शर्मा	01.01.2010
452	14376492एम	हवलदार	राम एस राम	01.11.2009
453	14374693एम	हवलदार	राम सजीवन	01.10.2009
454	14390067एम	हवलदार	राम सकल राय	01.09.2009
455	14373486एन	हवलदार	राम एस राय	01.09.2009
456	14377647एच	हवलदार	राम एस सिंह	01.12.2009
457	14374339एक्स	हवलदार	राम शंकर राम	01.10.2009
458	14390115एफ	हवलदार	राम वकील	01.09.2009
459	14488457एल	हवलदार	राम विलास सिंह	01.12.2009
460	14373685एफ	हवलदार	राम वीर	01.09.2009
461	14389994एन	हवलदार	रमा शंकर सिंह	01.09.2009
462	14377239एक्स	हवलदार	रमन झा	01.12.2009
463	15106284एम	हवलदार	रामानन्द	01.12.2009
464	14389775एम	हवलदार	रमेश चन्द	01.09.2009
465	14376763वाइ	हवलदार	रमेश चंद्रा सिंह	01.12.2009
466	14393484के	हवलदार	रमेश कुमार	01.12.2009
467	14390383एल	हवलदार	रमेश सिंह	01.09.2009
468	14392076एम	हवलदार	रामेश्वर दयाल	01.11.2009
469	14375644डब्ल्यू	हवलदार	रामजी पांडे	01.11.2009
470	14373869ए	हवलदार	रामपाल	01.09.2009
471	14488799वाइ	हवलदार	रामपाल सिंह	01.12.2009
472	15106880वाइ	हवलदार	रामपत सिंह	01.01.2010
473	14392990एच	हवलदार	रामवीर सिंह	01.11.2009
474	15106372एच	हवलदार	रनबीर सिंह	01.12.2009
475	15106887एच	हवलदार	रणधीर सिंह	01.01.2010
476	14392730एक्स	हवलदार	रंग बहादुर सिंह	01.11.2009

477	14377926एन	हवलदार	रंजीत सिंह	01.01.2010
478	15104456एक्स	हवलदार	रतन सिंह	01.09.2009
479	14392066एच	हवलदार	रतन सिंह राठोर	01.11.2009
480	15105185एक्स	हवलदार	रतनेश्वर हज़ारिका	01.10.2009
481	14489247एक्स	हवलदार	रतन लाल	01.01.2010
482	15104150पी	हवलदार	रविन्द्र सिंह लामा	01.09.2009
483	14394415ए	हवलदार	रवि भान राय	01.01.2010
484	14389727एम	हवलदार	रविन्द्र कुमार	01.09.2009
485	14374312ए	हवलदार	रवीन्द्र सिंह यादवा	01.10.2009
486	15105179के	हवलदार	रेवन्ना	01.10.2009
487	14487349पी	हवलदार	रूप नारायन	01.11.2009
488	14375761एफ	हवलदार	रुद्रप्पा पारप्पा डी.	01.11.2009
489	14378771डब्ल्यू	हवलदार	एस सी टिकादर	01.01.2010
490	14375164एम	हवलदार	एस एन अवरथी	01.10.2009
491	14392246एल	हवलदार	एस एन सिंह	01.11.2009
492	15106923एच	हवलदार	एस आर विश्वानाथन	01.01.2010
493	15105955वाइ	हवलदार	एस सरवानन	01.11.2009
494	15106531पी	हवलदार	सजीव सी एम	01.12.2009
495	15106002एच	हवलदार	सनप विष्णु उमाजी	01.12.2009
496	15106101एल	हवलदार	संग्राम राम चौधरी	01.12.2009
497	14373583एल	हवलदार	संजीव कुमार	01.09.2009
498	15104143वाइ	हवलदार	संत राज सिंह	01.09.2009
499	14488794ए	हवलदार	संत राम	01.12.2009
500	14392093एम	हवलदार	संतोष कुमार मिश्रा	01.11.2009
501	14393367वाइ	हवलदार	सांवर मल शर्मा	01.12.2009
502	14489187एन	हवलदार	सरत कुमार पाणिग्रही	01.01.2010
503	15106965पी	हवलदार	सरदार सिंह	01.01.2010
504	14487320एम	हवलदार	शशि कुमार केके	01.11.2009
505	15105015एन	हवलदार	सत पौल	01.10.2009
506	14373449ए	हवलदार	सतबीर	01.09.2009
507	15105655एक्स	हवलदार	सतबीर सिंह	01.11.2009
508	14391969एन	हवलदार	सतबीर सिंह	01.11.2009
509	15107198एन	हवलदार	सतगुर सिंह	01.01.2010
510	15104349डब्ल्यू	हवलदार	सत्य वीर सिंह	01.09.2009
511	14375792एफ	हवलदार	सत्येन्द्र पांडे	01.11.2009
512	14373644एक्स	हवलदार	एस सिंह	01.09.2009
513	14374454एक्स	हवलदार	सेवा सिंह	01.10.2009
514	15105613एल	हवलदार	शाम शेर सिंह	01.11.2009
515	14390947एच	हवलदार	शाम सिंह	01.10.2009
516	15104947एन	हवलदार	शम्भू शरण मिश्रा	01.10.2009
517	14390411एम	हवलदार	शण्मुगमै एस	01.09.2009

518	14392840एम	हवलदार	शेर सिंह राघव	01.11.2009
519	14390245के	हवलदार	शिशुपाल सिंह नेगी	01.09.2009
520	15106837एक्स	हवलदार	शिव चरण यादव	01.01.2010
521	14378030वाइ	हवलदार	शिव नारायण प्रसाद	01.01.2010
522	15104704एच	हवलदार	शिव प्रसाद	01.10.2009
523	15107080एम	हवलदार	श्याम कांता सिन्हा	01.01.2010
524	14393582के	हवलदार	एस बरभुईया	01.12.2009
525	14487916एम	हवलदार	सीता राम तिवारी	01.11.2009
526	14375522एम	हवलदार	सोहन लाल	01.11.2009
527	14377288ए	हवलदार	सुभाना	01.12.2009
528	15105090एक्स	हवलदार	सुभाष चन्द	01.10.2009
529	14394526एक्स	हवलदार	सुभाष चन्द	01.01.2010
530	14394196के	हवलदार	सुबोध कुमार	01.01.2010
531	15104443ए	हवलदार	सुदेश पाल सिंह	01.09.2009
532	15106177एल	हवलदार	सुखविंदर सिंह	01.12.2009
533	14393104ए	हवलदार	सुखविंदर सिंह	01.12.2009
534	14375106एच	हवलदार	सुनंदा निओग	01.10.2009
535	15104209के	हवलदार	सुनील दत्ता साह	01.09.2009
536	15105560एक्स	हवलदार	सुनील कुमार	01.11.2009
537	14488606एन	हवलदार	सूरज मल	01.12.2009
538	14487384एक्स	हवलदार	सुरेंद्र कुमार	01.11.2009
539	15106550ए	हवलदार	सुरेंद्र नाथ यादव	01.12.2009
540	15106866एम	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.01.2010
541	14373819पी	हवलदार	सुरेश बाबू सी	01.09.2009
542	15105934एच	हवलदार	सुरेश चंद्र यादव	01.11.2009
543	15105622एम	हवलदार	सुरेश कुमार	01.11.2009
544	14391920एक्स	हवलदार	सुरेश सिंह कुशावाह	01.10.2009
545	14378673डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश सिंह यादव	01.01.2010
546	15103879वाइ	हवलदार	सुरजीत कुमार	01.09.2009
547	14393153एच	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.12.2009
548	14374960एच	हवलदार	सूरी देव प्रसाद	01.10.2009
549	14490538के	हवलदार	स्वामीनाथ प्रसाद	01.09.2009
550	14390639एच	हवलदार	टी मुनि राजूलू	01.09.2009
551	14374347डब्ल्यू	हवलदार	टी वीरप्पन	01.10.2009
552	14374827ए	हवलदार	टी पापा राव	01.10.2009
553	14391982एक्स	हवलदार	टेक बहादुर प्रधान	01.11.2009
554	14392849एफ	हवलदार	टी राम	01.11.2009
555	14390194एफ	हवलदार	तरसेम सिंह	01.09.2009
556	15107170एन	हवलदार	ठाकुर दास बघेल	01.01.2010
557	14390910एफ	हवलदार	टी नाइक	01.10.2009
558	14392350वाइ	हवलदार	थामस एम	01.11.2009

559	15105426एम	हवलदार	तिलक राज पठानिया	01.11.2009
560	14377422ए	हवलदार	तिलक सिंह	01.12.2009
561	14373623एफ	हवलदार	त्रिपुरारी मिश्रा	01.09.2009
562	14375500एन	हवलदार	टी राम	01.11.2009
563	14394332पी	हवलदार	यू महोम्द	01.01.2010
564	14375698एक्स	हवलदार	उमा कांत प्रसाद	01.11.2009
565	14393875पी	हवलदार	उम्मेद सिंह	01.01.2010
566	15106892एन	हवलदार	उमराव सिंह	01.01.2010
567	14392658एम	हवलदार	उत्तातम नंदी	01.11.2009
568	14389952एफ	हवलदार	उत्तातम सिंह	01.09.2009
569	14374010एन	हवलदार	वी नगानथन	01.09.2009
570	14374675के	हवलदार	वी सेट्टू	01.10.2009
571	14378003पी	हवलदार	वेदपाल	01.01.2010
572	14392574वाइ	हवलदार	वीर सिंह यादव	01.11.2009
573	14486808डब्ल्यू	हवलदार	वेनूकुटन पिल्लई के पी	01.10.2009
574	15106406एल	हवलदार	वी डी. छंगदयो	01.12.2009
575	14378477डब्ल्यू	हवलदार	विवेकानन्द जाना	01.01.2010
576	15107223एफ	हवलदार	विद्या प्रकाश सिंह	01.01.2010
577	14391270पी	हवलदार	विजय कुमार	01.10.2009
578	14378134ए	हवलदार	विजय कुमार	01.01.2010
579	14393693एफ	हवलदार	विजय प्रकाश	01.12.2009
580	14486647वाइ	हवलदार	विजय सिंह	01.10.2009
581	14392193एक्स	हवलदार	विजेन्द्र कुमार	01.11.2009
582	14393620पी	हवलदार	वीजेन्द्र शर्मा	01.12.2009
583	14392000एम	हवलदार	विक्रम सिंह	01.11.2009
584	14377003एच	हवलदार	विनय कुमार सिंह	01.12.2009
585	14376051डब्ल्यू	हवलदार	विनोद कुमार	01.11.2009
586	15107183एल	हवलदार	विश्वाभर दयाल यादव	01.01.2010
587	14489852एल	हवलदार	विश्वनाथ सिंह	01.01.2010
588	14394024पी	हवलदार	वी सुरेश बाबू	01.01.2010
589	15106596एच	हवलदार	यादवेंद्र सिंह	01.01.2010
590	14486467डब्ल्यू	हवलदार	यशपाल	01.10.2009
591	15104797एच	हवलदार	जिले सिंह	01.10.2009

सेना वायु सुरक्षा

592	14390249ए	हवलदार	अबरार हुसैन	01.09.2009
593	14488056डब्ल्यू	हवलदार	अजय कुमार मिश्रा	01.11.2009
594	14391267पी	हवलदार	अलेक्जेंडर थामस	01.10.2009
595	14392248डब्ल्यू	हवलदार	अनिल कुमार एस	01.11.2009
596	14393326पी	हवलदार	अरुण कुमार शुक्ला	01.12.2009
597	14377774एक्स	हवलदार	ए राज सिंह	01.01.2010

598	14391233एफ	हवलदार	बलबीर सिंह	01.10.2009
599	14393359ए	हवलदार	बलवान सिंह	01.12.2009
600	14391975एफ	हवलदार	भरत लाल	01.11.2009
601	14389817एन	हवलदार	सी जया संकर	01.09.2009
602	14392843ए	हवलदार	चंद्र सिंह	01.11.2009
603	14390779पी	हवलदार	चंद्रा भान सिंह	01.09.2009
604	14389891पी	हवलदार	दलजीत सिंह	01.09.2009
605	14376969डब्ल्यू	हवलदार	दामोदर मोहंती	01.12.2009
606	14393046एफ	हवलदार	दयानन्द	01.12.2009
607	14487955एल	हवलदार	देवेंदर प्रसाद सिंह	01.11.2009
608	14393316एल	हवलदार	धर्मवीर	01.12.2009
609	14374444एन	हवलदार	दिनेश कुमार वर्मा	01.10.2009
610	15105802पी	हवलदार	ई राम	01.11.2009
611	14392713एक्स	हवलदार	गंगा राम	01.11.2009
612	14391148वाइ	हवलदार	गुलदेव सिंह	01.10.2009
613	14374928एन	हवलदार	जगदीश प्रसाद	01.10.2009
614	14390741एल	हवलदार	जय प्रकाश चौहान	01.09.2009
615	14378402वाइ	हवलदार	झगडू राम	01.01.2010
616	14390799एच	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.09.2009
617	14392734एन	हवलदार	कमलेशवर उपाध्याय	01.11.2009
618	14374628एम	हवलदार	कश्मीर सिंह	01.10.2009
619	14390192डब्ल्यू	हवलदार	खेत सिंह	01.09.2009
620	14489319डब्ल्यू	हवलदार	के चंद्रा रौय	01.01.2010
621	14391059ए	हवलदार	कुलदीप चन्द	01.10.2009
622	14375391एम	हवलदार	एल सिंह	01.11.2009
623	14392081एक्स	हवलदार	लीला राम जाट	01.11.2009
624	14394735पी	हवलदार	मोदाला कृष्णा राव	01.01.2010
625	14373812एल	हवलदार	एन नागेस्वर राव	01.09.2009
626	15107990ए	हवलदार	नेत्रा सिंह	01.12.2009
627	14378646एम	हवलदार	निगप्पा डोडान्वार	01.01.2010
628	15105323वाइ	हवलदार	निर्मल कुमार	01.11.2009
629	14392532एम	हवलदार	ओम प्रकाश	01.11.2009
630	15104295ए	हवलदार	ओमप्रकाश	01.09.2009
631	14394589ए	हवलदार	पी रवीन्द्र अमरुत राव	01.01.2010
632	15106020एल	हवलदार	पी सिंह	01.12.2009
633	14376325डब्ल्यू	हवलदार	प्रोदीप केआर बोरा	01.11.2009
634	14375809के	हवलदार	पूरन सिंह	01.11.2009
635	14378022ए	हवलदार	आर महादेव राव जे	01.01.2010
636	14376436एन	हवलदार	राज किशोर	01.11.2009
637	15105732एफ	हवलदार	राजीव लोचन मिश्रा	01.11.2009
638	14373340ए	हवलदार	राकेश कुमार	01.09.2009

639	14374582पी	हवलदार	राम लखन	01.10.2009
640	14377795एन	हवलदार	राम नरेश सिंह	01.01.2010
641	14389894एच	हवलदार	राम निवास पाल	01.09.2009
642	14378086एल	हवलदार	रमेश चंद्रा बिस्वाल	01.01.2010
643	14378630एफ	हवलदार	रतन लाल	01.01.2010
644	14394723ए	हवलदार	रवि आर	01.01.2010
645	14394249एक्स	हवलदार	सतीश चन्द	01.01.2010
646	14390975पी	हवलदार	शीश राम जाट	01.10.2009
647	14377578एक्स	हवलदार	शिव दत्त	01.12.2009
648	14391989एफ	हवलदार	सिया राम कुमार	01.11.2009
649	14389995डब्ल्यू	हवलदार	सुधांगशु सतपती	01.09.2009
650	14393414एल	हवलदार	एस कुमार आर	01.12.2009
651	14394450एच	हवलदार	सुखदेव सिंह	01.01.2010
652	14391038के	हवलदार	सुनील कुमार सिंह	01.10.2009
653	14376513एक्स	हवलदार	सुरेन्द्रा राम	01.11.2009
654	15107000के	हवलदार	सुरेश	01.01.2010
655	15106736के	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.01.2010
656	14394077एन	हवलदार	टी बूपालन	01.01.2010
657	14389875एक्स	हवलदार	तमल चंद्रा दत्ता	01.09.2009
658	15106536एन	हवलदार	थानेष्वर गोगोई	01.12.2009
659	15106420एक्स	हवलदार	वी सवारी मुथु	01.12.2009
660	14374930एल	हवलदार	वेद राम	01.10.2009
661	14374611वाइ	हवलदार	विजय शंकर तिवारी	01.10.2009
662	14377013एम	हवलदार	युगल सिंह	01.12.2009

मद्रास इंजीनियर समूह

663	1378702ए	हवलदार	ए जयरामन	01.09.2009
664	15300646डब्ल्यू	हवलदार	ए मरियासेल्वन	01.11.2009
665	15300293एफ	हवलदार	ए नालाथम्बी	01.09.2009
666	15300981ए	हवलदार	ए थंगाराज	01.01.2010
667	15300568के	हवलदार	अजया कुमार वी के	01.11.2009
668	15300528एच	हवलदार	अमूदाला सुब्रमण्यम	01.10.2009
669	1379537एम	हवलदार	अनिल कुमार डी. के	01.12.2009
670	1379821एच	हवलदार	अर्विन्दाक्षन के	01.01.2010
671	1380099एफ	हवलदार	बालारमन डी.	01.01.2010
672	15300865एक्स	हवलदार	बसवराज मलप्पा ए	01.12.2009
673	1378817एन	हवलदार	भिमाप्पा बी	01.09.2009
674	1379609एल	हवलदार	बी पेददी राजू	01.12.2009
675	1379602एफ	हवलदार	सी जया सिंह	01.12.2009
676	15300323एन	हवलदार	सी पोनूरंगम	01.09.2009
677	15300303ए	हवलदार	सी सुब्रमणि	01.09.2009

678	1379090ए	हवलदार	चान्द्राकान्त मोती	01.11.2009
679	15300694डब्ल्यू	हवलदार	डी. के आर	01.11.2009
680	15300361के	हवलदार	दक्षिणा मूर्ती के	01.09.2009
681	1380231डब्ल्यू	हवलदार	दसाराथन आर	01.01.2010
682	15300271एच	हवलदार	डसथागीर ए	01.09.2009
683	15300461पी	हवलदार	ईमानवेल	01.10.2009
684	15300960के	हवलदार	ई चेन्ना कृष्णाहा	01.12.2009
685	1378978डब्ल्यू	हवलदार	जी. आनंदा नायडू	01.10.2009
686	15300678वाइ	हवलदार	जी. अन्नामलाई	01.11.2009
687	15300570एफ	हवलदार	जी. अय्यनासामी	01.11.2009
688	1379176वाइ	हवलदार	जी. थुकाराम	01.12.2009
689	1379945एक्स	हवलदार	जी. धापा राव	01.01.2010
690	1379070एम	हवलदार	जी. विदराज जी.	01.11.2009
691	15300756एल	हवलदार	हनमन्तापा काली	01.11.2009
692	1380039एम	हवलदार	जे एंटनी सामी	01.01.2010
693	1378935एफ	हवलदार	जे रायर	01.10.2009
694	1379833एक्स	हवलदार	जेम्स टी पी	01.01.2010
695	15300421एन	हवलदार	जॉय के.ए	01.09.2009
696	1380013एक्स	हवलदार	के अरुमुगम	01.01.2010
697	1379137ए	हवलदार	के एम सुब्रमणि	01.11.2009
698	1378652ए	हवलदार	के मुनीराथनम मनदादी	01.09.2009
699	15300278एम	हवलदार	के मुरुगाधास	01.09.2009
700	1379294एम	हवलदार	कमल सिंह	01.12.2009
701	1379584के	हवलदार	के वीएनआर कोटैया	01.12.2009
702	15300370एल	हवलदार	खाजा हुसैन पी ए	01.09.2009
703	1379168ए	हवलदार	किशोरी भगत	01.11.2009
704	15300809वाइ	हवलदार	कोम्मू सुब्रमण्यम	01.11.2009
705	1378737डब्ल्यू	हवलदार	कृष्णा प्रकाश सिंह	01.09.2009
706	15300434एल	हवलदार	एल पुष्पराज	01.09.2009
707	1379856वाइ	हवलदार	एम अमासी	01.01.2010
708	15300661एल	हवलदार	एम हरीचन्द्ररन	01.11.2009
709	15300705एक्स	हवलदार	एम करुणानिधि	01.11.2009
710	1379653पी	हवलदार	एम करुणानिधि	01.01.2010
711	15300876के	हवलदार	एम कथिर्सेन	01.12.2009
712	1379066के	हवलदार	एम एल रेडी	01.11.2009
713	15300618के	हवलदार	एम मथुरामालिंगम	01.11.2009
714	15300305एल	हवलदार	एम नारायना	01.09.2009
715	15300319एल	हवलदार	एम नारायनन	01.09.2009
716	1379876एम	हवलदार	एम विजया के	01.01.2010
717	15300662एन	हवलदार	मगेन्दिरन जे	01.11.2009
718	1379733एम	हवलदार	मम्मेन मेथ्यू	01.01.2010

719	15300996एच	हवलदार	एम सुधाकर	01.01.2010
720	15300636एम	हवलदार	मोहम्मद आर टी शरीफ	01.11.2009
721	15300902ए	हवलदार	मोहम्मद शरीफ	01.12.2009
722	15300606पी	हवलदार	मोहानन के वी वी	01.11.2009
723	1379318एल	हवलदार	मोहनादास पी	01.12.2009
724	15300951एच	हवलदार	मुथुकृष्णन जी.	01.12.2009
725	1378726के	हवलदार	एन दुरई राज	01.09.2009
726	1379219एच	हवलदार	एन विसवान	01.11.2009
727	1379316ए	हवलदार	नागप्पा विथल एम	01.12.2009
728	1380087एम	हवलदार	नगनदिरन जे	01.01.2010
729	1378809पी	हवलदार	निगाना गोडा पाटिल	01.09.2009
730	1378980एन	हवलदार	पी धनंजय चेट्टी	01.10.2009
731	1380065एन	हवलदार	पी जयपालन	01.01.2010
732	1379175डब्ल्यू	हवलदार	पी मनी	01.11.2009
733	15300583वाइ	हवलदार	पी थावामणी	01.11.2009
734	15300693एन	हवलदार	पी बी रंगैया	01.11.2009
735	1379716एम	हवलदार	पांडियन के	01.01.2010
736	1378741वाइ	हवलदार	पनीर सलवाम पी	01.09.2009
737	1380212एल	हवलदार	पीताम्बरन के	01.01.2010
738	1380024के	हवलदार	प्रकासन ए	01.01.2010
739	1380233एफ	हवलदार	आर आनन्दन	01.01.2010
740	15300985डब्ल्यू	हवलदार	आर बाला सेकारन	01.01.2010
741	15300306एन	हवलदार	आर मनी	01.09.2009
742	1380095एल	हवलदार	आर मनोहरन	01.01.2010
743	15300807एन	हवलदार	आर राजामोहरना	01.11.2009
744	1378751एच	हवलदार	आर रवि	01.09.2009
745	1379850एक्स	हवलदार	राधा कृष्णन पी पी	01.01.2010
746	1379846पी	हवलदार	राजेन्द्रियन पीजी.	01.01.2010
747	15300481एच	हवलदार	राजेश कुमार	01.10.2009
748	1379812एफ	हवलदार	रवीन्द्रन सी	01.01.2010
749	1379997एन	हवलदार	रेघु नंदन जी.	01.01.2010
750	1379216पी	हवलदार	एस लौरुधू	01.12.2009
751	1379237एल	हवलदार	एस मैलालहन	01.11.2009
752	15301023वाइ	हवलदार	एस राजा रेडी	01.01.2010
753	15300775डब्ल्यू	हवलदार	एस सुंदरामूर्ती	01.11.2009
754	1380173एक्स	हवलदार	एस तिरुमूर्ती	01.01.2010
755	15300284ए	हवलदार	सजीव एम	01.09.2009
756	15300666के	हवलदार	संतो बाबू के	01.11.2009
757	15300631एन	हवलदार	शोक महम्मद हुसैन	01.11.2009
758	1378953के	हवलदार	श्रीनिवास	01.10.2009
759	15300593एच	हवलदार	श्रीनिवास एस	01.11.2009

760	15300346पी	हवलदार	सुब्बैया ए के	01.09.2009
761	15300808डब्ल्यू	हवलदार	सुन्दरा मूर्ती जी.	01.11.2009
762	1379836एल	हवलदार	सुरेन्द्रन एन	01.01.2010
763	15300659एन	हवलदार	सुरेश पी आर	01.11.2009
764	1380157ए	हवलदार	यू कृष्णा राव	01.01.2010
765	1379243वाइ	हवलदार	पेनुगोपालन के	01.11.2009
766	1378707वाइ	हवलदार	विनसेंट	01.09.2009
बंगाल इंजीनियर समूह				
767	1473000एम	हवलदार	ए सुरगन	01.12.2009
768	1472593एक्स	हवलदार	आदित्य कुमार दुबे	01.10.2009
769	1478789एफ	हवलदार	अजीत सिंह	01.12.2009
770	1473389एल	हवलदार	अमर नाथ शर्मा	01.01.2010
771	1473372एक्स	हवलदार	अमर सिंह	01.01.2010
772	1473217डब्ल्यू	हवलदार	अंग्रेज सिंह	01.12.2009
773	1472381एम	हवलदार	अर्विन्द कुमार सिंह	01.10.2009
774	1473052एच	हवलदार	आशीश कुमार झा	01.12.2009
775	1477814एच	हवलदार	बबबन सिंह	01.09.2009
776	1472488एफ	हवलदार	बाल कण्णन जोशी	01.10.2009
777	1478146के	हवलदार	बलदेव सिंह	01.10.2009
778	1478741एन	हवलदार	बलवान	01.12.2009
779	1478034पी	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.09.2009
780	1472530पी	हवलदार	बंसी लाल	01.10.2009
781	1478824वाइ	हवलदार	भगत निरंजन सुदाम	01.01.2010
782	1472622एफ	हवलदार	भरत सिंह रावत	01.10.2009
783	1472739ए	हवलदार	भरत सिंह थापा	01.11.2009
784	1477972एक्स	हवलदार	भास्कर दत्त	01.09.2009
785	1472463पी	हवलदार	भुनेश्वर यादव	01.10.2009
786	1472445एम	हवलदार	बृज राज सिंह	01.10.2009
787	1472374डब्ल्यू	हवलदार	चंद्र मनी जोशी	01.10.2009
788	1472615एल	हवलदार	चंद्रा सिंह	01.10.2009
789	1475402एच	हवलदार	डी. ठाकुरिया	01.01.2010
790	1472464एक्स	हवलदार	देव नारायण महतो	01.10.2009
791	1478441एम	हवलदार	देव सिंह	01.11.2009
792	1478259एम	हवलदार	देवेंदर	01.10.2009
793	1473140वाइ	हवलदार	देवेंदर सिंह नेगी	01.12.2009
794	1478618पी	हवलदार	धर्म सिंह	01.12.2009
795	1478939एम	हवलदार	धर्मबीर	01.01.2010
796	1473382एफ	हवलदार	दिलबाग सिंह	01.01.2010
797	1472844डब्ल्यू	हवलदार	दीना प्रसाद	01.11.2009
798	1472544पी	हवलदार	डूंगर सिंह	01.10.2009

799	1473081एक्स	हवलदार	दुर्गा पांडा रौय	01.12.2009
800	1478729एम	हवलदार	डी. सिंह	01.12.2009
801	1473062एम	हवलदार	गम्भीर सिंह	01.12.2009
802	1472796एफ	हवलदार	गंगा प्रसाद	01.10.2009
803	1478106एच	हवलदार	गोपाल चंद्रा रौय	01.10.2009
804	1473068एन	हवलदार	गोपाल दत्त जोशी	01.12.2009
805	1473460एन	हवलदार	एच सिंह	01.01.2010
806	1475931पी	हवलदार	हरी बहादुर	01.10.2009
807	1473109एम	हवलदार	हरीश चंद्रा	01.12.2009
808	1473169एफ	हवलदार	होती लाल	01.12.2009
809	1473354पी	हवलदार	जगदम्बा प्रसाद	01.01.2010
810	1472609एक्स	हवलदार	जगदीश सिंह	01.10.2009
811	1473142के	हवलदार	जगमोहन सिंह	01.12.2009
812	1472184के	हवलदार	जय बीर सिंह	01.09.2009
813	1475147एफ	हवलदार	जय मंगल राय	01.12.2009
814	1472838एच	हवलदार	जीवन सिंह	01.11.2009
815	1472760एच	हवलदार	जोगेन्द्र नाथ पी	01.11.2009
816	1478548एफ	हवलदार	जुगल किशोर	01.12.2009
817	1473302वाइ	हवलदार	कबी राज बिस्वाल	01.01.2010
818	1478418वाइ	हवलदार	कमल सिंह	01.11.2009
819	1472148वाइ	हवलदार	कमान सिंह	01.09.2009
820	1472489के	हवलदार	करन सिंह	01.10.2009
821	1473468ए	हवलदार	केशर सिंह	01.01.2010
822	1472349एक्स	हवलदार	के दत्ता	01.09.2009
823	1478156एन	हवलदार	लखविन्दर सिंह	01.10.2009
824	1473457एच	हवलदार	लाल बिहारी सिंह	01.01.2010
825	1472216एफ	हवलदार	ललित सिंह	01.09.2009
826	1478231एम	हवलदार	एल राय	01.10.2009
827	1473267एफ	हवलदार	एम डी. सिराज खान	01.01.2010
828	1473551एक्स	हवलदार	महावीर सिंह	01.01.2010
829	1478224डब्ल्यू	हवलदार	महेश चंद्रा सिंह	01.10.2009
830	1479041एम	हवलदार	महेश राम	01.01.2010
831	1472482ए	हवलदार	माखन सिंह	01.10.2009
832	1472719एम	हवलदार	मनजीत सिंह	01.11.2009
833	1478064एफ	हवलदार	मनोहर सिंह राना	01.10.2009
834	1473392एल	हवलदार	माया राम	01.01.2010
835	1472579एल	हवलदार	मोहम्मद ए	01.10.2009
836	1473532एम	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.01.2010
837	1472275एन	हवलदार	नारायण दत्त भट्ट	01.09.2009
838	1472600एच	हवलदार	नवीन चंद्रा	01.10.2009
839	1472515ए	हवलदार	नोबर्ट मिंज	01.10.2009

840	1478552के	हवलदार	ओम प्रकाश सिंह	01.12.2009
841	1472386एल	हवलदार	परमजीत सिंह	01.10.2009
842	1472994एम	हवलदार	पी माझी	01.11.2009
843	1473155एफ	हवलदार	प्रदीप लेपचा	01.12.2009
844	1472571वाइ	हवलदार	परमिन्दर सिंह	01.10.2009
845	1473063पी	हवलदार	पी लाल नाग	01.12.2009
846	1478522एम	हवलदार	प्रभात कुमार चौधरी	01.11.2009
847	1477945एन	हवलदार	प्रदीप कुमार शुक्ला	01.09.2009
848	1472606के	हवलदार	प्रकाश चंद्रा	01.10.2009
849	1472682डब्ल्यू	हवलदार	पुर्षोत्तम चन्द	01.10.2009
850	1472550एच	हवलदार	राज बीर सिंह	01.10.2009
851	1478207डब्ल्यू	हवलदार	राज कुमार	01.10.2009
852	1472770एल	हवलदार	राज कुमार राय	01.11.2009
853	1478437के	हवलदार	राजे सिंह	01.11.2009
854	1472933पी	हवलदार	राजेंद्र कुमार	01.10.2009
855	1472817एम	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.11.2009
856	1472506वाइ	हवलदार	राकेश मिश्रा	01.10.2009
857	1472527पी	हवलदार	राम बाबू तिवारी	01.10.2009
858	1477838एम	हवलदार	राम बहादुर मौर्या	01.09.2009
859	1473304के	हवलदार	राम देव यादव	01.01.2010
860	1473002एक्स	हवलदार	राम प्रकाश	01.12.2009
861	1473284एफ	हवलदार	राम प्रसाद यादव	01.01.2010
862	1478243एफ	हवलदार	राम प्रताप	01.10.2009
863	1472341एल	हवलदार	राम सिंह	01.10.2009
864	1472845वाइ	हवलदार	रामायण राम	01.11.2009
865	1472300एफ	हवलदार	रमेश चंद्रा	01.09.2009
866	1478149एक्स	हवलदार	रमेश कुमार सिंह	01.10.2009
867	1568659ए	हवलदार	रनबीर सिंह	01.11.2009
868	1473012एफ	हवलदार	रंजीत सिंह	01.12.2009
869	1477947वाइ	हवलदार	रोशन लाल	01.09.2009
870	1472242एच	हवलदार	रूप राम	01.09.2009
871	1473559के	हवलदार	सदा शिव कुमार	01.01.2010
872	1473184डब्ल्यू	हवलदार	संतन सिंह	01.12.2009
873	1472272ए	हवलदार	सरजीत सिंह	01.09.2009
874	1478132के	हवलदार	शमशेर चन्द	01.10.2009
875	1472950पी	हवलदार	शिवदान सिंह	01.11.2009
876	1473120एल	हवलदार	शेष नाथ साह	01.12.2009
877	1473196एल	हवलदार	शिव शंकर राय	01.12.2009
878	1478841वाइ	हवलदार	श्याम बिहारी प्रसाद	01.01.2010
879	1472920एक्स	हवलदार	श्याम किशोर	01.11.2009
880	1472324एन	हवलदार	श्याम सुंदर	01.09.2009

881	1472398ए	हवलदार	श्यामा पाडा पण्डित	01.10.2009
882	1477839पी	हवलदार	श्यामल गुहा रौय	01.09.2009
883	1472161एच	हवलदार	एसके. अब्दुल मानन	01.09.2009
884	1478258के	हवलदार	सुबोध प्रकाश	01.10.2009
885	1478795पी	हवलदार	सुखवीर सिंह	01.12.2009
886	1472280वाइ	हवलदार	सुखवंत सिंह	31.08.2009
887	1478205एल	हवलदार	सुमेर सिंह	01.10.2009
888	1473348एफ	हवलदार	सुरेश चन्द	01.01.2010
889	1472269ए	हवलदार	सुरेश चंद्रा	01.09.2009
890	1472799पी	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.11.2009
891	1478826के	हवलदार	तजबार सिंह	01.01.2010
892	1473233एन	हवलदार	टी बिस्वाल	01.12.2009
893	1477868के	हवलदार	तपन कुमार दत्ताता	01.09.2009
894	1472952ए	हवलदार	तेज पाल	01.09.2009
895	1473419एक्स	हवलदार	त्रिलोकी नाथ सिंह	01.01.2010
896	1472456वाइ	हवलदार	टी नारायण सिंह	01.10.2009
897	1478105ए	हवलदार	तुलसी चरण दास	01.10.2009
898	1472590के	हवलदार	उदय वीर सिंह	01.10.2009
899	1472781वाइ	हवलदार	उमा शंकर पांडे	01.11.2009
900	1478853एन	हवलदार	उमेश चंद्रा	01.01.2010
901	1473500के	हवलदार	उतम सिंह	01.01.2010
902	1472592पी	हवलदार	वेद प्रकाश मिश्रा	01.10.2009
903	1473520एक्स	हवलदार	वी कुरुप ए पी	01.01.2010
904	1473498एक्स	हवलदार	विजय कुमार	01.01.2010
905	1478977एच	हवलदार	विजय कुमार कुशवाह	01.01.2010
906	1473276एच	हवलदार	विनय कुमार ठाकुर	01.01.2010
907	1472565एल	हवलदार	यशपाल सिंह	01.10.2009
<u>बोम्बे इंजीनियर समूह</u>				
908	1568190पी	हवलदार	अब्दुल रहीम	01.09.2009
909	1575756ए	हवलदार	अब्दुल सलीम खान	01.11.2009
910	1576258ए	हवलदार	अमर सिंह	01.01.2010
911	1575968एल	हवलदार	अन्ना साहेब जेड	01.11.2009
912	1569034एक्स	हवलदार	अरुल एस एस	01.12.2009
913	1576031एम	हवलदार	अरुण मानिक टी	01.11.2009
914	1568519एन	हवलदार	बलदेव सिंह	01.10.2009
915	1575420ए	हवलदार	बलवान सिंह	01.09.2009
916	1569020एक्स	हवलदार	बारिया रतन सिंह लल्लन बी	01.12.2009
917	1569354एम	हवलदार	बतुलवर आर	01.01.2010
918	1568372एच	हवलदार	भाग सिंह	01.10.2009
919	1574223एल	हवलदार	बी दिनेश डी.	01.12.2009

920	1569170एन	हवलदार	भजन सिंह	01.01.2010
921	1568572वाइ	हवलदार	भवर पुरी गोस्वामी	01.10.2009
922	1576350वाइ	हवलदार	भीखा जेआई बी चावड़ा	01.01.2010
923	1569138वाइ	हवलदार	भोसले एन लक्ष्मन	01.01.2010
924	1568883एम	हवलदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.11.2009
925	1568382एम	हवलदार	भ्रमजीत सिंह	01.10.2009
926	1575885ए	हवलदार	चव्हाण एस दिनकर	01.11.2009
927	1568877वाइ	हवलदार	चोगले अपासो बापूसो	01.11.2009
928	1576173के	हवलदार	दिबोतोश डे	01.12.2009
929	15103908एच	हवलदार	देश राज	01.09.2009
930	1569832एन	हवलदार	धुले शिवानंद बी	01.01.2010
931	1575783के	हवलदार	दिगम्बर सिंह	01.11.2009
932	1576114एक्स	हवलदार	डी. कुमार	01.12.2009
933	1569400डब्ल्यू	हवलदार	दिनेश्वर मोतीराम जी.	01.01.2010
934	1575983ए	हवलदार	डी. वसूदेवा राव	01.11.2009
935	1575552एन	हवलदार	गनपत राम	01.10.2009
936	1575485एन	हवलदार	गुरदयाल सिंह	01.09.2009
937	1576383के	हवलदार	हाकम सिंह	01.01.2010
938	1576156के	हवलदार	हरभजन सिंह	01.12.2009
939	1576109एम	हवलदार	हरदेव	01.12.2009
940	15685762एम	हवलदार	हरी प्रकाश	01.11.2009
941	1575582एल	हवलदार	हवा सिंह	01.10.2009
942	1567980एक्स	हवलदार	हुम बहादुर टंडन	01.09.2009
943	1570222एल	हवलदार	इस्लाम	01.01.2010
944	1576193एक्स	हवलदार	जाधव अशोक तुकाराम	01.12.2009
945	1569048एक्स	हवलदार	जाधव भरत निवराती	01.12.2009
946	1569556एन	हवलदार	जाधव रामनाथ हीरामन	01.01.2010
947	1576124एफ	हवलदार	जाधव सुधाकर शेष राव	01.12.2009
948	1576360एच	हवलदार	जाधव तुलसीराम वाइ	01.01.2010
949	1576087वाइ	हवलदार	जाधव विष्णु विथल	01.12.2009
950	1575714एन	हवलदार	जगदेव सिंह	01.11.2009
951	1575639पी	हवलदार	जयबीर सिंह	01.10.2009
952	1575780डब्ल्यू	हवलदार	जाकिर हुसैन	01.11.2009
953	1569001एम	हवलदार	जमन सिंह तमंग	01.12.2009
954	1575526एम	हवलदार	जीत राम जाट	01.09.2009
955	1568867पी	हवलदार	के अशोक ततोबा	01.11.2009
956	1577481डब्ल्यू	हवलदार	काली कुमार	01.11.2009
957	1576361एल	हवलदार	कालू लाल बी	01.01.2010
958	1568478पी	हवलदार	कमलजीत सिंह	01.10.2009
959	1576056वाइ	हवलदार	के महादेव बाबू	01.12.2009
960	1569084एच	हवलदार	कृष्णाकान्त मिश्रा	01.12.2009

961	1568599डब्ल्यू	हवलदार	कुमार सिंह	01.10.2009
962	1575918ए	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.11.2009
963	1575656पी	हवलदार	महेंद्र पाल शर्मा	01.10.2009
964	1575530पी	हवलदार	एम सिंह	01.09.2009
965	1569103एच	हवलदार	मलकियत सिंह	01.12.2009
966	1536079एक्स	हवलदार	मनोहर लाल	01.12.2009
967	1569159पी	हवलदार	मोहम्मद अलाउद्दीन	01.01.2010
968	15105868एल	हवलदार	मोहम्मद अलेयर रहमान	01.11.2009
969	1568603एन	हवलदार	मिथलेश कुमार तिवारी	01.10.2009
970	1569037एल	हवलदार	मोहम्मद असलम खान	01.12.2009
971	1568449ए	हवलदार	मुलखराज	01.10.2009
972	1576129ए	हवलदार	मुस्ताक खान	01.12.2009
973	1575335एक्स	हवलदार	नरेन्द्रा कुमार	01.09.2009
974	1576322एम	हवलदार	ओंकार यू ठाकरे	01.01.2010
975	1575862वाइ	हवलदार	पांडुरंग चोगले	01.11.2009
976	1568756एक्स	हवलदार	परमजीत सिंह	01.11.2009
977	1575803एम	हवलदार	परमजीत सिंह	01.11.2009
978	1568148डब्ल्यू	हवलदार	प्रकाश सिंह	01.09.2009
979	1575846एफ	हवलदार	पाटिल दिनकर रामराव	01.11.2009
980	1575845वाइ	हवलदार	पाटिल वसंत नामदेव	01.11.2009
981	1575328एन	हवलदार	पी अर्विन्द ए	01.09.2009
982	1569178ए	हवलदार	रघुवीर सिंह	01.01.2010
983	1569055एन	हवलदार	रहीस खान	01.12.2009
984	1569036एच	हवलदार	राज नारायण तिवारी	01.12.2009
985	1569563के	हवलदार	राजाराम भानुदास शिंदे	01.01.2010
986	1569042डब्ल्यू	हवलदार	राजेंद्रा प्रसाद राम	01.12.2009
987	1568324एफ	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.10.2009
988	1568429एम	हवलदार	राम मूर्ती	01.10.2009
989	1569131पी	हवलदार	रमाकांत	01.01.2010
990	1568459के	हवलदार	रमेश सिंह	01.10.2009
991	1569043वाइ	हवलदार	रामकृशना	01.12.2009
992	1568744एच	हवलदार	रामप्रसाद मौर्या	01.11.2009
993	1568149वाइ	हवलदार	रण सिंह	01.09.2009
994	1575894एफ	हवलदार	आर शामराव कुराने	01.11.2009
995	1576051ए	हवलदार	साहेब्रो बापू माने	01.12.2009
996	1568920पी	हवलदार	समपतराव नंदराव जे	01.12.2009
997	1568688पी	हवलदार	संत राम	01.11.2009
998	1576220डब्ल्यू	हवलदार	सतपाल सिंह	01.01.2010
999	1567952एल	हवलदार	सतपाल सिंह	01.09.2009
1000	1569521एक्स	हवलदार	सत्यापाल पुरी	01.01.2010
1001	1568073के	हवलदार	एस यू बकाराम	01.09.2009

1002	1575340एच	हवलदार	शिंदे दीपक गंगाराम	01.09.2009
1003	1576303एफ	हवलदार	शिवाजी गिरि	01.01.2010
1004	1569173एफ	हवलदार	श्री रामचंद्र	01.01.2010
1005	1569250एल	हवलदार	सुभाष प्रसाद	01.01.2010
1006	1567972वाइ	हवलदार	सुधीर डी. बर्मा	01.09.2009
1007	1576083एच	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.12.2009
1008	1568804एम	हवलदार	सुरेन्द्रा बारिया	01.11.2009
1009	1568633एल	हवलदार	सुरेश	01.11.2009
1010	1575643एक्स	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.10.2009
1011	1568188एक्स	हवलदार	तजबार सिंह	01.09.2009
1012	1568879के	हवलदार	टुराबुदीन एस के	01.11.2009
1013	1575734एफ	हवलदार	वी रमन लाल बाबर बी	01.11.2009
1014	1568848के	हवलदार	यादव चंद्रा दास	01.11.2009
सिग्नल्स कोर				
1015	14268894ए	हवलदार	ए कासी	01.11.2009
1016	14267122डब्ल्यू	हवलदार	ए मारिआ राजेन्द्रन	01.09.2009
1017	15350284डब्ल्यू	हवलदार	ए सुसाइ राज	01.12.2009
1018	14253788के	हवलदार	अब्दुल सतार फारुकी	01.01.2010
1019	14254023पी	हवलदार	अजयवीर सिंह	01.01.2010
1020	14269693एन	हवलदार	अमल कुमार मोन्डल	01.11.2009
1021	14253436एम	हवलदार	अमीर हुसैन	01.01.2010
1022	14253420एफ	हवलदार	अमजद हुसैन	01.01.2010
1023	14269222ए	हवलदार	अंगद सिंह	01.11.2009
1024	14252420पी	हवलदार	अनिल कुमार	01.10.2009
1025	14252869एक्स	हवलदार	अनिल कुमार पांडे	01.11.2009
1026	14254036एम	हवलदार	अर्जुन प्रसाद केसरी	01.01.2010
1027	14251836ए	हवलदार	आशा राम	01.09.2009
1028	14268453के	हवलदार	अशोक कुमार	01.10.2009
1029	14268614एफ	हवलदार	अशोक कुमार	01.11.2009
1030	14267846डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार	01.09.2009
1031	14253122एल	हवलदार	अशोक कुमार दुबे	01.12.2009
1032	14269427पी	हवलदार	अशोक प्रसाद	01.11.2009
1033	14267885एम	हवलदार	अशोकन टी	01.10.2009
1034	14267837एम	हवलदार	अतिन डे	01.09.2009
1035	15350179ए	हवलदार	अवध बिहारी सिंह	01.12.2009
1036	15350962एल	हवलदार	बी मणिकंदन नायर	01.01.2010
1037	15350046के	हवलदार	बाबू खान	01.12.2009
1038	15350597पी	हवलदार	बाबू राम	01.12.2009
1039	14252738एम	हवलदार	बच्चा लाल शर्मा	01.11.2009
1040	14253056एन	हवलदार	बजरंग सिंह	01.12.2009

1041	14252029	एक्स	हवलदार	बाल किशोर सिंह	01.09.2009
1042	14252066	एल	हवलदार	बाल राज	01.10.2009
1043	15350261	पी	हवलदार	बालचन्द्रन नायर बी	01.12.2009
1044	14267682	एच	हवलदार	बलबीर सिंह	01.09.2009
1045	14253042	एन	हवलदार	बलेश्वर चौधरी	01.12.2009
1046	14253406	पी	हवलदार	बनामबर राउत	01.01.2010
1047	15350894	एच	हवलदार	बी एस गुरु बी	01.01.2010
1048	14252991	एन	हवलदार	बासप्पा धबले	01.12.2009
1049	14252489	वाइ	हवलदार	बी साह	01.11.2009
1050	14269915	एक्स	हवलदार	भागीरथ सिंह के	01.12.2009
1051	15350346	एल	हवलदार	भानु प्रताप सिंह	01.12.2009
1052	15350303	डब्ल्यू	हवलदार	भानु प्रताप सिंह	01.12.2009
1053	14252110	के	हवलदार	भरत प्रसाद सिंह	01.10.2009
1054	14268704	एच	हवलदार	भरत सिंह चौहान	01.11.2009
1055	15350307	एम	हवलदार	भास्कर शेटी जी.	01.12.2009
1056	15350868	एफ	हवलदार	भोगडे दिनकर पी आर	01.01.2010
1057	14252051	एच	हवलदार	भोला ठाकुर	01.10.2009
1058	14252000	पी	हवलदार	बी कुमार मोहन्ती	01.10.2009
1059	14269316	एक्स	हवलदार	बी प्रताप कुशवाहा	01.11.2009
1060	14269715	एफ	हवलदार	बी प्रसाद	01.12.2009
1061	14252463	के	हवलदार	बिपिन बिहारी साहू	01.11.2009
1062	14269172	ए	हवलदार	बी पाल सिंह	01.11.2009
1063	14267623	डब्ल्यू	हवलदार	बिरेन्द्रा कुमार	01.09.2009
1064	15350524	एच	हवलदार	बिरेन्द्रा पासवान	01.01.2010
1065	14269748	एम	हवलदार	बी किशोर दत्तत्रे	01.12.2009
1066	14268182	एक्स	हवलदार	बिशम्बर दयाल	01.10.2009
1067	14268720	ए	हवलदार	बिशम्बर दयाल	01.11.2009
1068	14267236	एफ	हवलदार	ब्रजेन्द्र प्रताप एस आर	01.09.2009
1069	14267583	ए	हवलदार	बृज गोपाल	01.09.2009
1070	14253454	पी	हवलदार	बृज किशोर	01.01.2010
1071	14267514	के	हवलदार	बृजेन्द्र सिंह पाल	01.09.2009
1072	14268045	वाइ	हवलदार	सी वी	01.10.2009
1073	14253297	एन	हवलदार	चन्दन सिंह	01.01.2010
1074	14269792	डब्ल्यू	हवलदार	चंद्रा भूषण सिंह	01.12.2009
1075	14253368	के	हवलदार	चरण मलिक	01.01.2010
1076	15350575	डब्ल्यू	हवलदार	सी गजानन यू	01.01.2010
1077	14253453	एम	हवलदार	चव्हाण जलिनंदर मारुति	01.01.2010
1078	14269974	के	हवलदार	चव्हाण विष्णु पी	01.12.2009
1079	14267854	एम	हवलदार	छोब सिंह	01.10.2009
1080	14268154	एल	हवलदार	डी. चंद्रन	01.10.2009
1081	14252676	एक्स	हवलदार	दलबीर सिंह	01.11.2009

1082	14253478वाइ	हवलदार	दलीप कुमार दास	01.01.2010
1083	14251975के	हवलदार	दामोदर प्रसाद सिंह	01.10.2009
1084	14252881वाइ	हवलदार	दरोगा पांडे	01.11.2009
1085	14267242पी	हवलदार	डेविड सिंगम	01.09.2009
1086	14268816एच	हवलदार	देव राज	01.11.2009
1087	14267939एच	हवलदार	देवेन्द्र सिंह नेगी	01.09.2009
1088	14268431एल	हवलदार	धनंजय मिश्रा	01.10.2009
1089	14252573वाइ	हवलदार	धर्म पाल	01.11.2009
1090	14252829डब्ल्यू	हवलदार	धर्म पाल	01.11.2009
1091	14269719एक्स	हवलदार	धावले आर एस	01.12.2009
1092	15350618ए	हवलदार	डेला	01.12.2009
1093	14251951ए	हवलदार	डी. एस जे	01.10.2009
1094	14269639ए	हवलदार	दिब्येन्दु मोन्डल	01.11.2009
1095	14253052एक्स	हवलदार	दीनदयाल	01.12.2009
1096	14252022एन	हवलदार	दिनेश कुमार महतो	01.10.2009
1097	14252150एल	हवलदार	दिनेश कुमार वर्मा	01.10.2009
1098	15350440पी	हवलदार	डी. मोसिस	01.12.2009
1099	14252007वाइ	हवलदार	डी. मुदली	01.10.2009
1100	14267451एम	हवलदार	डी. भास्कर आर सी	01.09.2009
1101	14252255पी	हवलदार	जी. गुना सेकारन	01.10.2009
1102	14269551डब्ल्यू	हवलदार	जी. सतिआनेशन	01.11.2009
1103	14252142एम	हवलदार	गजेन्द्र प्रताप यादव	01.10.2009
1104	14269483एन	हवलदार	गनेश सिंह महार	01.11.2009
1105	14268000वाइ	हवलदार	गंगा दत्ता	01.10.2009
1106	14254147के	हवलदार	गंगा सहाय सैनी	01.01.2010
1107	14268551के	हवलदार	गीरगोरी ए पी	01.10.2009
1108	14268826एम	हवलदार	गिरवर सिंह	01.11.2009
1109	14267692एम	हवलदार	जी. चंद्रा सामल	01.09.2009
1110	14268221एल	हवलदार	गोरिपती वी पी	01.10.2009
1111	14269197एम	हवलदार	गोविंद सिंह डी.	01.11.2009
1112	14252108एम	हवलदार	जी. प्रसाद सिंह	01.10.2009
1113	15350454पी	हवलदार	गुलाब चन्द चाउबे	01.12.2009
1114	3382269एल	हवलदार	गुरदेव सिंह	01.10.2009
1115	14269331एम	हवलदार	जी. सिंह	01.11.2009
1116	14251631एल	हवलदार	एच बंधु बेहेरा	01.09.2009
1117	14268201एक्स	हवलदार	हकीम सिंह	01.10.2009
1118	14269435एन	हवलदार	हनुमान सिंह	01.11.2009
1119	14253560एन	हवलदार	हर किशन	01.01.2010
1120	14267657के	हवलदार	हरक सिंह बजेथा	01.09.2009
1121	14268953एफ	हवलदार	हरदेव	01.11.2009
1122	14251976एम	हवलदार	हरेंद्र सिंह	01.10.2009

1123	14252023डब्ल्यू	हवलदार	हरेन्द्र सिंह	01.10.2009
1124	14252700एच	हवलदार	हरी बिलास वर्मा	01.11.2009
1125	14269405डब्ल्यू	हवलदार	हरी कृष्णा	01.11.2009
1126	14267887एक्स	हवलदार	हरी कुमार वी टी	01.10.2009
1127	14252095ए	हवलदार	हरी प्रसाद यादव	01.10.2009
1128	14268585एक्स	हवलदार	हरी विजय सिंह	01.10.2009
1129	14253630एफ	हवलदार	हरीपाल आर्य	01.01.2010
1130	14267704डब्ल्यू	हवलदार	हरीश सिंह बिष्ट	01.09.2009
1131	14254109एन	हवलदार	हारुन रसीद मोन्डल	01.01.2010
1132	14253775एम	हवलदार	हवलदार	01.01.2010
1133	15350540ए	हवलदार	हयात सिंह सी	01.01.2010
1134	14267955ए	हवलदार	हेमन्ता डी.	01.10.2009
1135	14268095के	हवलदार	एच जेशोबी जे	01.10.2009
1136	14267395वाइ	हवलदार	एचआरई राम रौय	01.09.2009
1137	14253118एच	हवलदार	इश्वर सिंह	01.12.2009
1138	14268301एच	हवलदार	इस्लामुद्दीन अंसारी	01.10.2009
1139	14269894एम	हवलदार	जाधव यू लक्ष्मन	01.11.2009
1140	14253018एक्स	हवलदार	जगवीर सिंह	01.11.2009
1141	14253097एक्स	हवलदार	जगदीश राय	01.12.2009
1142	14251717के	हवलदार	जगलाल प्रसाद	01.09.2009
1143	14267942एच	हवलदार	जगमोहन सिंह	01.09.2009
1144	14252373एच	हवलदार	जगमोहन सिंह	01.10.2009
1145	14269112एल	हवलदार	जगपाल सिंह	01.11.2009
1146	14268591एल	हवलदार	जगवीर सिंह	01.10.2009
1147	14252712एक्स	हवलदार	जरनैल सिंह	01.11.2009
1148	14251752एम	हवलदार	जसवंत सिंह	01.09.2009
1149	14253127के	हवलदार	जया प्रकाश	01.12.2009
1150	14268755डब्ल्यू	हवलदार	जयन जे के	01.11.2009
1151	14267789एक्स	हवलदार	जीतेन दास	01.09.2009
1152	14253254वाइ	हवलदार	जिया लाल	01.12.2009
1153	14269533एन	हवलदार	जोसफ के यू	01.11.2009
1154	14253356पी	हवलदार	ज्योती रंजन पाणिग्रही	01.01.2010
1155	14268170एच	हवलदार	के अलागर सामी	01.10.2009
1156	14253092वाइ	हवलदार	के सी मंडल	01.12.2009
1157	15350171एन	हवलदार	के जफार बाशा	01.12.2009
1158	14267405एक्स	हवलदार	कैलाश हरिभाउ सी	01.09.2009
1159	14251834पी	हवलदार	कैलाश राम	01.09.2009
1160	14253859ए	हवलदार	कमला प्रसाद मोरे	01.01.2010
1161	14251971एन	हवलदार	कन्हैया सिंह	01.10.2009
1162	14268914एच	हवलदार	कर्मवीर	01.11.2009
1163	14269013एच	हवलदार	काशी राम	01.11.2009

1164	14269302एक्स	हवलदार	के श्रीनिवासु	01.11.2009
1165	15351222एच	हवलदार	कोशल किशोर ठाकुर	01.01.2010
1166	14252442एक्स	हवलदार	कोशल कुमार मिश्रा	01.11.2009
1167	14267266वाइ	हवलदार	के एस वी एन	01.09.2009
1168	14269420एल	हवलदार	केशवन वी	01.11.2009
1169	14252106एफ	हवलदार	के.एच लीला सिंग सिंघा	01.10.2009
1170	14253300एच	हवलदार	कृष्णापा शंकर	01.01.2010
1171	14268294एक्स	हवलदार	कोचुमोन ए जे	01.10.2009
1172	14269617एफ	हवलदार	कोप्पुला कनका राव	01.11.2009
1173	15350421के	हवलदार	के लेसारुस	01.12.2009
1174	14252125एम	हवलदार	कष्णन कुमार	01.10.2009
1175	14268513एन	हवलदार	कृष्णा दासन के पी	01.10.2009
1176	14268111डब्ल्यू	हवलदार	कृपासिंधु स्वेन	01.10.2009
1177	14254041एक्स	हवलदार	कुलदीप कुमार	01.01.2010
1178	14252616एच	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.11.2009
1179	14267868एम	हवलदार	कुलविन्द्र कुमार	01.10.2009
1180	14268753एल	हवलदार	कुरिया के के जे	01.11.2009
1181	14253489एल	हवलदार	लखन सिंह	01.01.2010
1182	14269171एक्स	हवलदार	एल सिंह	01.11.2009
1183	14253440पी	हवलदार	लाल एस यादव	01.01.2010
1184	14253565एम	हवलदार	लाल सिंह	01.01.2010
1185	15350526एन	हवलदार	लाला राम	01.01.2010
1186	14251696वाइ	हवलदार	एल चौहान	01.09.2009
1187	14253194पी	हवलदार	ललित कुमार नायक	01.12.2009
1188	14269150एफ	हवलदार	ललित सिंह चुंडावत	01.11.2009
1189	14253893ए	हवलदार	लक्ष्मन लाल शर्मा	01.01.2010
1190	14252549एच	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.11.2009
1191	14252705एफ	हवलदार	लक्ष्मी कांत रजाक	01.11.2009
1192	14267446एफ	हवलदार	एल रमन भाई बी बी	01.09.2009
1193	14269012ए	हवलदार	एम डी. अनरुल हुक	01.11.2009
1194	14269600एन	हवलदार	एम डी. टी हक	01.11.2009
1195	14252891एच	हवलदार	एम एस आर गोविंद	01.12.2009
1196	14252899पी	हवलदार	एम सेलवा कुमार	01.12.2009
1197	14267857ए	हवलदार	मदन पाल सिंह	01.10.2009
1198	14252931वाइ	हवलदार	माधो सिंह	01.12.2009
1199	14253856एम	हवलदार	महेंद्र साह	01.01.2010
1200	14253408ए	हवलदार	महेश दुबे	01.01.2010
1201	14268703ए	हवलदार	महेश कुमार	01.11.2009
1202	14269430पी	हवलदार	महेश कुमार सिंह राना	01.11.2009
1203	14251673एक्स	हवलदार	महेश प्रधान	01.09.2009
1204	14252153वाइ	हवलदार	महेश्वर राम गोप	01.10.2009

1205	15350054एच	हवलदार	महेश्वरी के	01.12.2009
1206	14269409एम	हवलदार	महिदा जे एस बी एस	01.11.2009
1207	14251588पी	हवलदार	मंगतू	01.09.2009
1208	15350385के	हवलदार	मणिकंदन डी.	31.10.2009
1209	15350865एन	हवलदार	मानकर शिवाजी राम सी	01.01.2010
1210	14252928वाइ	हवलदार	माता प्रसाद	01.12.2009
1211	14269361के	हवलदार	मृतुंजय ठाकुर	01.11.2009
1212	14268151एक्स	हवलदार	मोहन लाल पी	01.10.2009
1213	14268803एल	हवलदार	मोहिन्दर पाल	01.11.2009
1214	14267154वाइ	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.09.2009
1215	14268577वाइ	हवलदार	मुहम्मद मुस्तफा आइ	01.10.2009
1216	14268357पी	हवलदार	मुल्ला ए डी.	01.10.2009
1217	14253341एम	हवलदार	मुन्ना यादव	01.01.2010
1218	14268717ए	हवलदार	एम कुमार सिंह	01.11.2009
1219	14252491डब्ल्यू	हवलदार	मुरली मोहन एन एन	01.11.2009
1220	14268300ए	हवलदार	मुरली के	01.10.2009
1221	14267211पी	हवलदार	मुरलीधरन पी	01.09.2009
1222	14269358के	हवलदार	मुरली मनोहर प्रसाद	01.11.2009
1223	15350007एल	हवलदार	एम सुलापिल्ला	01.12.2009
1224	14252261एच	हवलदार	एन भास्कर	01.10.2009
1225	15350796एच	हवलदार	नडफ फैजू जमाल	01.01.2010
1226	14268567पी	हवलदार	नन्द किशोर यादव	01.10.2009
1227	14267823एम	हवलदार	नन्द लाल मालाकर	01.10.2009
1228	14253755वाइ	हवलदार	नन्द लाल ठाकुर	01.01.2010
1229	14251606एम	हवलदार	नंदलाल	01.09.2009
1230	14251867ए	हवलदार	नरेंद्र कुमार अवस्थी	01.09.2009
1231	14253699एल	हवलदार	नरेन्द्रा कुमार	01.01.2010
1232	14252628एक्स	हवलदार	एन सिंह	01.11.2009
1233	14252702एन	हवलदार	नाथू राम	01.12.2009
1234	14251837एच	हवलदार	नाथू राम एस	01.09.2009
1235	14252371एक्स	हवलदार	नवल किशोर	01.10.2009
1236	14251914एम	हवलदार	एन सिंह	01.10.2009
1237	14251766एम	हवलदार	एन आर	01.09.2009
1238	15350700पी	हवलदार	निधि मोहंता	01.01.2010
1239	15350895एल	हवलदार	निम्बालकर श्रीमंत डी.	01.01.2010
1240	14253705एन	हवलदार	ओम पाल सिंह	01.01.2010
1241	14251583एल	हवलदार	ओम प्रकाश	01.09.2009
1242	14252690के	हवलदार	ओम प्रकाश	01.11.2009
1243	14252832डब्ल्यू	हवलदार	ओम प्रकाश	01.11.2009
1244	15350853वाइ	हवलदार	ओम प्रकाश प्रसाद	01.01.2010
1245	14268837वाइ	हवलदार	ओम प्रकाश सिंह यादव	01.11.2009

1246	14269100डब्ल्यू	हवलदार	पी जी. वेंकट राव	01.11.2009
1247	14253403एफ	हवलदार	पी के महापात्रा	01.01.2010
1248	14251690एक्स	हवलदार	पी पलानी	01.09.2009
1249	14253936के	हवलदार	पी सुन्दरा मूर्थी	01.01.2010
1250	14268828एक्स	हवलदार	पदम सिंह	01.11.2009
1251	15350832एच	हवलदार	पान सिंह	01.01.2010
1252	14252079एच	हवलदार	पी नन्द के	01.09.2009
1253	14254012एच	हवलदार	परमहंस सिंह	01.01.2010
1254	14252114ए	हवलदार	परमेश्वर चौधरी	01.10.2009
1255	14269891वाइ	हवलदार	पाटिल बाबासो गणपति	01.12.2009
1256	14269875एफ	हवलदार	पाटिल बाजी राव तुकाराम	01.12.2009
1257	14269124ए	हवलदार	पाटिल एल नाना	01.11.2009
1258	15350798एन	हवलदार	पाटिल मोहन राव आर	01.01.2010
1259	15350935एफ	हवलदार	पाटिल राजेंद्रा तुकाराम	01.01.2010
1260	14267978एफ	हवलदार	पाटिल वसंत धोंडिबा	01.10.2009
1261	14267134एल	हवलदार	पवन कुमार	01.09.2009
1262	14269815एम	हवलदार	पवार सहाजी बापूसो	01.12.2009
1263	14253803एन	हवलदार	पैरिया सामी एल	01.01.2010
1264	14268805डब्ल्यू	हवलदार	प्रदीप कुमार	01.11.2009
1265	14269829एम	हवलदार	प्रदीप कुमार के	01.12.2009
1266	14253050एम	हवलदार	प्रमोद कुमार सिंह	01.12.2009
1267	14252663ए	हवलदार	प्रताप सिंह	01.11.2009
1268	14253278एच	हवलदार	पी चंद्रा दास	01.12.2009
1269	14267170डब्ल्यू	हवलदार	प्रेम चन्द	01.09.2009
1270	15350588एन	हवलदार	प्रेम कुमार	01.01.2010
1271	14267357एच	हवलदार	प्रोदीप कुमार गोगोई	01.09.2009
1272	14251744एन	हवलदार	पूरन सिंह	01.09.2009
1273	14252648एल	हवलदार	पुर्षोत्तम चन्द	01.11.2009
1274	14267664ए	हवलदार	पुष्प सिंह	01.09.2009
1275	14253780एक्स	हवलदार	आर के पिल्लई एम एस	01.01.2010
1276	14269527ए	हवलदार	आर टयाचेल्वम	01.11.2009
1277	14269325वाइ	हवलदार	रबीन्द्र नाथ कुंडू	01.11.2009
1278	14252390एच	हवलदार	राधा कृष्णन के वी	01.10.2009
1279	14253251एल	हवलदार	रघुनाथ रेडी	01.12.2009
1280	14253119एल	हवलदार	रघुनाथ सिंह यादव	01.12.2009
1281	14268145के	हवलदार	राज भान पटेल	01.10.2009
1282	14252812एच	हवलदार	राज कुमार	01.11.2009
1283	14253706डब्ल्यू	हवलदार	राज कुमार	01.01.2010
1284	14268739वाइ	हवलदार	राजा राजन पी	01.11.2009
1285	14253684एच	हवलदार	राजबीर	01.01.2010
1286	14268688डब्ल्यू	हवलदार	राजबीर	01.11.2009

1287	14254026एच	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद सिंह	01.01.2010
1288	14252827एल	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.11.2009
1289	14253590एल	हवलदार	राजेंद्रा प्रसाद यादव	01.01.2010
1290	14269912के	हवलदार	राजेंद्रा सिंह सोलंकी	01.12.2009
1291	14267879वाइ	हवलदार	राजेन्द्रन एस	01.10.2009
1292	14252559एम	हवलदार	राजेश कुमार	01.11.2009
1293	14269844एफ	हवलदार	राजेश कुमार	01.12.2009
1294	14251795एफ	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.09.2009
1295	14267735डब्ल्यू	हवलदार	राकेश कुमार सिंह	01.09.2009
1296	14251838एल	हवलदार	राम आसरे	01.09.2009
1297	14269056एक्स	हवलदार	राम बहादुर थाप्पा	01.11.2009
1298	14251799एक्स	हवलदार	राम भजन	01.09.2009
1299	14253214एक्स	हवलदार	राम गोपाल सिंह	01.12.2009
1300	14267409एन	हवलदार	राम किरीटि चौहान	01.09.2009
1301	14269390वाइ	हवलदार	राम किशन	01.11.2009
1302	14267460एन	हवलदार	राम कुमार	01.09.2009
1303	14269666के	हवलदार	राम मनोहर सिंह	01.12.2009
1304	14252839ए	हवलदार	राम मेहर	01.11.2009
1305	14253213पी	हवलदार	राम मेहर सिंह	01.12.2009
1306	14251639एक्स	हवलदार	राम नरेश सिंह	01.09.2009
1307	14253417एफ	हवलदार	राम नरेश सिंह	01.01.2010
1308	14253222डब्ल्यू	हवलदार	राम फल	01.12.2009
1309	14251866एक्स	हवलदार	राम प्रकाश पांडे	01.09.2009
1310	14269288डब्ल्यू	हवलदार	राम रूप सिंह	01.11.2009
1311	14269347एक्स	हवलदार	राम एस चौधरी	01.11.2009
1312	14253826पी	हवलदार	राम सागर सिंह	01.01.2010
1313	14253291एम	हवलदार	राम सिंह	01.01.2010
1314	15350302एन	हवलदार	राम सिंह	01.12.2009
1315	14269957के	हवलदार	रमा चंद्रन नायर सी	01.12.2009
1316	14268510ए	हवलदार	रामनाथन जी.	01.10.2009
1317	14268077एफ	हवलदार	रामायण सिंह यादवा	01.10.2009
1318	14252863एल	हवलदार	रमेश चन्द्र	01.11.2009
1319	14252715एल	हवलदार	रमेश चंद्र	01.11.2009
1320	14269341डब्ल्यू	हवलदार	रमेश चंद्रा	01.11.2009
1321	14269378एक्स	हवलदार	रमेश कुमार सिंह	01.11.2009
1322	14267828एल	हवलदार	रमेश सिंह राना	01.10.2009
1323	14253013वाइ	हवलदार	रनबीर सिंह	01.11.2009
1324	14253508एल	हवलदार	रंजीत सिंह सैंगर	01.01.2010
1325	14269164एफ	हवलदार	रनवीर सिंह	01.11.2009
1326	14253772वाइ	हवलदार	रशपाल सिंह	01.01.2010
1327	14269293एफ	हवलदार	रतन कुमार सील	01.11.2009

1328	15350182ए	हवलदार	रतन कुमार स्वेन	01.12.2009
1329	14252081ए	हवलदार	रत्नाकर दुबे	01.09.2009
1330	14269523के	हवलदार	आर यादव	01.11.2009
1331	14269134के	हवलदार	राउत विष्णु नामदेव	01.11.2009
1332	14267928डब्ल्यू	हवलदार	स्वीड्टु पी	01.09.2009
1333	15350756एफ	हवलदार	रवि चंद्रन एस	01.01.2010
1334	14252005एन	हवलदार	रवि दत्ता जंगीर	01.10.2009
1335	14269398एल	हवलदार	रविजी नंदन	01.11.2009
1336	14253499पी	हवलदार	प्रम अहमद	01.01.2010
1337	15350841के	हवलदार	राहित च. भोगोई	01.01.2010
1338	14269859के	हवलदार	रुक्मेश	01.11.2009
1339	14252326एल	हवलदार	रस हुसैन चौधुरी	01.10.2009
1340	14269344के	हवलदार	रमा जीत	01.11.2009
1341	14269294के	हवलदार	सधन कुमार गिरि	01.11.2009
1342	14268929एल	हवलदार	सफीकुल इस्लाम	01.11.2009
1343	14267212एक्स	हवलदार	साजन के	01.09.2009
1344	14269556पी	हवलदार	एस कुमार	01.11.2009
1345	14269076एल	हवलदार	समशेर सिंह	01.11.2009
1346	14268868वाइ	हवलदार	समशुद्दीन	01.11.2009
1347	14268606एच	हवलदार	समुंद्र सिंह	01.11.2009
1348	15350604ए	हवलदार	संजय कुमार प्रधान	01.12.2009
1349	14253798एन	हवलदार	संतोष कुमार स्वेन	01.01.2010
1350	14253399के	हवलदार	सरत कुमार लेनका	01.01.2010
1351	14268565के	हवलदार	सरदार सिंह	01.10.2009
1352	14252500एम	हवलदार	सर्व नन्द सिंह	01.11.2009
1353	15350541एच	हवलदार	सर्वेश्वर सिंह	01.01.2010
1354	15351079एफ	हवलदार	सतींद्र कुमार	01.01.2010
1355	15350900एल	हवलदार	एस गुरुलिंगम	01.01.2010
1356	14252553एल	हवलदार	सत्य प्रकाश	01.11.2009
1357	14253667एच	हवलदार	सत्य प्रकाश सिंह	01.01.2010
1358	14268324के	हवलदार	सत्य राम दास	01.10.2009
1359	14253951वाइ	हवलदार	सत्यानंद दुबे	01.01.2010
1360	14267423ए	हवलदार	एस घोष	01.09.2009
1361	14253347एन	हवलदार	सोदान चन्द	01.01.2010
1362	14267467एक्स	हवलदार	सावंत अनिल मल्हारी	01.09.2009
1363	14252907एच	हवलदार	सेकार बी	01.12.2009
1364	14268626डब्ल्यू	हवलदार	सेथु राजन आर	01.10.2009
1365	14267482एम	हवलदार	शेक बाजी	01.09.2009
1366	15350862ए	हवलदार	शेख एस ए	01.01.2010
1367	14253546एफ	हवलदार	शान एम	01.01.2010
1368	14252263एन	हवलदार	शंकर लाल	01.10.2009

1369	14268099ए	हवलदार	एस कुमार साह	01.10.2009
1370	14253778ए	हवलदार	शत्रुघना प्रसाद एस	01.01.2010
1371	14253041एल	हवलदार	शिलानाथ प्रसाद सिंह	01.12.2009
1372	14268347एल	हवलदार	शिंदे राव साहेब डी.	01.10.2009
1373	14253345एच	हवलदार	शिव भजन पाल	01.01.2010
1374	15350295एच	हवलदार	शिव मंगल सिंह	01.12.2009
1375	14251830वाइ	हवलदार	शोबान सिंह	01.09.2009
1376	14267919पी	हवलदार	श्री चन्द कास्वन	01.09.2009
1377	14252723के	हवलदार	श्री पाल	01.11.2009
1378	14253849डब्ल्यू	हवलदार	श्रीकांत सिंह	01.01.2010
1379	14254021के	हवलदार	श्याम लाल सिंह	01.01.2010
1380	14268514डब्ल्यू	हवलदार	सिबी के बेबी	01.10.2009
1381	14253965वाइ	हवलदार	सिद्धाप्पा बीरादर	01.01.2010
1382	14269544ए	हवलदार	एस तिग्गा	01.11.2009
1383	14268205एन	हवलदार	सीता राम	01.10.2009
1384	14269299एच	हवलदार	एस राव ई	01.11.2009
1385	14269278एम	हवलदार	शिवदास के के	01.11.2009
1386	14269289वाइ	हवलदार	स्नेहा पौल	01.11.2009
1387	14267945डब्ल्यू	हवलदार	सोमन पिल्लई जी.	01.09.2009
1388	14251861वाइ	हवलदार	सोमन टी एम	01.09.2009
1389	14251750एफ	हवलदार	सोमसेखरन नायर पी	01.09.2009
1390	14267813एच	हवलदार	श्रीधर प्रधान	01.09.2009
1391	15351012एच	हवलदार	श्रीनिवासन के	01.01.2010
1392	14267679एच	हवलदार	सूबे सिंह	01.09.2009
1393	14254017एफ	हवलदार	सुभाष चंद्र	01.01.2010
1394	14268960एक्स	हवलदार	सुब्रमनिअन एस	01.10.2009
1395	15350156वाइ	हवलदार	सुदर्शन यादव एस	01.12.2009
1396	14269203पी	हवलदार	सुधाकर	01.11.2009
1397	15350518पी	हवलदार	सुकुमार मंडल	01.01.2010
1398	14251994पी	हवलदार	एस राम शर्मा	01.10.2009
1399	14251731डब्ल्यू	हवलदार	सूरज कुमार आइच	01.09.2009
1400	14253637एल	हवलदार	सूरज पाल	01.01.2010
1401	15350815एच	हवलदार	सूरत सिंह	01.01.2010
1402	14267903के	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.10.2009
1403	14267206के	हवलदार	सुरेंद्र सिंह बी	01.09.2009
1404	14268913ए	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार	01.11.2009
1405	14269767एक्स	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह चौहान	01.12.2009
1406	14267218वाइ	हवलदार	सुरेन्द्रन पी वी	01.09.2009
1407	14268343पी	हवलदार	सुरेश एच	01.10.2009
1408	14269485वाइ	हवलदार	सुरेश कुमार	01.11.2009
1409	14252620एल	हवलदार	सुरेश कुमार	01.11.2009

1410	14268599	एक्स	हवलदार	सुरेश कुमार वर्मा	01.10.2009
1411	14252735	वाइ	हवलदार	सुरेश सिंह	01.11.2009
1412	15351058	एल	हवलदार	एस कुमार नायक	01.01.2010
1413	14267726	पी	हवलदार	स्वप्न कुमार दास	01.09.2009
1414	14267506	एल	हवलदार	सैयद शहीद हसन	01.09.2009
1415	15350077	के	हवलदार	तारकेश्वर सिंह	01.12.2009
1416	14252523	एन	हवलदार	शैरथ चन्द	01.11.2009
1417	14267684	एन	हवलदार	जिजो क चन्द	01.09.2009
1418	14269807	एन	हवलदार	तुकाराम लक्ष्मन दलवी	01.12.2009
1419	14251742	एच	हवलदार	उदय सिंह	01.09.2009
1420	14267439	एल	हवलदार	उमेश प्रसाद राय	01.09.2009
1421	14252930	डब्ल्यू	हवलदार	रमेश प्रसाद सिंह	01.12.2009
1422	15351214	के	हवलदार	सुभाश्याय हीरेन कुमार पी	01.01.2010
1423	14267418	पी	हवलदार	सुत्तातम कुमार कुडू	01.09.2009
1424	14269035	एफ	हवलदार	वी अरुमुगम	01.11.2009
1425	14268120	एक्स	हवलदार	वी जया प्रकाश	01.10.2009
1426	14269881	पी	हवलदार	वी प्रकाश एम	01.11.2009
1427	14268233	ए	हवलदार	वी कुर्णी राव	01.10.2009
1428	14268517	के	हवलदार	वासुदेवन पी	01.10.2009
1429	14253447	वाइ	हवलदार	वेनु एम पी	01.01.2010
1430	14253886	के	हवलदार	विद्या सागर	01.01.2010
1431	14252550	एक्स	हवलदार	विजय कुमार	01.11.2009
1432	14269464	एच	हवलदार	विजय कुमारन टी	01.11.2009
1433	14268165	एक्स	हवलदार	विजया कुमार आर	01.10.2009
1434	14268552	एम	हवलदार	विजयन के एस	01.10.2009
1435	14252621	एन	हवलदार	वीजेन्द्र सिंह राकेश	01.11.2009
1436	14268932	एल	हवलदार	विनोद कुमार	01.11.2009
1437	14269916	ए	हवलदार	विनोद कुमार शर्मा	01.12.2009
1438	14252782	डब्ल्यू	हवलदार	विनोद कुमार शर्मा	01.11.2009
1439	14254008	ए	हवलदार	वीरेंद्र कुमार दुबे	01.01.2010
1440	14269417	एल	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	01.11.2009
1441	14268923	के	हवलदार	विश्वनाथ सिंह	01.11.2009
1442	14267312	एच	हवलदार	डब्ल्यूएजी. उमाकांत दिनकर	01.09.2009
1443	15350570	एक्स	हवलदार	वकील सिंह	01.01.2010
1444	15350657	वाइ	हवलदार	वाइ राजेंद्रा ए एस	01.01.2010
गार्ड्स					
1445	13685263	एल	हवलदार	अग्नेन्द्रा कुमार ठाकुर	01.11.2009
1446	13687928	पी	हवलदार	सी भान राम	01.10.2009
1447	13687966	एल	हवलदार	चुना राम	01.01.2010
1448	13684954	एल	हवलदार	धन बहादुर काकी	01.09.2009

1449	13685302	वाइ	हवलदार	गया प्रसाद	01.12.2009
1450	13687891	वाइ	हवलदार	गोपीनाथ बेहेरा	01.10.2009
1451	13685135	एन	हवलदार	ज्ञान चन्द राम	01.10.2009
1452	13685262	एच	हवलदार	हरीश चंद्रा झा	01.11.2009
1453	13687907	वाइ	हवलदार	जसबीर सिंह	01.10.2009
1454	13685226	एक्स	हवलदार	के सुरेश	01.11.2009
1455	13687849	ए	हवलदार	पन्ना लाल	01.09.2009
1456	7773503	एफ	हवलदार	प्रमोद कुमार सिंह	01.11.2009
1457	13687959	पी	हवलदार	राम चंद्र भारती	01.12.2009
1458	13687898	एच	हवलदार	राम गोपाल	01.10.2009
1459	13685412	एन	हवलदार	राम एस इश्वर	01.12.2009
1460	13685444	डब्ल्यू	हवलदार	एस सिंह	01.01.2010
1461	13687960	के	हवलदार	तुकाराम शिवराम चौरे	01.12.2009

पैराशूट रेजीमेन्ट

1462	3983951	एम	हवलदार	अवतार सिंह	01.10.2009
1463	13616421	के	हवलदार	बसंत कुमार शर्मा	01.01.2010
1464	13616326	एक्स	हवलदार	भूपाल सिंह	01.10.2009
1465	2782511	एम	हवलदार	बृज मोहन पांडे	01.01.2010
1466	13615384	पी	हवलदार	दीप बहादुर	01.01.2010
1467	13616396	डब्ल्यू	हवलदार	जी. सिंह	01.12.2009
1468	13616321	वाइ	हवलदार	मेजर सिंह	01.10.2009
1469	13616349	वाइ	हवलदार	पुष्पेन्द्रा सिंह	01.11.2009
1470	13615278	डब्ल्यू	हवलदार	प्यारे लाल	01.10.2009
1471	13615343	एल	हवलदार	राज कुमार सिंह	01.11.2009
1472	13616437	पी	हवलदार	रण विजय सिंह	01.01.2010
1473	2589791	के	हवलदार	एस मुरुगन	01.09.2009
1474	13616341	एम	हवलदार	श्यामा क्रांता सिन्हा	01.10.2009
1475	13616413	एल	हवलदार	स्वर्ण सिंह	01.12.2009

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

1476	2982870	के	हवलदार	अजब सिंह	01.11.2009
1477	14911097	एच	हवलदार	आलम एन अप्पला कोन्डा	01.10.2009
1478	14910921	ए	हवलदार	अमर सिंह	01.09.2009
1479	14911153	डब्ल्यू	हवलदार	अरुण चंद्रा बेहेरा	01.11.2009
1480	14913964	ए	हवलदार	बलजीत राम	01.01.2010
1481	14911034	ए	हवलदार	बलकार सिंह	01.10.2009
1482	14910824	एच	हवलदार	भंवर सिंह	01.09.2009
1483	14911327	एल	हवलदार	चतर सिंह	01.01.2010
1484	14910918	ए	हवलदार	छतर सिंह	01.09.2009
1485	14911110	एफ	हवलदार	गदाधर एम	01.10.2009

1486	14911025वाइ	हवलदार	गोड़ चंद्रा सिंघा	01.09.2009
1487	14910813डब्ल्यू	हवलदार	ज्ञान दास सिंह कुशवाहा	01.09.2009
1488	2982924ए	हवलदार	हंस राज सिंह गुर्जर	01.11.2009
1489	14911221वाइ	हवलदार	एचआईआर गिरि	01.11.2009
1490	14911134एल	हवलदार	इन्द्रा कांत झा	01.10.2009
1491	14911685डब्ल्यू	हवलदार	जगजीत सिंह	01.01.2010
1492	14911687एफ	हवलदार	जसपाल सिंह	01.01.2010
1493	14913034वाइ	हवलदार	करेश धनुक	01.01.2010
1494	14911215एल	हवलदार	केशर सिंह	01.11.2009
1495	14910875डब्ल्यू	हवलदार	किशन सिंह	01.09.2009
1496	14910833के	हवलदार	लाभ चन्द	01.09.2009
1497	14911304के	हवलदार	लक्ष्मी कांत दास	01.01.2010
1498	14910939डब्ल्यू	हवलदार	लक्ष्मन छत्री	01.09.2009
1499	14911361एल	हवलदार	एम डी. आलमगीर	01.01.2010
1500	14913975एम	हवलदार	मदन लाल	01.12.2009
1501	2985730एच	हवलदार	मदन सिंह	01.01.2010
1502	14911200एच	हवलदार	मोहम्मद हारून खान	01.11.2009
1503	14911195एच	हवलदार	नगेन्द्रा प्रसाद सिंह	01.11.2009
1504	14911265डब्ल्यू	हवलदार	एन थावूदू	01.12.2009
1505	2983163एम	हवलदार	राम बचन सिंह	01.01.2010
1506	14911060एफ	हवलदार	राम सिंह	01.10.2009
1507	14913955वाइ	हवलदार	राम स्वरूप	01.12.2009
1508	14911109एम	हवलदार	रमेश चंद्रा साहू	01.10.2009
1509	14910879एम	हवलदार	रवीन्द्र कुमार	01.09.2009
1510	14911251डब्ल्यू	हवलदार	सागर थापा	01.11.2009
1511	14910948एक्स	हवलदार	सतीश कुमार	01.09.2009
1512	2985718एफ	हवलदार	शिव राम एस एस	01.12.2009
1513	14911256पी	हवलदार	श्याम बाबू	01.11.2009
1514	14911044के	हवलदार	सुखवंत सिंह	01.10.2009
1515	14913958एम	हवलदार	सुमेर पाल	01.12.2009
1516	14911031एम	हवलदार	सुनील बरुयह	01.09.2009
1517	14910890एल	हवलदार	एस महतो	01.09.2009
1518	14911202एन	हवलदार	ताज प्रताप सिंह	01.11.2009
1519	14913952एल	हवलदार	तुला राम	01.11.2009
1520	14911174एम	हवलदार	वेद राम	01.11.2009
1521	14910979एक्स	हवलदार	वी टाशिन	01.09.2009

पंजाब रेजीमेंट

1522	2476695एफ	हवलदार	अशोक कुमार	01.11.2009
1523	2478526वाइ	हवलदार	बिशन दास	01.11.2009
1524	2476604एम	हवलदार	जी. कुमार	01.11.2009

1525	2478513एफ	हवलदार	गुरनाम सिंह	01.11.2009
1526	2476907एफ	हवलदार	हरदीप सिंह	01.01.2010
1527	2478630एम	हवलदार	हरदीप सिंह	01.01.2010
1528	2476499एफ	हवलदार	जय सिंह	01.09.2009
1529	2476659डब्ल्यू	हवलदार	जनक राज	01.11.2009
1530	2478628पी	हवलदार	करनैल सिंह	01.01.2010
1531	2476806एन	हवलदार	मल्कीत सिंह	01.12.2009
1532	2476749एक्स	हवलदार	नरिंदर पौल	01.12.2009
1533	2478451एम	हवलदार	राकेश कुमार	01.09.2009
1534	8031467के	हवलदार	राम निवास	01.09.2009
1535	2476760डब्ल्यू	हवलदार	राम पाल	01.12.2009
1536	2478470एक्स	हवलदार	रणधीर सिंह	01.10.2009
1537	2478638वाइ	हवलदार	शमशेर सिंह	01.01.2010
1538	2476553के	हवलदार	सोदागर राम	01.10.2009
1539	2478489डब्ल्यू	हवलदार	सोम दत्ता	01.11.2009
1540	2476595डब्ल्यू	हवलदार	सुभाष चंद्र	01.11.2009
1541	2476896ए	हवलदार	सुरेश सिंह	01.01.2010
1542	2478583ए	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.12.2009
1543	2478472एच	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.10.2009
1544	2478555एन	हवलदार	त्रिलोक सिंह	01.12.2009
1545	2478614पी	हवलदार	वी सिंह	01.01.2010
1546	2476733एम	हवलदार	विनोद सिंह	01.12.2009
मद्रास रेजीमेन्ट				
1547	2590425एम	हवलदार	ए अंबालागन	01.01.2010
1548	2589801एच	हवलदार	ए सामिकन्नु	01.09.2009
1549	2590185ए	हवलदार	ए सुब्रमणि	01.12.2009
1550	2586672एच	हवलदार	ए वेतामणी	01.10.2009
1551	2586462एच	हवलदार	अलेक्जेंडर वी जे	01.10.2009
1552	2590384एन	हवलदार	अन्नामलाई आर	01.01.2010
1553	2590273डब्ल्यू	हवलदार	बी सुब्रमनिअन	01.12.2009
1554	2589844एक्स	हवलदार	बाबू वी सी	01.09.2009
1555	2586317एल	हवलदार	बालकृष्णान पी	01.10.2009
1556	2590250पी	हवलदार	बेन्नी डी.	01.12.2009
1557	2587524के	हवलदार	बोबिली पापा राव	01.01.2010
1558	2586144वाइ	हवलदार	सी मुरुगेसन	01.09.2009
1559	2587263एफ	हवलदार	चंद्रा सागर एन	01.12.2009
1560	2587122एम	हवलदार	जी. जगदीशन	01.11.2009
1561	8031526एल	हवलदार	जी. मधायन	01.09.2009
1562	2590098एम	हवलदार	गंगाधरन पी	01.11.2009
1563	2590082एफ	हवलदार	जोर्ज जे एस	01.11.2009

1605	2586327पी	हवलदार	शिवदासन वी	01.10.2009
1606	2590373एफ	हवलदार	सुरेश कुमार	01.01.2010
1607	8031393ए	हवलदार	टी अन्नादुराय	01.09.2009
1608	2586152एक्स	हवलदार	टी चिन्ना स्वामी	01.09.2009
1609	2590371डब्ल्यू	हवलदार	टी देवा कुमार	01.01.2010
1610	2590260वाइ	हवलदार	टाइटस जी.	01.12.2009
1611	2589931एल	हवलदार	वी एम रविचंद्रन	01.09.2009
1612	2590086एक्स	हवलदार	वी रामी रेडी	01.11.2009
1613	2590410के	हवलदार	वेकटेशन पी	01.01.2010
1614	2589942एक्स	हवलदार	वेकटेशन आर	01.09.2009
1615	2587127एल	हवलदार	विनसेट ए	01.11.2009

ग्रेनेडियर्स

1616	2678290वाइ	हवलदार	बलबीर सिंह	01.12.2009
1617	2678416एन	हवलदार	बलदेव राम	01.12.2009
1618	2677998एम	हवलदार	हिम्मत सिंह	01.10.2009
1619	2680433एम	हवलदार	जगदीश चन्द	01.01.2010
1620	2680439एन	हवलदार	जसवंत सिंह	01.01.2010
1621	2680361एन	हवलदार	मुस्ताक अहमद अंसारी	01.10.2009
1622	2678264एक्स	हवलदार	नगेन्द्रा	01.12.2009
1623	2680367पी	हवलदार	नंदा सिंह	01.11.2009
1624	2680385एक्स	हवलदार	नारायण सिंह	01.11.2009
1625	2677757एम	हवलदार	फुल कुमार	01.09.2009
1626	2677865डब्ल्यू	हवलदार	रघुबीर सिंह	01.10.2009
1627	2680363वाइ	हवलदार	राज कुमार	01.11.2009
1628	2678224डब्ल्यू	हवलदार	राज मुख	01.11.2009
1629	2678605एक्स	हवलदार	राजेंद्र कुमार	01.01.2010
1630	2678075एन	हवलदार	राम दुलारे शर्मा	01.10.2009
1631	2680375एन	हवलदार	रमेश चन्द	01.11.2009
1632	2680394वाइ	हवलदार	सेट्टू सी	01.11.2009
1633	2677937पी	हवलदार	शिव चरण	01.10.2009
1634	2678084पी	हवलदार	सुभाष चन्द	01.10.2009
1635	2677870एफ	हवलदार	सुमेर सिंह	01.10.2009
1636	2677900एन	हवलदार	सुरेश चंद्रा	01.10.2009
1637	2678484एफ	हवलदार	सुरिन्दर पाल	01.01.2010
1638	2677733एच	हवलदार	जेड हुसैन शाह	01.09.2009

मराठा लघु सेना

1639	2779308एल	हवलदार	अंकुश नंदराव एस	01.11.2009
1640	2782481ए	हवलदार	देसे सायाजी कृष्णा	01.01.2010
1641	2782183के	हवलदार	गावडे दिलीप गोविंद	01.12.2009

1564	2589847एल	हवलदार	हरिदासन ओ	01.09.2009
1565	8031464डब्ल्यू	हवलदार	जगदीशन ए	01.09.2009
1566	2589838के	हवलदार	जोगी एम मार्कोस	01.09.2009
1567	2590358एम	हवलदार	जेशीमोन के के	01.12.2009
1568	2590368डब्ल्यू	हवलदार	के चौकलिंगम	01.01.2010
1569	2590152पी	हवलदार	के दामोथरन	01.11.2009
1570	2589916डब्ल्यू	हवलदार	के कनकनवाटी	01.09.2009
1571	2590401एच	हवलदार	केआर संजीवन राव	01.01.2010
1572	2589959एल	हवलदार	एम जयराज	01.09.2009
1573	2590149पी	हवलदार	एम कमलानाथन	01.11.2009
1574	2587356डब्ल्यू	हवलदार	एम कन्नुस्वामी	01.12.2009
1575	2589780एक्स	हवलदार	एम मनिमारन	01.09.2009
1576	2586355एफ	हवलदार	एम रामचन्द्रन	01.10.2009
1577	2586307एफ	हवलदार	मनोहरन के	01.10.2009
1578	2586060एल	हवलदार	एम अप्पा राव	01.09.2009
1579	2590275एफ	हवलदार	मोहानन पिल्लई बी	01.12.2009
1580	2589786वाइ	हवलदार	एन चिन्नादुराई	01.09.2009
1581	2590029डब्ल्यू	हवलदार	एन कन्टन	01.10.2009
1582	2590203एक्स	हवलदार	एन कुमार पिल्लई	01.12.2009
1583	2590060एच	हवलदार	एन राजू	01.10.2009
1584	2586926पी	हवलदार	पी अर्जुनन	01.11.2009
1585	2590191एन	हवलदार	पी मनोहरन	01.12.2009
1586	2587489एम	हवलदार	पी मोहन	01.01.2010
1587	2590238एन	हवलदार	पी सिम्हाचलम	01.12.2009
1588	2587062एच	हवलदार	पी सुवरन्न	01.11.2009
1589	2590210एन	हवलदार	पलनीवेलु एम	01.12.2009
1590	8031604एक्स	हवलदार	प्रदीप कुमार ई	01.10.2009
1591	2590394एक्स	हवलदार	पुली पी	01.01.2010
1592	2590446एच	हवलदार	आर फ्रांसेस	01.01.2010
1593	2589893ए	हवलदार	राधाकृष्ण कट्टील	01.09.2009
1594	2590440एफ	हवलदार	राजीवन सी एम	01.01.2010
1595	2590110एच	हवलदार	राजेंद्रा कुमार जी.	01.11.2009
1596	2590245के	हवलदार	राजेन्द्रन जी.	01.12.2009
1597	2590259के	हवलदार	रेहीम टी	01.12.2009
1598	2589800ए	हवलदार	एस जोस	01.09.2009
1599	2589792एम	हवलदार	एस परमशिवन	01.09.2009
1600	2589932एन	हवलदार	एस प्रभाकरण	01.09.2009
1601	8031408एक्स	हवलदार	एस सिधान	01.09.2009
1602	2586675डब्ल्यू	हवलदार	सरगपानी जी.	01.10.2009
1603	7430540एच	हवलदार	सत्यान पी के	01.12.2009
1604	2590159वाइ	हवलदार	सिवा कुमार वीएम	01.12.2009

1642	2781794एम	हवलदार	जाधव कालूराम किसान	01.09.2009
1643	2782258डब्ल्यू	हवलदार	के शिवराम डी.	01.12.2009
1644	2782497एल	हवलदार	कोलकर मनोहर एन	01.01.2010
1645	13966086ए	हवलदार	एम डी. एफ अली	01.12.2009
1646	2782266पी	हवलदार	एम विष्णु बी	01.12.2009
1647	2781833ए	हवलदार	मनोहर रमा साने	01.09.2009
1648	2782482एच	हवलदार	नाइक अपासाहेब पी	01.01.2010
1649	2782471डब्ल्यू	हवलदार	निकम ए वी	01.01.2010
1650	2782438वाइ	हवलदार	एन गोडा पाटिल	01.01.2010
1651	2781768एल	हवलदार	ओम प्रकाश	01.09.2009
1652	2782531ए	हवलदार	पी प्रकाश के	01.01.2010
1653	2782025पी	हवलदार	पिशाल सुधाकर जी.	01.10.2009
1654	2779053डब्ल्यू	हवलदार	प्रभाकर आर जी.	01.10.2009
1655	2782128एन	हवलदार	आर सवरवटकर	01.11.2009
1656	2782358एफ	हवलदार	सालुखे अशोक के	01.01.2010
1657	2782188एच	हवलदार	शान्ताराम भीकाजी के	01.12.2009
1658	2782267एक्स	हवलदार	शिंदे समभाजी आर	01.12.2009
1659	2782199पी	हवलदार	सुभाष	01.12.2009
1660	2778977एक्स	हवलदार	सुभाष चन्द	01.10.2009
राजपूताना राईफल्स				
1661	2880602एम	हवलदार	बलबीर सिंह	01.11.2009
1662	2883184एन	हवलदार	बी सिंह	01.10.2009
1663	2880718एच	हवलदार	भूबन राम	01.11.2009
1664	2883221डब्ल्यू	हवलदार	बी नरजीनारी	01.11.2009
1665	2883269के	हवलदार	बोदन सिंह	01.01.2010
1666	2880806वाइ	हवलदार	ब्रज मोहन लाल	01.11.2009
1667	2880629के	हवलदार	धन सिंह	01.11.2009
1668	2880516एफ	हवलदार	दिलीप सिंह शेखावत	01.11.2009
1669	2883254एफ	हवलदार	फकरुद्दीन खान	01.12.2009
1670	2880416डब्ल्यू	हवलदार	गिरान्द सिंह	01.10.2009
1671	2880918वाइ	हवलदार	लाल चन्द	01.01.2010
1672	2880412ए	हवलदार	लेखराज सिंह	01.10.2009
1673	2880333एल	हवलदार	महाबीर सिंह	01.10.2009
1674	2880878एच	हवलदार	मंजूर अहमद	01.12.2009
1675	8031586ए	हवलदार	मोहम्मद उस्मान	01.10.2009
1676	2880927ए	हवलदार	पोख पाल	01.01.2010
1677	2881162डब्ल्यू	हवलदार	रमा कांत	01.01.2010
1678	2883260पी	हवलदार	रमेश चन्द	01.12.2009
1679	2880636ए	हवलदार	रमेश कुमार	01.11.2009
1680	2883193पी	हवलदार	सहायदास पी	01.10.2009

1681	2881096वाइ	हवलदार	सुधा करन वी	01.01.2010
1682	2881531एच	हवलदार	सुखवीर सिंह	01.10.2009
1683	2880716एक्स	हवलदार	सुरेश कुमार	01.11.2009
1684	2880916एन	हवलदार	सुरेश कुमार	01.01.2010
1685	2880379एन	हवलदार	सुरेश कुमार	01.10.2009
1686	2883230एक्स	हवलदार	यू मिश्रा	01.11.2009
1687	2880606एच	हवलदार	वेद सिंह	01.11.2009

राजपूत रेजीमेन्ट

1688	2985734वाइ	हवलदार	बसंत बल्लभ जोशी	01.01.2010
1689	2985711एक्स	हवलदार	धर्मवीर सिंह	01.12.2009
1690	2983480एन	हवलदार	होशियार सिंह	01.01.2010
1691	2983272वाइ	हवलदार	जगदीश सिंह	01.01.2010
1692	2982553एच	हवलदार	जगमाल सिंह	01.10.2009
1693	8031444एच	हवलदार	एल राम हंसदा	01.09.2009
1694	2982402के	हवलदार	माता दीन	01.09.2009
1695	2985721एफ	हवलदार	नाग ठाकुर	01.12.2009
1696	2985685एफ	हवलदार	नरपत सिंह	01.11.2009
1697	2985723एम	हवलदार	नाथू सिंह	01.12.2009
1698	2985674पी	हवलदार	फूल सिंह	01.10.2009
1699	2982547पी	हवलदार	प्रीतम चन्द	01.10.2009
1700	2985696एन	हवलदार	राम प्रसाद घोषी	01.11.2009
1701	3179397एन	हवलदार	शीश राम	01.01.2010
1702	2982600पी	हवलदार	सुंदर लाल	01.10.2009
1703	2983047के	हवलदार	विनोद कुमार	01.11.2009

जाट रेजीमेन्ट

1704	3177428पी	हवलदार	अजीत सिंह	01.11.2009
1705	3177282एफ	हवलदार	अजमेर सिंह	01.10.2009
1706	3179683पी	हवलदार	बाल मोहन	01.11.2009
1707	3177269एक्स	हवलदार	भागीरथ सिंह	01.10.2009
1708	3179315ए	हवलदार	बिजेन्द्र	01.11.2009
1709	3179380ए	हवलदार	चंद्र देव राम पासी	01.12.2009
1710	3177573एफ	हवलदार	महावीर सिंह	01.01.2010
1711	3177244एल	हवलदार	मेवा राम	01.10.2009
1712	3177175ए	हवलदार	राज कुमार	01.09.2009
1713	3179370डब्ल्यू	हवलदार	राम अवतार	01.12.2009
1714	3177612पी	हवलदार	राम सिंह	01.01.2010
1715	3177387एल	हवलदार	रमेश कुमार	01.11.2009
1716	3179324एफ	हवलदार	सुकराम पाल	01.11.2009
1717	3177556एफ	हवलदार	विजय बहादुर पटेल	01.12.2009

सिख रेजीमेन्ट

1718	3386099के	हवलदार	अजीत सिंह	01.01.2010
1719	3386043एक्स	हवलदार	अमरजीत सिंह	01.01.2010
1720	3382317ए	हवलदार	अनिल कुमार	01.11.2009
1721	3386106पी	हवलदार	बलबीर सिंह	01.01.2010
1722	3384060वाइ	हवलदार	बलदेव सिंह	01.12.2009
1723	3385991पी	हवलदार	भजन सिंह	01.01.2010
1724	3385630डब्ल्यू	हवलदार	चरत सिंह	01.11.2009
1725	3386105एम	हवलदार	दर्शन सिंह	01.01.2010
1726	3385671ए	हवलदार	देविन्द्र सिंह	01.11.2009
1727	3386066वाइ	हवलदार	गुरबचन सिंह	01.01.2010
1728	3385702पी	हवलदार	गुरमाल सिंह	01.11.2009
1729	3386079डब्ल्यू	हवलदार	गुरमुख सिंह	01.01.2010
1730	3385612एन	हवलदार	गुरप्रीत सिंह	01.10.2009
1731	3385701एम	हवलदार	हंस राज	01.11.2009
1732	3385705एच	हवलदार	हरी चन्द	01.11.2009
1733	3385458ए	हवलदार	एच लाल	01.09.2009
1734	3385584एम	हवलदार	इकबाल सिंह	01.10.2009
1735	3386091एक्स	हवलदार	जसवंत सिंह	01.01.2010
1736	3385583के	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.10.2009
1737	3385475ए	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.09.2009
1738	3382298ए	हवलदार	ख्याली राम	01.10.2009
1739	3385596एफ	हवलदार	कुलदीप कुमार	01.10.2009
1740	3384467पी	हवलदार	लाल मनी	01.09.2009
1741	3385515डब्ल्यू	हवलदार	लील बहादुर गुरंग	01.09.2009
1742	3383490डब्ल्यू	हवलदार	मदन लाल	01.11.2009
1743	3385874के	हवलदार	मनजीत सिंह	01.01.2010
1744	3382384एल	हवलदार	मोहम्मद जमालुद्दीन	01.12.2009
1745	3385731के	हवलदार	राम फल	01.12.2009
1746	3385912पी	हवलदार	राम सिंह	01.01.2010
1747	3385817एच	हवलदार	रतन सिंह	01.12.2009
1748	3385576एन	हवलदार	संतोख सिंह	01.10.2009
1749	3385801एक्स	हवलदार	एस सिंह	01.12.2009
1750	3382354एन	हवलदार	सतबीर सिंह	01.11.2009
1751	3385823डब्ल्यू	हवलदार	सुखवंद्र सिंह	01.12.2009
1752	3385923एफ	हवलदार	तजिन्दरजीत सिंह	01.01.2010
1753	3383948पी	हवलदार	वी कुमार	01.11.2009
1754	3385667एक्स	हवलदार	विद्याधर द्विवेदी	01.11.2009

सिख लघु पैदल सेना

1755	4466335के	हवलदार	अजीत सिंह	01.01.2010
1756	4466021एच	हवलदार	बी एस एम	01.11.2009
1757	4466293एच	हवलदार	बलदेव सिंह	01.01.2010
1758	4465871ए	हवलदार	बलकार सिंह	01.11.2009
1759	4466306पी	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.01.2010
1760	4465882एम	हवलदार	बलविन्दर सिंह	01.11.2009
1761	4464017एफ	हवलदार	बिरेन्द्र सिंह	01.12.2009
1762	4465971एल	हवलदार	बोहार सिंह	01.11.2009
1763	4463871एफ	हवलदार	छेदा लाल	01.09.2009
1764	4466115ए	हवलदार	गुरचरण सिंह	01.12.2009
1765	4465953एच	हवलदार	गुरदीप सिंह	01.11.2009
1766	4465888एन	हवलदार	गुरदेव सिंह	01.11.2009
1767	4466324एक्स	हवलदार	गुरनाम सिंह	01.01.2010
1768	4466249वाइ	हवलदार	हरवंत सिंह	01.01.2010
1769	4466234डब्ल्यू	हवलदार	जगजीत सिंह	01.01.2010
1770	4465826एन	हवलदार	जगतार सिंह	01.10.2009
1771	4465985एल	हवलदार	जरनैल सिंह	01.11.2009
1772	4466346डब्ल्यू	हवलदार	जसबीर सिंह	01.01.2010
1773	4466296डब्ल्यू	हवलदार	काबल सिंह	01.01.2010
1774	4466257एक्स	हवलदार	कर्म सिंह	01.01.2010
1775	4466402के	हवलदार	करनैल सिंह	01.01.2010
1776	4465842एल	हवलदार	मल्कीत सिंह	01.11.2009
1777	4465837ए	हवलदार	नरिंदर सिंह	01.11.2009
1778	4465945के	हवलदार	प्रताप सिंह	01.11.2009
1779	4466170डब्ल्यू	हवलदार	रमेश कुमार	01.12.2009
1780	4466175पी	हवलदार	रमेश सिंह	01.12.2009
1781	4466006एन	हवलदार	रंजीत सिंह	01.11.2009
1782	4465867एक्स	हवलदार	रंजीत सिंह	01.11.2009
1783	4465942डब्ल्यू	हवलदार	सलीम अहमद	01.11.2009
1784	4466128एक्स	हवलदार	संत सिंह	01.12.2009
1785	4465919एच	हवलदार	श्रवण सिंह	01.11.2009
1786	4466110एफ	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.12.2009
1787	4466031एम	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.11.2009
1788	4465844डब्ल्यू	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.11.2009
1789	4466230ए	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.01.2010
1790	4466116एच	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.12.2009
1791	4466292ए	हवलदार	स्वर्ण सिंह	01.01.2010
1792	4466348एफ	हवलदार	तरसेम सिंह	01.01.2010
1793	4466212एक्स	हवलदार	उमैद सिंह	01.12.2009

1794	4466108के	हवलदार	वी राम	01.11.2009
<u>डोगरा रेजीमेन्ट</u>				
1795	3984258पी	हवलदार	अजीत	01.11.2009
1796	3986643एक्स	हवलदार	अशोक कुमार	01.09.2009
1797	3984736एन	हवलदार	अशोक कुमार	01.11.2009
1798	3986712एच	हवलदार	अशवनी कुमार	01.09.2009
1799	3984092वाइ	हवलदार	बचन लाल	01.11.2009
1800	3986835पी	हवलदार	बलकार सिंह	01.11.2009
1801	3986888एन	हवलदार	बरफी लाल शर्मा	01.12.2009
1802	3986689ए	हवलदार	बी राम नापित	01.09.2009
1803	3984963एन	हवलदार	बिशम्बर सिंह	01.01.2010
1804	3986633एन	हवलदार	चमन लाल	01.09.2009
1805	3986637के	हवलदार	देव राज	01.09.2009
1806	3983909एन	हवलदार	दिनेश कुमार	01.10.2009
1807	3986690पी	हवलदार	हंस राज	01.09.2009
1808	3984427एल	हवलदार	हरीश चंद्र	01.11.2009
1809	3986610एम	हवलदार	हरमेश चंद्र	01.09.2009
1810	3984943ए	हवलदार	जगदीश चन्द	01.01.2010
1811	3986807एच	हवलदार	जगदीश चन्द	01.11.2009
1812	3985001डब्ल्यू	हवलदार	जगदीश चन्द	01.01.2010
1813	3986747वाइ	हवलदार	जीत राम	01.10.2009
1814	3986691एक्स	हवलदार	कमल दास	01.09.2009
1815	3984890वाइ	हवलदार	करन सिंह	01.12.2009
1816	3986848एम	हवलदार	करनैल सिंह	01.11.2009
1817	3984443एच	हवलदार	करनैल सिंह	01.11.2009
1818	3983871पी	हवलदार	करतार चन्द	01.10.2009
1819	3984497के	हवलदार	कश्मीर सिंह	01.11.2009
1820	3984815एच	हवलदार	केसर सिंह	01.12.2009
1821	3983845एन	हवलदार	केवल कष्णन	01.09.2009
1822	3986760एच	हवलदार	कष्णन पौल	01.10.2009
1823	3986745एन	हवलदार	कुलदीप सिंह डेआउट	01.10.2009
1824	3984334डब्ल्यू	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.11.2009
1825	3986916पी	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.12.2009
1826	3986825एल	हवलदार	कुलवीर सिंह	01.11.2009
1827	3984790एफ	हवलदार	लाल सिंह	01.12.2009
1828	3984979वाइ	हवलदार	मान सिंह	01.01.2010
1829	3986908डब्ल्यू	हवलदार	मंसा राम	01.12.2009
1830	3984249एन	हवलदार	मस्त राम	01.11.2009
1831	3986680एल	हवलदार	मिलाप चन्द	01.09.2009
1832	3984151ए	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.11.2009

1833	3984760के	हवलदार	नन्द लाल	01.11.2009
1834	3986629एल	हवलदार	नील चन्द	01.09.2009
1835	3986622एफ	हवलदार	निहाल चन्द आज़ाद	01.09.2009
1836	3984021एक्स	हवलदार	निर्मल कुमार	01.10.2009
1837	3986881के	हवलदार	ओमकार सिंह	01.10.2009
1838	3984718एल	हवलदार	पवन कुमार	01.11.2009
1839	3986900के	हवलदार	प्रताप चन्द	01.12.2009
1840	3984178एक्स	हवलदार	प्रीतम चन्द	01.11.2009
1841	3986718के	हवलदार	पुर्षोत्तम लाल	01.09.2009
1842	3986925डब्ल्यू	हवलदार	आर परसुरामन	01.01.2010
1843	3984063के	हवलदार	राज बहादुर	01.11.2009
1844	3986679डब्ल्यू	हवलदार	राज कुमार	01.09.2009
1845	3984142वाइ	हवलदार	राज राम	01.11.2009
1846	2883206एफ	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.11.2009
1847	3985283ए	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.01.2010
1848	3984186डब्ल्यू	हवलदार	राम कृष्णन	01.11.2009
1849	3984858एक्स	हवलदार	राम कृष्णन शर्मा	01.12.2009
1850	3986868ए	हवलदार	राम लाल	01.12.2009
1851	3984916डब्ल्यू	हवलदार	रामजीत यादव	01.01.2010
1852	3986724एक्स	हवलदार	रंजीत सिंह	01.09.2009
1853	3984311पी	हवलदार	रंजीत सिंह	01.11.2009
1854	3986720एफ	हवलदार	रंजीत सिंह	01.09.2009
1855	3986684एफ	हवलदार	रवीन्द्र प्रसाद सिंह	01.09.2009
1856	3986862वाइ	हवलदार	रोमेश सिंह	01.11.2009
1857	3986897पी	हवलदार	संत राम सिंह	01.12.2009
1858	3984654एल	हवलदार	संतोख सिंह	01.11.2009
1859	3984616पी	हवलदार	श्रवण कुमार	01.11.2009
1860	3983898एम	हवलदार	सत पाल	01.10.2009
1861	3986852पी	हवलदार	सत पौल	01.11.2009
1862	3984796एच	हवलदार	सेवक राम	01.12.2009
1863	3986623के	हवलदार	शादी लाल	01.09.2009
1864	3984773एफ	हवलदार	शेर सिंह	01.11.2009
1865	7430560डब्ल्यू	हवलदार	सोहन लाल	01.01.2010
1866	3986767एम	हवलदार	सोम राज	01.10.2009
1867	3986808एल	हवलदार	सुभाष चन्द	01.11.2009
1868	3986755एक्स	हवलदार	सुभाष चंद्र	01.10.2009
1869	3986739ए	हवलदार	सुदर्शन कुमार चंदेल	01.09.2009
1870	3984682एक्स	हवलदार	सुख पाल	01.11.2009
1871	3984457एच	हवलदार	सुनील दत्ता	01.11.2009
1872	3986677एल	हवलदार	स्वरूप चन्द	01.09.2009
1873	8031425एक्स	हवलदार	टी डी. प्रसाद	01.09.2009

1874	3986801एफ	हवलदार	त्रिलोक सिंह	01.11.2009
1875	3984081एम	हवलदार	विजय कुमार	01.10.2009
1876	3986675ए	हवलदार	विनोद कुमार	01.09.2009
गढ़वाल राईफल्स				
1877	4066213एम	हवलदार	अजय पाल	01.11.2009
1878	4069007एम	हवलदार	आनंद सिंह	01.12.2009
1879	4068906एच	हवलदार	आनंद सिंह रावत	01.09.2009
1880	4068961वाइ	हवलदार	आनंद सिंह रावत	01.11.2009
1881	4069120एफ	हवलदार	अतर सिंह	01.01.2010
1882	4068840एक्स	हवलदार	बलबीर सिंह	01.09.2009
1883	4068813एन	हवलदार	बलवीर सिंह	01.09.2009
1884	4065941ए	हवलदार	भगवती प्रसाद	01.09.2009
1885	4068979पी	हवलदार	भरत सिंह	01.12.2009
1886	4069068एल	हवलदार	भरत सिंह	01.12.2009
1887	4068969एल	हवलदार	बीर सिंह	01.12.2009
1888	4068971एच	हवलदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.12.2009
1889	4069043वाइ	हवलदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.12.2009
1890	4068873एच	हवलदार	चन्दन सिंह	01.09.2009
1891	4066546वाइ	हवलदार	दलपत सिंह नेगी	01.12.2009
1892	4068849एम	हवलदार	देव चन्द सिंह	01.09.2009
1893	4066592एन	हवलदार	देवानंद	01.12.2009
1894	4069074वाइ	हवलदार	धन सिंह	01.12.2009
1895	4068958वाइ	हवलदार	धर्म सिंह	01.11.2009
1896	4069023एल	हवलदार	दिगम्बर सिंह	01.12.2009
1897	4068978एम	हवलदार	गजेन्द्र सिंह	01.12.2009
1898	4068827एन	हवलदार	गोपाल सिंह	01.09.2009
1899	4069117एच	हवलदार	गोविंद सिंह	01.01.2010
1900	4068831डब्ल्यू	हवलदार	एच सिंह	01.09.2009
1901	4066177के	हवलदार	हरीश चंद्रा	01.10.2009
1902	4066653ए	हवलदार	जे प्रसाद	01.01.2010
1903	4066858पी	हवलदार	जय सिंह राउथान	01.01.2010
1904	4066588एल	हवलदार	जोगिंदर सिंह	01.12.2009
1905	7430593एफ	हवलदार	कमल सिंह	01.01.2010
1906	4069104एल	हवलदार	कमलेश सिंह	01.01.2010
1907	4065846एन	हवलदार	केदार सिंह	01.09.2009
1908	4066920डब्ल्यू	हवलदार	खड़क सिंह	01.01.2010
1909	4066791एफ	हवलदार	खिलप सिंह	01.01.2010
1910	4068850एफ	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.09.2009
1911	4066647एम	हवलदार	कुंदन सिंह	01.01.2010
1912	4068963के	हवलदार	कुंदन सिंह	01.11.2009

1913	4066597एम	हवलदार	कुंवर सिंह	01.10.2009
1914	4068974डब्ल्यू	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.12.2009
1915	4069053एच	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.12.2009
1916	8031468एम	हवलदार	एल किस्कु	01.09.2009
1917	4065886पी	हवलदार	मदन मोहन	01.09.2009
1918	4066442एक्स	हवलदार	महावीर सिंह राउथान	01.12.2009
1919	4068918एक्स	हवलदार	महाराज सिंह नेगी	01.09.2009
1920	4069022एच	हवलदार	महेंद्र सिंह राना	01.12.2009
1921	4068820के	हवलदार	मनवीर सिंह	01.09.2009
1922	4066117एक्स	हवलदार	मोहन प्रसाद	01.10.2009
1923	4069109के	हवलदार	नारायण सिंह	01.01.2010
1924	4068943डब्ल्यू	हवलदार	प्रताप सिंह	01.10.2009
1925	4066158एफ	हवलदार	प्रेम सिंह	01.10.2009
1926	4066356एम	हवलदार	पूरन सिंह	01.12.2009
1927	4069084एच	हवलदार	रघुबीर सिंह गुसाई	01.12.2009
1928	4068938एल	हवलदार	आर सिंह भंडारी	01.10.2009
1929	4069029एम	हवलदार	राज पाल सिंह	01.12.2009
1930	4068936ए	हवलदार	राजे सिंह	01.10.2009
1931	4068858एन	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद	01.09.2009
1932	4066805डब्ल्यू	हवलदार	राजनाथ सिंह कुशवाहा	01.01.2010
1933	4065949एम	हवलदार	राम देव पाल	01.10.2009
1934	4066389एक्स	हवलदार	राम प्रकाश	01.12.2009
1935	4066310के	हवलदार	रामबीर सिंह	01.12.2009
1936	4069054एल	हवलदार	रामेंदर सिंह	01.12.2009
1937	4066149ए	हवलदार	रमेश लाल	01.10.2009
1938	4068965पी	हवलदार	रनबीर सिंह	01.11.2009
1939	4068924एल	हवलदार	रतन सिंह	01.10.2009
1940	4066450डब्ल्यू	हवलदार	सचिदा नन्द	01.12.2009
1941	4066545डब्ल्यू	हवलदार	सवधन सिंह	01.12.2009
1942	4069067एच	हवलदार	सोबन सिंह पनवर	01.12.2009
1943	4066864एच	हवलदार	सुंदर सिंह	01.01.2010
1944	4068853पी	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.09.2009
1945	4069071एल	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह नेगी	01.12.2009
1946	4065952एम	हवलदार	टेक चन्द	01.10.2009
1947	4069035ए	हवलदार	विनोद प्रसाद	01.12.2009
1948	4068823एक्स	हवलदार	विनोद सिंह	01.09.2009
1949	4068841ए	हवलदार	यशपाल सिंह एस	01.09.2009
1950	4069050पी	हवलदार	योगम्बर सिंह	01.12.2009

कुर्माँउ रेजीमेन्ट

1951	4180445एल	हवलदार	ए के सिंह यादव	01.12.2009
------	-----------	--------	----------------	------------

1952	4178484एल	हवलदार	आनंद सिंह	01.12.2009
1953	4180268डब्ल्यू	हवलदार	बलवंत सिंह	01.10.2009
1954	4178573के	हवलदार	बलवंत सिंह बिष्ट	01.01.2010
1955	4180542एच	हवलदार	भरत राज यादव	01.01.2010
1956	14701125एम	हवलदार	बी लाल शर्मा	01.10.2009
1957	4178427के	हवलदार	दलीप कुंवर चन्द	01.11.2009
1958	4180405के	हवलदार	धर्म बीर	01.11.2009
1959	4178518एन	हवलदार	दिनेश चन्द दिअप्पा	01.12.2009
1960	14701156एम	हवलदार	दिनेश चंद्रा पाठक	01.10.2009
1961	4180378एल	हवलदार	गगन सिंह	01.11.2009
1962	4180193के	हवलदार	गजेन्द्र सिंह	01.09.2009
1963	4180363एच	हवलदार	गंगा सिंह धामी	01.11.2009
1964	4178361वाइ	हवलदार	गोपाल सिंह	01.09.2009
1965	14701513के	हवलदार	गोपाल सिंह	01.11.2009
1966	4180235एल	हवलदार	हरी ओम सिंह	01.09.2009
1967	4180301एच	हवलदार	हरीश राम कोहली	01.10.2009
1968	4178510एफ	हवलदार	इंद्र सिंह	01.12.2009
1969	4180223डब्ल्यू	हवलदार	जगत सिंह	01.09.2009
1970	4180506एक्स	हवलदार	जगदीश सिंह	01.12.2009
1971	4178538एफ	हवलदार	केदार सिंह	01.12.2009
1972	4180226के	हवलदार	केवल सिंह	01.09.2009
1973	4180489एच	हवलदार	खुशाल सिंह कन्याल	01.12.2009
1974	4180338के	हवलदार	कुमार पाल सिंह	01.10.2009
1975	4178290एच	हवलदार	कुंदन सिंह	01.09.2009
1976	4180390एम	हवलदार	कुंवर सिंह	01.11.2009
1977	4178261एन	हवलदार	लाल बहादुर	01.09.2009
1978	4180326पी	हवलदार	मदन मोहन	01.10.2009
1979	4180265एच	हवलदार	मोहन लाल	01.10.2009
1980	14701169के	हवलदार	एन राम	01.11.2009
1981	4180525एच	हवलदार	ओमवीर सिंह यादव	01.12.2009
1982	4180393ए	हवलदार	पदम सिंह	01.11.2009
1983	14701648एल	हवलदार	प्रमोद कुमार	01.01.2010
1984	4178415पी	हवलदार	प्रेम चन्द	01.10.2009
1985	4178503एल	हवलदार	प्रेम सिंह	01.12.2009
1986	4178534एल	हवलदार	पी सिंह सामंत	01.12.2009
1987	4180426ए	हवलदार	राज कुमार	01.11.2009
1988	4180348एन	हवलदार	राजेंद्र सिंह	01.11.2009
1989	4180431एल	हवलदार	राम एस यादव	01.11.2009
1990	4180460ए	हवलदार	रामबीर सिंह	01.12.2009
1991	4180529वाइ	हवलदार	आर सिंह	01.12.2009
1992	4180472पी	हवलदार	रुकम सिंह	01.12.2009

1993	4180537एक्स	हवलदार	शेर सिंह एम	01.01.2010
1994	4178473वाइ	हवलदार	श्याम दत्त भट्ट	01.12.2009
1995	4180543एल	हवलदार	सयो चन्द यादव	01.01.2010
1996	14701251वाइ	हवलदार	सुरेश सिंह	01.11.2009
1997	4180174वाइ	हवलदार	उदय बीर सिंह	01.09.2009
1998	4180294एक्स	हवलदार	वीरेंद्र सिंह यादव	01.10.2009
आसाम रेजीमेन्ट				
1999	4426635एच	हवलदार	अब्दुल रशीद	01.12.2009
2000	4356699एन	हवलदार	बहादुर सिंह	01.10.2009
2001	8031572ए	हवलदार	बानिक मारक	01.09.2009
2002	4356612एफ	हवलदार	डेविड एस	01.09.2009
2003	4426691एफ	हवलदार	हीरालाल आरईई	01.10.2009
2004	4357116एम	हवलदार	जनार्दन प्रसाद	01.12.2009
2005	4426700एक्स	हवलदार	जय नाथ राम	01.12.2009
2006	4356883वाइ	हवलदार	जे सिन्हा	01.11.2009
2007	10244743के	हवलदार	कला सिंह	01.01.2010
2008	4357074एल	हवलदार	एल तगसुमा	01.11.2009
2009	4358330एफ	हवलदार	लाल बहादुर चेट्टरी	01.10.2009
2010	4357151पी	हवलदार	लालसामलिना	01.12.2009
2011	4356568एच	हवलदार	एम लोथा	01.09.2009
2012	2880926एक्स	हवलदार	मोहम्मद एम	01.01.2010
2013	4357411पी	हवलदार	पी राज बराल	01.01.2010
2014	4356650एक्स	हवलदार	रंजीत कलिई	01.09.2009
2015	4426706वाइ	हवलदार	ऋषि पाल	01.01.2010
2016	4357196पी	हवलदार	एस कुकी	01.01.2010
2017	4426629पी	हवलदार	एस बैठा	01.11.2009
2018	4357364एच	हवलदार	था एस के लमकंग	01.01.2010
2019	4356525एन	हवलदार	तियानमिनताग	01.09.2009
बिहार रेजीमेन्ट				
2020	4263357एन	हवलदार	अखाया कुमार बारिक	01.01.2010
2021	4262888वाइ	हवलदार	आनंद कुमार	01.10.2009
2022	8031507ए	हवलदार	अनिल कुमार राय	01.09.2009
2023	4263526के	हवलदार	अर्जुन साह	01.01.2010
2024	4263492एफ	हवलदार	अर्जुन साह	01.01.2010
2025	4262738एच	हवलदार	अर्विन्द प्रसाद	01.10.2009
2026	4262987एफ	हवलदार	अशोक कुमार	01.11.2009
2027	4263279एफ	हवलदार	अवधेश प्रसाद	01.12.2009
2028	4263024एफ	हवलदार	बंसीधर पंडा	01.11.2009
2029	4263512के	हवलदार	बिमल कुमार सिंह	01.01.2010

2030	4264037एल	हवलदार	बिनय कुमार सिंह	01.12.2009
2031	4263481पी	हवलदार	बिरेन्द्रा पांडे	01.01.2010
2032	4263177एल	हवलदार	चाउध्री सिंह	01.11.2009
2033	4262743एन	हवलदार	छेहत्तू राम	01.10.2009
2034	4263475एफ	हवलदार	गुप्तेस्वर सिंह	01.01.2010
2035	4262771ए	हवलदार	हरेन्द्र यादव	01.10.2009
2036	8031496वाइ	हवलदार	हरी किशोर प्रसाद सिंह	01.09.2009
2037	8031432एन	हवलदार	हरिद्वार शर्मा शर्मा	01.09.2009
2038	4263361डब्ल्यू	हवलदार	जय कुमार राम	01.11.2009
2039	4263330डब्ल्यू	हवलदार	झुलान यादव	01.12.2009
2040	4265590ए	हवलदार	के साहू	01.01.2010
2041	4263152वाइ	हवलदार	कामेश्वर सिंह	01.12.2009
2042	4263428के	हवलदार	लाल बाबू राम	01.12.2009
2043	4263520एच	हवलदार	लक्ष्मण राम	01.01.2010
2044	4263207एक्स	हवलदार	लक्ष्मी प्रसाद यादव	01.10.2009
2045	8031489एच	हवलदार	महेंद्र कुमार मुदली	01.09.2009
2046	8031789के	हवलदार	एम धर्मा राव	01.01.2010
2047	4263457वाइ	हवलदार	एम शर्मा	01.01.2010
2048	4262756एल	हवलदार	मोरिस बसंत मिंज	01.10.2009
2049	4263135वाइ	हवलदार	मुनि लाल चौधरी	01.11.2009
2050	4262760एन	हवलदार	प्रभाश चंद्रा	01.10.2009
2051	4265550वाइ	हवलदार	राघव दास	01.12.2009
2052	4262608ए	हवलदार	राज मंगल सिंह	01.09.2009
2053	4265560एच	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद सिंह	01.10.2009
2054	4262796एम	हवलदार	राकेश कुमार राना	01.10.2009
2055	4263739एक्स	हवलदार	राकेश यादव	01.01.2010
2056	4263427एफ	हवलदार	राम दास रविदास	01.12.2009
2057	4263393वाइ	हवलदार	राम इश्वर सिंह	01.11.2009
2058	4263034एल	हवलदार	साधु शरण प्रसाद	01.11.2009
2059	4265578वाइ	हवलदार	शंकर बारेक	01.12.2009
2060	4263734वाइ	हवलदार	शिव शंकर राय	01.01.2010
2061	4263518एल	हवलदार	श्याम नाथ यादव	01.01.2010
2062	4263391एन	हवलदार	सुदर्शन सिंह	01.11.2009
2063	4263169एम	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार सिंह	01.11.2009
2064	4263478पी	हवलदार	सुरेश राय	01.01.2010
2065	4263374एन	हवलदार	टैलेसफोर बेक	01.12.2009
महार रेजीमेन्ट				
2066	13965491एल	हवलदार	अनोखे लाल	01.12.2009
2067	4558152एन	हवलदार	बी राज	01.11.2009
2068	4558078एक्स	हवलदार	भास्कर गायकवाड	01.10.2009

2069	8031475एच	हवलदार	भोपाल सिंह	01.09.2009
2070	4558144पी	हवलदार	बी प्रहलाद गणपति	01.10.2009
2071	4558169एफ	हवलदार	दुर्गा सिंह	01.11.2009
2072	8031504एम	हवलदार	गिरीश चन्द तिवारी	01.09.2009
2073	8031473एक्स	हवलदार	जगत सिंह	01.09.2009
2074	4558177ए	हवलदार	एम डी. के अली	01.11.2009
2075	4558149एन	हवलदार	पवार विजय राम चंद्रा	01.11.2009
2076	4555052एक्स	हवलदार	प्रहलाद चंद्रा प्रधान	01.11.2009
2077	8031619ए	हवलदार	सैन सिंह	01.10.2009
2078	4558546एम	हवलदार	सीलम नागेस्वर रेडी	01.10.2009
2079	4558211पी	हवलदार	शेख शेफी ममद एस भाई	01.12.2009
2080	4558214एच	हवलदार	शिव ठाकुर	01.01.2010
2081	4554766वाइ	हवलदार	सुदाम शिवराम एन	01.09.2009
2082	4558173के	हवलदार	सुरेंद्र प्रसाद सिंह	01.11.2009

जम्मू एवं कश्मीर राईफल्स

2083	13750864एम	हवलदार	अमर बहादुर सुनार	01.09.2009
2084	13748628एम	हवलदार	अर्जन सिंह	01.11.2009
2085	13748705डब्ल्यू	हवलदार	बाल बीर सिंह	01.11.2009
2086	13750804एक्स	हवलदार	बिक्रम सिंह	01.09.2009
2087	13750835एक्स	हवलदार	दर्शन कुमार	01.09.2009
2088	13750836पी	हवलदार	दर्शन सिंह	01.09.2009
2089	13750986डब्ल्यू	हवलदार	धनी राम	01.01.2010
2090	13748569एल	हवलदार	जग मोहन	01.11.2009
2091	13750816एम	हवलदार	जगजीत सिंह	01.09.2009
2092	13748622एल	हवलदार	जसवंत सिंह	01.11.2009
2093	13748696ए	हवलदार	जीत सिंह	01.11.2009
2094	13750966एच	हवलदार	कमल तमंग	01.11.2009
2095	13750906एन	हवलदार	केदार नाथ अधिकारी	01.10.2009
2096	13748794ए	हवलदार	केवल कुमार	01.12.2009
2097	13750868एच	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.09.2009
2098	13750847एम	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.09.2009
2099	13748611वाइ	हवलदार	परमजीत सिंह	01.11.2009
2100	13749055ए	हवलदार	प्रदीप प्रधान	01.12.2009
2101	13748929डब्ल्यू	हवलदार	प्रिथी चन्द	01.12.2009
2102	13749100एफ	हवलदार	राम चन्द	01.01.2010
2103	13750817पी	हवलदार	राम प्रसाद छत्री	01.09.2009
2104	13748986एक्स	हवलदार	रमेश चंद्र	01.12.2009
2105	13749162एफ	हवलदार	रमेश सिंह	01.01.2010
2106	13748509डब्ल्यू	हवलदार	रोमेश चंद्र	01.09.2009
2107	13750946पी	हवलदार	एस कुमार	01.10.2009

2108	13750949एच	हवलदार	श्री प्रसाद गुरंग	01.10.2009
2109	13751246एन	हवलदार	श्याम नारायण राम	01.11.2009
2110	13750938डब्ल्यू	हवलदार	एस कुमार बसनत	01.10.2009
2111	13750932पी	हवलदार	सोहन सिंह	01.10.2009
2112	13750869एल	हवलदार	सुरजीत सिंह	01.09.2009
2113	13750858वाइ	हवलदार	तारा सिंह	01.09.2009

लध्दाख स्काउट

2114	9923385वाइ	हवलदार	छेरिंग अंगचौक	01.10.2009
2115	9923401एल	हवलदार	लोबजंग रिनचेन	01.11.2009
2116	9923390के	हवलदार	मुरुप दोर्जे	01.10.2009
2117	9923398डब्ल्यू	हवलदार	फुनचोक नमगौल	01.10.2009
2118	9923394ए	हवलदार	ताशी सेरिंग	01.10.2009
2119	9923375पी	हवलदार	टी ज़ेड	01.09.2009
2120	9923411पी	हवलदार	टुनदुप वंगेल	01.11.2009

नागा रेजीमेन्ट

2121	14702083एक्स	हवलदार	आन्दकुमार एन	01.09.2009
2122	14701172के	दफादार	बलबीर सिंह	01.11.2009
2123	14701368एक्स	दफादार	सी वाइ	01.11.2009
2124	14701236के	हवलदार	दरवान सिंह	01.11.2009
2125	14701217वाइ	दफादार	गंगा सिंह	01.11.2009
2126	14701340एक्स	दफादार	आइ एम आइ मनेन	01.11.2009
2127	14701120एन	दफादार	कालू राम	01.10.2009
2128	14701253के	हवलदार	मदन सिंह	01.12.2009
2129	14702128एम	दफादार	महेंद्र दत्त	01.01.2010
2130	14701544के	दफादार	नारायण सिंह शाही	01.11.2009
2131	14701622डब्ल्यू	दफादार	एस डब्ल्यू आर	01.01.2010
2132	14702122एल	दफादार	विनोद कुमार	01.01.2010

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल

2133	9085568एफ	हवलदार	ए जेओओ	01.09.2009
2134	9085720के	हवलदार	भाग हुसैन	01.12.2009
2135	9085619के	हवलदार	हसैन दीन	01.10.2009
2136	9085584वाइ	हवलदार	कृष्णा प्रसाद शर्मा	01.09.2009
2137	1473607वाइ	हवलदार	लेख राज	01.01.2010
2138	9085727एन	हवलदार	मोहम्मद दीन	01.12.2009
2139	9085528ए	हवलदार	मोहम्मद हुसैन	01.09.2009
2140	9085607पी	हवलदार	फूल कुमार	01.10.2009
2141	9088018के	हवलदार	राम अवतार	01.11.2009
2142	9085630एच	हवलदार	तालिब हुसैन	01.10.2009

1 गोरखा राईफल्स

2143	5043826डब्ल्यू	हवलदार	बीरपाल बाल्मीकि	01.12.2009
2144	5043407वाइ	हवलदार	सी लाल मंडल	01.01.2010
2145	5043264के	हवलदार	धर्म देव	01.12.2009
2146	5043808एन	हवलदार	दिल बहादुर थापा	01.11.2009
2147	5043823एच	हवलदार	काशी राम थापा	01.12.2009
2148	5043270एक्स	हवलदार	पूर्णा बहादुर थापा	01.12.2009
2149	5043803पी	हवलदार	याम बहादुर पुन	01.11.2009

3 गोरखा राईफल्स

2150	5245347एक्स	हवलदार	अजय गुरंग	01.01.2010
2151	5245358के	हवलदार	विद्या धर बिस्वाल	01.10.2009
2152	5244946एल	हवलदार	गोविंद स्वरूप	01.11.2009
2153	5245348ए	हवलदार	गुरु प्रसाद सिंगजाली	01.01.2010
2154	5244929एल	हवलदार	झाल बहादुर थापा	01.09.2009
2155	5245041पी	हवलदार	काशी राम थापा	01.01.2010
2156	5245344के	हवलदार	लाल बहादुर पुन	01.01.2010
2157	5245341डब्ल्यू	हवलदार	लक्ष्मी बहादुर थापा	01.01.2010
2158	5244944ए	हवलदार	रुद्रा मल्ला	01.10.2009

4 गोरखा राईफल्स

2159	5345202एफ	हवलदार	बालक राम	01.10.2009
2160	5345733वाइ	हवलदार	बी टावित्तया	01.12.2009
2161	5345691एक्स	हवलदार	गोबरधन राना	01.09.2009
2162	5345730एल	हवलदार	जे बहादुर थापा	01.01.2010
2163	5345167के	हवलदार	कश्मीर थापा	01.09.2009
2164	5345244एन	हवलदार	कृष्णा बहादुर गुरंग	01.11.2009
2165	5345229वाइ	हवलदार	एम डी. कासिम	01.12.2009
2166	5345703एफ	हवलदार	पूरन सिंह	01.10.2009
2167	5345205पी	हवलदार	राम बरन	01.11.2009
2168	5345164डब्ल्यू	हवलदार	राम किशन	01.09.2009
2169	5345195डब्ल्यू	हवलदार	सोकत अली	01.10.2009
2170	5345294वाइ	हवलदार	श्याम कुमार	01.01.2010

5 गोरखा राईफल्स

2171	5450037ए	हवलदार	बिरेन्द्रा कुमार	01.10.2009
2172	5450008एल	हवलदार	देवेन्द्र बहादुर गुरंग	01.10.2009
2173	5450007एच	हवलदार	दिल बहादुर गुरंग	01.10.2009
2174	5450013डब्ल्यू	हवलदार	दुर्गा बहादुर थापा	01.11.2009
2175	5450081के	हवलदार	गुमान सिंह पुन	01.01.2010

2176	5450004पी	हवलदार	होता बहादुर थापा	01.10.2009
2177	5450017एम	हवलदार	हुम बहादुर राना	01.11.2009
2178	5449986ए	हवलदार	केदार सिंह	01.10.2009
2179	5450204एल	हवलदार	ललित बहादुर थापा	01.01.2010
2180	5450030डब्ल्यू	हवलदार	लक्ष्मन थापा	01.11.2009
2181	5449992एन	हवलदार	मान बहादुर गुरंग	01.10.2009
2182	5450077एफ	हवलदार	मिन बहादुर थापा मगर	01.01.2010
2183	5450203एच	हवलदार	नारा बहादुर थापा	01.01.2010
2184	5450086एच	हवलदार	ओम राज श्रेष्ठा	01.01.2010
2185	5450054ए	हवलदार	राम बहादुर गुरंग	01.10.2009
2186	5450045ए	हवलदार	राम बहादुर थापा	01.10.2009
2187	5449610वाइ	हवलदार	राम प्रसाद	01.12.2009
2188	5449611एफ	हवलदार	सम्भू साह	01.01.2010
2189	5450078के	हवलदार	शेर बहादुर राना	01.01.2010
2190	5449557वाइ	हवलदार	टेक बहादुर सुनार	01.10.2009
2191	5450071ए	हवलदार	थर्का बहादुर थापा	01.12.2009
2192	5449993डब्ल्यू	हवलदार	वीईएस बहादुर थापा	01.10.2009

8 गोरखा राईफल्स

2193	5751256एम	हवलदार	बुध्दू प्रसाद तिवारी	01.11.2009
2194	5751296एन	हवलदार	चन्द्र बहादुर गुरंग	01.12.2009
2195	5751285एफ	हवलदार	दल बहादुर थापा	01.10.2009
2196	5751254एफ	हवलदार	देव बहादुर बराल	01.10.2009
2197	5751381डब्ल्यू	हवलदार	धन बहादुर थापा	01.01.2010
2198	5751280एच	हवलदार	हेम बहादुर थापा	01.10.2009
2199	5751252डब्ल्यू	हवलदार	होम बहादुर पुन मगर	01.10.2009
2200	5751385एम	हवलदार	जीत बहादुर थापा	01.01.2010
2201	5751318एफ	हवलदार	कमल प्रसाद बुराथोकी	01.01.2010
2202	5751315एन	हवलदार	कुल बहादुर गुरंग	01.01.2010
2203	5751407ए	हवलदार	कुल बहादुर थापा	01.01.2010
2204	5751247एल	हवलदार	मेख बहादुर गुरंग	01.10.2009
2205	5751233एल	हवलदार	नरेश कुमार	01.10.2009
2206	5750832वाइ	हवलदार	राजेंद्र प्रसाद	01.11.2009
2207	5751396वाइ	हवलदार	आरयूके बहादुर थापा छत्री	01.01.2010
2208	5751269के	हवलदार	सांता बहादुर गुरंग	01.11.2009
2209	5750900एफ	हवलदार	एस रौय	01.12.2009
2210	5750912डब्ल्यू	हवलदार	याम बहादुर थापा	01.01.2010

9 गोरखा राईफल्स

2211	5845632एन	हवलदार	भद्रा बहादुर सी	01.01.2010
2212	5845654एम	हवलदार	दिल बहादुर नेपाली	01.01.2010

2213	5845552एन	हवलदार	रघुवीर सिंह	01.10.2009
2214	5845609ए	हवलदार	राज पाल	01.12.2009
2215	5846255पी	हवलदार	तारा विक्रम सेन	01.01.2010
11 गोरखा राईफल्स				
2216	9417892एन	हवलदार	भीम बहादुर प्रधान	01.11.2009
2217	9418501के	हवलदार	चंद्रा भक्ता राय	01.11.2009
2218	9418543डब्ल्यू	हवलदार	देव कुमार राय	01.01.2010
2219	9418493डब्ल्यू	हवलदार	दिनेश सिंह	01.11.2009
2220	9418498पी	हवलदार	गीर बहादुर टी	01.11.2009
2221	9417933एम	हवलदार	ज्ञान बहादुर राय	01.01.2010
2222	9417914एफ	हवलदार	जगदीश चंद्रा	01.12.2009
2223	9418534पी	हवलदार	नैन बहादुर प्रधान	01.11.2009
2224	9418495एफ	हवलदार	पी लामा	01.11.2009
2225	9417894वाइ	हवलदार	राज कुमार	01.11.2009
2226	9418494वाइ	हवलदार	सुख देव शर्मा	01.09.2009
2227	9418483एम	हवलदार	सुरेंद्र	01.10.2009
2228	9418492एन	हवलदार	सुरेन्द्रा पासवान	01.10.2009
2229	9418527वाइ	हवलदार	विजया कुमारन पी	01.12.2009
सेना सेवा कोर दक्षिण				
2230	6379187ए	हवलदार	ए वलेयुथम	01.09.2009
2231	13897035वाइ	हवलदार	अदम चंद्रा दास	01.12.2009
2232	13894071वाइ	हवलदार	अमर सिंह	01.01.2010
2233	6379520एन	हवलदार	अनूप कुमार मुरमु	01.12.2009
2234	13891078एक्स	हवलदार	ए नाथ	01.11.2009
2235	6381268वाइ	हवलदार	अरुण कुमार चौधुरी	31.10.2009
2236	6379251एम	हवलदार	आशा राम	01.10.2009
2237	13891501एम	हवलदार	अशोक कुमार प्रधान	01.01.2010
2238	13890844डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार शर्मा	01.09.2009
2239	6381172डब्ल्यू	हवलदार	अशोकन पी वी	01.10.2009
2240	13887774एक्स	हवलदार	बाबूलाल	01.12.2009
2241	13891606डब्ल्यू	हवलदार	बेबी सी	01.01.2010
2242	13887186के	हवलदार	बहादुर सिंह	01.12.2009
2243	6381167एल	हवलदार	बलजीत सिंह के	01.10.2009
2244	6379292डब्ल्यू	हवलदार	बी राम	01.11.2009
2245	6379388वाइ	हवलदार	बल्लभ दास	01.11.2009
2246	13891299के	हवलदार	भगवान सिंह	01.11.2009
2247	6379622के	हवलदार	बिजेन्द्र सिंह	01.01.2010
2248	13887125एम	हवलदार	बिकाश रंजन सिकदर	01.09.2009
2249	13887983पी	हवलदार	बीरपाल सिंह	01.01.2010

2250	13895852वाइ	हवलदार	ब्रज मोहन बारी	01.09.2009
2251	6379233के	हवलदार	बृज भान	01.10.2009
2252	13891361एल	हवलदार	बृज मोहन	01.12.2009
2253	13891391एच	हवलदार	ब्यास देव सिंह	01.12.2009
2254	13887712एक्स	हवलदार	सी आनन्दन	01.12.2009
2255	6379510के	हवलदार	चको एम जे	01.12.2009
2256	6379516एल	हवलदार	चंद्रमा राम	01.12.2009
2257	13887534ए	हवलदार	दादन भारती	01.12.2009
2258	6380766वाइ	हवलदार	दादन प्रसाद	01.10.2009
2259	6379188एच	हवलदार	धन सिंह गुरंग	01.09.2009
2260	6379190ए	हवलदार	दीना नाथ राम	01.09.2009
2261	13894151डब्ल्यू	हवलदार	दिनेश उपाध्याय	01.01.2010
2262	13887499एच	हवलदार	डॉक्टर सिंह कुशवाहा	01.12.2009
2263	6379486एल	हवलदार	ई हुसैन	01.12.2009
2264	13887069वाइ	हवलदार	जी. सवारी राज	01.09.2009
2265	13891204वाइ	हवलदार	गिरिधर देवरी	01.11.2009
2266	6379646एन	हवलदार	गोपाल	01.01.2010
2267	13887442एन	हवलदार	गोविंद	01.11.2009
2268	6379227डब्ल्यू	हवलदार	गुलाब राम	01.10.2009
2269	13891371पी	हवलदार	हंस नाथ ठाकुर	01.12.2009
2270	13890880एफ	हवलदार	हंस राज यादव	01.09.2009
2271	6379607पी	हवलदार	हरिकेश प्रसाद	01.01.2010
2272	6379334एक्स	हवलदार	हरीश चंद्रा पाठक	01.11.2009
2273	6379649एफ	हवलदार	हिरे महतो	01.01.2010
2274	13894022डब्ल्यू	हवलदार	इंद्र सिंह	01.12.2009
2275	13894039के	हवलदार	इन्द्रजीत पांडे	01.01.2010
2276	13894159एच	हवलदार	जग मोहन सिंह भंडारी	01.01.2010
2277	13894054वाइ	हवलदार	जगन्ध प्रसाद	01.01.2010
2278	6381292पी	हवलदार	जगजीवन सिंह बिस्ट	01.11.2009
2279	13887354एक्स	हवलदार	जय किशन	01.11.2009
2280	6379430एम	हवलदार	जलालुदीन एम	01.12.2009
2281	6472868पी	हवलदार	जवाहर लाल सिंह	01.11.2009
2282	13887150एल	हवलदार	जय प्रकाश तिवारी	01.10.2009
2283	6381282एल	हवलदार	जया प्रकाश टी एस	01.11.2009
2284	6472783वाइ	हवलदार	काली चरण	01.10.2009
2285	13891378वाइ	हवलदार	कन्हैया लाल यादव	01.12.2009
2286	13891429एफ	हवलदार	कपिल देव राय	01.12.2009
2287	13894016एच	हवलदार	कन्नपाल	01.12.2009
2288	13891476ए	हवलदार	के राम	01.01.2010
2289	13891301डब्ल्यू	हवलदार	केशव प्रसाद	01.11.2009
2290	6379194डब्ल्यू	हवलदार	कीर्ती रंजन रौय	01.09.2009

2291	6380433एम	हवलदार	कोली मधुकर आनंदा	01.11.2009
2292	6379269एच	हवलदार	के राम	01.10.2009
2293	6379264के	हवलदार	कृष्णा गोपाल	01.10.2009
2294	13887377वाइ	हवलदार	के नायक	01.11.2009
2295	6379537एफ	हवलदार	कुलदीप सिंह	01.01.2010
2296	13897978एक्स	हवलदार	कुमार लाल	01.11.2009
2297	6379514ए	हवलदार	कुमार पवार मधुकर सोपान	01.12.2009
2298	13887608के	हवलदार	लाल बाबू ठाकुर	01.11.2009
2299	13891242पी	हवलदार	लाल बिहारी राम	01.12.2009
2300	13887724एम	हवलदार	लाल चन्द	01.12.2009
2301	6379330एफ	हवलदार	ललता प्रसाद	01.11.2009
2302	13887441एल	हवलदार	लक्ष्मन सिंह	01.11.2009
2303	6379557पी	हवलदार	लक्ष्मन पात्रा	01.01.2010
2304	13887121डब्ल्यू	हवलदार	एम एस गिरि	01.09.2009
2305	6381257एम	हवलदार	मधु सूदन भुनिया	01.11.2009
2306	13891145एक्स	हवलदार	महावीर सिंह	01.11.2009
2307	13894360एन	हवलदार	महेश चंद्रा	01.01.2010
2308	13891103एल	हवलदार	महेश कुमार बघेल	01.11.2009
2309	6379602डब्ल्यू	हवलदार	महेश्वर बेहेरा	01.01.2010
2310	13887275एच	हवलदार	माखन सिंह	01.11.2009
2311	13890842एल	हवलदार	मान पाल	01.09.2009
2312	6379496एच	हवलदार	एम एलए सी	01.12.2009
2313	13890914के	हवलदार	मंसा उपाध्याय	01.10.2009
2314	13894408डब्ल्यू	हवलदार	माथुर ठाकुर	01.10.2009
2315	6379363एम	हवलदार	मोहन सिंह	01.11.2009
2316	13891293एच	हवलदार	मोती राम	01.11.2009
2317	13887897के	हवलदार	मुरलीधरन पी	01.01.2010
2318	6379599एफ	हवलदार	मुरलीधर भलिक	01.01.2010
2319	13891543वाइ	हवलदार	नकुल बर्मन	01.12.2009
2320	6379636के	हवलदार	नन्द किशोर सिंह	01.12.2009
2321	13887636डब्ल्यू	हवलदार	नरेन्द्रा एन बोरो	01.12.2009
2322	13895923पी	हवलदार	परिमल प्रधान	01.01.2010
2323	13890803एम	हवलदार	पी सिंह	01.09.2009
2324	6379208एल	हवलदार	पोपट कुंडलिक गस्ते	01.09.2009
2325	6379333पी	हवलदार	प्रताप सिंह	01.11.2009
2326	13890997ए	हवलदार	प्रेम प्रकाश मौर्या	01.11.2009
2327	13890856एल	हवलदार	पूर्णा बहादुर पी	01.10.2009
2328	6381160एफ	हवलदार	राबिन तालुकदार	01.10.2009
2329	6379250के	हवलदार	रबीन्द्र कुमार साहू	01.10.2009
2330	13891730एक्स	हवलदार	रबीन्द्र सिंह	01.12.2009
2331	13897937एन	हवलदार	राधा कृष्णन पी कंदु	01.09.2009

2332	13887648एल	हवलदार	राज पाल सिंह	01.12.2009
2333	13887799के	हवलदार	राजीव कुमार मिश्रा	01.12.2009
2334	6381392ए	हवलदार	राजेंद्रा सिंह	01.01.2010
2335	6379590एम	हवलदार	राजिन्दर प्रसाद	01.01.2010
2336	13890893वाइ	हवलदार	आर यादव	01.10.2009
2337	13894374एन	हवलदार	राकेश बाबू	01.01.2010
2338	6379616डब्ल्यू	हवलदार	राम आशीश शर्मा	01.01.2010
2339	13891113पी	हवलदार	राम बिनोद ठाकुर	01.11.2009
2340	13887951एम	हवलदार	राम धारी	01.12.2009
2341	6379465एच	हवलदार	राम प्रकाश	01.12.2009
2342	6379539एम	हवलदार	रमन कुमार सिंह	01.01.2010
2343	13891294एल	हवलदार	आर सिंह	01.11.2009
2344	13887546पी	हवलदार	रामेश्वर सिंह	01.12.2009
2345	13891381वाइ	हवलदार	रामजी सिंह	01.12.2009
2346	6476564के	हवलदार	रति राम यादव	01.09.2009
2347	6379530एक्स	हवलदार	रवीन्द्र नाथ राम	01.12.2009
2348	8031555ए	हवलदार	एस सचि घोष	01.09.2009
2349	13887320के	हवलदार	साधु राम	01.10.2009
2350	6381319एफ	हवलदार	सैलेन गोगोई	01.12.2009
2351	6379464ए	हवलदार	सालिग राम	01.12.2009
2352	6472810एक्स	हवलदार	संजय कुमार	01.11.2009
2353	13891835एफ	हवलदार	संतोष कुमार	01.01.2010
2354	13894035एन	हवलदार	सशीनधरन के	01.01.2010
2355	13891308ए	हवलदार	शहीद अली	01.11.2009
2356	6472675पी	हवलदार	शैलेंद्र सिंह	01.10.2009
2357	13891700ए	हवलदार	शाजी सी एस	01.12.2009
2358	6379351एक्स	हवलदार	शेर सिंह धानक	01.11.2009
2359	6379441वाइ	हवलदार	शिव चंद्रा पण्डित	01.12.2009
2360	13887536एल	हवलदार	शिव जनम सिंह	01.12.2009
2361	13887410एल	हवलदार	शिव सागर	01.11.2009
2362	13891115ए	हवलदार	शिव शंकर साह	01.11.2009
2363	6379652एफ	हवलदार	शिवाजी बापू राव गुट्टी	01.01.2010
2364	13887414एफ	हवलदार	श्रीधर केआर मिश्रा	01.11.2009
2365	13891807पी	हवलदार	श्री केना राम पान	01.01.2010
2366	6379593ए	हवलदार	सुभाष चन्द	01.01.2010
2367	6379494एक्स	हवलदार	सुजान सिंह	01.12.2009
2368	13887398पी	हवलदार	सुमेंद्र सिंह	01.11.2009
2369	13890828वाइ	हवलदार	एस कुमार	01.09.2009
2370	6379582एन	हवलदार	सुरजीत राय तालुकदार	01.01.2010
2371	13887540एन	हवलदार	सुरेंद्र कुमार सिंह	01.12.2009
2372	6472718वाइ	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.10.2009

2373	6381337के	हवलदार	सुरेश	01.12.2009
2374	13887405ए	हवलदार	सुरेश बाबू	01.11.2009
2375	13891884के	हवलदार	सुरेश बाबू के	01.01.2010
2376	6379275डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश चंद्र	01.10.2009
2377	6381310एम	हवलदार	स्वन्त नामदेव जी.	01.12.2009
2378	6379271ए	हवलदार	थान सिंह	01.10.2009
2379	13891137वाइ	हवलदार	टी राम	01.11.2009
2380	6379490एफ	हवलदार	उद्यब च. के	01.12.2009
2381	6379521डब्ल्यू	हवलदार	उमा कांत बारिक	01.12.2009
2382	6472731एच	हवलदार	वसंत यादव वानखेडे	01.10.2009
2383	6379541के	हवलदार	वर्मा सिंह	01.01.2010
2384	13894110एम	हवलदार	विन्धयाचल सिंह	01.01.2010
2385	6379217एम	हवलदार	विरेन्द्र कुमार	01.10.2009
2386	6379201एफ	हवलदार	विश्वा नाथ राम	01.09.2009
2387	6379242एल	हवलदार	वरिशफान	01.10.2009
2388	6379492एम	हवलदार	वकील दास	01.12.2009
2389	13891502पी	हवलदार	वाइ नीलाद्री	01.01.2010
2390	13895313एच	हवलदार	युगल किशोर पासवान	01.10.2009

सेना सेवा कोर जन्तु परिवहन

2391	6472857एच	हवलदार	अखिलेश्वर तिवारी	01.11.2009
2392	6472874एच	हवलदार	आनंदा मोहन कर्माकर	01.12.2009
2393	6472727ए	हवलदार	आनंदा साहा	01.10.2009
2394	6472928वाइ	हवलदार	अशोक कुमार	01.12.2009
2395	6476008वाइ	हवलदार	अशोक कुमार एन	01.01.2010
2396	6472945वाइ	हवलदार	बदारी गुप्ता	01.01.2010
2397	6472785के	हवलदार	बैज नाथ	01.10.2009
2398	6476986ए	हवलदार	बाला कृष्णन टी	01.12.2009
2399	6476934के	हवलदार	बलजीत सिंह	01.11.2009
2400	6472979एम	हवलदार	भागीरथी	01.12.2009
2401	6379751के	हवलदार	बिजया कुमार सेठी	01.01.2010
2402	6472689पी	हवलदार	बिरेन्द्र सिंह	01.09.2009
2403	6472761ए	हवलदार	वृज किशोर प्रसाद	01.11.2009
2404	6476993डब्ल्यू	हवलदार	सी आर आर रेडी	01.01.2010
2405	6472848एफ	हवलदार	चंचल सिंह डी.	01.12.2009
2406	6472643एम	हवलदार	दया शंकर	01.09.2009
2407	6472859एन	हवलदार	देवी कुमार सिंह	01.11.2009
2408	6472836एम	हवलदार	डियु नाथ राम	01.12.2009
2409	6476064एक्स	हवलदार	दीनबंधु साहू	01.01.2010
2410	6472828एन	हवलदार	गोबिंदा चंद्रा जैना	01.11.2009
2411	6472795एन	हवलदार	जगत सिंह	01.11.2009

2412	6472687के	हवलदार	जय शंकर ओझा	01.09.2009
2413	6476898के	हवलदार	जय सिंह	01.09.2009
2414	6472970एक्स	हवलदार	के रमा चंद्रन	01.01.2010
2415	6476013के	हवलदार	कन्हैया लाल सोनी	01.01.2010
2416	6472786एम	हवलदार	कासी राम	01.10.2009
2417	6472882एफ	हवलदार	किशन लाल	01.12.2009
2418	6476895डब्ल्यू	हवलदार	एम डी. दिलदार शेख	01.09.2009
2419	6472904पी	हवलदार	एम डी. एफ अली	01.12.2009
2420	6379587एम	हवलदार	एम एन एस	01.01.2010
2421	6472942एल	हवलदार	महादेव कुमार यादव	01.01.2010
2422	6472837पी	हवलदार	महिंद्र राम	01.11.2009
2423	6472974एन	हवलदार	मोहम्मद जे खान	01.01.2010
2424	6472995के	हवलदार	मुन्ना राम	01.01.2010
2425	6472674एम	हवलदार	मुरलीधरन नायर बी	01.10.2009
2426	6472697एन	हवलदार	नन्द लाल सिंह	01.10.2009
2427	6476912एल	हवलदार	प्रमोद च. राभा	01.10.2009
2428	6472846डब्ल्यू	हवलदार	राबिन देबनाथ	01.12.2009
2429	6482021वाइ	हवलदार	राधा कृष्णा कुरुप बी	01.01.2010
2430	6472766वाइ	हवलदार	राम विशाल भगत	01.11.2009
2431	6379311डब्ल्यू	हवलदार	राम नरेश सिंह	01.11.2009
2432	6472897के	हवलदार	आर मोहन रेडी	01.12.2009
2433	6379384एच	हवलदार	रुदल सिंह	01.11.2009
2434	6472801डब्ल्यू	हवलदार	रूप सिंह	01.11.2009
2435	6472876एन	हवलदार	एस के डी.	01.12.2009
2436	6472896एफ	हवलदार	सईदालवी के	01.12.2009
2437	6476985एक्स	हवलदार	संतोष कुमार स्वेन	01.12.2009
2438	6472935पी	हवलदार	शशि कुमार टी	01.01.2010
2439	6476011वाइ	हवलदार	शम्भू मिश्रा	01.01.2010
2440	6379658एच	हवलदार	शिवानंद जी. हीरामठ	01.12.2009
2441	6472946एफ	हवलदार	श्री कांत सौ	01.01.2010
2442	6472722एफ	हवलदार	श्याम कुमार	01.10.2009
2443	6472750एन	हवलदार	सीता राम हरिजन	01.10.2009
2444	6472982एम	हवलदार	त्रिनाथ जैना	01.12.2009
2445	6379407वाइ	हवलदार	तुलसी प्रसाद सिंह	01.11.2009
सेना चिकित्सा कोर				
2446	13955566के	हवलदार	ए बी कोली	01.11.2009
2447	13955245एम	हवलदार	ए के मुखर्जी	01.10.2009
2448	13965423एक्स	हवलदार	ए एस लक्ष्मन	01.12.2009
2449	13955990एम	हवलदार	अब्दुल मजीद पी टी	01.12.2009
2450	13955130वाइ	हवलदार	अजय कुमार सिंह	01.10.2009

2451	13960240एक्स	हवलदार	ए राजामान	01.11.2009
2452	13956174एच	हवलदार	अली हुसैन अहमद	01.01.2010
2453	13956238एच	हवलदार	आनंद बल्लभ	01.01.2010
2454	13960239एच	हवलदार	आशीस चक्रवर्ती	01.11.2009
2455	13955247एक्स	हवलदार	अशोक दीवान	01.10.2009
2456	13955124एल	हवलदार	अवधेश प्रताप	01.10.2009
2457	13955423के	हवलदार	बी बी तमंग	01.11.2009
2458	13955181एम	हवलदार	बी एम मारुति	01.10.2009
2459	13955172एल	हवलदार	बात किशन	01.10.2009
2460	13955989एक्स	हवलदार	बालकृष्णान ए	01.12.2009
2461	13955149एक्स	हवलदार	बलवीर	01.10.2009
2462	13956080एल	हवलदार	बलवंत सिंह	01.12.2009
2463	13955254एम	हवलदार	बेनी शंकर ए	01.10.2009
2464	13955797ए	हवलदार	बांका चन्द रौय	01.12.2009
2465	13955392पी	हवलदार	बसावा राज	01.11.2009
2466	13954791एम	हवलदार	बासुदेव	01.09.2009
2467	13955388एम	हवलदार	भानु प्रताप सिंह	01.11.2009
2468	13955861एम	हवलदार	भीमसेन पटेल	01.12.2009
2469	13955049एम	हवलदार	भूप सिंह	01.10.2009
2470	13956230डब्ल्यू	हवलदार	भुवन चंद्रा	01.01.2010
2471	13955836एन	हवलदार	बिहारी सिंह	01.12.2009
2472	13955322डब्ल्यू	हवलदार	बी रौय	01.11.2009
2473	13955603एम	हवलदार	बिरेन्द्र कुमार मिश्रा	01.11.2009
2474	13955556ए	हवलदार	बिरेन्द्र सिंह	01.11.2009
2475	13955956एम	हवलदार	बिरेन्द्रा सिंह	01.12.2009
2476	13955669एच	हवलदार	बिसवा नाथ नंदी	01.11.2009
2477	13955522एम	हवलदार	सी के मिश्रा	01.11.2009
2478	13955525ए	हवलदार	सी पी कीर्तकरमा	01.11.2009
2479	13955817एच	हवलदार	सी पुरुशोत्तमन	01.12.2009
2480	13956048डब्ल्यू	हवलदार	सी एस पूनिया	01.12.2009
2481	13955054एक्स	हवलदार	सी सेल्लादुराई	01.10.2009
2482	13956138एक्स	हवलदार	चंद्रा प्रकाश	01.12.2009
2483	13955004एम	हवलदार	चंद्रन वी वी	01.10.2009
2484	13956468डब्ल्यू	हवलदार	छन्ना बासप्पा जी.	01.01.2010
2485	13955372एफ	हवलदार	सी राम	01.11.2009
2486	13955461ए	हवलदार	डी. सी पाठक	01.11.2009
2487	13956027ए	हवलदार	डी. जनार्दनन	01.12.2009
2488	13955807वाइ	हवलदार	डी. पी महापात्रा	01.12.2009
2489	13964104वाइ	हवलदार	डी. पी तिवारी	01.09.2009
2490	13955432एल	हवलदार	डी. एस आर एस शेखवत	01.11.2009
2491	13955831पी	हवलदार	दादन राम	01.12.2009

2492	13957778एन	हवलदार	दल चन्द सोरोत	01.08.2009
2493	13955975एक्स	हवलदार	दलपत राम बी	01.12.2009
2494	13955472एम	हवलदार	दया किशन तिवारी	01.11.2009
2495	13965041एन	हवलदार	दया राम	01.11.2009
2496	13956239एल	हवलदार	दयाराम आर्य	01.01.2010
2497	13955656एल	हवलदार	देव नारायण सिंह	01.11.2009
2498	13955262एम	हवलदार	देवेन्द्र रजाक	01.10.2009
2499	13955373के	हवलदार	देवी दयाल	01.11.2009
2500	13956429एक्स	हवलदार	धर्मवीर सिंह	01.01.2010
2501	13956165एफ	हवलदार	दिलबाग सिंह	01.01.2010
2502	13955911एम	हवलदार	दिलीप कुमार पौल	01.12.2009
2503	13955894एक्स	हवलदार	दुर्जन सिंह	01.12.2009
2504	13955169एल	हवलदार	अब्राहिम के आइ	01.10.2009
2505	13955762के	हवलदार	गादे गोविंद रामराव	01.11.2009
2506	13955273वाइ	हवलदार	गोलक चंद्रा साहू	01.10.2009
2507	13955991पी	हवलदार	गोपाल कष्णन एस	01.12.2009
2508	13955871डब्ल्यू	हवलदार	गोपीनाथ एन	01.12.2009
2509	13956097वाइ	हवलदार	गुलजार सिंह	01.12.2009
2510	13955939एम	हवलदार	गुरुलिगप्पा	01.12.2009
2511	13956447ए	हवलदार	गुरपाल सिंह	01.01.2010
2512	13955748एक्स	हवलदार	एच विश्वास	01.11.2009
2513	13956013ए	हवलदार	एच जे सिंह	01.12.2009
2514	13964567एन	हवलदार	एच एन मोहंती	01.10.2009
2515	13956469वाइ	हवलदार	हनुमंत एल कुलकर्णी	01.01.2010
2516	13955945ए	हवलदार	हारा गोछयात	01.12.2009
2517	13955587ए	हवलदार	हरी शंकर	01.11.2009
2518	13955545एन	हवलदार	हरिदास एन	01.11.2009
2519	13955822एन	हवलदार	हेमन्त चंद्रा दास	01.12.2009
2520	13956107एक्स	हवलदार	एच लाल	01.12.2009
2521	13956010एम	हवलदार	जे भीमन	01.12.2009
2522	13954905एम	हवलदार	जब्बार खान	01.09.2009
2523	13955832एक्स	हवलदार	जगदीशन के	01.12.2009
2524	13955675डब्ल्यू	हवलदार	जगत राम	01.11.2009
2525	13954747एच	हवलदार	जगदीश	01.09.2009
2526	13955849एल	हवलदार	जगवीर सिंह	01.12.2009
2527	13955347एच	हवलदार	जय चन्द	01.11.2009
2528	13956012एक्स	हवलदार	जय नारायण राम	01.12.2009
2529	13955329ए	हवलदार	के सी नाइक	01.11.2009
2530	13955551एफ	हवलदार	के सी पत	01.11.2009
2531	13955819एन	हवलदार	के कुटिटयाप्पनन	01.12.2009
2532	13964846वाइ	हवलदार	के मयालगु	01.11.2009

2533	13955826के	हवलदार	कमल कुमार बेलवाल	01.12.2009
2534	13955200एम	हवलदार	कपिल नाथ वर्मा	01.10.2009
2535	13956079डब्ल्यू	हवलदार	करनैल सिंह	01.12.2009
2536	13955315ए	हवलदार	काशी भास्कर	01.11.2009
2537	13956270एक्स	हवलदार	खडक सिंह	01.01.2010
2538	13955743वाइ	हवलदार	किरोदी लाल	01.11.2009
2539	13956167एम	हवलदार	किशन ए	01.12.2009
2540	13955012एल	हवलदार	कृष्णा कुमार सिंह	01.10.2009
2541	13954816एन	हवलदार	कृष्णा नन्द राय	01.09.2009
2542	13955321एन	हवलदार	कृष्णा राय	01.11.2009
2543	13954743एम	हवलदार	कुंभू रमन पिल्लई जी.	01.09.2009
2544	13954923पी	हवलदार	एल डी. सोपान	01.09.2009
2545	13955833ए	हवलदार	एल जॉन कन्नैडी	01.12.2009
2546	13954793एक्स	हवलदार	एल मीना	01.09.2009
2547	13955793के	हवलदार	एल बोराह	01.12.2009
2548	13955974पी	हवलदार	लक्ष्मन गोविंद राज	01.12.2009
2549	13955343एम	हवलदार	लक्ष्मन यादव	01.10.2009
2550	13956263एफ	हवलदार	लाल सिंह	01.01.2010
2551	13955662वाइ	हवलदार	ललन झा	01.11.2009
2552	13956459पी	हवलदार	एल कुमार	01.01.2010
2553	13955966डब्ल्यू	हवलदार	एम सी हाज़रा	01.12.2009
2554	13955598एम	हवलदार	एम सी राव	01.11.2009
2555	13955965एन	हवलदार	एम डी. नोरुदीन	01.12.2009
2556	13955772एन	हवलदार	एम डी. एम मोन्डल	01.11.2009
2557	13955229पी	हवलदार	एम डी. मुख्तार आलम	01.10.2009
2558	13955803एच	हवलदार	एम के डालवे	01.12.2009
2559	13956011पी	हवलदार	एम पी शर्मा	01.12.2009
2560	13956037के	हवलदार	एम राजा लिंगम	01.12.2009
2561	13955119एम	हवलदार	एम वेन्टनायकम	01.10.2009
2562	13956482एच	हवलदार	महेन्द्र राम	01.01.2010
2563	13955546डब्ल्यू	हवलदार	महेन्द्र सिंह	01.11.2009
2564	13955279ए	हवलदार	मानन सिंह	01.10.2009
2565	13955102एम	हवलदार	मानचंद	01.10.2009
2566	13956006के	हवलदार	मंदरूप सिंह	01.12.2009
2567	13955410एम	हवलदार	मनेश	01.11.2009
2568	13956248एम	हवलदार	मनोहरन बी	01.01.2010
2569	13965602एक्स	हवलदार	मारिआ विनसेट ए	01.12.2009
2570	13955560एच	हवलदार	मिश्री सिंह	01.11.2009
2571	13954810एम	हवलदार	मिथलेश कुमार राय	01.09.2009
2572	13955163के	हवलदार	एम राम	01.10.2009
2573	13954755एफ	हवलदार	नंदा बहादुर थापा	01.09.2009

2574	13955078एफ	हवलदार	नरेंदर सिंह	01.10.2009
2575	13955316एच	हवलदार	नरेंदर सिंह	01.11.2009
2576	13955030एन	हवलदार	नथमल हरिजन	01.10.2009
2577	13955117पी	हवलदार	निरंजन सिंह	01.10.2009
2578	13955924के	हवलदार	ओम प्रकाश तिवारी	01.12.2009
2579	13955367डब्ल्यू	हवलदार	ओमकार सिंह	01.11.2009
2580	13955973एम	हवलदार	ओमकार सिंह	01.12.2009
2581	13955338एफ	हवलदार	ओंकार सिंह	01.10.2009
2582	13955720एक्स	हवलदार	पी पेरूमल	01.11.2009
2583	13954944एल	हवलदार	पी एस मीना	01.09.2009
2584	13956197के	हवलदार	पी शंकरलाल एच	01.01.2010
2585	13955442पी	हवलदार	पी उदया सुर्यन	01.11.2009
2586	13955903एन	हवलदार	पेली वाइ एम	01.12.2009
2587	13955056एच	हवलदार	पन्ना लाल	01.10.2009
2588	13955420डब्ल्यू	हवलदार	पवन देव वर्मा	01.11.2009
2589	13954824एम	हवलदार	प्लानी राज वी	01.09.2009
2590	13965162पी	हवलदार	प्रभाकर चोगले	01.11.2009
2591	13956289डब्ल्यू	हवलदार	प्रकाश यादव	01.01.2010
2592	13956237ए	हवलदार	प्रकेश चंद्रा	01.01.2010
2593	13955590ए	हवलदार	प्रताप सिंह	01.11.2009
2594	13955272डब्ल्यू	हवलदार	पी कुमार वी वी	01.10.2009
2595	13955697पी	हवलदार	पूरन चन्द	01.11.2009
2596	13955340वाइ	हवलदार	पी सुन्दी	01.11.2009
2597	13955585पी	हवलदार	पुत्तन लाल	01.11.2009
2598	13956052वाइ	हवलदार	आर सी पाणिग्रही	01.12.2009
2599	13955099एक्स	हवलदार	आर चंद्रन पिल्लई	01.10.2009
2600	13961005एल	हवलदार	आर एन दत्ताता	01.11.2009
2601	13956186एक्स	हवलदार	राज कुमार सिंह	01.01.2010
2602	13956411एफ	हवलदार	आर तिवारी	01.01.2010
2603	13955007ए	हवलदार	राजेंद्रा कुमार	01.10.2009
2604	13955984वाइ	हवलदार	रजनी कांता राय	01.12.2009
2605	13954752एन	हवलदार	राम अयोध्या प्रसाद	01.09.2009
2606	13955369एफ	हवलदार	राम चंद्रा	01.11.2009
2607	13956491के	हवलदार	राम धनी सिंह	01.01.2010
2608	13955210डब्ल्यू	हवलदार	राम दुलार राम	01.10.2009
2609	13955278एक्स	हवलदार	राम कष्णन रौय	01.10.2009
2610	13955282ए	हवलदार	राम कुमार	01.10.2009
2611	13955470एफ	हवलदार	राम के प्रसाद	01.11.2009
2612	13955140एच	हवलदार	राम लदाइते सक्सेना	01.10.2009
2613	13956118के	हवलदार	राम नाथ	01.01.2010
2614	13955692डब्ल्यू	हवलदार	राम पी	01.11.2009

2615	13955934एन	हवलदार	राम राठी राम	01.12.2009
2616	13955132के	हवलदार	रामआधार सिंह	01.10.2009
2617	13955023एक्स	हवलदार	रमाकांत कुशवाहा	01.10.2009
2618	13955798एच	हवलदार	रमाकांत शर्मा	01.12.2009
2619	13955543एच	हवलदार	रामाशंकर प्रसाद	01.11.2009
2620	13954802एन	हवलदार	रामबीर सिंह	01.09.2009
2621	13954776एक्स	हवलदार	रमेश	01.09.2009
2622	13955699ए	हवलदार	रमेश चंद्र	01.11.2009
2623	13956261डब्ल्यू	हवलदार	रमेश राम टी	01.01.2010
2624	13955722एच	हवलदार	रंजीत कुमार सिन्हा	01.11.2009
2625	13955266एच	हवलदार	आर नाइक	01.10.2009
2626	13955693वाइ	हवलदार	रवीन्द्र सिंह	01.11.2009
2627	13965887पी	हवलदार	एस के भारद्वाज	01.01.2010
2628	13955530एल	हवलदार	एस पी सिंह	01.11.2009
2629	13956200वाइ	हवलदार	एस पी झाला	01.01.2010
2630	13954842पी	हवलदार	एस शण्मुगमै	01.09.2009
2631	13956576ए	हवलदार	सधन चंद्रा नाथ	01.01.2010
2632	13955782एक्स	हवलदार	सम्भू चरण मुरमु	01.12.2009
2633	13956155एक्स	हवलदार	एस गोवाला	01.12.2009
2634	13955203ए	हवलदार	एस नागेश्वर राव	01.10.2009
2635	13954889ए	हवलदार	सत्य नारायण	01.09.2009
2636	13954786एफ	हवलदार	शेख एम	01.09.2009
2637	13955897एल	हवलदार	सेट्टू	01.12.2009
2638	13965626एफ	हवलदार	शाजी पनिकेर पी ओ	01.12.2009
2639	13955558एल	हवलदार	शाम शेर सिंह	01.11.2009
2640	13954888एक्स	हवलदार	शाम सुंदर	01.09.2009
2641	13955726वाइ	हवलदार	शंकर लाल वर्मा	01.11.2009
2642	13954748एल	हवलदार	शंकर राम	01.09.2009
2643	13954938एक्स	हवलदार	शंकर लाल	01.09.2009
2644	13954893एच	हवलदार	श्याम लाल	01.09.2009
2645	13956272एच	हवलदार	शेखर चंद्रा	01.01.2010
2646	13955801एक्स	हवलदार	शिव मोहन सिंह	01.12.2009
2647	13955658डब्ल्यू	हवलदार	शिव नाथ सिंह	01.11.2009
2648	13955083एम	हवलदार	शोकत अली	01.10.2009
2649	13956551एन	हवलदार	श्रीधर शर्मा	01.01.2010
2650	13955996एन	हवलदार	श्याम सुंदर बेहेरा	01.12.2009
2651	13955147एम	हवलदार	सोभनाथ सिंह	01.10.2009
2652	13956281के	हवलदार	श्रीनिवासन पी	01.01.2010
2653	13955869वाइ	हवलदार	स्टीफन सी ए	01.12.2009
2654	13955986के	हवलदार	स्टीफन पी एस	01.12.2009
2655	13955673एल	हवलदार	सुधाकर साहा	01.11.2009

2656	13954737वाइ	हवलदार	सुफल कुमार विश्वास	01.09.2009
2657	13954937पी	हवलदार	सुखवीर	01.09.2009
2658	13954783एन	हवलदार	सुलेन्द्र सिंह	01.09.2009
2659	13955345एक्स	हवलदार	सुंदर लाल	01.09.2009
2660	13955035एम	हवलदार	सुनील कुमार सिंह	01.10.2009
2661	13955927एक्स	हवलदार	सुरेंद्र शर्मा	01.12.2009
2662	13955751एक्स	हवलदार	सुरेश मिश्रा	01.11.2009
2663	13955913एक्स	हवलदार	सुरेशा गोछयात	01.12.2009
2664	13954713पी	हवलदार	सूरिया नाथ सिंह	01.09.2009
2665	13955098पी	हवलदार	टी डी. सी बी	01.10.2009
2666	13956176एन	हवलदार	ताराचंद	01.01.2010
2667	13964404ए	हवलदार	थामस मेथ्यू	01.10.2009
2668	13955067पी	हवलदार	उदय भान	01.10.2009
2669	13955606ए	हवलदार	उदय राज धाकर	01.11.2009
2670	13955609एन	हवलदार	उमा सेकिआ	01.11.2009
2671	13955777एम	हवलदार	उमा शंकर राम	01.12.2009
2672	13955371वाइ	हवलदार	उत्तातम कुमार डी.	01.11.2009
2673	13956231वाइ	हवलदार	वी के डी.	01.01.2010
2674	13955564वाइ	हवलदार	वेंकट स्वामी	01.11.2009
2675	13956162एन	हवलदार	वेनु गोपालन नायर एस	01.01.2010
2676	13955314एक्स	हवलदार	वेनुगोपाल सी	01.11.2009
2677	13955153ए	हवलदार	वीरेंद्र सिंह	01.10.2009
2678	13955648एम	हवलदार	वी पांडे	01.11.2009
2679	13965720एल	हवलदार	वाइ आर एस धनीराम	01.12.2009
2680	13955331एक्स	हवलदार	योगेश्वर सेठी	01.10.2009

सेना आयुध कोर

2681	6923858के	हवलदार	ए बी राज	01.11.2009
2682	6919060एल	हवलदार	अब्दुल जब्बार मियां	01.09.2009
2683	6919641एच	हवलदार	अजय कुमार	01.12.2009
2684	6923655ए	हवलदार	अजीत सिंह	01.11.2009
2685	6919380ए	हवलदार	अमर पाल	01.11.2009
2686	6923733एम	हवलदार	आनंदी यादव	01.11.2009
2687	6919913एक्स	हवलदार	अनिल कुमार शर्मा	01.01.2010
2688	6923528एल	हवलदार	ए कुमार जीआर	01.10.2009
2689	6923917एल	हवलदार	अनुल एचयूके	01.11.2009
2690	6924205पी	हवलदार	अरबिंद कुमार यादव	01.12.2009
2691	6919262एम	हवलदार	ए कुमार नाई	01.10.2009
2692	6923489एक्स	हवलदार	बी बी मालप्पा नाइक	01.10.2009
2693	6923997एन	हवलदार	बी डी. शिवा	01.12.2009
2694	6919226एफ	हवलदार	बी सुब्रमण्यम	01.10.2009

2695	6919267एल	हवलदार	बच्चा राम बघेल	01.10.2009
2696	6919733पी	हवलदार	बहादुर सिंह	01.01.2010
2697	6919298एल	हवलदार	बालाकृष्णन पी	01.11.2009
2698	6924088पी	हवलदार	बलजीत सिंह	01.12.2009
2699	6919272डब्ल्यू	हवलदार	बलवंत सिंह	01.10.2009
2700	6924032एच	हवलदार	बिजय बहादुर	01.12.2009
2701	6919826के	हवलदार	बिजय कुमार मोहंती	01.01.2010
2702	6919580डब्ल्यू	हवलदार	बिजया चंद्रा बेहेरा	01.12.2009
2703	6923663वाइ	हवलदार	बिनोद कुमार शुक्ला	01.11.2009
2704	6924002एल	हवलदार	बिनोद कुमार सिंह	01.12.2009
2705	6919577डब्ल्यू	हवलदार	बीरा किशोर बेहेरा	01.12.2009
2706	6923926एम	हवलदार	ब्रिजेश सिंह गौड़	01.11.2009
2707	6923691एल	हवलदार	सी वी मणिकंदन	01.11.2009
2708	6923772एल	हवलदार	चंद्रन कुन्नुम्मल	01.11.2009
2709	6919970वाइ	हवलदार	चिन्नप्पा पी	01.01.2010
2710	6923282एक्स	हवलदार	चितरन्जन पटनायक	01.09.2009
2711	6924012पी	हवलदार	दलावी पोपट श्रीरंग	01.12.2009
2712	6919097एम	हवलदार	दरबान सिंह	01.09.2009
2713	6919452वाइ	हवलदार	देबेन्द्र नाथ एल	01.12.2009
2714	13955727एफ	हवलदार	धीरज सिंह नेगी	01.11.2009
2715	6924444के	हवलदार	दिबाकर विश्वास	01.01.2010
2716	6919671ए	हवलदार	दिनेश सिंह	01.01.2010
2717	6924440एन	हवलदार	दीपक कुमार चकर्बती	01.01.2010
2718	6920420एच	हवलदार	दिबाकर	01.11.2009
2719	6924173एक्स	हवलदार	द्वारका प्रसाद	01.12.2009
2720	6924455डब्ल्यू	हवलदार	जी. एन राव	01.01.2010
2721	6924192एच	हवलदार	गंगा दत्ता कौशिक	01.12.2009
2722	6924412एफ	हवलदार	गंगाधर राउल	01.01.2010
2723	6923841डब्ल्यू	हवलदार	जय के सिंह	01.11.2009
2724	6924419एल	हवलदार	जीत नंदन साहू	01.01.2010
2725	6919978एल	हवलदार	जोथी एस	01.01.2010
2726	6924085एफ	हवलदार	कर्मवीर	01.12.2009
2727	6919875एम	हवलदार	करन सिंह	01.01.2010
2728	6924331एफ	हवलदार	कारे गोरख दीना	01.01.2010
2729	6923166पी	हवलदार	कासिद गनपत अप्पा	01.09.2009
2730	6923124एच	हवलदार	खगेन चंद्रा राय	01.09.2009
2731	6924021डब्ल्यू	हवलदार	के रमा राव	01.12.2009
2732	6923770ए	हवलदार	कोशी जी.	01.11.2009
2733	6919488एक्स	हवलदार	लज्जा राम	01.12.2009
2734	6924236पी	हवलदार	ललन प्रसाद	01.12.2009
2735	6923278पी	हवलदार	लक्ष्मी नारायण	01.09.2009

2736	6923685	एक्स	हवलदार	एम बालासुब्रामनी	01.11.2009
2737	6923408	एम	हवलदार	एम गोविंदन कुट्टी	01.10.2009
2738	6919401	एल	हवलदार	एम आइ ए	01.11.2009
2739	6924263	वाइ	हवलदार	एम एल एकनाथ	01.01.2010
2740	6919225	वाइ	हवलदार	एम एस जे चंद्रा	01.10.2009
2741	6924308	एन	हवलदार	एम एस कुमार अप्पाना	01.01.2010
2742	6919901	एच	हवलदार	महेश चंद्रा	01.01.2010
2743	6919530	एल	हवलदार	मोहम्मद खुशीद	01.12.2009
2744	6924452	एच	हवलदार	मोहितोश दत्ता	01.01.2010
2745	6919439	पी	हवलदार	मोर सिंह	01.12.2009
2746	6923689	एन	हवलदार	नारायण भोई	01.11.2009
2747	6921584	एल	हवलदार	नरेश शर्मा	01.12.2009
2748	6924126	ए	हवलदार	पी बासप्पा	01.12.2009
2749	6924399	एच	हवलदार	पी बास्कर	01.01.2010
2750	6924340	एच	हवलदार	पी डी. धाना सिंग	01.01.2010
2751	6924346	के	हवलदार	पी जी. कृष्णा	01.01.2010
2752	6923306	डब्ल्यू	हवलदार	पी संकर राव	01.09.2009
2753	6919772	एन	हवलदार	पप्पाला एस राव	01.01.2010
2754	6924424	डब्ल्यू	हवलदार	परिमल रौय	01.01.2010
2755	6924203	के	हवलदार	पी नारायना राव	01.12.2009
2756	6919245	एम	हवलदार	प्रभु नारायन सिंह	01.10.2009
2757	6919835	एल	हवलदार	प्रसन्ना कुमार मल्लिक	01.01.2010
2758	6919132	के	हवलदार	प्रेम चन्द शर्मा	01.09.2009
2759	6919303	एल	हवलदार	प्रीतम सिंह	01.11.2009
2760	13956558	एक्स	हवलदार	प्यारा लाल	01.01.2010
2761	6923533	डब्ल्यू	हवलदार	राज कुमार सिंह चौहान	01.10.2009
2762	6923206	एल	हवलदार	राज सिंह	01.09.2009
2763	6923417	एन	हवलदार	राजा गोपालन के	01.10.2009
2764	6919381	एच	हवलदार	राजिन्दर कुमार	01.11.2009
2765	6924156	एक्स	हवलदार	राजिन्दर सिंह	01.12.2009
2766	6919509	एच	हवलदार	राकेश कुमार	01.12.2009
2767	6919373	के	हवलदार	राम गोपाल	01.11.2009
2768	6919340	वाइ	हवलदार	राम किशोर	01.11.2009
2769	8030102	एच	हवलदार	राम कृष्णापाल	01.10.2009
2770	6919805	एन	हवलदार	राम कृष्णा नाथ	01.01.2010
2771	6924146	एन	हवलदार	राम सिंह	01.12.2009
2772	6923185	ए	हवलदार	रमेश चन्द	01.09.2009
2773	6923093	एन	हवलदार	रमेश चंद्रा	01.09.2009
2774	6923254	एल	हवलदार	रनवीर सिंह	01.09.2009
2775	6919963	एच	हवलदार	रवि चंद्रन सी	01.01.2010
2776	6919910	के	हवलदार	रवि कुमार के	01.01.2010

2777	6923717पी	हवलदार	रवीन्द्र सिंह	01.11.2009
2778	6919378एच	हवलदार	रेगी जी.	01.11.2009
2779	13956170एम	हवलदार	रोमेश लाल	01.01.2010
2780	6919163के	हवलदार	रूप सिंह	01.10.2009
2781	6919449वाइ	हवलदार	साहूकार	01.12.2009
2782	6923129एफ	हवलदार	संजय कुमार	01.09.2009
2783	6923210एन	हवलदार	संतोष कुमार	01.09.2009
2784	6919473पी	हवलदार	सत्य पाल	01.12.2009
2785	6919096के	हवलदार	सत्यपाल सिंह	01.09.2009
2786	6923567के	हवलदार	शाम लाल	01.10.2009
2787	6919908एम	हवलदार	श्री कांत प्रसाद	01.01.2010
2788	6923878एक्स	हवलदार	सिवान कुट्टी नायर आर	01.11.2009
2789	6919162एफ	हवलदार	सुरेंद्र कुमार	01.10.2009
2790	6923460पी	हवलदार	सुरिन्दर सिंह	01.10.2009
2791	6924376एफ	हवलदार	टी सवारी मुथु	01.01.2010
2792	6919728के	हवलदार	यू पी गुप्ता	01.01.2010
2793	6923366एल	हवलदार	उदय शंकर गुप्ता	01.09.2009
2794	6919040एक्स	हवलदार	उमेश चन्द मिशार	01.09.2009
2795	6919762के	हवलदार	उन्नी कृष्णा कुरुप के	01.01.2010
2796	6919912पी	हवलदार	विजय कांत	01.01.2010
2797	6924130एच	हवलदार	विजय सिंह पाल	01.12.2009
2798	6919903एन	हवलदार	वीरेंद्र मिश्रा	01.01.2010
इलेक्ट्रॉनिकल एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स				
2799	14561750एन	हवलदार	ए के साहू	01.01.2010
2800	14560072एम	हवलदार	अच्छे लाल शर्मा	01.11.2009
2801	14559386एफ	हवलदार	अग्नि कुमार सिंह	01.11.2009
2802	14560871एच	हवलदार	अजय कुमार ओझा	01.12.2009
2803	14562232ए	हवलदार	अजय कुमार सिंह	01.01.2010
2804	14558800एच	हवलदार	अजीत कुमार सिंह	01.10.2009
2805	14575976के	हवलदार	अमरनाथ सिंह	01.10.2009
2806	14587166एन	हवलदार	ए एस सामी	01.12.2009
2807	14560592एक्स	हवलदार	अनिल कुमार	01.12.2009
2808	14560834पी	हवलदार	अरुण कुमार एम	01.12.2009
2809	14557919ए	हवलदार	अशोक गिरि	01.09.2009
2810	14562105वाइ	हवलदार	अशोक कुमार	01.01.2010
2811	14561842ए	हवलदार	अशोक कुमार	01.01.2010
2812	14588553पी	हवलदार	अशोक कुमार बी	01.12.2009
2813	14559273वाइ	हवलदार	अशोक कुमार गुप्ता	01.11.2009
2814	14559573ए	हवलदार	अशोक त्रिपाठी	01.10.2009
2815	14590187पी	हवलदार	अतुल कलिता	01.01.2010

2816	14560902एक्स	हवलदार	बहादुर सिंह	01.12.2009
2817	14559854डब्ल्यू	हवलदार	बालक राम	01.11.2009
2818	14560075ए	हवलदार	बालन जी.	01.11.2009
2819	14560634वाइ	हवलदार	बलबीर सिंह	01.12.2009
2820	14559071एक्स	हवलदार	बन्ना राम सैनी	01.10.2009
2821	14558219वाइ	हवलदार	बारगे उत्तातम शिवराम	01.10.2009
2822	14558082एक्स	हवलदार	भावेन चंद्रा डेका	01.09.2009
2823	14557349पी	हवलदार	भगत बहादुर थापा	01.09.2009
2824	14559967वाइ	हवलदार	भगवान सिंह	01.11.2009
2825	14558760एम	हवलदार	भीकू हनुमंत मोहित	01.10.2009
2826	14559008एच	हवलदार	भूवन चंद्रा	01.10.2009
2827	14559467एफ	हवलदार	बिधु भूषण सरकार	01.11.2009
2828	14560203एम	हवलदार	बिजया कुमार पाणिग्रही	01.11.2009
2829	14560789एन	हवलदार	बी मिश्रा	01.12.2009
2830	14561403पी	हवलदार	बिनोद कुमार	01.12.2009
2831	14558040एल	हवलदार	बिपिन बिहारी बेहुरा	01.10.2009
2832	14560261डब्ल्यू	हवलदार	बीर बाबू सिंघा	01.11.2009
2833	14557470एच	हवलदार	बीर चंद्रा सिंह	01.09.2009
2834	14561712एक्स	हवलदार	ब्रमानंद	01.01.2010
2835	14586304एक्स	हवलदार	सी ए बर्नार्ड	01.10.2009
2836	14559168एच	हवलदार	चक्रधर त्रिपाठी	01.10.2009
2837	14564978पी	हवलदार	चन्दन सिंह	01.08.2009
2838	14561183डब्ल्यू	हवलदार	चंद्रा केश	01.12.2009
2839	14560685एम	हवलदार	चंद्रा शेखर सिंह	01.12.2009
2840	14557560के	हवलदार	चरण सिंह	01.09.2009
2841	14560245वाइ	हवलदार	चितरन्जन बारिक	01.11.2009
2842	14559638एच	हवलदार	छोटे लाल	01.11.2009
2843	14561105वाइ	हवलदार	छोटू लाल प्रजापति	01.12.2009
2844	14557980के	हवलदार	दादासो भाउ नाइक	01.09.2009
2845	14557586वाइ	हवलदार	डी. सुधाकर रामचंद्र	01.09.2009
2846	14561912एन	हवलदार	डी. मिश्रा	01.01.2010
2847	14557746एन	हवलदार	डी. सिंघा	01.09.2009
2848	14562378एन	हवलदार	दयानन्द कुंवर	01.01.2010
2849	14560503एन	हवलदार	देश राज	01.12.2009
2850	14559492ए	हवलदार	देवी दत्त ए	01.11.2009
2851	14587755के	हवलदार	धनवंत सिंह	01.11.2009
2852	14558440एक्स	हवलदार	डी. राम	01.10.2009
2853	14559360एम	हवलदार	दिलीप कुमार झा	01.11.2009
2854	14557741पी	हवलदार	दिलीप कुमार सामंत	01.09.2009
2855	14557402पी	हवलदार	दिनेश सिंह	01.09.2009
2856	14560575एक्स	हवलदार	द्वारिका प्रसाद साहू	01.12.2009

2857	14588392	एक्स	हवलदार	जी. वी. नाथन	01.12.2009
2858	14558402	एफ	हवलदार	गणेश ठाकुर	01.10.2009
2859	14561012	के	हवलदार	गंगा प्रसाद सिंह	01.12.2009
2860	14585553	के	हवलदार	जदगे जे वी	01.09.2009
2861	14558303	वाइ	हवलदार	गुराहू राम	01.10.2009
2862	14559493	एच	हवलदार	गिरीश कुमार	01.11.2009
2863	14561406	एच	हवलदार	गोपाल पण्डित	01.12.2009
2864	14558054	एल	हवलदार	हर नारायण	01.10.2009
2865	14558382	वाइ	हवलदार	हरबंस लाल	01.10.2009
2866	14589043	ए	हवलदार	हरबंस सिंह	01.12.2009
2867	14560192	एल	हवलदार	हरदेव नारायण दुबे	01.11.2009
2868	14561098	एन	हवलदार	एच ठाकुर	01.12.2009
2869	14559964	एल	हवलदार	एच स्वामीगिरियारी	01.11.2009
2870	14557205	एम	हवलदार	एच सिंह	01.09.2009
2871	14586406	एन	हवलदार	होशियार सिंह	01.10.2009
2872	14561288	ए	हवलदार	हुकम चन्द	01.12.2009
2873	14587159	एक्स	हवलदार	इन्द्रावीर सिंह तोमर	01.12.2009
2874	14561182	एन	हवलदार	जे एस भदोरिया	01.12.2009
2875	14559092	एन	हवलदार	जग नारायण प्रसाद	01.10.2009
2876	14557080	ए	हवलदार	जगदीश	01.09.2009
2877	14560306	एल	हवलदार	जगमोहन सिंह	01.11.2009
2878	14559835	एल	हवलदार	जय पाल सिंह	01.11.2009
2879	14561706	के	हवलदार	जयपाल सिंह	01.01.2010
2880	14558204	डब्ल्यू	हवलदार	जाले सिंह	01.10.2009
2881	14558740	वाइ	हवलदार	जमुना प्रसाद	01.10.2009
2882	14558359	एल	हवलदार	जंगी बहादुर	01.10.2009
2883	14560673	एक्स	हवलदार	जनात हुसैन	01.12.2009
2884	14557651	एन	हवलदार	जसपाल	01.09.2009
2885	14558443	एल	हवलदार	जसवंत सिंह	01.10.2009
2886	14557069	एफ	हवलदार	जतिन चंद्रा बोरा	01.09.2009
2887	14561282	वाइ	हवलदार	जय प्रकाश	01.12.2009
2888	14560957	एफ	हवलदार	जोज़ बी	01.12.2009
2889	14560970	एल	हवलदार	जोज़ डी	01.12.2009
2890	14559270	एल	हवलदार	जोयदेब डे	01.11.2009
2891	14560509	पी	हवलदार	के तिरुमलई	01.12.2009
2892	14561290	एक्स	हवलदार	के विस्वनाथन	01.12.2009
2893	14560359	के	हवलदार	कालू राम	01.12.2009
2894	14558745	एक्स	हवलदार	कामेश्वर महतो	01.10.2009
2895	14560660	ए	हवलदार	कामेश्वर प्रसाद	01.12.2009
2896	14562315	एल	हवलदार	कन्हैया लाल	01.01.2010
2897	14560947	एक्स	हवलदार	कर्म चन्द	01.12.2009

2898	14560568एफ	हवलदार	करन सिंह नगर	01.12.2009
2899	14559354वाइ	हवलदार	केदार नाथ	01.11.2009
2900	14559902एल	हवलदार	केशर सिंह के	01.11.2009
2901	14558811पी	हवलदार	के नारायण झा	01.10.2009
2902	14558395डब्ल्यू	हवलदार	किशन कुमार गिरि	31.08.2009
2903	14560243एन	हवलदार	किशन लाल	01.11.2009
2904	14559063वाइ	हवलदार	किशोर प्रधान	01.10.2009
2905	14559636वाइ	हवलदार	कोमल सिंह	01.11.2009
2906	14561734डब्ल्यू	हवलदार	कृपाल चंद्रा	01.01.2010
2907	14560166के	हवलदार	कृष्णा देव मिश्रा	01.11.2009
2908	14559161वाइ	हवलदार	कृष्णा कुमार सिन्हा	01.10.2009
2909	14558858ए	हवलदार	कृष्णा मुरारी	01.10.2009
2910	14561150एल	हवलदार	कृष्णा नंदन सिंह	01.12.2009
2911	14558841एम	हवलदार	कुलवीर सिंह	01.10.2009
2912	14560614एफ	हवलदार	कुशल कुमार मंडल	01.12.2009
2913	14559382एल	हवलदार	ललन प्रसाद सिंह	01.11.2009
2914	14561565ए	हवलदार	लुकमान अंसारी	01.01.2010
2915	14557907एल	हवलदार	एम डी. अंजुर आलम	01.09.2009
2916	14560150वाइ	हवलदार	एम डी. बी अली	01.11.2009
2917	14561462एफ	हवलदार	एम डी. कलीम मोहम्मद सरवर	01.12.2009
2918	14566555एफ	हवलदार	एम डी. महम्मद अली	01.09.2009
2919	14558748एल	हवलदार	एम डी. रेडी	01.10.2009
2920	14562356पी	हवलदार	एम एच विथल राव आर ए	01.01.2010
2921	14557817के	हवलदार	एम के चोगले	01.09.2009
2922	14558685एन	हवलदार	एम के वी रेडी	01.10.2009
2923	14557455एन	हवलदार	मदन अधव	01.09.2009
2924	14557403एक्स	हवलदार	मदन लाल	01.09.2009
2925	14559972के	हवलदार	मदन मोहन	01.11.2009
2926	14561874एच	हवलदार	मदन मोहन पांडे	01.01.2010
2927	14560668एम	हवलदार	महारुद्रा झा	01.12.2009
2928	14560913के	हवलदार	एम राम	01.12.2009
2929	14559173एन	हवलदार	महेंद्र कुमार साहू	01.10.2009
2930	14557644एक्स	हवलदार	महेंद्र पाल सिंह	01.09.2009
2931	14557683डब्ल्यू	हवलदार	महेंद्र एस	01.09.2009
2932	14557182डब्ल्यू	हवलदार	महेंद्र सिंह	01.09.2009
2933	14560696वाइ	हवलदार	महेशा कंचना जी.	01.12.2009
2934	14559032वाइ	हवलदार	महीपाल सिंह रावत	01.10.2009
2935	14560692एच	हवलदार	मल्लिकार्जुन के	01.12.2009
2936	14561401के	हवलदार	एम दास	01.12.2009
2937	14557679एन	हवलदार	माने मधुकर लक्ष्मन	01.09.2009
2938	14560119एम	हवलदार	मंगल सिंह	01.11.2009

2939	14557151डब्ल्यू	हवलदार	एम राम	01.09.2009
2940	14559061एन	हवलदार	मांगी लाल	01.10.2009
2941	14587072डब्ल्यू	हवलदार	मनोज कुमार	01.12.2009
2942	14556983एल	हवलदार	मनोरंजन दास	01.09.2009
2943	14557417एक्स	हवलदार	मन्ताई	01.09.2009
2944	14559102एम	हवलदार	मरोती हरिभाउ सरोदे	01.10.2009
2945	14560555के	हवलदार	मातु राम कास्वन	01.12.2009
2946	14560456एफ	हवलदार	मिथलेश कुमार मिश्रा	01.11.2009
2947	14560744एम	हवलदार	मोहिन्दर सिंह	01.12.2009
2948	14560262वाइ	हवलदार	एन जॉय चंद्रन सिंघा	01.11.2009
2949	14558478एफ	हवलदार	एन आर मोहन	01.10.2009
2950	14559851एच	हवलदार	नफे सिंह	01.11.2009
2951	14560111ए	हवलदार	एन राम	01.11.2009
2952	14557715एन	हवलदार	एन शिवा कुमार	01.09.2009
2953	14557206पी	हवलदार	नन्द कुमार सिंह	01.09.2009
2954	14560835एक्स	हवलदार	नन्द लाल	01.12.2009
2955	14557410एन	हवलदार	नंदजी राम	01.09.2009
2956	14560290एल	हवलदार	नरेंदर सिंह दहिया	01.11.2009
2957	14557485एल	हवलदार	नरेश कुमार	01.09.2009
2958	14559889एम	हवलदार	नरेश कुमार शर्मा	01.11.2009
2959	14560663एन	हवलदार	नरिंदर सिंह	01.12.2009
2960	14557985एच	हवलदार	एन खान	01.09.2009
2961	14562319एफ	हवलदार	नाथ सिंह	01.01.2010
2962	14560606एल	हवलदार	एन सिंह	01.12.2009
2963	14588786डब्ल्यू	हवलदार	निरंजन कुमार सिंह	01.12.2009
2964	14558985पी	हवलदार	एन खान	01.10.2009
2965	14558543डब्ल्यू	हवलदार	ओम नारायण	01.10.2009
2966	14558332एन	हवलदार	ओम प्रकाश	01.10.2009
2967	14560644एच	हवलदार	ओम प्रकाश	01.12.2009
2968	14559437के	हवलदार	ओम प्रकाश साह	01.11.2009
2969	14561010वाइ	हवलदार	ओम प्रकाश शाही	01.12.2009
2970	14561289एच	हवलदार	पी राजा लिंगम	01.12.2009
2971	14558529के	हवलदार	पी राजेन्द्रन	01.10.2009
2972	14558231ए	हवलदार	पारस महाराज	01.10.2009
2973	14557599डब्ल्यू	हवलदार	पाटिल अमरुतराव रंगराओ	01.09.2009
2974	14557606एफ	हवलदार	पाटिल भूपेश श्री राम	01.09.2009
2975	14562224एफ	हवलदार	पवन सिंह	01.01.2010
2976	14559915एच	हवलदार	पीओपी सिंह	01.11.2009
2977	14561591एफ	हवलदार	प्रभाकरा पांडे	01.01.2010
2978	14558848डब्ल्यू	हवलदार	प्रहलाद सिंह	01.10.2009
2979	14560289डब्ल्यू	हवलदार	प्रकाश सीताराम एम	01.11.2009

2980	14560775एन	हवलदार	प्रमोद कुमार होता	01.12.2009
2981	14587677एक्स	हवलदार	प्रताप राम	01.12.2009
2982	14560273एल	हवलदार	प्रेम बल्लभ	01.11.2009
2983	14560933एक्स	हवलदार	प्रेम किशोर सिंह	01.12.2009
2984	14558460एल	हवलदार	प्रेम कुमार	01.10.2009
2985	14557670वाइ	हवलदार	प्रीतम सिंह राना	01.09.2009
2986	14562528वाइ	हवलदार	प्रिथी चन्द	01.01.2010
2987	14560033एन	हवलदार	पृथ्वी सिंह	01.11.2009
2988	14558147ए	हवलदार	पूरन कुमार	01.10.2009
2989	14559515डब्ल्यू	हवलदार	पुतुल चन्द मेशी	01.11.2009
2990	14558970एम	हवलदार	आर बी चौधरी	01.10.2009
2991	14559613डब्ल्यू	हवलदार	आर सी सिंह	01.11.2009
2992	14561907एच	हवलदार	आर जे एस के	01.01.2010
2993	14560329एम	हवलदार	रबीन्द्र एम	01.11.2009
2994	14560275डब्ल्यू	हवलदार	राधेश्याम यादव	01.11.2009
2995	14561142एम	हवलदार	रधूबीर सिंह गुलेरिया	01.12.2009
2996	14559054एक्स	हवलदार	रगुबीर प्रकाश	01.10.2009
2997	14558336के	हवलदार	रहीस पाल	01.10.2009
2998	14561399एक्स	हवलदार	राज नारायण ठाकुर	01.12.2009
2999	14557650एल	हवलदार	राज सिंह	01.09.2009
3000	14562438एक्स	हवलदार	राजा कुमार	01.01.2010
3001	14557341एच	हवलदार	राजेंद्रा कुमार डे	01.09.2009
3002	14559378एच	हवलदार	राजकिशोर सिंह	01.11.2009
3003	14557239ए	हवलदार	राजमणी सिंह जी.	01.09.2009
3004	14561136वाइ	हवलदार	राकेश कुमार	01.12.2009
3005	14561291ए	हवलदार	राम अवतार यादव	01.12.2009
3006	14586525के	हवलदार	राम बहादुर	01.11.2009
3007	14589642ए	हवलदार	राम चंद्रा यादव	01.12.2009
3008	14557328वाइ	हवलदार	राम मनोहर राठौर.	01.09.2009
3009	14562049एक्स	हवलदार	राम निवास	01.01.2010
3010	14559992एक्स	हवलदार	राम प्रकाश शर्मा	01.11.2009
3011	14559707एन	हवलदार	राम शंकर वर्मा	01.10.2009
3012	14558734एल	हवलदार	राम सूरज	01.10.2009
3013	14560989के	हवलदार	राम स्वरूप योगी	01.12.2009
3014	14560067एफ	हवलदार	रमा नंदन राम	01.11.2009
3015	14559226एफ	हवलदार	रमा श्रय भगत	01.11.2009
3016	14559251ए	हवलदार	रामचन्द्रन के	01.11.2009
3017	14559014डब्ल्यू	हवलदार	रमाकांत	01.10.2009
3018	14559850ए	हवलदार	रमेश चंद्र	01.11.2009
3019	14560779के	हवलदार	रमेश कुमार	01.12.2009
3020	14558790के	हवलदार	रमेश कुमार सिंह	01.10.2009

3021	14559286डब्ल्यू	हवलदार	रमेश सरकार	01.11.2009
3022	14560665वाइ	हवलदार	रामेश्वर शर्मा	01.12.2009
3023	14559394ए	हवलदार	रंग लाल सिंह	01.11.2009
3024	14559594डब्ल्यू	हवलदार	रंजीत सिंह	01.10.2009
3025	14560130डब्ल्यू	हवलदार	रनवीर सिंह	01.11.2009
3026	14561761ए	हवलदार	रसान्दा मोहंता	01.12.2009
3027	14562496एफ	हवलदार	रविन्द्र सिंह	01.01.2010
3028	14558259ए	हवलदार	रवीन्द्र कुमार तिवारी	01.07.2009
3029	14561188पी	हवलदार	रवीन्द्र नाथ माल	01.12.2009
3030	14558221डब्ल्यू	हवलदार	ऋचपाल सिंह	01.10.2009
3031	14558331एल	हवलदार	ऋषि पाल सिंह	01.10.2009
3032	14559115के	हवलदार	रोशन लाल	01.10.2009
3033	14589965एच	हवलदार	रोशन लामा	01.12.2009
3034	14561077एक्स	हवलदार	आर लाल	01.12.2009
3035	14560279एम	हवलदार	रूप राम	01.11.2009
3036	14558486ए	हवलदार	एस पीटर	01.10.2009
3037	14590263डब्ल्यू	हवलदार	एस श्रीनिवास	01.01.2010
3038	14562250एच	हवलदार	सच्चिदानंद साह	01.12.2009
3039	14561136वाइ	हवलदार	सदानन्द ठाकुर	01.12.2009
3040	14561253के	हवलदार	सदानंदन नायर ई	01.12.2009
3041	14557327डब्ल्यू	हवलदार	साहब सिंह	01.09.2009
3042	14557210एक्स	हवलदार	सैलेश कुमार यादव	01.09.2009
3043	14560566डब्ल्यू	हवलदार	साजन सिंह भादौरिया	01.12.2009
3044	14588150पी	हवलदार	समर जीत सिंह	01.11.2009
3045	14557654एफ	हवलदार	एस यादव	01.09.2009
3046	14557152वाइ	हवलदार	संजय कुमार सिंह	01.09.2009
3047	14558068एल	हवलदार	संतोष कुमार अहीरवर	01.10.2009
3048	14557404ए	हवलदार	सरयू प्रसाद मिश्रा	01.09.2009
3049	14557301एफ	हवलदार	शशि कुरुप पी के	01.09.2009
3050	14560068के	हवलदार	सत्यविर सिंह	01.11.2009
3051	14560025पी	हवलदार	सतबीर सिंह	01.11.2009
3052	14559018वाइ	हवलदार	सतीश कुमार	01.10.2009
3053	14561440एच	हवलदार	सतीश कुमार	01.12.2009
3054	14557608एम	हवलदार	सतीश कुमार एस एम	01.09.2009
3055	14560559ए	हवलदार	सत्यबीर सिंह	01.12.2009
3056	14562046के	हवलदार	सत्यवीर सिंह	01.01.2010
3057	14562159एम	हवलदार	सत्यावान	01.01.2010
3058	14557111पी	हवलदार	शाजी जोसफ	01.09.2009
3059	14560939वाइ	हवलदार	शाम लाल	01.12.2009
3060	14557838ए	हवलदार	संकरेप्पा	01.09.2009
3061	14557598एन	हवलदार	एस पहन	01.09.2009

3062	14585013एल	हवलदार	एस गिरि	01.09.2009
3063	14560522वाइ	हवलदार	शिव कुमार सिंह	01.12.2009
3064	14561489वाइ	हवलदार	शेर सिंह	01.12.2009
3065	14558772एफ	हवलदार	एस मनी पांडे	01.10.2009
3066	14558122एन	हवलदार	शीश राम वर्मा	01.10.2009
3067	14562447वाइ	हवलदार	शीशपाल	01.01.2010
3068	14561928वाइ	हवलदार	शिशुपाल सिंह	01.01.2010
3069	14557352पी	हवलदार	शिव दत्त जोशी	01.09.2009
3070	14560896पी	हवलदार	शिव कुमार सिंह	01.12.2009
3071	14562430एल	हवलदार	श्री कष्णन लाल	01.01.2010
3072	14560676एल	हवलदार	श्री भगवान साह	01.12.2009
3073	14558476डब्ल्यू	हवलदार	श्री भगवान सिंह	01.10.2009
3074	14559824वाइ	हवलदार	श्री कृष्णा राम	01.11.2009
3075	14562161के	हवलदार	श्री राम	01.01.2010
3076	14590013पी	हवलदार	श्याम बाबू निशाद	01.01.2010
3077	14559396एल	हवलदार	श्याम नारायण सिंह	01.11.2009
3078	14559807वाइ	हवलदार	श्याम नारायण सिंह	01.11.2009
3079	14558706वाइ	हवलदार	सिद्धनाथ सिंह	01.10.2009
3080	14557880वाइ	हवलदार	सीता सरन पटेल	01.09.2009
3081	14558931एन	हवलदार	सिया राम	01.10.2009
3082	14587401एफ	हवलदार	सोमन पी एमसी	01.10.2009
3083	14560073पी	हवलदार	एस प्रजापति	01.11.2009
3084	14561185एफ	हवलदार	श्रीराम एस द्विवेदी	01.12.2009
3085	14561356एच	हवलदार	सुबाष चंद्रा दाश	01.12.2009
3086	14559387के	हवलदार	सूबे सिंह यादव	01.11.2009
3087	14562406पी	हवलदार	सुभ नारायण पांडे	01.01.2010
3088	14557136एफ	हवलदार	सुभाकरन	01.09.2009
3089	14560062एच	हवलदार	सुभाष	01.11.2009
3090	14557725एक्स	हवलदार	सुभाष चंद्र	01.09.2009
3091	14559770एच	हवलदार	सुभाष कुमार मिस्त्री	01.09.2009
3092	14559166एक्स	हवलदार	सुदाम चरण मल्लिक	01.10.2009
3093	14561530के	हवलदार	सुधीर प्रसाद सिंह	01.01.2010
3094	14556989एम	हवलदार	सुखलाल प्रसाद पटेल	01.09.2009
3095	14557813एन	हवलदार	सुखराम टोपनो	01.09.2009
3096	14585864एक्स	हवलदार	सूरज मल सैनी	01.09.2009
3097	14557648एन	हवलदार	सुरेंद्र सिंह	01.09.2009
3098	14589979एच	हवलदार	सुरेन्द्रा कुमार	01.12.2009
3099	14562297एन	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.01.2010
3100	14559913एक्स	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.11.2009
3101	14561153वाइ	हवलदार	सुरेन्द्रा सिंह	01.12.2009
3102	14559891के	हवलदार	सुरेश कुमार	01.11.2009

3103	14557297के	हवलदार	सुरेश कुमार	01.09.2009
3104	14557795डब्ल्यू	हवलदार	सुरेश यादव	01.09.2009
3105	14558126के	हवलदार	सुसंता डे	01.10.2009
3106	14585401एच	हवलदार	स्वप्न कुमार मंडल	01.10.2009
3107	14559550वाइ	हवलदार	टी भारती	01.10.2009
3108	14588230एम	हवलदार	तरसेम लाल	01.11.2009
3109	14558405पी	हवलदार	तरु च. बी	01.10.2009
3110	14587819के	हवलदार	तरुण कुमार विश्वास	01.11.2009
3111	14559388एम	हवलदार	टीईजेड भानु पटेल	01.11.2009
3112	14560922एल	हवलदार	ठक्कर मनुभाई बी	01.12.2009
3113	14557204के	हवलदार	त्रिलोकी नाथ पाल	01.09.2009
3114	14558291पी	हवलदार	यू के चक्रवर्ती	01.10.2009
3115	14561860एच	हवलदार	यू मिश्रा	01.01.2010
3116	14557557के	हवलदार	उमेश चंद्रा	01.09.2009
3117	14559930एक्स	हवलदार	उन्नीर्कशन्न के वी	01.11.2009
3118	14560508एम	हवलदार	वी मुनियप्पन	01.12.2009
3119	14562007एल	हवलदार	वी ए भाई दया भाई	01.01.2010
3120	14560662एल	हवलदार	विजय कुमार प्रसाद सिंह	01.12.2009
3121	14558937पी	हवलदार	विजय कुमार एस	01.10.2009
3122	14560588पी	हवलदार	विनोद कुमार	01.12.2009
3123	14559976ए	हवलदार	विनोद कुमार	01.11.2009
3124	14585380एक्स	हवलदार	वी सिंह	01.10.2009
3125	14559545एन	हवलदार	डब्ल्यू एस उत्तातम राव	01.11.2009
3126	14557649डब्ल्यू	हवलदार	यादराम स्वामी	01.09.2009
3127	14560645एल	हवलदार	यदुनाथ सिंह	01.12.2009
3128	14559627डब्ल्यू	हवलदार	योगेन्द्रा बहादुर सिंह	01.11.2009
3129	14558771वाइ	हवलदार	योगेन्द्रा प्रसाद	01.10.2009
3130	14561179एन	हवलदार	जेड एस अंसारी	01.12.2009

सेना शिक्षा कोर

3131	9509489एफ	हवलदार	एस श्रीकांत	01.01.2010
3132	9509647एल	हवलदार	उमा शंकर बेन	01.01.2010

रिमाउन्ट एवं वेटनरी कोर

3133	7239160एफ	दफादार	भागीरथ चौधरी	01.11.2009
3134	7239175के	हवलदार	कुंज बिहारी पटेल	01.12.2009
3135	7239618ए	हवलदार	लोकेन्द्रा पाल सिंह	01.01.2010
3136	7239599ए	दफादार	महिंद्र सिंह	01.11.2009
3137	7239164एक्स	दफादार	नकुल राम	01.12.2009

3138	7239629एम	दफादार	पटेल धूलाभाई एच दास	01.01.2010
3139	7239180पी	दफादार	रमेश प्रसाद	01.01.2010
3140	7239614के	दफादार	एस एच टी	01.01.2010

आसुचना कोर

3141	3983954ए	हवलदार	अशोक कुमार	01.10.2009
3142	14373603एन	हवलदार	धर्म चन्द	01.09.2009
3143	3984354के	हवलदार	प्रभात सिंह	01.11.2009
3144	1477256एम	हवलदार	उमर पाल	01.10.2009
3145	4066051एम	हवलदार	उमेश चंद्रा शर्मा	01.10.2009

सेना पुलिस कोर

3146	7774226एन	हवलदार	अमर सिंह	01.11.2009
3147	7774837एच	हवलदार	अनिल कुमार सिंह	01.11.2009
3148	7773474एक्स	हवलदार	एंथोनी होरो	01.10.2009
3149	7773574एच	हवलदार	अशोकन के के	01.01.2010
3150	7773464एन	हवलदार	भगवान लाल	01.09.2009
3151	7774859एफ	हवलदार	दोलत सिंह	01.11.2009
3152	7773545एन	हवलदार	गोपाल कृष्णा कुरुप एस	01.01.2010
3153	7773571पी	हवलदार	राम आशी ठाकुर	01.11.2009
3154	7774812डब्ल्यू	हवलदार	राम कुमार	01.10.2009
3155	7773473पी	हवलदार	राम निवास	01.10.2009
3156	7773541एक्स	हवलदार	संतोष कुमार	01.12.2009
3157	7773618पी	हवलदार	शारदा कुमार सिंह	01.01.2010

सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

3158	13748688एफ	हवलदार	दरबारी लाल	01.11.2009
3159	6923102के	हवलदार	एम जी. नरेंदर	01.09.2009

पायोनियर कोर

3160	8030215एल	हवलदार	धर्मवीर	01.01.2010
3161	8030192पी	हवलदार	हबीबुर रहमान एस के	01.12.2009
3162	8031469पी	हवलदार	जगदीश	01.09.2009
3163	8030095एक्स	हवलदार	के विश्वास	01.09.2009
3164	8030116एच	हवलदार	माता प्रसाद	01.11.2009
3165	8030124एफ	हवलदार	रमाकांत अग्निहोत्री	01.11.2009
3166	8030186एफ	हवलदार	शशि के	01.12.2009
3167	8030103एल	हवलदार	शिव चरण	01.10.2009

सेना बैन्ड

3168	13750967एल	हवलदार	बिधि चन्द	01.11.2009
<u>सेना डाक सेवा</u>				
3169	8430176एल	हवलदार	ए राम	01.10.2009
3170	8430253पी	हवलदार	आनंद पुरी गोस्वामी	01.01.2010
3171	8430190एक्स	हवलदार	अशवनी सिंह कुशवाह	01.10.2009
3172	8430177एन	हवलदार	बलवंत सिंह बिष्ट	01.10.2009
3173	8430282के	हवलदार	बस्ती राम यादव	01.01.2010
3174	8430183एफ	हवलदार	बस्वराज	01.10.2009
3175	8430189एच	हवलदार	बी राजू हीरामन	01.10.2009
3176	8430174ए	हवलदार	सी पी शर्मा	01.10.2009
3177	8430251के	हवलदार	हंसा दत्त	01.01.2010
3178	8430264एफ	हवलदार	जय कुमार प्रसाद	01.01.2010
3179	8430257एल	हवलदार	कष्णन किशोर सिंह	01.01.2010
3180	8430224ए	हवलदार	कुलबीर सिंह	01.12.2009
3181	8430294वाइ	हवलदार	एल प्रहलाद नाना	01.01.2010
3182	8430810एच	हवलदार	मंजुनाथ बी एन	01.09.2009
3183	8430181डब्ल्यू	हवलदार	मुन्ना लाल यादव	01.10.2009
3184	8430217के	दफादार	नाउनाथ वी	01.12.2009
3185	8430167के	हवलदार	रोबिनसन डी.	01.10.2009
3186	8430223एक्स	हवलदार	सत्यवीर सिंह	01.12.2009
3187	8430260एल	हवलदार	विजय कुमार वर्मा	01.01.2010

रक्षा सुरक्षा कोर

3188	10196690डब्ल्यू	हवलदार	अशोक कुमार	01.02.2009
3189	4250366डब्ल्यू	हवलदार	भैरव सरन सिंह	01.09.2009
3190	10180874एल	हवलदार	करन सिंह यादव	01.09.2009
3191	5038050के	हवलदार	पदम बहादुर थापा	01.10.2009
3192	4250085ए	हवलदार	आर रौय	01.09.2009

प्रदेशिक सेना

3193	10166449पी	हवलदार	ए मुरगन	01.01.2010
3194	10374191एल	हवलदार	आनंदा प्रसाद	01.01.2010
3195	10227883ए	हवलदार	नंदराव कर्माकर	01.01.2010
3196	10291037एन	हवलदार	अनूप पी	01.12.2009
3197	10361948के	हवलदार	अशोक कुमार	01.09.2009
3198	10479877	हवलदार	दिलबाग सिंह	01.11.2009
3199	10291021एच	हवलदार	जी.ई.ई. वरघेसे	01.05.2009
3200	10198105के	हवलदार	कल्याण सिंह	01.09.2009

3201	10452556के	हवलदार	एम सिल्वाराज	01.05.2009
3202	10198078	हवलदार	रतन सिंह	01.04.2009
3203	10302540एन	हवलदार	सत्यवीर	01.06.2009

[सं. बी/43432/आर डी-10/ए जी/सी डब्ल्यू-2]

मुकेश सभरवाल, लै. जनरल, एडजुटेंट जनरल

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2010

No. 3(E) Dated 26 January, 2010.— The President is pleased to grant honorary rank of Naib Risaldar/Naib Subedar to the undermentioned NCOs on retirement on the eve of Republic Day 2010 under para 180 of the Regulations for the Army 1987 with effect from the dates shown against their names :-

TO BE HONORARY NAIB RISALDARS/SUBEDARS

PRESIDENT'S BODY GUARD

1	13700404P	HAV	JAGJIT SINGH	01-12-2009
<u>16 CAVALRY</u>				
2	1078488K	DFR	K RAVICHANDRAN	01-10-2009
<u>8 CAVALRY</u>				
3	1077976A	DFR	CHANDRAPAL	01-10-2009
4	1078497L	DFR	JAGAT PAL SINGH	01-11-2009
5	1077901H	DFR	KUALBIR SINGH	01-09-2009
6	1078885H	DFR	RAVENDRA SINGH	01-12-2009
7	1077941K	DFR	VINOD KUMAR SINGH	01-09-2009
<u>2 LANCERS</u>				
8	1078455Y	DFR	SURENDRA SINGH TANWAR	01-10-2009
<u>14 HORSE</u>				
9	1078305H	DFR	SURJIT SINGH	01-10-2009
<u>18 CAVALRY</u>				
10	1079325H	DFR	BHOOPENDRA PRATAP SINGH	01-01-2010
11	1078388Y	DFR	RAMESH CHANDER	01-10-2009
<u>CENTRAL INDIA HORSE</u>				
12	1078163W	DFR	KARNAIL SINGH	01-10-2009
<u>62 CAVALRY</u>				
13	1078161L	DFR	KARAM CHAND	01-10-2009
<u>64 CAVALRY</u>				
14	1078259Y	DFR	JASWINDER SINGH	01-10-2009
<u>65 ARMOURED REGIMENT</u>				
15	1079103N	DFR	SURINDER SINGH	01-12-2009

71 ARMoured REGIMENT

16	1079117N	DFR	PURAN CHAND BHALARIA	01-12-2009
----	----------	-----	----------------------	------------

72 ARMoured REGIMENT

17	1079352M	DFR	KISHORI LAL	01-01-2010
18	1078489M	DFR	SATYAVIR	01-10-2009

82 ARMoured REGIMENT

19	1078947X	DFR	DALBIR SINGH	01-12-2009
----	----------	-----	--------------	------------

85 ARMoured REGIMENT

20	1078133Y	DFR	GOPAL CHANDRA RAUT	01-10-2009
----	----------	-----	--------------------	------------

41 ARMoured REGIMENT

21	1078173A	DFR	AMRENDRA KUMAR SINGH	01-11-2009
----	----------	-----	----------------------	------------

44 ARMoured REGIMENT

22	1077917N	DFR	ANRAG SINGH	01-09-2009
----	----------	-----	-------------	------------

46 ARMoured REGIMENT

23	1078462P	DFR	SATISH CHANDER	01-11-2009
----	----------	-----	----------------	------------

47 ARMoured REGIMENT

24	1077751X	DFR	SURENDRA PRASAD YADAV	01-09-2009
----	----------	-----	-----------------------	------------

49 ARMoured REGIMENT

25	1078763Y	DFR	SUNIL KUMAR SHARMA	01-12-2009
----	----------	-----	--------------------	------------

ARMoured CORPS

26	1078839N	DFR	AMAR PAL SINGH	01-11-2009
27	1078244W	DFR	BIR PAL	01-10-2009
28	1077682M	DFR	BULLA RAM	01-09-2009
29	1078012X	DFR	BUTAN BAITHA	01-10-2009
30	1078776W	DFR	D NAGESHU	01-12-2009
31	1078011P	DFR	GAGINCH GANESH	01-10-2009
32	1079046X	DFR	GANESH CHANDER	01-01-2010
33	1079359W	DFR	KALI PADA BOSE	01-01-2010
34	1078964X	DFR	RAM PRABESH SINGH	01-12-2009
35	1078765K	DFR	RAM SURESH SINGH	01-12-2009
36	1078614L	DFR	RAMESH PRASAD BHARTIYA	01-11-2009
37	1079255P	DFR	RAN BAHADUR SINGH	01-01-2010
38	13965265N	DFR	RANGI LAL	01-12-2009
39	1078243N	DFR	ROSHAN LAL	01-10-2009
40	1077594W	DFR	SHIV DAYAL	01-09-2009
41	1078939Y	DFR	SUDAMA SINGH	01-12-2009
42	1079199F	DFR	VIDHYA PRAKASH RAM	01-01-2010
43	1079342H	DFR	VIJAY KUMAR	01-01-2010
44	1087579P	DFR	YUDVIR SINGH	01-11-2009

REGIMENT OF ARTILLERY

45	15106127A	HAV	A SENTHAMARAI	01-12-2009
46	14391072K	HAV	ABDUR RAHIM	01-10-2009
47	14390817A	HAV	ABHAY SINGH	01-09-2009
48	14392617H	HAV	ABRAHAM M V	01-11-2009
49	15104170H	HAV	ADI V RAMANA BABU	01-09-2009
50	14373639M	HAV	ADITYA KUMAR BISWAL	01-09-2009
51	14376343Y	HAV	AJAY KUMAR SINGH	01-11-2009
52	15104901L	HAV	AJAY KUMAR YADAV	01-10-2009
53	15103988L	HAV	AJIT KUMAR	01-09-2009
54	15106475F	HAV	AJIT SINGH	01-12-2009
55	15106432M	HAV	AKHAYA KUMAR DALAI	01-12-2009
56	14390447L	HAV	AMAL KAKATI	01-09-2009
57	15104451Y	HAV	AMAR NATH SINGH YADAV	01-09-2009
58	15104501Y	HAV	AMRIT DEB VERMA	01-09-2009
59	15105954W	HAV	ANAND MANI DIKSHIT	01-11-2009
60	15105332P	HAV	ANAND PRATAP SINGH	01-11-2009
61	15104775K	HAV	ANANT PAL	01-10-2009
62	14373523W	HAV	ANGAD SINGH	01-09-2009
63	14391874N	HAV	ANIL KUMAR S	01-10-2009
64	14489138L	HAV	ANIL KUMAR SINGH	01-01-2010
65	14374021A	HAV	ARAVINDAKSHAN P	01-09-2009
66	14377698W	HAV	ARUMUGAM K	01-12-2009
67	14487943W	HAV	ARUN KUMAR	01-11-2009
68	14373565H	HAV	ASHOK KUMAR	01-09-2009
69	14391568Y	HAV	ASHOK KUMAR	01-10-2009
70	14489366N	HAV	ASHOK YASHVANT MANE	01-01-2010
71	14393108W	HAV	ASHWANI KUMAR	01-12-2009
72	15106773X	HAV	ATTA MOHAN RAO	01-01-2010
73	15104181P	HAV	AVDESH KUMAR MISHRA	01-09-2009
74	14394733K	HAV	AWADHESH NARAYAN SINGH YADAV	01-01-2010
75	14391077H	HAV	AZIMUL HOQUE	01-10-2009
76	14391078L	HAV	B RAVI	01-10-2009
77	14376909F	HAV	BABU LAL	01-12-2009
78	14392090Y	HAV	BABU LAL YADAV	01-11-2009
79	14377124K	HAV	BABU RAM	01-12-2009
80	14374856P	HAV	BALA DIN	01-10-2009
81	14391238A	HAV	BALBIR SINGH	01-10-2009
82	14394042X	HAV	BALBIR SINGH	01-01-2010
83	14487109X	HAV	BALBIR SINGH	01-11-2009
84	15107133A	HAV	BALESHWAR MAHTO	01-01-2010
85	15104436K	HAV	BALJEET SINGH	01-09-2009
86	14392032P	HAV	BALJIT SINGH	01-11-2009
87	14392768F	HAV	BANKEY SINGH	01-11-2009
88	15104813P	HAV	BANWARI LAL SHARMA	01-10-2009
89	15105087X	HAV	BARIA BHARAT SINH VAJE SINM	01-10-2009
90	15105348A	HAV	BARIA DALSUKH BHAI SURSING BHAI	01-11-2009
91	15106888L	HAV	BED RAM AHIR	01-01-2010
92	14392293H	HAV	BHAGAT SINGH	01-11-2009

93	14391913F	HAV	BHAGWAN SINGH	01-10-2009
94	14377702N	HAV	BHAGWAN SINGH	01-12-2009
95	14488540H	HAV	BHAGWAN SINGH BISHT	01-12-2009
96	15107075F	HAV	BHAGWAN SRIRAM GADEKAR	01-01-2010
97	14487077A	HAV	BHAGWAT SINGH DHAPOLA	01-10-2009
98	15105394P	HAV	BHARAT SINGH	01-11-2009
99	15104593W	HAV	BHARAT SINGH	01-10-2009
100	14489263P	HAV	BHARAT SINHG	01-01-2010
101	14486576H	HAV	BHARIGU NATH SINGH	01-10-2009
102	14489118X	HAV	BHAWANI PHER	01-01-2010
103	14392565X	HAV	BHIM SINGH JAT	01-11-2009
104	14394375K	HAV	BHOOP SINGH YADAV	01-01-2010
105	14487039K	HAV	BHURA SINGH	01-10-2009
106	14393722L	HAV	BIDYADHAR PARIDA	01-12-2009
107	15104006A	HAV	BIJAY KUMAR SAHA	01-09-2009
108	15104098X	HAV	BIJAY PAL	01-09-2009
109	14378061Y	HAV	BIJAYA KUMAR PRASAD	01-01-2010
110	14373341H	HAV	BIJAYA KUMAR SATAPATHY	01-09-2009
111	15104396N	HAV	BIKASH CHANDRA SEN	01-09-2009
112	15104220H	HAV	BINAY KUMAR	01-09-2009
113	14391334P	HAV	BIPIN BEHARI PANDEY	01-10-2009
114	14377141K	HAV	BIPIN BIHARI ROUT	01-12-2009
115	15104131K	HAV	BIR SINGH RAWAT	01-09-2009
116	14392279W	HAV	BIR SINGH YADAV	01-11-2009
117	14376406W	HAV	BIRENDRA BAITHA	01-11-2009
118	15105287N	HAV	BIRMA RAM	01-10-2009
119	15105489P	HAV	BIRPAL SINGH BHADAURIA	01-11-2009
120	14376612A	HAV	BISHESHWAR SINGH	01-12-2009
121	14373545P	HAV	BISHNU DHARI SINGH	01-09-2009
122	14376274N	HAV	BODU RAM	01-11-2009
123	15107105N	HAV	BONTHA KASIAH	01-01-2010
124	14393383W	HAV	BRAHAD BAL SINGH	01-12-2009
125	14393962H	HAV	BRAHMA SINGH	01-01-2010
126	14392831L	HAV	BRANDAWAN SINGH	01-11-2009
127	15104887K	HAV	BRIJESH CHANDER	01-10-2009
128	14389838K	HAV	BUKA SANKARA RAO	01-09-2009
129	15106795W	HAV	C A RAMCHANDRA	01-01-2010
130	14394204X	HAV	C ISRAEL	01-01-2010
131	14374406X	HAV	C R JOSEPH	01-10-2009
132	14390453Y	HAV	C S CHOUDHARY	01-09-2009
133	14390995H	HAV	C Y MALLAPPA GOL	01-10-2009
134	14390648K	HAV	CHAND SINGH	01-09-2009
135	14488169Y	HAV	CHANDRA PAL SINGH	01-11-2009
136	15107215H	HAV	CHARANJIT SINGH	01-01-2010
137	14485753L	HAV	CHHAJU RAM	01-09-2009
138	14375570M	HAV	CHOTU RAM	01-11-2009
139	14377212A	HAV	D A S H BHAI	01-12-2009
140	14377177H	HAV	DABRAJ MARMU	01-12-2009
141	14392272M	HAV	DAL CHANDRA	01-11-2009
142	15106728L	HAV	DALBIR SINGH	01-01-2010

143	14391158H	HAV	DALBIR SINGH	01-10-2009
144	15106050H	HAV	DALEL SINGH	01-12-2009
145	14393524A	HAV	DAMOR RAMA BHAI NANA BHAI	01-12-2009
146	14390595W	HAV	DARBARA SINGH	01-09-2009
147	14487219M	HAV	DARSHAN SINGH RAWAT	01-10-2009
148	14376367H	HAV	DAYANAND KUMAR DAYALU	01-11-2009
149	14393726F	HAV	DEBENDRA DAS	31-10-2009
150	14488975L	HAV	DEEP SINGH	01-01-2010
151	15106323A	HAV	DESHRAJ SINGH TOMAR	01-12-2009
152	14392967P	HAV	DEVI SHARAN PRASAD	01-11-2009
153	14485814X	HAV	DEVINDER PRASAD SINGH	01-09-2009
154	14374185W	HAV	DHAN RAJ	01-10-2009
155	14391692A	HAV	DHANAN JOY TIWARI	01-10-2009
156	15105696F	HAV	DHANANJOY DAS	01-11-2009
157	15105564N	HAV	DHANVIR SINGH	01-11-2009
158	14374919M	HAV	DHARAMBIR SINGH	01-10-2009
159	14392924A	HAV	DHYANPAL SINGH	01-11-2009
160	14393053X	HAV	DILBAG SINGH NAIN	01-12-2009
161	14393529Y	HAV	DILBHAG SINGH	01-12-2009
162	15104921Y	HAV	DISSALVA V	01-10-2009
163	14394354N	HAV	DÜJENDER SINGH	01-01-2010
164	14389870Y	HAV	DWARIKA NATH SHARMA	01-09-2009
165	14390832N	HAV	E DEVA BATHAM	01-09-2009
166	14486869N	HAV	E SIRANJEEVULU	01-10-2009
167	14394067K	HAV	E SRIDHAR	01-01-2010
168	14378526N	HAV	ELLAPPA SATYAPPA DEMINA KOPPA	01-01-2010
169	14487716W	HAV	G G TORSALLE	01-11-2009
170	14392797W	HAV	G V RAO	01-11-2009
171	15104060N	HAV	GAJENDRA PAL SINGH	01-09-2009
172	14391314F	HAV	GANGA RAM	01-10-2009
173	14391850K	HAV	GANPATI PRASAD MISHRA	01-10-2009
174	14377045P	HAV	GAURANGA PARIDA	01-12-2009
175	14373472N	HAV	GAURI SHANKER	01-09-2009
176	15105026A	HAV	GIRDHARI LAL	01-10-2009
177	14393407P	HAV	GIRI JESH	01-12-2009
178	15106329F	HAV	GOPAL CHANDRA PRADHAN	01-12-2009
179	15106062X	HAV	GOPAL SINGH	01-12-2009
180	14373010F	HAV	GULAB SINGH	01-09-2009
181	15106922A	HAV	GUNNA KRISHNA RAO	01-01-2010
182	14392828L	HAV	GURCHARAN SINGH	01-11-2009
183	15106660P	HAV	GURDEV SINGH	01-01-2010
184	14487902M	HAV	GURDIAL SINGH	01-11-2009
185	15105742L	HAV	GURMEJ SINGH	01-11-2009
186	15105012A	HAV	GURNAM SINGH	01-10-2009
187	14488386P	HAV	GUTALE PRASAD KUSHWAH	01-12-2009
188	14374000K	HAV	H A KATHAL	01-09-2009
189	14377448P	HAV	H R F SAKKARKAR	01-12-2009
190	15105372W	HAV	HAKIM SINGH	01-11-2009
191	15104785N	HAV	HAKIM SINGH	01-10-2009
192	14393648P	HAV	HAKKE SHIVRAJ RAO SAHEB	01-12-2009

193	14389793P	HAV	HANIF KHAN	01-09-2009
194	14374695X	HAV	HANOMAN	01-10-2009
195	15106215W	HAV	HARENDRA NATH TIWARI	01-12-2009
196	15106182W	HAV	HARI KUMAR V	01-12-2009
197	14391579L	HAV	HARI SINGH	01-10-2009
198	14486680W	HAV	HARI SINGH SAHARAN	01-10-2009
199	15105374F	HAV	HARIOM DURGA PRASAD	01-11-2009
200	14488453P	HAV	HARISH CHANDRA MISRA	01-12-2009
201	14391499N	HAV	HEM KANTH BARMAN	01-10-2009
202	14374352F	HAV	HEM RAJ	01-10-2009
203	14394552Y	HAV	HIRA SINGH	01-01-2010
204	15103989N	HAV	HOSHIAR SINGH	01-09-2009
205	14383796M	HAV	I CHANDRAN	01-11-2009
206	14487128H	HAV	INDRA PAL SINGH KUSHWAH	01-11-2009
207	15107012Y	HAV	INDRAJ SINGH	01-01-2010
208	14378660Y	HAV	ISWAR SINGH	01-01-2010
209	14391224A	HAV	JADAV DATTAJI RAO NARAYAN RAO	01-10-2009
210	15104987P	HAV	JADAV VIJAY RAMCHANDRA	01-10-2009
211	15105294K	HAV	JADUBIR SINGH YADAV	01-10-2009
212	15107030F	HAV	JAGDISH PRASAD	01-01-2010
213	14374360A	HAV	JAGIR SINGH	01-10-2009
214	15105436W	HAV	JAGPAL SINGH	01-11-2009
215	15106593P	HAV	JAGTAR SINGH	01-01-2010
216	14391394K	HAV	JAGTAR SINGH	01-10-2009
217	14488267Y	HAV	JAI CHAND	01-12-2009
218	14489690L	HAV	JAI PRAKASH PANDEY	01-01-2010
219	14389950W	HAV	JAI SINGH	01-09-2009
220	14393212K	HAV	JAIPAL SINGH PARIHAR	01-12-2009
221	14392212X	HAV	JAMUNA PRASAD	01-11-2009
222	15104001F	HAV	JANAK DEV YADAV	01-09-2009
223	15104719L	HAV	JANAK KUMAR	01-10-2009
224	14489483Y	HAV	JANARDHAN TIWARI	01-01-2010
225	14488501K	HAV	JASWANT SINGH	01-12-2009
226	14393128K	HAV	JASWANT SINGH	01-12-2009
227	15104221L	HAV	JAYA RAMAN P	01-09-2009
228	14489107L	HAV	JAYAKRISHNA PRADHAN	01-01-2010
229	14391614H	HAV	JAYAKUMARAN K	01-10-2009
230	14390362P	HAV	JEET SINGH	01-09-2009
231	15107153N	HAV	JHAGARU RAM	01-01-2010
232	15106741P	HAV	JOGINDER KUMAR	01-01-2010
233	14392243X	HAV	JOGINDER SINGH	01-11-2009
234	15105487K	HAV	JOGINDER SINGH	01-11-2009
235	14393512L	HAV	JOGINDER SINGH	01-12-2009
236	14378490A	HAV	JOHN SON	01-01-2010
237	14389860P	HAV	JOSHY T V	01-09-2009
238	14486134K	HAV	JOT RAM	01-09-2009
239	14377779W	HAV	K MARIAPPAN	01-12-2009
240	14392388H	HAV	K NIRANJAN REDDY	01-11-2009
241	14378037H	HAV	K YARAYA	01-01-2010
242	14487799M	HAV	KABIR CHAND	01-11-2009

243	15105898H	HAV	KADAMBALA PAPA RAO	01-11-2009
244	14488730P	HAV	KAILASH CHAND GUJAR	01-12-2009
245	14389911X	HAV	KAKA RAM	01-09-2009
246	14374334Y	HAV	KALU RAM	01-10-2009
247	14392482M	HAV	KALWINDER SINGH	01-11-2009
248	15106925N	HAV	KAMACHHYA SINGH	01-01-2010
249	14488929W	HAV	KAMILESH PRASAD MISHR	01-01-2010
250	14375414H	HAV	KAMLESH KUMAR	01-11-2009
251	14487918X	HAV	KAMLESWAR RAY	01-11-2009
252	14377528M	HAV	KANDASAMY M	01-12-2009
253	15106010F	HAV	KARAM SINGH	01-12-2009
254	14391930F	HAV	KARAN SINGH YADAV	01-10-2009
255	14390994A	HAV	KARRA SESHAI AH	01-10-2009
256	15106473W	HAV	KARTAR SINGH	01-12-2009
257	14487590F	HAV	KASHMIR SINGH	01-11-2009
258	14377797Y	HAV	KESAR SINGH PARIHAR	01-01-2010
259	15106433P	HAV	KESHAVALA HARESH KUMAR HIRALAL	01-12-2009
260	14486606P	HAV	KEWEL SINGH	01-10-2009
261	14374389H	HAV	KHANINDRA NATH	01-10-2009
262	14374431W	HAV	KHEEM SINGH	01-10-2009
263	14393417Y	HAV	KHIM BAHADUR KUWAR	01-12-2009
264	15106632H	HAV	KHIM BAHADUR THAPA	01-01-2010
265	14488001M	HAV	KHUSHI RAM	01-11-2009
266	15106643P	HAV	KIRODI MAL	01-01-2010
267	14392720N	HAV	KIRTAN BIHARI NAIK	01-11-2009
268	14377788X	HAV	KISHAN LAL	01-01-2010
269	14393956P	HAV	KISHORE CHHETRI	01-01-2010
270	15105899L	HAV	KOMMANA KRISHNA RAO	01-11-2009
271	14390718X	HAV	KONARI DALAYYA	01-09-2009
272	14486105P	HAV	KRASHNA KUMAR	01-09-2009
273	15106757A	HAV	KRISHAN CHAND YADAV	01-01-2010
274	14487917P	HAV	KRISHAN CHOUDHARY	01-11-2009
275	14377873A	HAV	KRISHAN DEV PRASHAD	01-01-2010
276	15105114W	HAV	KRISHAN SINGH	01-10-2009
277	15106956N	HAV	KRISHNA DEO RAO	01-01-2010
278	14488750H	HAV	KRISHNA KUMAR	01-12-2009
279	14376480X	HAV	KRISHNADASAN M	01-11-2009
280	14376617Y	HAV	KUBER NATH THAKUR	01-12-2009
281	14391998H	HAV	KULDEEP SINGH	01-11-2009
282	15106254P	HAV	KULDIP RAJ	01-12-2009
283	15107203N	HAV	KULDIP SINGH	01-01-2010
284	15106764W	HAV	KUMAR	01-01-2010
285	14376592X	HAV	KUNWAR SINGH	01-09-2009
286	15104728M	HAV	LAK CHAND YADAV	01-10-2009
287	14376096W	HAV	LAKHAMI CHANDRA	01-11-2009
288	15105161N	HAV	LAKHWINDER SINGH	01-10-2009
289	14486570F	HAV	LAL BAHDUR ROY	01-10-2009
290	15104346H	HAV	LAL MAN	01-09-2009
291	14377889L	HAV	LAL MANI CHAUBE	01-01-2010
292	15106544M	HAV	LAL MANI YADAV	01-12-2009

293	14392235Y	HAV	LAL SAHEB MISHRA	01-11-2009
294	14392023N	HAV	LAL SINGH YADAV	01-11-2009
295	14394335H	HAV	LALIT KUMAR	01-01-2010
296	14390098M	HAV	LALTA PRASAD	01-09-2009
297	15106057M	HAV	LAXMAN RAM	01-12-2009
298	14373435A	HAV	LAXMAN SINGH	01-09-2009
299	15106789H	HAV	M A MOHAMED IBRAHIM	01-01-2010
300	14377736F	HAV	M D ABULESH	01-01-2010
301	15104968K	HAV	M D MUSLIM ANSARI	01-10-2009
302	14391331F	HAV	M D ZAINULDDIN KHALIFA	01-10-2009
303	14377855X	HAV	M NAGAPPAN	01-01-2010
304	15106644X	HAV	M R NARAYAN SAMY	01-01-2010
305	14375878A	HAV	M RAVI	01-11-2009
306	15104843M	HAV	M SAMPATHU	01-10-2009
307	14486316X	HAV	M SHANKARAPPA	01-10-2009
308	14392790M	HAV	MADAN BDR THAPA	01-11-2009
309	15105947A	HAV	MADAN DUBE	01-11-2009
310	14390473M	HAV	MADAN LAL	01-09-2009
311	15107123W	HAV	MADHUKAR	01-01-2010
312	15107806K	HAV	MAHA SINGH	01-01-2010
313	14391372L	HAV	MAHABIR PRASAD	01-10-2009
314	15107069N	HAV	MAHAJAN GORKHNATH BHAO	01-01-2010
315	14373474Y	HAV	MAHAVEER PRASAD SHARMA	01-09-2009
316	14392992N	HAV	MAHENDER PAL	01-12-2009
317	15105137X	HAV	MAHENDER SINGH	01-10-2009
318	14373381K	HAV	MAHENDER SINGH	01-09-2009
319	14391553W	HAV	MAHENDER SINGH	01-10-2009
320	15104875P	HAV	MAHENDRA SINGH MAWARI	01-10-2009
321	14487293N	HAV	MAHESH CHANDER	01-11-2009
322	14393547F	HAV	MAHESH SINGH	01-12-2009
323	14394538M	HAV	MAHIPAL SINGH	01-01-2010
324	14390253H	HAV	MAHIPAL SINGH	01-09-2009
325	14374239M	HAV	MAJOR SINGH	01-10-2009
326	14393415N	HAV	MAKHAN SINGH	01-12-2009
327	15105054M	HAV	MALLI MAHA DEV VIYYHAL	01-10-2009
328	14373740M	HAV	MAN SINGH	01-09-2009
329	15104599X	HAV	MAN SINGH	01-10-2009
330	14377896F	HAV	MANGAL SINGH	01-01-2010
331	14393248H	HAV	MANGE RAM	01-12-2009
332	15104214P	HAV	MANIKANDAN N	01-09-2009
333	14392314N	HAV	MANJEET SINGH	01-11-2009
334	14374306M	HAV	MAYAKANT MISHRA	01-10-2009
335	14390211W	HAV	MEGH NATH DHAKAL	01-09-2009
336	14392457N	HAV	MOHAN LAL	01-11-2009
337	14393175F	HAV	MOHAN SINGH	01-12-2009
338	14392239P	HAV	MOHAN SINGH	01-11-2009
339	15105123X	HAV	MOOLA RAM YADAV	01-10-2009
340	14499038N	HAV	MURARI LAL	01-11-2009
341	15106650L	HAV	MUTYALA NAGESWARA RAO	01-01-2010
342	14376304A	HAV	NAGAPP BASWANTAPPA	01-11-2009

343	15105065Y	HAV	NAHAR SINGH	01-10-2009
344	14376799X	HAV	NAND KISHOR RAM	01-12-2009
345	14488009Y	HAV	NANDA GOPAL MANDAL	01-11-2009
346	15104740N	HAV	NARAD SAH	01-10-2009
347	15105835A	HAV	NARAIN DASS	01-11-2009
348	14486624X	HAV	NARAIN SINGH	01-10-2009
349	14391733Y	HAV	NARENDRA KUMAR GURUNG	01-10-2009
350	14376622K	HAV	NARENDRA PANDEY	01-12-2009
351	14377198Y	HAV	NARESH CHANDRA	01-12-2009
352	15107192M	HAV	NARESH KUMAR	01-01-2010
353	15105211N	HAV	NARESH KUMAR	01-10-2009
354	14485695M	HAV	NARESH KUMAR	01-09-2009
355	14486532L	HAV	NARESH KUMAR YADAVA	01-10-2009
356	14376801K	HAV	NARESH PRASHAD SINGH	01-12-2009
357	14377649N	HAV	NARESWAR KHAKLARI	01-12-2009
358	15106332F	HAV	NAZIR AHMAD SHAH	01-12-2009
359	14392077P	HAV	NETRE PAL SINGH	01-11-2009
360	14393218L	HAV	NIRANJAN SINGH	01-10-2009
361	15105047W	HAV	NIRENCH NATH	01-10-2009
362	14376554F	HAV	NIVAS KUMAR SWAIN	01-11-2009
363	14378632M	HAV	NUR NOBI SEIKH	01-01-2010
364	15105445X	HAV	OM PRAKASH	01-11-2009
365	14377182N	HAV	OM PRAKASH	01-12-2009
366	15104278A	HAV	OM PRAKASH	01-09-2009
367	15104499M	HAV	OM PRAKASH	01-10-2009
368	15104404F	HAV	OM PRAKASH SHISODIA	01-09-2009
369	14392704W	HAV	OMANA KANABARKAR	01-11-2009
370	14390533W	HAV	OMVIR SINGH	01-09-2009
371	15104664M	HAV	P C S NAIDU	01-10-2009
372	14389955P	HAV	PABEN CH ROY	01-09-2009
373	14375426X	HAV	PALANI K	01-11-2009
374	15104073L	HAV	PALWINDER SINGH	01-09-2009
375	14391836X	HAV	PANCHANAN MISRA	01-10-2009
376	15106233Y	HAV	PARAMJIT SINGH	01-12-2009
377	14391939W	HAV	PARAMJIT SINGH	01-10-2009
378	14393807F	HAV	PARAMJIT SINGH	01-12-2009
379	15103998P	HAV	PARASHU PATHAK	01-09-2009
380	15106218K	HAV	PARESHNATH GHOSH	01-12-2009
381	15104713K	HAV	PARSURAM SINGH	01-10-2009
382	14374639Y	HAV	PARVEEN SINGH	01-10-2009
383	14394624X	HAV	PATI FATTE SINGH KRISHNA	01-01-2010
384	14377027M	HAV	PATI RAM SINGH	01-12-2009
385	14376809W	HAV	PEMI SYAM SUNDER	01-12-2009
386	15103933F	HAV	PHOOL SINGH	01-09-2009
387	14389965Y	HAV	PIAR CHAND	01-09-2009
388	14392159X	HAV	PRABHAT CHAND	01-11-2009
389	14392539W	HAV	PRABHU DAYAL	01-11-2009
390	14376526P	HAV	PRADIP KUMAR	01-11-2009
391	14390724L	HAV	PRAJA PATI LALJI BHAI VITHAL BHAI	01-09-2009
392	15104760F	HAV	PRAKASH CHAND	01-10-2009

393	15106205M	HAV	PRAMOD SINGH	01-12-2009
394	15106770K	HAV	PRATAP SINGH	01-01-2010
395	15104942P	HAV	PRAVAKAR LENKA	01-10-2009
396	14489480L	HAV	PRAVEEN KUMAR	01-01-2010
397	14487328Y	HAV	PREM CHAND	01-11-2009
398	14393694K	HAV	PRITAM SINGH	01-12-2009
399	14390462A	HAV	PURAN CHANDRA MURMU	01-09-2009
400	15106138M	HAV	PURAN SINGH	01-12-2009
401	15103911H	HAV	PURAN SINGH	01-09-2009
402	15104129M	HAV	R P KUSHWAHA	01-09-2009
403	14377595X	HAV	R RAVI	01-12-2009
404	14389973X	HAV	RABIN CH DAS	01-09-2009
405	15104886F	HAV	RABINDER NATH SINGH	01-10-2009
406	14393294X	HAV	RADHAKRISHNAN R	01-12-2009
407	15106124M	HAV	RADHEY SHYAM SINGH	01-12-2009
408	14390314P	HAV	RAFIULLA B A	01-09-2009
409	14390594N	HAV	RAGHBIR SINGH	01-09-2009
410	14394141A	HAV	RAGHUMANI BISWAL	01-01-2010
411	14392774P	HAV	RAJ KANWAR	01-11-2009
412	15104409A	HAV	RAJA M	01-09-2009
413	14393340F	HAV	RAJASEKHARAN G	01-12-2009
414	15104967F	HAV	RAJDEV PRASAD SINGH	01-10-2009
415	15106178N	HAV	RAJEEV KUMAR SINGH	01-12-2009
416	15104555A	HAV	RAJENDER PANDIT	01-10-2009
417	15103847W	HAV	RAJENDER PRASAD	01-09-2009
418	15104210Y	HAV	RAJENDER PRASAD SAH	01-09-2009
419	15103956H	HAV	RAJENDER SINGH	01-09-2009
420	14375717X	HAV	RAJENDER SINGH	01-11-2009
421	14375163K	HAV	RAJENDRA	01-10-2009
422	14489265A	HAV	RAJENDRA KUMAR	01-01-2010
423	14376398H	HAV	RAJENDRA PRASAD VERMA	01-11-2009
424	14394402H	HAV	RAJENDRA PRASAD YADAVA	01-01-2010
425	14488181A	HAV	RAJENDRA SINGH	01-12-2009
426	14392526Y	HAV	RAJENDRA SINGH	01-11-2009
427	14487265F	HAV	RAJENDRA SINGH	01-11-2009
428	14489357M	HAV	RAJENDRA SINGH	01-01-2010
429	14390772L	HAV	RAJESH KUMAR MISHRA	01-09-2009
430	14393490X	HAV	RAJINDER KUMAR	01-12-2009
431	14488486A	HAV	RAJPAL SINGH	01-12-2009
432	15106028X	HAV	RAJPAL SINGH	01-12-2009
433	15106857L	HAV	RAJPAL YADAV	01-01-2010
434	14373867P	HAV	RAJU BALMIKI	01-09-2009
435	15106130A	HAV	RAKESH CHANDRA	01-12-2009
436	14486179K	HAV	RAM BABU SHARMA	01-09-2009
437	14376546H	HAV	RAM BABU SINGH	01-11-2009
438	14377704Y	HAV	RAM BHAN SINGH	01-12-2009
439	15104896L	HAV	RAM BILASH SINGH	01-10-2009
440	15105973F	HAV	RAM DAS SINGH BAGHEL	01-12-2009
441	14376085K	HAV	RAM GOPAL	01-11-2009
442	14488018A	HAV	RAM GOPAL GARG	01-11-2009

443	14373612P	HAV	RAM GULAM	01-09-2009
444	14485773Y	HAV	RAM KISHOR	01-09-2009
445	14394372W	HAV	RAM KRISHAN YADAV	01-01-2010
446	14374468X	HAV	RAM KUMAR	01-10-2009
447	14375096K	HAV	RAM KUMAR	01-10-2009
448	14377156M	HAV	RAM NARAYAN RAM	01-12-2009
449	14489627W	HAV	RAM NARESH YADAV	01-01-2010
450	14489611L	HAV	RAM PARASH PANDIT	01-01-2010
451	14393902N	HAV	RAM RAJ SHARMA	01-01-2010
452	14376492M	HAV	RAM SAHIS RAM	01-11-2009
453	14374693M	HAV	RAM SAJIWAN	01-10-2009
454	14390067M	HAV	RAM SAKAL RAI	01-09-2009
455	14373486N	HAV	RAM SAREK RAY	01-09-2009
456	14377647H	HAV	RAM SARIKHA SINGH	01-12-2009
457	14374339X	HAV	RAM SHANKAR RAM	01-10-2009
458	14390115F	HAV	RAM VAKIL	01-09-2009
459	14488457L	HAV	RAM VILAS SINGH	01-12-2009
460	14373685F	HAV	RAM VIR	01-09-2009
461	14389994N	HAV	RAMA SHANKAR SINGH	01-09-2009
462	14377239X	HAV	RAMAN JHA	01-12-2009
463	15106284M	HAV	RAMANAND	01-12-2009
464	14389775M	HAV	RAMESH CHAND	01-09-2009
465	14376763Y	HAV	RAMESH CHANDRA SINGH	01-12-2009
466	14393484K	HAV	RAMESH KUMAR	01-12-2009
467	14390383L	HAV	RAMESH SINGH	01-09-2009
468	14392076M	HAV	RAMESWAR DAYAL	01-11-2009
469	14375644W	HAV	RAMJI PANDEY	01-11-2009
470	14373869A	HAV	RAMPAL	01-09-2009
471	14488799Y	HAV	RAMPAL SINGH	01-12-2009
472	15106880Y	HAV	RAMPAT SINGH	01-01-2010
473	14392990H	HAV	RAMVIR SINGH	01-11-2009
474	15106372H	HAV	RANBIR SINGH	01-12-2009
475	15106887H	HAV	RANDHIR SINGH	01-01-2010
476	14392730X	HAV	RANG BAHADUR SINGH	01-11-2009
477	14377926N	HAV	RANJEET SINGH	01-01-2010
478	15104456X	HAV	RATAN SINGH	01-09-2009
479	14392066H	HAV	RATAN SINGH RATHORE	01-11-2009
480	15105185X	HAV	RATNESWAR HAZARIKA	01-10-2009
481	14489247X	HAV	RATTAN LAL	01-01-2010
482	15104150P	HAV	RAVENDRA SINGH LAMA	01-09-2009
483	14394415A	HAV	RAVI BHAN RAI	01-01-2010
484	14389727M	HAV	RAVINDAR KUMAR	01-09-2009
485	14374312A	HAV	RAVINDRA SINGH YADAVA	01-10-2009
486	15105179K	HAV	REVANNA	01-10-2009
487	14487349P	HAV	ROOP NARAIN	01-11-2009
488	14375761F	HAV	RUDRAPPA PARAPPA DYANNAVAR	01-11-2009
489	14378771W	HAV	S C TIKADER	01-01-2010
490	14375164M	HAV	S N AWASTHI	01-10-2009
491	14392246L	HAV	S N SINGH	01-11-2009
492	15106923H	HAV	S R VISWANATHAM	01-01-2010

493	15105955Y	HAV	S SARAVANAN	01-11-2009
494	15106531P	HAV	SAJEEV C M	01-12-2009
495	15106002H	HAV	SANAP VISHNU UMAJI	01-12-2009
496	15106101L	HAV	SANGRAM RAM CHOUDHARY	01-12-2009
497	14373583L	HAV	SANJEEB KUMAR	01-09-2009
498	15104143Y	HAV	SANT RAJ SINGH	01-09-2009
499	14488794A	HAV	SANT RAM	01-12-2009
500	14392093M	HAV	SANTOSH KUMAR MISHRA	01-11-2009
501	14393367Y	HAV	SANWAR MAL SHARMA	01-12-2009
502	14489187N	HAV	SARAT KUMAR PANIGRAHI	01-01-2010
503	15106965P	HAV	SARDAR SINGH	01-01-2010
504	14487320M	HAV	SASI KUMAR KK	01-11-2009
505	15105015N	HAV	SAT PAUL	01-10-2009
506	14373449A	HAV	SATBIR	01-09-2009
507	15105655X	HAV	SATBIR SINGH	01-11-2009
508	14391969N	HAV	SATBIR SINGH	01-11-2009
509	15107198N	HAV	SATGUR SINGH	01-01-2010
510	15104349W	HAV	SATYA VEER SINGH	01-09-2009
511	14375792F	HAV	SATYENDRA PANDEY	01-11-2009
512	14373644X	HAV	SEHDEO SINGH	01-09-2009
513	14374454X	HAV	SEWA SINGH	01-10-2009
514	15105613L	HAV	SHAM SHER SINGH	01-11-2009
515	14390947H	HAV	SHAM SINGH	01-10-2009
516	15104947N	HAV	SHAMBHU SHARAN MISHRA	01-10-2009
517	14390411M	HAV	SHANMUGAM S	01-09-2009
518	14392840M	HAV	SHER SINGH RAGHAV	01-11-2009
519	14390245K	HAV	SHISHUPAL SINGH NEGI	01-09-2009
520	15106837X	HAV	SHIV CHARAN YADAV	01-01-2010
521	14378030Y	HAV	SHIV NARAYAN PRASAD	01-01-2010
522	15104704H	HAV	SHIV PRASAD	01-10-2009
523	15107080M	HAV	SHYAM KANTA SINHA	01-01-2010
524	14393582K	HAV	SIRAJULALI BARBHUIYA	01-12-2009
525	14487916M	HAV	SITA RAM TIWARI	01-11-2009
526	14375522M	HAV	SOHAN LAL	01-11-2009
527	14377288A	HAV	SUBHANA	01-12-2009
528	15105090X	HAV	SUBHASH CHAND	01-10-2009
529	14394526X	HAV	SUBHASH CHAND	01-01-2010
530	14394196K	HAV	SUBODH KUMAR	01-01-2010
531	15104443A	HAV	SUDESH PAL SINGH	01-09-2009
532	15106177L	HAV	SUKHWINDER SINGH	01-12-2009
533	14393104A	HAV	SUKHWINDER SINGH	01-12-2009
534	14375106H	HAV	SUNANDA NEOG	01-10-2009
535	15104209K	HAV	SUNIL DUTT SAH	01-09-2009
536	15105560X	HAV	SUNIL KUMAR	01-11-2009
537	14488606N	HAV	SURAJ MAL	01-12-2009
538	14487384X	HAV	SURENDER KUMAR	01-11-2009
539	15106550A	HAV	SURENDER NATH YADAV	01-12-2009
540	15106866M	HAV	SURENDER SINGH	01-01-2010
541	14373819P	HAV	SURESH BABU CHANDROTH	01-09-2009
542	15105934H	HAV	SURESH CHANDER YADAV	01-11-2009

543	15105622M	HAV	SURESH KUMAR	01-11-2009
544	14391920X	HAV	SURESH SINGH KUSHWAH	01-10-2009
545	14378673W	HAV	SURESH SINGH YADAV	01-01-2010
546	15103879Y	HAV	SURJEET KUMAR	01-09-2009
547	14393153H	HAV	SURJIT SINGH	01-12-2009
548	14374960H	HAV	SURY DEO PRASAD	01-10-2009
549	14490538K	HAV	SWAMINATH PRASAD	01-09-2009
550	14390639H	HAV	T MUNI RAJULU	01-09-2009
551	14374347W	HAV	T VEERAPPAN	01-10-2009
552	14374827A	HAV	TALAGAVALASA PAPA RAO	01-10-2009
553	14391982X	HAV	TEK BAHADUR PARDHAN	01-11-2009
554	14392849F	HAV	TERERO RAM	01-11-2009
555	14390194F	HAV	TERSEM SINGH	01-09-2009
556	15107170N	HAV	THAKUR DAS BAGHEL	01-01-2010
557	14390910F	HAV	THIRAN NAIK	01-10-2009
558	14392350Y	HAV	THOMAS M	01-11-2009
559	15105426M	HAV	TILAK RAJ PATHANIA	01-11-2009
560	14377422A	HAV	TILAK SINGH	01-12-2009
561	14373623F	HAV	TRIPURARI MISHRA	01-09-2009
562	14375500N	HAV	TURANDER RAM	01-11-2009
563	14394332P	HAV	UHAB MAHAMMED	01-01-2010
564	14375698X	HAV	UMA KANT PRASAD	01-11-2009
565	14393875P	HAV	UMMED SINGH	01-01-2010
566	15106892N	HAV	UMRAO SINGH	01-01-2010
567	14392658M	HAV	UTTAM NANDY	01-11-2009
568	14389952F	HAV	UTTAM SINGH	01-09-2009
569	14374010N	HAV	V NAGANATHAN	01-09-2009
570	14374675K	HAV	V SETTU	01-10-2009
571	14378003P	HAV	VEDPAL	01-01-2010
572	14392574Y	HAV	VEER SINGH YADAV	01-11-2009
573	14486808W	HAV	VENUKUTTAN PILLAI K P	01-10-2009
574	15106406L	HAV	VHARE DTTATRAY CHANGDEO	01-12-2009
575	14378477W	HAV	VIBEKANANDA JANA	01-01-2010
576	15107223F	HAV	VIDYA PRAKASH SINGH	01-01-2010
577	14391270P	HAV	VIJAY KUMAR	01-10-2009
578	14378134A	HAV	VIJAY KUMAR	01-01-2010
579	14393693F	HAV	VIJAY PRAKASH	01-12-2009
580	14486647Y	HAV	VIJAY SINGH	01-10-2009
581	14392193X	HAV	VIJENDER KUMAR	01-11-2009
582	14393620P	HAV	VIJENDRA SHARMA	01-12-2009
583	14392000M	HAV	VIKRAM SINGH	01-11-2009
584	14377003H	HAV	VINAY KUMAR SINGH	01-12-2009
585	14376051W	HAV	VINOD KUMAR	01-11-2009
586	15107183L	HAV	VISHWAMBHAR DAYAL YADAV	01-01-2010
587	14489852L	HAV	VISHWANATH SINGH	01-01-2010
588	14394024P	HAV	VURITI SURESH BABU	01-01-2010
589	15106596H	HAV	YADVENDRA SINGH	01-01-2010
590	14486467W	HAV	YESHPAL	01-10-2009
591	15104797H	HAV	ZILE SINGH	01-10-2009

ARMY AIR DEFENCE

592	14390249A	HAV	ABRAR HUSEN	01-09-2009
593	14488056W	HAV	AJAY KUMAR MISHRA	01-11-2009
594	14391267P	HAV	ALEXANDER THOMAS	01-10-2009
595	14392248W	HAV	ANIL KUMAR S	01-11-2009
596	14393326P	HAV	ARUN KUMAR SHUKLA	01-12-2009
597	14377774X	HAV	AVDH RAJ SINGH	01-01-2010
598	14391233F	HAV	BALBIR SINGH	01-10-2009
599	14393359A	HAV	BALWAN SINGH	01-12-2009
600	14391975F	HAV	BHARAT LAL	01-11-2009
601	14389817N	HAV	C JAYA SANKAR	01-09-2009
602	14392843A	HAV	CHANDER SINGH	01-11-2009
603	14390779P	HAV	CHANDRA BHAN SINGH	01-09-2009
604	14389891P	HAV	DALJIT SINGH	01-09-2009
605	14376969W	HAV	DAMODAR MOHANTY	01-12-2009
606	14393046F	HAV	DAYANAND	01-12-2009
607	14487955L	HAV	DEVENDER PRASAD SINGH	01-11-2009
608	14393316L	HAV	DHARAMVIR	01-12-2009
609	14374444N	HAV	DINESH KUMAR VERMA	01-10-2009
610	15105802P	HAV	ENNU RAM	01-11-2009
611	14392713X	HAV	GANGA RAM	01-11-2009
612	14391148Y	HAV	GULDEV SINGH	01-10-2009
613	14374928N	HAV	JAGDISH PRASAD	01-10-2009
614	14390741L	HAV	JAI PRAKASH CHOUHAN	01-09-2009
615	14378402Y	HAV	JHAGRU RAM	01-01-2010
616	14390799H	HAV	JOGINDER SINGH	01-09-2009
617	14392734N	HAV	KAMLESHWAR UPADHYAY	01-11-2009
618	14374628M	HAV	KASHMIR SINGH	01-10-2009
619	14390192W	HAV	KHET SINGH	01-09-2009
620	14489319W	HAV	KHOGEN CHANDRA ROY	01-01-2010
621	14391059A	HAV	KULDEEP CHAND	01-10-2009
622	14375391M	HAV	LALOO SINGH	01-11-2009
623	14392081X	HAV	LEELA RAM JAT	01-11-2009
624	14394735P	HAV	MODALA KRISHNA RAO	01-01-2010
625	14373812L	HAV	N NAGESWARA RAO	01-09-2009
626	15107990A	HAV	NETRA SINGH	01-12-2009
627	14378646M	HAV	NINGAPPA DODDANAVAR	01-01-2010
628	15105323Y	HAV	NIRMAL KUMAR	01-11-2009
629	14392532M	HAV	OM PRAKASH	01-11-2009
630	15104295A	HAV	OMPRAKASH	01-09-2009
631	14394589A	HAV	P RAVINDRA AMRUT RAO	01-01-2010
632	15106020L	HAV	PAPINDER SINGH	01-12-2009
633	14376325W	HAV	PRODIP KR BORA	01-11-2009
634	14375809K	HAV	PURAN SINGH	01-11-2009
635	14378022A	HAV	R MAHADEO RAO JUNGARE	01-01-2010
636	14376436N	HAV	RAJ KISHOR	01-11-2009
637	15105732F	HAV	RAJEEV LOCHAN MISHRA	01-11-2009
638	14373340A	HAV	RAKESH KUMAR	01-09-2009
639	14374582P	HAV	RAM LAKHAN	01-10-2009

640	14377795N	HAV	RAM NARESH SINGH	01-01-2010
641	14389894H	HAV	RAM NIVAS PAL	01-09-2009
642	14378086L	HAV	RAMESH CHANDRA BISWAL	01-01-2010
643	14378630F	HAV	RATTAN LAL	01-01-2010
644	14394723A	HAV	RAVI R	01-01-2010
645	14394249X	HAV	SATISH CHAND	01-01-2010
646	14390975P	HAV	SHISH RAM JAT	01-10-2009
647	14377578X	HAV	SHIV DATT	01-12-2009
648	14391989F	HAV	SIYA RAM KUMAR	01-11-2009
649	14389995W	HAV	SUDHANGSU SATPATI	01-09-2009
650	14393414L	HAV	SUDHIS KUMAR R	01-12-2009
651	14394450H	HAV	SUKHDEV SINGH	01-01-2010
652	14391038K	HAV	SUNIL KUMAR SINGH	01-10-2009
653	14376513X	HAV	SURENDRA RAM	01-11-2009
654	15107000K	HAV	SURESH	01-01-2010
655	15106736K	HAV	SURJIT SINGH	01-01-2010
656	14394077N	HAV	T BOOPALAN	01-01-2010
657	14389875X	HAV	TAMAL CHANDRA DUTTA	01-09-2009
658	15106536N	HAV	THANESWAR GOGOI	01-12-2009
659	15106420X	HAV	V SAVARI MUTHU	01-12-2009
660	14374930L	HAV	VED RAM	01-10-2009
661	14374611Y	HAV	VIJAY SHANKAR TIWARI	01-10-2009
662	14377013M	HAV	YUGAL SINGH	01-12-2009

MADRAS ENGINEER GROUP

663	1378702A	HAV	A JAYARAMAN	01-09-2009
664	15300646W	HAV	A MARIASELVAM	01-11-2009
665	15300293F	HAV	A NALLATHAMBI	01-09-2009
666	15300981A	HAV	A THANGARAJ	01-01-2010
667	15300568K	HAV	AJAYA KUMAR V K	01-11-2009
668	15300528H	HAV	AMUDALA SUBRAMANYAM	01-10-2009
669	1379537M	HAV	ANIL KUMAR D K	01-12-2009
670	1379821H	HAV	ARVINDAKSHAN K	01-01-2010
671	1380099F	HAV	BALARAMAN D	01-01-2010
672	15300865X	HAV	BASAVARAJ MALLAPPA AGADI	01-12-2009
673	1378817N	HAV	BHIMAPPA BEERANAGADDI	01-09-2009
674	1379609L	HAV	BHIMAVARAPU PEDDI RAJU	01-12-2009
675	1379602F	HAV	C JEYA SINGH	01-12-2009
676	15300323N	HAV	C PONNURANGAM	01-09-2009
677	15300303A	HAV	C SUBRAMANI	01-09-2009
678	1379090A	HAV	CHANDRAKANT MOTI	01-11-2009
679	15300694W	HAV	D K RAMACHANDERJI	01-11-2009
680	15300361K	HAV	DAKSHINA MOORTHY K	01-09-2009
681	1380231W	HAV	DASARATHAN R	01-01-2010
682	15300271H	HAV	DHASTHAGEER A	01-09-2009
683	15300461P	HAV	EMMANVEL	01-10-2009
684	15300960K	HAV	ENUMULA CHENNA KRISHNAIAH	01-12-2009
685	1378978W	HAV	G ANANDA NAIDU	01-10-2009
686	15300678Y	HAV	G ANNAMALAI	01-11-2009
687	15300570F	HAV	G APPANASAMY	01-11-2009

688	1379176Y	HAV	GANGINENI THUKARAM	01-12-2009
689	1379945X	HAV	GOREPALLI PAPA RAO	01-01-2010
690	1379070M	HAV	GOVINDARAJ G	01-11-2009
691	15300756L	HAV	HANAMANTAPPA KALI	01-11-2009
692	1380039M	HAV	J ANTONI SAMY	01-01-2010
693	1378935F	HAV	J RAYAR	01-10-2009
694	1379833X	HAV	JAMES T P	01-01-2010
695	15300421N	HAV	JOY KA	01-09-2009
696	1380013X	HAV	K ARUMUGAM	01-01-2010
697	1379137A	HAV	K M SUBRAMANI	01-11-2009
698	1378652A	HAV	K MUNIRATHNAM MANDADI	01-09-2009
699	15300278M	HAV	K MURUGADHAS	01-09-2009
700	1379294M	HAV	KAMAL SINGH	01-12-2009
701	1379584K	HAV	KANAGALA VNR KOTAIAH	01-12-2009
702	15300370L	HAV	KHAJA HUSSAIN P A	01-09-2009
703	1379168A	HAV	KISHORI BHAGAT	01-11-2009
704	15300809Y	HAV	KOMMU SUBRAMANYAM	01-11-2009
705	1378737W	HAV	KRISHNA PRAKASH SINGH	01-09-2009
706	15300434L	HAV	L PUSHPARAJ	01-09-2009
707	1379856Y	HAV	M AMASI	01-01-2010
708	15300661L	HAV	M HARICHANDRAN	01-11-2009
709	15300705X	HAV	M KARUNANIDHI	01-11-2009
710	1379653P	HAV	M KARUNANITHY	01-01-2010
711	15300876K	HAV	M KATHIRESAN	01-12-2009
712	1379066K	HAV	M LOKHANADHA REDDY	01-11-2009
713	15300618K	HAV	M MUTHURAMALINGAM	01-11-2009
714	15300305L	HAV	M NARAYANA	01-09-2009
715	15300319L	HAV	M NARAYANAN	01-09-2009
716	1379876M	HAV	M VIJAYA KANTHAN	01-01-2010
717	15300662N	HAV	MAGENDRAN J	01-11-2009
718	1379733M	HAV	MAMMEN MATHEW	01-01-2010
719	15300996H	HAV	MANDUVA SUDHAKAR	01-01-2010
720	15300636M	HAV	MOHAMAD RAHANIA THULLAH SHAREEF	01-11-2009
721	15300902A	HAV	MOHAMMED SHARIFF	01-12-2009
722	15300606P	HAV	MOHANAN K V V	01-11-2009
723	1379318L	HAV	MOHANDASAN P	01-12-2009
724	15300951H	HAV	MUTHUKRISHNAN G	01-12-2009
725	1378726K	HAV	N DURAI RAJ	01-09-2009
726	1379219H	HAV	N VISWANDHAIAH	01-11-2009
727	1379316A	HAV	NAGAPPA VITHAL MADIWALER	01-12-2009
728	1380087M	HAV	NAGENDIRAN J	01-01-2010
729	1378809P	HAV	NINGANA GOUDA PATIL	01-09-2009
730	1378980N	HAV	P DHANANJAYA CHETTY	01-10-2009
731	1380065N	HAV	P JAYAPALAN	01-01-2010
732	1379175W	HAV	P MANI	01-11-2009
733	15300583Y	HAV	P THAVAMANI	01-11-2009
734	15300693N	HAV	PANDANA BOINAI RANGAIAH	01-11-2009
735	1379716M	HAV	PANDIAN K	01-01-2010
736	1378741Y	HAV	PANEER SALVAM P	01-09-2009
737	1380212L	HAV	PEETHAMBARAN K	01-01-2010

738	1380024K	HAV	PRAKASAN ARANGATH	01-01-2010
739	1380233F	HAV	R ANANDAN	01-01-2010
740	15300985W	HAV	R BALA SEKARAN	01-01-2010
741	15300306N	HAV	R MANI	01-09-2009
742	1380095L	HAV	R MANOHARAN	01-01-2010
743	15300807N	HAV	R RAJAMANOHRAN	01-11-2009
744	1378751H	HAV	R RAVI	01-09-2009
745	1379850X	HAV	RADHA KRISHNAN P P	01-01-2010
746	1379846P	HAV	RAJENDIRAN PG	01-01-2010
747	15300481H	HAV	RAJESH KUMAR	01-10-2009
748	1379812F	HAV	RAVEENDRAN C	01-01-2010
749	1379997N	HAV	REGHU NANDAN G	01-01-2010
750	1379216P	HAV	S LOURDU	01-12-2009
751	1379237L	HAV	S MARHIALAGAN	01-11-2009
752	15301023Y	HAV	S RAJA REDDY	01-01-2010
753	15300775W	HAV	S SUNDARAMURTHY	01-11-2009
754	1380173X	HAV	S THIRUMOORTHY	01-01-2010
755	15300284A	HAV	SAJEEV M	01-09-2009
756	15300666K	HAV	SANTHOSH BABU K	01-11-2009
757	15300631N	HAV	SHAIK MAHAMMAD HUSSAIN	01-11-2009
758	1378953K	HAV	SREENIVAS	01-10-2009
759	15300593H	HAV	SRINIVASAN S	01-11-2009
760	15300346P	HAV	SUBBAIAH A K	01-09-2009
761	15300808W	HAV	SUNDARA MOORTHY G	01-11-2009
762	1379836L	HAV	SURENDRAN N	01-01-2010
763	15300659N	HAV	SURESH P R	01-11-2009
764	1380157A	HAV	UNGARALA KRISHNA RAO	01-01-2010
765	1379243Y	HAV	YENUGOPALAN K	01-11-2009
766	1378707Y	HAV	VINCENT	01-09-2009
<u>BENGAL ENGINEER GROUP</u>				
767	1473000M	HAV	A MURUGAN	01-12-2009
768	1472593X	HAV	ADITYA KUMAR DUBEY	01-10-2009
769	1478789F	HAV	AJIT SINGH	01-12-2009
770	1473389L	HAV	AMAR NATH SHARMA	01-01-2010
771	1473372X	HAV	AMAR SINGH	01-01-2010
772	1473217W	HAV	ANGREJ SINGH	01-12-2009
773	1472381M	HAV	ARVIND KUMAR SINGH	01-10-2009
774	1473052H	HAV	ASHISH KUMAR JHA	01-12-2009
775	1477814H	HAV	BABBAN SINGH	01-09-2009
776	1472488F	HAV	BAL KRISHAN JOSHI	01-10-2009
777	1478146K	HAV	BALDEV SINGH	01-10-2009
778	1478741N	HAV	BALWAN	01-12-2009
779	1478034P	HAV	BALWINDER SINGH	01-09-2009
780	1472530P	HAV	BANSI LAL	01-10-2009
781	1478824Y	HAV	BHAGAT NIRANJAN SUDAM	01-01-2010
782	1472622F	HAV	BHARAT SINGH RAWAT	01-10-2009
783	1472739A	HAV	BHARAT SINGH THAPA	01-11-2009
784	1477972X	HAV	BHASKAR DATT	01-09-2009
785	1472463P	HAV	BHUNESHWAR YADAV	01-10-2009

786	1472445M	HAV	BRIJ RAJ SINGH	01-10-2009
787	1472374W	HAV	CHANDER MANI JOSHI	01-10-2009
788	1472615L	HAV	CHANDRA SINGH	01-10-2009
789	1475402H	HAV	DAMBARUDHAR THAKURIA	01-01-2010
790	1472464X	HAV	DEO NARAYAN MAHTO	01-10-2009
791	1478441M	HAV	DEV SINGH	01-11-2009
792	1478259M	HAV	DEVENDER	01-10-2009
793	1473140Y	HAV	DEVENDER SINGH NEGI	01-12-2009
794	1478618P	HAV	DHARAM SINGH	01-12-2009
795	1478939M	HAV	DHARAMBIR	01-01-2010
796	1473382F	HAV	DILBAGH SINGH	01-01-2010
797	1472844W	HAV	DINA PRASAD	01-11-2009
798	1472544P	HAV	DUNGER SINGH	01-10-2009
799	1473081X	HAV	DURGA PADA ROY	01-12-2009
800	1478729M	HAV	DURVIJAI SINGH	01-12-2009
801	1473062M	HAV	GAMBHIR SINGH	01-12-2009
802	1472796F	HAV	GANGA PRASAD	01-10-2009
803	1478106H	HAV	GOPAL CHANDRA ROY	01-10-2009
804	1473068N	HAV	GOPAL DATT JOSHI	01-12-2009
805	1473460N	HAV	HANSLAL SINGH	01-01-2010
806	1475931P	HAV	HARI BAHADUR	01-10-2009
807	1473109M	HAV	HARISH CHANDRA	01-12-2009
808	1473169F	HAV	HOTI LAL	01-12-2009
809	1473354P	HAV	JAGDAMBA PRASAD	01-01-2010
810	1472609X	HAV	JAGDISH SINGH	01-10-2009
811	1473142K	HAV	JAGMOHAN SINGH	01-12-2009
812	1472184K	HAV	JAI BEER SINGH	01-09-2009
813	1475147F	HAV	JAI MANGAL RAI	01-12-2009
814	1472838H	HAV	JEEWAN SINGH	01-11-2009
815	1472760H	HAV	JOGENDER NATH PATOR	01-11-2009
816	1478548F	HAV	JUGAL KISHOR	01-12-2009
817	1473302Y	HAV	KABI RAJ BISWAL	01-01-2010
818	1478418Y	HAV	KAMAL SINGH	01-11-2009
819	1472148Y	HAV	KAMAN SINGH	01-09-2009
820	1472489K	HAV	KARAN SINGH	01-10-2009
821	1473468A	HAV	KESHAR SINGH	01-01-2010
822	1472349X	HAV	KHOGESHWAR DUTTA	01-09-2009
823	1478156N	HAV	LAKHWINDER SINGH	01-10-2009
824	1473457H	HAV	LAL BIHARI SINGH	01-01-2010
825	1472216F	HAV	LALIT SINGH	01-09-2009
826	1478231M	HAV	LAMBODER RAY	01-10-2009
827	1473267F	HAV	M D SERAJ KHAN	01-01-2010
828	1473551X	HAV	MAHABEER SINGH	01-01-2010
829	1478224W	HAV	MAHESH CHANDRA SINGH	01-10-2009
830	1479041M	HAV	MAHESH RAM	01-01-2010
831	1472482A	HAV	MAKHAN SINGH	01-10-2009
832	1472719M	HAV	MANJIT SINGH	01-11-2009
833	1478064F	HAV	MANOHAR SINGH RANA	01-10-2009
834	1473392L	HAV	MAYA RAM	01-01-2010
835	1472579L	HAV	MOHAMMAD AKLIM	01-10-2009

836	1473532M	HAV	MOHINDER SINGH	01-01-2010
837	1472275N	HAV	NARAYAN DATT BHATT	01-09-2009
838	1472600H	HAV	NAVIN CHANDRA	01-10-2009
839	1472515A	HAV	NORBERT MINJ	01-10-2009
840	1478552K	HAV	OM PRAKASH SINGH	01-12-2009
841	1472386L	HAV	PARAMJIT SINGH	01-10-2009
842	1472994M	HAV	PARAU MAJHI	01-11-2009
843	1473155F	HAV	PARDEEP LEPCHA	01-12-2009
844	1472571Y	HAV	PARMINDER SINGH	01-10-2009
845	1473063P	HAV	PIRATI LAL NAG	01-12-2009
846	1478522M	HAV	PRABHAT KUMAR CHOUDHARY	01-11-2009
847	1477945N	HAV	PRADEEP KUMAR SUKLA	01-09-2009
848	1472606K	HAV	PRAKASH CHANDRA	01-10-2009
849	1472682W	HAV	PURSHOTAM CHAND	01-10-2009
850	1472550H	HAV	RAJ BIR SINGH	01-10-2009
851	1478207W	HAV	RAJ KUMAR	01-10-2009
852	1472770L	HAV	RAJ KUMAR RAI	01-11-2009
853	1478437K	HAV	RAJE SINGH	01-11-2009
854	1472933P	HAV	RAJENDER KUMAR	01-10-2009
855	1472817M	HAV	RAJENDRA SINGH	01-11-2009
856	1472506Y	HAV	RAKESH MISHRA	01-10-2009
857	1472527P	HAV	RAM BABU TIWARI	01-10-2009
858	1477838M	HAV	RAM BAHADUR MAURYA	01-09-2009
859	1473304K	HAV	RAM DEV YADAV	01-01-2010
860	1473002X	HAV	RAM PRAKASH	01-12-2009
861	1473284F	HAV	RAM PRASAD YADAV	01-01-2010
862	1478243F	HAV	RAM PRATAP	01-10-2009
863	1472341L	HAV	RAM SINGH	01-10-2009
864	1472845Y	HAV	RAMAYAN RAM	01-11-2009
865	1472300F	HAV	RAMESH CHANDRA	01-09-2009
866	1478149X	HAV	RAMESH KUMAR SINGH	01-10-2009
867	1568659A	HAV	RANBIR SINGH	01-11-2009
868	1473012F	HAV	RANJEET SINGH	01-12-2009
869	1477947Y	HAV	ROSHAN LAL	01-09-2009
870	1472242H	HAV	RUP RAM	01-09-2009
871	1473559K	HAV	SADA SHIV KUMAR	01-01-2010
872	1473184W	HAV	SANTAN SINGH	01-12-2009
873	1472272A	HAV	SARJIT SINGH	01-09-2009
874	1478132K	HAV	SHAMSHER CHAND	01-10-2009
875	1472950P	HAV	SHEODAN SINGH	01-11-2009
876	1473120L	HAV	SHESH NATH SAH	01-12-2009
877	1473196L	HAV	SHIV SHANKAR RAI	01-12-2009
878	1478841Y	HAV	SHYAM BIHARI PRASAD	01-01-2010
879	1472920X	HAV	SHYAM KISHOR	01-11-2009
880	1472324N	HAV	SHYAM SUNDER	01-09-2009
881	1472398A	HAV	SHYAMA PADA PANDIT	01-10-2009
882	1477839P	HAV	SHYAMAL GUHA ROY	01-09-2009
883	1472161H	HAV	SK ABDUL MANAN	01-09-2009
884	1478258K	HAV	SUBODH PRAKASH	01-10-2009
885	1478795P	HAV	SUKHBIR SINGH	01-12-2009

886	1472280Y	HAV	SUKHWANT SINGH	31-08-2009
887	1478205L	HAV	SUMER SINGH	01-10-2009
888	1473348F	HAV	SURESH CHAND	01-01-2010
889	1472269A	HAV	SURESH CHANDRA	01-09-2009
890	1472799P	HAV	SURJEET SINGH	01-11-2009
891	1478826K	HAV	TAJBAR SINGH	01-01-2010
892	1473233N	HAV	TANUJWALA BISWAL	01-12-2009
893	1477868K	HAV	TAPAN KUMAR DATTA	01-09-2009
894	1472952A	HAV	TEJ PAL	01-09-2009
895	1473419X	HAV	TRILOKI NATH SINGH	01-01-2010
896	1472456Y	HAV	TRIOGI NARAYAN SINGH	01-10-2009
897	1478105A	HAV	TULSI CHARAN DAS	01-10-2009
898	1472590K	HAV	UDAI VIR SINGH	01-10-2009
899	1472781Y	HAV	UMA SHANKAR PANDEY	01-11-2009
900	1478853N	HAV	UMESH CHANDRA	01-01-2010
901	1473500K	HAV	UTAM SINGH	01-01-2010
902	1472592P	HAV	VED PRAKASH MISHRA	01-10-2009
903	1473520X	HAV	VENUGOPALA KURUP A P	01-01-2010
904	1473498X	HAV	VIJAY KUMAR	01-01-2010
905	1478977H	HAV	VIJAY KUMAR KUSHWAH	01-01-2010
906	1473276H	HAV	VINAY KUMAR THAKUR	01-01-2010
907	1472565L	HAV	YASHPAL SINGH	01-10-2009

BOMBAY ENGINEER GROUP

908	1568190P	HAV	ABDUL RAHIM	01-09-2009
909	1575756A	HAV	ABDUL SALIM KHAN	01-11-2009
910	1576258A	HAV	AMAR SINGH	01-01-2010
911	1575968L	HAV	ANNA SAHEB ZIRALI	01-11-2009
912	1569034X	HAV	ARUL SAVRIER S	01-12-2009
913	1576031M	HAV	ARUN MANIK TANDEKAR	01-11-2009
914	1568519N	HAV	BALDEV SINGH	01-10-2009
915	1575420A	HAV	BALWAN SINGH	01-09-2009
916	1569020X	HAV	BARIA RATAN SINGH LALLU B	01-12-2009
917	1569354M	HAV	BATULWAR RAJARAMBASHANNA	01-01-2010
918	1568372H	HAV	BHAG SINGH	01-10-2009
919	1574223L	HAV	BHAGHELE DINESH D	01-12-2009
920	1569170N	HAV	BHAJAN SINGH	01-01-2010
921	1568572Y	HAV	BHAWAR PURI GOSWAMI	01-10-2009
922	1576350Y	HAV	BHIKHA JI BADALJI CHAVDA	01-01-2010
923	1569138Y	HAV	BHOSALE NILKANT LAXMAN	01-01-2010
924	1568883M	HAV	BIRENDRA SINGH	01-11-2009
925	1568382M	HAV	BRAHMJIT SINGH	01-10-2009
926	1575885A	HAV	CHAVAN SATYVAN DINKAR	01-11-2009
927	1568877Y	HAV	CHOUGULE APPASO BAPUSO	01-11-2009
928	1576173K	HAV	DEBOTOSH DEY	01-12-2009
929	15103908H	HAV	DESH RAJ	01-09-2009
930	1569832N	HAV	DHULE SHIVANAND B	01-01-2010
931	1575783K	HAV	DIGAMBER SINGH	01-11-2009
932	1576114X	HAV	DINSEH KUMAR	01-12-2009
933	1569400W	HAV	DNYANESHWAR MOTIRAM G	01-01-2010

934	1575983A	HAV	DOKI VASUDEVA RAO	01-11-2009
935	1575552N	HAV	GANPAT RAM	01-10-2009
936	1575485N	HAV	GURDIAL SINGH	01-09-2009
937	1576383K	HAV	HAKAM SINGH	01-01-2010
938	1576156K	HAV	HARBHAJAN SINGH	01-12-2009
939	1576109M	HAV	HARDEV	01-12-2009
940	15685762M	HAV	HARI PRAKASH	01-11-2009
941	1575582L	HAV	HAWA SINGH	01-10-2009
942	1567980X	HAV	HUM BAHADUR TANDAN	01-09-2009
943	1570222L	HAV	ISLAM	01-01-2010
944	1576193X	HAV	JADHAV ASHOK TUKARAM	01-12-2009
945	1569048X	HAV	JADHAV BHARAT NIVRATI	01-12-2009
946	1569556N	HAV	JADHAV RAMNATH HIRAMAN	01-01-2010
947	1576124F	HAV	JADHAV SUDHAKAR SHESH RAO	01-12-2009
948	1576360H	HAV	JADHAV TULSIRAM YASHIVAN	01-01-2010
949	1576087Y	HAV	JADHAV VISHNU VITHAL	01-12-2009
950	1575714N	HAV	JAGDEV SINGH	01-11-2009
951	1575639P	HAV	JAIBIR SINGH	01-10-2009
952	1575780W	HAV	JAKIR HUSSAIN	01-11-2009
953	1569001M	HAV	JAMAN SINGH TAMANG	01-12-2009
954	1575526M	HAV	JEET RAM JAT	01-09-2009
955	1568867P	HAV	KAKARKAR ASHOK TATOBA	01-11-2009
956	1577481W	HAV	KALI KUMAR	01-11-2009
957	1576361L	HAV	KALU LAL BHIL	01-01-2010
958	1568478P	HAV	KAMALJIT SINGH	01-10-2009
959	1576056Y	HAV	KANAP MAHADEO BABU	01-12-2009
960	1569084H	HAV	KRISHNAKANT MISHRA	01-12-2009
961	1568599W	HAV	KUMAR SINGH	01-10-2009
962	1575918A	HAV	MAHENDER SINGH	01-11-2009
963	1575656P	HAV	MAHENDRA PAL SHARMA	01-10-2009
964	1575530P	HAV	MAHEPAT SINGH	01-09-2009
965	1569103H	HAV	MALKIAT SINGH	01-12-2009
966	1536079X	HAV	MANOHAR LAL	01-12-2009
967	1569159P	HAV	MD ALAUDDIN	01-01-2010
968	15105868L	HAV	MD ALIAR RAHMAN	01-11-2009
969	1568603N	HAV	MITHLESH KUMAR TIWARI	01-10-2009
970	1569037L	HAV	MOHD ASLAM KHAN	01-12-2009
971	1568449A	HAV	MULKHRAJ	01-10-2009
972	1576129A	HAV	MUSTAQ KHAN	01-12-2009
973	1575335X	HAV	NARENDRA KUMAR	01-09-2009
974	1576322M	HAV	ONKAR URKUDA THAKRE	01-01-2010
975	1575862Y	HAV	PANDURANG CHOUGULE	01-11-2009
976	1568756X	HAV	PARAMJIT SINGH	01-11-2009
977	1575803M	HAV	PARAMJIT SINGH	01-11-2009
978	1568148W	HAV	PARKASH SINGH	01-09-2009
979	1575846F	HAV	PATIL DINKAR RAMRAO	01-11-2009
980	1575845Y	HAV	PATIL VASANT NAMDEO	01-11-2009
981	1575328N	HAV	POTEGAOKAR ARVIND A	01-09-2009
982	1569178A	HAV	RAGHUBIR SINGH	01-01-2010
983	1569055N	HAV	RAHIS KHAN	01-12-2009

984	1569036H	HAV	RAJ NARAYAN TIWARI	01-12-2009
985	1569563K	HAV	RAJARAM BHANUDAS SHINDE	01-01-2010
986	1569042W	HAV	RAJENDRA PRASAD RAM	01-12-2009
987	1568324F	HAV	RAJINDER SINGH	01-10-2009
988	1568429M	HAV	RAM MURTHI	01-10-2009
989	1569131P	HAV	RAMAKANT	01-01-2010
990	1568459K	HAV	RAMESH SINGH	01-10-2009
991	1569043Y	HAV	RAMKRISHNA	01-12-2009
992	1568744H	HAV	RAMPRASAD MAURYA	01-11-2009
993	1568149Y	HAV	RAN SINGH	01-09-2009
994	1575894F	HAV	RAVASO SHAMRAO KURANE	01-11-2009
995	1576051A	HAV	SAHEBRAO BAPU MANE	01-12-2009
996	1568920P	HAV	SAMPATRAO ANANDRAO J	01-12-2009
997	1568688P	HAV	SANT RAM	01-11-2009
998	1576220W	HAV	SATPAL SINGH	01-01-2010
999	1567952L	HAV	SATPAL SINGH	01-09-2009
1000	1569521X	HAV	SATYPAL PURI	01-01-2010
1001	1568073K	HAV	SELOKAR UMESHRAO BAKARAM	01-09-2009
1002	1575340H	HAV	SHINDE DEEPAK GANGARAM	01-09-2009
1003	1576303F	HAV	SHIVAJI GIRI	01-01-2010
1004	1569173F	HAV	SHREE RAMCHANDRA	01-01-2010
1005	1569250L	HAV	SUBHASH PRASAD	01-01-2010
1006	1567972Y	HAV	SUDHIR D BARMA	01-09-2009
1007	1576083H	HAV	SURENDER SINGH	01-12-2009
1008	1568804M	HAV	SURENDRA BARIA	01-11-2009
1009	1568633L	HAV	SURESH	01-11-2009
1010	1575643X	HAV	SURJIT SINGH	01-10-2009
1011	1568188X	HAV	TAJBAR SINGH	01-09-2009
1012	1568879K	HAV	TURABUDDIN S K	01-11-2009
1013	1575734F	HAV	VALAND RAMAN LAL BABAR B	01-11-2009
1014	1568848K	HAV	YADAV CHANDRA DAS	01-11-2009

CORPS OF SIGNALS

1015	14268894A	HAV	A KASI	01-11-2009
1016	14267122W	HAV	A MARIA RAJENDRAN	01-09-2009
1017	15350284W	HAV	A SUSAI RAJ	01-12-2009
1018	14253788K	HAV	ABDUL SATAR FAROOQI	01-01-2010
1019	14254023P	HAV	AJAVIR SINGH	01-01-2010
1020	14269693N	HAV	AMAL KUMAR MONDAL	01-11-2009
1021	14253436M	HAV	AMIR HOSSAIN	01-01-2010
1022	14253420F	HAV	AMJAD HUSSAIN	01-01-2010
1023	14269222A	HAV	ANGAD SINGH	01-11-2009
1024	14252420P	HAV	ANIL KUMAR	01-10-2009
1025	14252869X	HAV	ANIL KUMAR PANDEY	01-11-2009
1026	14254036M	HAV	ARJUN PRASAD KESHARI	01-01-2010
1027	14251836A	HAV	ASHA RAM	01-09-2009
1028	14268453K	HAV	ASHOK KUMAR	01-10-2009
1029	14268614F	HAV	ASHOK KUMAR	01-11-2009
1030	14267846W	HAV	ASHOK KUMAR	01-09-2009
1031	14253122L	HAV	ASHOK KUMAR DUBEY	01-12-2009

1032	14269427P	HAV	ASHOK PRASAD	01-11-2009
1033	14267885M	HAV	ASHOKAN T	01-10-2009
1034	14267837M	HAV	ATIN DEY	01-09-2009
1035	15350179A	HAV	AWADH BIHARI SINGH	01-12-2009
1036	15350962L	HAV	B MANIKANDAN NAIR	01-01-2010
1037	15350046K	HAV	BABU KHAN	01-12-2009
1038	15350597P	HAV	BABU RAM	01-12-2009
1039	14252738M	HAV	BACHA LAL SHARMA	01-11-2009
1040	14253056N	HAV	BAJRANG SINGH	01-12-2009
1041	14252029X	HAV	BAL KISHORE SINGH	01-09-2009
1042	14252066L	HAV	BAL RAJ	01-10-2009
1043	15350261P	HAV	BALACHANDRAN NAIR B	01-12-2009
1044	14267682H	HAV	BALBEER SINGH	01-09-2009
1045	14253042N	HAV	BALESHWAR CHOUDHARY	01-12-2009
1046	14253406P	HAV	BANAMBAR ROUT	01-01-2010
1047	15350894H	HAV	BARDOL SIDARAYA GURU B	01-01-2010
1048	14252991N	HAV	BASAPPA DHABALE	01-12-2009
1049	14252489Y	HAV	BENKATESH SAH	01-11-2009
1050	14269915X	HAV	BHAGIRATH SINGH K	01-12-2009
1051	15350346L	HAV	BHANU PRATAP SINGH	01-12-2009
1052	15350303W	HAV	BHANU PRATAP SINGH	01-12-2009
1053	14252110K	HAV	BHARAT PRASAD SINGH	01-10-2009
1054	14268704H	HAV	BHARAT SINGH CHAUHAN	01-11-2009
1055	15350307M	HAV	BHASKAR SHETTY G	01-12-2009
1056	15350868F	HAV	BHOGADE DINKAR P R	01-01-2010
1057	14252051H	HAV	BHOLA THAKUR	01-10-2009
1058	14252000P	HAV	BIJOYA KUMAR MOHANTHY	01-10-2009
1059	14269316X	HAV	BIJSY PRATAP KUSHWAHA	01-11-2009
1060	14269715F	HAV	BINDHYCHAL PRASAD	01-12-2009
1061	14252463K	HAV	BIPIN BIHARI SAHOO	01-11-2009
1062	14269172A	HAV	BIRANDRA PAL SINGH	01-11-2009
1063	14267623W	HAV	BIRENDRA KUMAR	01-09-2009
1064	15350524H	HAV	BIRENDRA PASWAN	01-01-2010
1065	14269748M	HAV	BIRJE KISHOR DATTATRAY	01-12-2009
1066	14268182X	HAV	BISHAMBAR DAYAL	01-10-2009
1067	14268720A	HAV	BISHAMBER DAYAL	01-11-2009
1068	14267236F	HAV	BRAJENDRA PRATAP S R	01-09-2009
1069	14267583A	HAV	BRIJ GOPAL	01-09-2009
1070	14253454P	HAV	BRIJ KISHOR	01-01-2010
1071	14267514K	HAV	BRIJENDRA SINGH PAL	01-09-2009
1072	14268045Y	HAV	C VAIRVAN	01-10-2009
1073	14253297N	HAV	CHANDAN SINGH	01-01-2010
1074	14269792W	HAV	CHANDRA BHUSHAN SINGH	01-12-2009
1075	14253368K	HAV	CHARAN MALIK	01-01-2010
1076	15350575W	HAV	CHARTHAL GAJANAN U	01-01-2010
1077	14253453M	HAV	CHAVAN JALINDAR MARUTI	01-01-2010
1078	14269974K	HAV	CHAVAN VISHNU P	01-12-2009
1079	14267854M	HAV	CHOB SINGH	01-10-2009
1080	14268154L	HAV	D CHANDRAN	01-10-2009
1081	14252676X	HAV	DALBIR SINGH	01-11-2009

1082	14253478Y	HAV	DALIP KUMAR DAS	01-01-2010
1083	14251975K	HAV	DAMODAR PRASAD SINGH	01-10-2009
1084	14252881Y	HAV	DAROGA PANDEY	01-11-2009
1085	14267242P	HAV	DAVID SINGAM	01-09-2009
1086	14268816H	HAV	DEV RAJ	01-11-2009
1087	14267939H	HAV	DEVENDRA SINGH NEGI	01-09-2009
1088	14268431L	HAV	DHANANJAY MISHRA	01-10-2009
1089	14252573Y	HAV	DHARAM PAL	01-11-2009
1090	14252829W	HAV	DHARAM PAL	01-11-2009
1091	14269719X	HAV	DHAWALE R S	01-12-2009
1092	15350618A	HAV	DHELA	01-12-2009
1093	14251951A	HAV	DHYAGUDE S J	01-10-2009
1094	14269639A	HAV	DIBYENDU MONDAL	01-11-2009
1095	14253052X	HAV	DINDAYAL	01-12-2009
1096	14252022N	HAV	DINESH KUMAR MAHATO	01-10-2009
1097	14252150L	HAV	DINESH KUMAR VERMA	01-10-2009
1098	15350440P	HAV	DUGGPOGU MOSES	01-12-2009
1099	14252007Y	HAV	DUSASANA MUDULI	01-10-2009
1100	14267451M	HAV	DUVVADA BHASKARA R C	01-09-2009
1101	14252255P	HAV	G GUNA SEKARAN	01-10-2009
1102	14269551W	HAV	G SATHIANESAN	01-11-2009
1103	14252142M	HAV	GAJENDRA PRATAP YADAV	01-10-2009
1104	14269483N	HAV	GANESH SINGH MAHAR	01-11-2009
1105	14268000Y	HAV	GANGA DUTT	01-10-2009
1106	14254147K	HAV	GANGA SAHAI SAINI	01-01-2010
1107	14268551K	HAV	GIRGORY A P	01-10-2009
1108	14268826M	HAV	GIRWAR SINGH	01-11-2009
1109	14267692M	HAV	GOLEKHA CHANDRA SAMAL	01-09-2009
1110	14268221L	HAV	GORIPARTI V P	01-10-2009
1111	14269197M	HAV	GOVIND SINGH DARIYAL	01-11-2009
1112	14252108M	HAV	GREEN PRASAD SINGH	01-10-2009
1113	15350454P	HAV	GULAB CHAND CHAUBE	01-12-2009
1114	3382269L	HAV	GURDEV SINGH	01-10-2009
1115	14269331M	HAV	GURTAJ SINGH	01-11-2009
1116	14251631L	HAV	HADI BANDHU BEHERA	01-09-2009
1117	14268201X	HAV	HAKIM SINGH	01-10-2009
1118	14269435N	HAV	HANUMAN SINGH	01-11-2009
1119	14253560N	HAV	HAR KISHAN	01-01-2010
1120	14267657K	HAV	HARAK SINGH BAJETHA	01-09-2009
1121	14268953F	HAV	HARDEV	01-11-2009
1122	14251976M	HAV	HARENDER SINGH	01-10-2009
1123	14252023W	HAV	HARENDRA SINGH	01-10-2009
1124	14252700H	HAV	HARI BILAS VERMA	01-11-2009
1125	14269405W	HAV	HARI KRISHNA	01-11-2009
1126	14267887X	HAV	HARI KUMAR V T	01-10-2009
1127	14252095A	HAV	HARI PRASAD YADAV	01-10-2009
1128	14268585X	HAV	HARI VIJAY SINGH	01-10-2009
1129	14253630F	HAV	HARIPAL ARYA	01-01-2010
1130	14267704W	HAV	HARISH SINGH BISHT	01-09-2009
1131	14254109N	HAV	HARUN RASID MONDAL	01-01-2010

1132	14253775M	HAV	HAVALDAR	01-01-2010
1133	15350540A	HAV	HAYAT SINGH CHUPHAL	01-01-2010
1134	14267955A	HAV	HEMONTA DAULAGUPU	01-10-2009
1135	14268095K	HAV	HIRPARA JASHUBHI J	01-10-2009
1136	14267395Y	HAV	HRE RAM ROY	01-09-2009
1137	14253118H	HAV	ISHWAR SINGH	01-12-2009
1138	14268301H	HAV	ISLAMUDDIN ANSARI	01-10-2009
1139	14269894M	HAV	JADHAV UJVAL LAXMAN	01-11-2009
1140	14253018X	HAV	JAGBIR SINGH	01-11-2009
1141	14253097X	HAV	JAGDISH RAI	01-12-2009
1142	14251717K	HAV	JAGLAL PRASAD	01-09-2009
1143	14267942H	HAV	JAGMOHAN SINGH	01-09-2009
1144	14252373H	HAV	JAGMOHAN SINGH	01-10-2009
1145	14269112L	HAV	JAGPAL SINGH	01-11-2009
1146	14268591L	HAV	JAGVIR SINGH	01-10-2009
1147	14252712X	HAV	JARNAIL SINGH	01-11-2009
1148	14251752M	HAV	JASWANT SINGH	01-09-2009
1149	14253127K	HAV	JAYA PRAKASH	01-12-2009
1150	14268755W	HAV	JAYAN J K	01-11-2009
1151	14267789X	HAV	JITEN DAS	01-09-2009
1152	14253254Y	HAV	JIYA LAL	01-12-2009
1153	14269533N	HAV	JOSEPH K U	01-11-2009
1154	14253356P	HAV	JYOTI RANJAN PANIGRAHI	01-01-2010
1155	14268170H	HAV	K ALAGAR SAMY	01-10-2009
1156	14253092Y	HAV	K C MANDAL	01-12-2009
1157	15350171N	HAV	K JAFFAR BASHA	01-12-2009
1158	14267405X	HAV	KAILASH HARIBHAU C	01-09-2009
1159	14251834P	HAV	KAILASH RAM	01-09-2009
1160	14253859A	HAV	KAMALA PRASAD MOURY	01-01-2010
1161	14251971N	HAV	KANAIYA SINGH	01-10-2009
1162	14268914H	HAV	KARVMIR	01-11-2009
1163	14269013H	HAV	KASHI RAM	01-11-2009
1164	14269302X	HAV	KATEVARAPU SRINIVASU	01-11-2009
1165	15351222H	HAV	KAUSHAL KISHOR THAKUR	01-01-2010
1166	14252442X	HAV	KAUSHAL KUMAR MISHRA	01-11-2009
1167	14267266Y	HAV	KAVATKAR S V N	01-09-2009
1168	14269420L	HAV	KESAVAN V	01-11-2009
1169	14252106F	HAV	KH LEELA SING SINGHA	01-10-2009
1170	14253300H	HAV	KIRPA SHANKAR	01-01-2010
1171	14268294X	HAV	KOCHUMON A J	01-10-2009
1172	14269617F	HAV	KOPPULA KANAKA RAO	01-11-2009
1173	15350421K	HAV	KORRAPATI LAZARUS	01-12-2009
1174	14252125M	HAV	KRISHAN KUMAR	01-10-2009
1175	14268513N	HAV	KRISHNA DASAN K P	01-10-2009
1176	14268111W	HAV	KRUPASINDHU SWAIN	01-10-2009
1177	14254041X	HAV	KULDEEP KUMAR	01-01-2010
1178	14252616H	HAV	KULDEEP SINGH	01-11-2009
1179	14267868M	HAV	KULWINDER KUMAR	01-10-2009
1180	14268753L	HAV	KURIA KOSE K J	01-11-2009
1181	14253489L	HAV	LAKHAN SINGH	01-01-2010

1182	14269171X	HAV	LAKSMAN SINGH	01-11-2009
1183	14253440P	HAV	LAL SAHER YADAV	01-01-2010
1184	14253565M	HAV	LAL SINGH	01-01-2010
1185	15350526N	HAV	LALA RAM	01-01-2010
1186	14251696Y	HAV	LALDHAR CHAUHAN	01-09-2009
1187	14253194P	HAV	LALIT KUMAR NAYAK	01-12-2009
1188	14269150F	HAV	LALIT SINGH CHUNDAWAT	01-11-2009
1189	14253893A	HAV	LAXMAN LAL SHARMA	01-01-2010
1190	14252549H	HAV	LAXMAN SINGH	01-11-2009
1191	14252705F	HAV	LAXMI KANT RAJAK	01-11-2009
1192	14267446F	HAV	LEUVA RAMAN BHAI B B	01-09-2009
1193	14269012A	HAV	M D ANARUL HOQUE	01-11-2009
1194	14269600N	HAV	M D TAJMUL HAQUE	01-11-2009
1195	14252891H	HAV	M S R GOVIND	01-12-2009
1196	14252899P	HAV	M SELVA KUMAR	01-12-2009
1197	14267857A	HAV	MADAN PAL SINGH	01-10-2009
1198	14252931Y	HAV	MADHO SINGH	01-12-2009
1199	14253856M	HAV	MAHENDRA SAH	01-01-2010
1200	14253408A	HAV	MAHESH DUBEY	01-01-2010
1201	14268703A	HAV	MAHESH KUMAR	01-11-2009
1202	14269430P	HAV	MAHESH KUMAR SINGH RANA	01-11-2009
1203	14251673X	HAV	MAHESH PRADHAN	01-09-2009
1204	14252153Y	HAV	MAHESHWAR RAM GOP	01-10-2009
1205	15350054H	HAV	MAHESHWARI KANJITEJA	01-12-2009
1206	14269409M	HAV	MAHIDA J S B S	01-11-2009
1207	14251588P	HAV	MANGTU	01-09-2009
1208	15350385K	HAV	MANIKANDAN D	31-10-2009
1209	15350865N	HAV	MANKAR SHIVAJI RAM C	01-01-2010
1210	14252928Y	HAV	MATA PRASAD	01-12-2009
1211	14269361K	HAV	MIRTUNJAY THAKUR	01-11-2009
1212	14268151X	HAV	MOHAN LAL POPANDIA	01-10-2009
1213	14268803L	HAV	MOHINDER PAL	01-11-2009
1214	14267154Y	HAV	MOHINDER SINGH	01-09-2009
1215	14268577Y	HAV	MUHAMMED MUSTHafa I	01-10-2009
1216	14268357P	HAV	MULLA ALLABAKSHA D	01-10-2009
1217	14253341M	HAV	MUNNA YADAV	01-01-2010
1218	14268717A	HAV	MUNTUN KUMAR SINGH	01-11-2009
1219	14252491W	HAV	MURALEE MOHAN N N	01-11-2009
1220	14268300A	HAV	MURALI KARUVACHERY	01-10-2009
1221	14267211P	HAV	MURALIDHARAN P	01-09-2009
1222	14269358K	HAV	MURLI MANOHAR PRASAD	01-11-2009
1223	15350007L	HAV	MYLAPILLI SUKKAPILLA	01-12-2009
1224	14252261H	HAV	N BHASKAR	01-10-2009
1225	15350796H	HAV	NADAF FAIJU JAMAL	01-01-2010
1226	14268567P	HAV	NAND KISHOR YADAV	01-10-2009
1227	14267823M	HAV	NAND LAL MALAKAR	01-10-2009
1228	14253755Y	HAV	NAND LAL THAKUR	01-01-2010
1229	14251606M	HAV	NANDLAL	01-09-2009
1230	14251867A	HAV	NARENDER KUMAR AWASTHI	01-09-2009
1231	14253699L	HAV	NARENDRA KUMAR	01-01-2010

1232	14252628X	HAV	NASHIB SINGH	01-11-2009
1233	14252702N	HAV	NATHU RAM	01-12-2009
1234	14251837H	HAV	NATHU RAM SHRIVAS	01-09-2009
1235	14252371X	HAV	NAVAL KISHORE	01-10-2009
1236	14251914M	HAV	NAWAW SINGH	01-10-2009
1237	14251766M	HAV	NEEVUGANT RAMANJAPPA	01-09-2009
1238	15350700P	HAV	NIDHI MOHANTA	01-01-2010
1239	15350895L	HAV	NIMBALKAR SHRIMANT D	01-01-2010
1240	14253705N	HAV	OM PAL SINGH	01-01-2010
1241	14251583L	HAV	OM PRAKASH	01-09-2009
1242	14252690K	HAV	OM PRAKASH	01-11-2009
1243	14252832W	HAV	OM PRAKASH	01-11-2009
1244	15350853Y	HAV	OM PRAKASH PRASAD	01-01-2010
1245	14268837Y	HAV	OM PRAKASH SINGH YADAV	01-11-2009
1246	14269100W	HAV	P G VYANKAT RAO	01-11-2009
1247	14253403F	HAV	P K MAHAPATRA	01-01-2010
1248	14251690X	HAV	P PALANI	01-09-2009
1249	14253936K	HAV	P SUNDARA MOORTHI	01-01-2010
1250	14268828X	HAV	PADAM SINGH	01-11-2009
1251	15350832H	HAV	PAN SINGH	01-01-2010
1252	14252079H	HAV	PARAMATMA NAND K	01-09-2009
1253	14254012H	HAV	PARAMHANS SINGH	01-01-2010
1254	14252114A	HAV	PARMESHWAR CHOWDHARY	01-10-2009
1255	14269891Y	HAV	PATIL BABASO GANAPATI	01-12-2009
1256	14269875F	HAV	PATIL BAJI RAO TUKARAM	01-12-2009
1257	14269124A	HAV	PATIL LAILAS NANA	01-11-2009
1258	15350798N	HAV	PATIL MOHAN RAO R	01-01-2010
1259	15350935F	HAV	PATIL RAJENDRA TUKARAM	01-01-2010
1260	14267978F	HAV	PATIL VASANT DHONDIBA	01-10-2009
1261	14267134L	HAV	PAWAN KUMAR	01-09-2009
1262	14269815M	HAV	PAWAR SHAHAJI BAPUSO	01-12-2009
1263	14253803N	HAV	PERIA SAMY L	01-01-2010
1264	14268805W	HAV	PRADEEP KUMAR	01-11-2009
1265	14269829M	HAV	PRADEEP KUMAR K	01-12-2009
1266	14253050M	HAV	PRAMOD KUMAR SINGH	01-12-2009
1267	14252663A	HAV	PRATAP SINGH	01-11-2009
1268	14253278H	HAV	PRBODH CHANDRA DAS	01-12-2009
1269	14267170W	HAV	PREM CHAND	01-09-2009
1270	15350588N	HAV	PREM KUMAR	01-01-2010
1271	14267357H	HAV	PRODIP KUMAR GOGOI	01-09-2009
1272	14251744N	HAV	PURAN SINGH	01-09-2009
1273	14252648L	HAV	PURSHOTAM CHAND	01-11-2009
1274	14267664A	HAV	PUSHP SINGH	01-09-2009
1275	14253780X	HAV	R K PILLAI M S	01-01-2010
1276	14269527A	HAV	R THAYACHELVAN	01-11-2009
1277	14269325Y	HAV	RABINDRA NATH KUNDU	01-11-2009
1278	14252390H	HAV	RADHA KRISHNAN K V	01-10-2009
1279	14253251L	HAV	RAGHUNATH REDDY	01-12-2009
1280	14253119L	HAV	RAGHUNATH SINGH YADAV	01-12-2009
1281	14268145K	HAV	RAJ BHAN PATEL	01-10-2009

1282	14252812H	HAV	RAJ KUMAR	01-11-2009
1283	14253706W	HAV	RAJ KUMAR	01-01-2010
1284	14268739Y	HAV	RAJA RAJAN P	01-11-2009
1285	14253684H	HAV	RAJBIR	01-01-2010
1286	14268688W	HAV	RAJBIR	01-11-2009
1287	14254026H	HAV	RAJENDER PRASAD SINGH	01-01-2010
1288	14252827L	HAV	RAJENDER SINGH	01-11-2009
1289	14253590L	HAV	RAJENDRA PRASAD YADAV	01-01-2010
1290	14269912K	HAV	RAJENDRA SINGH SOLANKI	01-12-2009
1291	14267879Y	HAV	RAJENDRAN S	01-10-2009
1292	14252559M	HAV	RAJESH KUMAR	01-11-2009
1293	14269844F	HAV	RAJESH KUMAR	01-12-2009
1294	14251795F	HAV	RAJINDER SINGH	01-09-2009
1295	14267735W	HAV	RAKESH KUMAR SINGH	01-09-2009
1296	14251838L	HAV	RAM ASHARE	01-09-2009
1297	14269056X	HAV	RAM BAHADUR THAPPA	01-11-2009
1298	14251799X	HAV	RAM BHAJAN	01-09-2009
1299	14253214X	HAV	RAM GOPAL SINGH	01-12-2009
1300	14267409N	HAV	RAM KIRITI CHAUHAN	01-09-2009
1301	14269390Y	HAV	RAM KISHAN	01-11-2009
1302	14267460N	HAV	RAM KUMAR	01-09-2009
1303	14269666K	HAV	RAM MANOHAR SINGH	01-12-2009
1304	14252839A	HAV	RAM MEHAR	01-11-2009
1305	14253213P	HAV	RAM MEHAR SINGH	01-12-2009
1306	14251639X	HAV	RAM NARESH SINGH	01-09-2009
1307	14253417F	HAV	RAM NARESH SINGH	01-01-2010
1308	14253222W	HAV	RAM PHAL	01-12-2009
1309	14251866X	HAV	RAM PRAKASH PANDEY	01-09-2009
1310	14269288W	HAV	RAM RUP SINGH	01-11-2009
1311	14269347X	HAV	RAM SABDA CHAUDHARY	01-11-2009
1312	14253826P	HAV	RAM SAGAR SINGH	01-01-2010
1313	14253291M	HAV	RAM SINGH	01-01-2010
1314	15350302N	HAV	RAM SINGH	01-12-2009
1315	14269957K	HAV	RAMA CHANDRAN NAIR C	01-12-2009
1316	14268510A	HAV	RAMANATHAN G	01-10-2009
1317	14268077F	HAV	RAMAYAN SINGH YADAVA	01-10-2009
1318	14252863L	HAV	RAMESH CHAND	01-11-2009
1319	14252715L	HAV	RAMESH CHANDER	01-11-2009
1320	14269341W	HAV	RAMESH CHANDRA	01-11-2009
1321	14269378X	HAV	RAMESH KUMAR SINGH	01-11-2009
1322	14267828L	HAV	RAMESH SINGH RANA	01-10-2009
1323	14253013Y	HAV	RANBIR SINGH	01-11-2009
1324	14253508L	HAV	RANJIT SINGH SENGAR	01-01-2010
1325	14269164F	HAV	RANVIR SINGH	01-11-2009
1326	14253772Y	HAV	RASHPAL SINGH	01-01-2010
1327	14269293F	HAV	RATAN KUMAR SEAL	01-11-2009
1328	15350182A	HAV	RATAN KUMAR SWAIN	01-12-2009
1329	14252081A	HAV	RATNAKAR DUBEY	01-09-2009
1330	14269523K	HAV	RATTIRAM YADAV	01-11-2009
1331	14269134K	HAV	RAUT VISHNU NAMDEO	01-11-2009

1332	14267928W	HAV	RAVEENDRUDU P	01-09-2009
1333	15350756F	HAV	RAVI CHANDRAN S	01-01-2010
1334	14252005N	HAV	RAVI DUTT JANGIR	01-10-2009
1335	14269398L	HAV	REVATI NANDAN	01-11-2009
1336	14253499P	HAV	REYAJUDDIN AHMAD	01-01-2010
1337	15350841K	HAV	ROHIT CH GOGOI	01-01-2010
1338	14269859K	HAV	RUKMESH	01-11-2009
1339	14252326L	HAV	S HUSSAIN CHOWDHURY	01-10-2009
1340	14269344K	HAV	SABHA JEET	01-11-2009
1341	14269294K	HAV	SADHAN KUMAR GIRI	01-11-2009
1342	14268929L	HAV	SAFIKUL ISLAM	01-11-2009
1343	14267212X	HAV	SAJAN K	01-09-2009
1344	14269556P	HAV	SALAJI KUMAR	01-11-2009
1345	14269076L	HAV	SAMSHER SINGH	01-11-2009
1346	14268868Y	HAV	SAMSHUDDIN	01-11-2009
1347	14268606H	HAV	SAMUNDER SINGH	01-11-2009
1348	15350604A	HAV	SANJAYA KUMAR PRADHAN	01-12-2009
1349	14253798N	HAV	SANTOSH KUMAR SWAIN	01-01-2010
1350	14253399K	HAV	SARAT KUMAR LENKA	01-01-2010
1351	14268565K	HAV	SARDAR SINGH	01-10-2009
1352	14252500M	HAV	SARVA NAND SINGH	01-11-2009
1353	15350541H	HAV	SARVESHWAR SINGH	01-01-2010
1354	15351079F	HAV	SATINDER KUMAR	01-01-2010
1355	15350900L	HAV	SATVELI GURULINGAM	01-01-2010
1356	14252553L	HAV	SATYA PRAKASH	01-11-2009
1357	14253667H	HAV	SATYA PRAKASH SINGH	01-01-2010
1358	14268324K	HAV	SATYA RAM DAS	01-10-2009
1359	14253951Y	HAV	SATYANAND DUBEY	01-01-2010
1360	14267423A	HAV	SATYARANJAN GHOSH	01-09-2009
1361	14253347N	HAV	SAUDAN CHAND	01-01-2010
1362	14267467X	HAV	SAWANT ANIL MALHARI	01-09-2009
1363	14252907H	HAV	SEKAR B	01-12-2009
1364	14268626W	HAV	SETHU RAJAN R	01-10-2009
1365	14267482M	HAV	SHAIK BAJI	01-09-2009
1366	15350862A	HAV	SHAIKH SHAIKLAL A	01-01-2010
1367	14253546F	HAV	SHAN M	01-01-2010
1368	14252263N	HAV	SHANKAR LAL	01-10-2009
1369	14268099A	HAV	SHARAWAN KUMAR SAH	01-10-2009
1370	14253778A	HAV	SHATRUGHNA PRASAD S	01-01-2010
1371	14253041L	HAV	SHILANATH PRASAD SINGH	01-12-2009
1372	14268347L	HAV	SHINDE RAO SAHEB D	01-10-2009
1373	14253345H	HAV	SHIV BHAJAN PAL	01-01-2010
1374	15350295H	HAV	SHIV MANGAL SINGH	01-12-2009
1375	14251830Y	HAV	SHOBAN SINGH	01-09-2009
1376	14267919P	HAV	SHREE CHAND KASWAN	01-09-2009
1377	14252723K	HAV	SHRI PAL	01-11-2009
1378	14253849W	HAV	SHRIKANT SINGH	01-01-2010
1379	14254021K	HAV	SHYAM LAL SINGH	01-01-2010
1380	14268514W	HAV	SIBY K BABY	01-10-2009
1381	14253965Y	HAV	SIDDAPPA BIRADAR	01-01-2010

1382	14269544A	HAV	SILVERIUS TIGGA	01-11-2009
1383	14268205N	HAV	SITA RAM	01-10-2009
1384	14269299H	HAV	SIVANAGESWARA RAO E	01-11-2009
1385	14269278M	HAV	SIVDAS K K	01-11-2009
1386	14269289Y	HAV	SNEHASIS PAUL	01-11-2009
1387	14267945W	HAV	SOMAN PILLAI G	01-09-2009
1388	14251861Y	HAV	SOMAN T M	01-09-2009
1389	14251750F	HAV	SOMASEKHARAN NAIR P	01-09-2009
1390	14267813H	HAV	SRIDHAR PRADHAN	01-09-2009
1391	15351012H	HAV	SRINIVASAN K	01-01-2010
1392	14267679H	HAV	SUBE SINGH	01-09-2009
1393	14254017F	HAV	SUBHASH CHANDER	01-01-2010
1394	14268960X	HAV	SUBRAMANIAN S	01-10-2009
1395	15350156Y	HAV	SUDARSHAN YADAV S	01-12-2009
1396	14269203P	HAV	SUDHAKARA	01-11-2009
1397	15350518P	HAV	SUKUMAR MANDAL	01-01-2010
1398	14251994P	HAV	SUNDU RAM SHARMA	01-10-2009
1399	14251731W	HAV	SURAJ KUMAR AICH	01-09-2009
1400	14253637L	HAV	SURAJ PAL	01-01-2010
1401	15350815H	HAV	SURAT SINGH	01-01-2010
1402	14267903K	HAV	SURENDER SINGH	01-10-2009
1403	14267206K	HAV	SURENDER SINGH B	01-09-2009
1404	14268913A	HAV	SURENDRA KUMAR	01-11-2009
1405	14269767X	HAV	SURENDRA SINGH CHOHAN	01-12-2009
1406	14267218Y	HAV	SURENDRAN P V	01-09-2009
1407	14268343P	HAV	SURESH H	01-10-2009
1408	14269485Y	HAV	SURESH KUMAR	01-11-2009
1409	14252620L	HAV	SURESH KUMAR	01-11-2009
1410	14268599X	HAV	SURESH KUMAR VERMA	01-10-2009
1411	14252735Y	HAV	SURESH SINGH	01-11-2009
1412	15351058L	HAV	SUSANT KUMAR NAYAK	01-01-2010
1413	14267726P	HAV	SWAPAN KUMAR DAS	01-09-2009
1414	14267506L	HAV	SYED SHAHID HASSAN	01-09-2009
1415	15350077K	HAV	TARKESHWAR SINGH	01-12-2009
1416	14252523N	HAV	TIRATH CHAND	01-11-2009
1417	14267684N	HAV	TRILOK CHAND	01-09-2009
1418	14269807N	HAV	TUKARAM LAXMAN DALVI	01-12-2009
1419	14251742H	HAV	UDAI SINGH	01-09-2009
1420	14267439L	HAV	UMESH PRASAD RAI	01-09-2009
1421	14252930W	HAV	UMESH PRASAD SINGH	01-12-2009
1422	15351214K	HAV	UPADHYAY HIREN KUMAR P	01-01-2010
1423	14267418P	HAV	UTTAM KUMAR KUNDU	01-09-2009
1424	14269035F	HAV	V ARUMUGAM	01-11-2009
1425	14268120X	HAV	V JAYA PRAKASH	01-10-2009
1426	14269881P	HAV	VAISHALE PRAKASH M	01-11-2009
1427	14268233A	HAV	VANAPALLI KRUSHNA RAO	01-10-2009
1428	14268517K	HAV	VASUDEVAN P	01-10-2009
1429	14253447Y	HAV	VENU M P	01-01-2010
1430	14253886K	HAV	VIDYA SAGAR	01-01-2010
1431	14252550X	HAV	VIJAY KUMAR	01-11-2009

1432	14269464H	HAV	VIJAY KUMAR A T	01-11-2009
1433	14268165X	HAV	VIJAYA KUMAR R	01-10-2009
1434	14268552M	HAV	VIJAYAN K S	01-10-2009
1435	14252621N	HAV	VIJENDRA SINGH RAKESH	01-11-2009
1436	14268932L	HAV	VINOD KUMAR	01-11-2009
1437	14269916A	HAV	VINOD KUMAR SHARMA	01-12-2009
1438	14252782W	HAV	VINOD KUMAR SHARMA	01-11-2009
1439	14254008A	HAV	VIRENDRA KUMAR DUBEY	01-01-2010
1440	14269417L	HAV	VIRENDRA SINGH	01-11-2009
1441	14268923K	HAV	VISWANATH SINGH	01-11-2009
1442	14267312H	HAV	WAG UMAKANT DINKAR	01-09-2009
1443	15350570X	HAV	WAKIL SINGH	01-01-2010
1444	15350657Y	HAV	Y RAJENDRA A S	01-01-2010

THE BRIGADE OF GUARDS

1445	13685263L	HAV	AMRENDRA KUMAR THAKUR	01-11-2009
1446	13687928P	HAV	CHADRA BIIAN RAM	01-10-2009
1447	13687966L	HAV	CHUNA RAM	01-01-2010
1448	13684954L	HAV	DHAN BAHADUR KARKI	01-09-2009
1449	13685302Y	HAV	GAYA PRASAD	01-12-2009
1450	13687891Y	HAV	GOPINATH BEHERA	01-10-2009
1451	13685135N	HAV	GYAN CHAND RAM	01-10-2009
1452	13685262H	HAV	HARISH CHANDRA JHA	01-11-2009
1453	13687907Y	HAV	JASBIR SINGH	01-10-2009
1454	13685226X	HAV	K SURESH	01-11-2009
1455	13687849A	HAV	PANNA LAL	01-09-2009
1456	7773503F	HAV	PRAMOD KUMAR SINGH	01-11-2009
1457	13687959P	HAV	RAM CHANDER BHARTI	01-12-2009
1458	13687898H	HAV	RAM GOPAL	01-10-2009
1459	13685412N	HAV	RAM SUDISHT ISHWAR	01-12-2009
1460	13685444W	HAV	SUCHHA SINGH	01-01-2010
1461	13687960K	HAV	TUKARAM SHIVRAM CHORE	01-12-2009

THE PARACHUTE REGIMENT

1462	3983951M	HAV	AVTAR SINGH	01-10-2009
1463	13616421K	HAV	BASANT KUMAR SHARMA	01-01-2010
1464	13616326X	HAV	BHUPAL SINGH	01-10-2009
1465	2782511M	HAV	BRIJ MOHAN PANDEY	01-01-2010
1466	13615384P	HAV	DIP BAHADUR	01-01-2010
1467	13616396W	HAV	GUDDHIR SINGH	01-12-2009
1468	13616321Y	HAV	MAJOR SINGH	01-10-2009
1469	13616349Y	HAV	PUSHPENDRA SINGH	01-11-2009
1470	13615278W	HAV	PYARE LAL	01-10-2009
1471	13615343L	HAV	RAJ KUMAR SINGH	01-11-2009
1472	13616437P	HAV	RAN VIJAY SINGH	01-01-2010
1473	2589791K	HAV	S MURUGAN	01-09-2009
1474	13616341M	HAV	SHYAMA KANTA SINHA	01-10-2009
1475	13616413L	HAV	SWARAN SINGH	01-12-2009

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

1476	2982870K	HAV	AJAB SINGH	01-11-2009
1477	14911097H	HAV	ALLAM N APPALA KONDA	01-10-2009
1478	14910921A	HAV	AMAR SINGH	01-09-2009
1479	14911153W	HAV	ARUN CHANDRA BEHERA	01-11-2009
1480	14913964A	HAV	BALJIT RAM	01-01-2010
1481	14911034A	HAV	BALKAR SINGH	01-10-2009
1482	14910824H	HAV	BHANWER SINGH	01-09-2009
1483	14911327L	HAV	CHATER SINGH	01-01-2010
1484	14910918A	HAV	CHHATER SINGH	01-09-2009
1485	14911110F	HAV	GADADHAR MAHAKHUD	01-10-2009
1486	14911025Y	HAV	GOUR CHANDRA SINGHA	01-09-2009
1487	14910813W	HAV	GYAN DAS SINGH KUSHWAHA	01-09-2009
1488	2982924A	HAV	HANS RAJ SINGH GURJAR	01-11-2009
1489	14911221Y	HAV	HIR GIRI	01-11-2009
1490	14911134L	HAV	INDRA KANT JHA	01-10-2009
1491	14911685W	HAV	JAGJIT SINGH	01-01-2010
1492	14911687F	HAV	JASPAL SINGH	01-01-2010
1493	14913034Y	HAV	KARESH DHANUK	01-01-2010
1494	14911215L	HAV	KESHAR SINGH	01-11-2009
1495	14910875W	HAV	KISHAN SINGH	01-09-2009
1496	14910833K	HAV	LABH CHAND	01-09-2009
1497	14911304K	HAV	LAKSHMI KANT DAS	01-01-2010
1498	14910939W	HAV	LAXMAN CHHETRI	01-09-2009
1499	14911361L	HAV	M D ALAMGEER	01-01-2010
1500	14913975M	HAV	MADAN LAL	01-12-2009
1501	2985730H	HAV	MADAN SINGH	01-01-2010
1502	14911200H	HAV	MOHAMMAD HAROON KHAN	01-11-2009
1503	14911195H	HAV	NAGENDRA PRASAD SINGH	01-11-2009
1504	14911265W	HAV	NARSIPURAM THAVUDU	01-12-2009
1505	2983163M	HAV	RAM BACHAN SINGH	01-01-2010
1506	14911060F	HAV	RAM SINGH	01-10-2009
1507	14913955Y	HAV	RAM SWAROOP	01-12-2009
1508	14911109M	HAV	RAMESH CHANDRA SAHOO	01-10-2009
1509	14910879M	HAV	RAVINDRA KUMAR	01-09-2009
1510	14911251W	HAV	SAGAR THAPA	01-11-2009
1511	14910948X	HAV	SATISH KUMAR	01-09-2009
1512	2985718F	HAV	SHIV RAM SINGM SENGRA	01-12-2009
1513	14911256P	HAV	SHYAM BABU	01-11-2009
1514	14911044K	HAV	SUKHWANT SINGH	01-10-2009
1515	14913958M	HAV	SUMER PAL	01-12-2009
1516	14911031M	HAV	SUNIL BARUAH	01-09-2009
1517	14910890L	HAV	SUREAH MAHATO	01-09-2009
1518	14911202N	HAV	TAJ PRATAP SINGH	01-11-2009
1519	14913952L	HAV	TULA RAM	01-11-2009
1520	14911174M	HAV	VED RAM	01-11-2009
1521	14910979X	HAV	VIRUPAX TASHIN	01-09-2009

THE PUNJAB REGIMENT

1522	2476695F	HAV	ASHOK KUMAR	01-11-2009
1523	2478526Y	HAV	BISHAN DASS	01-11-2009
1524	2476604M	HAV	GULDESH KUMAR	01-11-2009
1525	2478513F	HAV	GURNAM SINGH	01-11-2009
1526	2476907F	HAV	HARDEEP SINGH	01-01-2010
1527	2478630M	HAV	HARDEEP SINGH	01-01-2010
1528	2476499F	HAV	JAI SINGH	01-09-2009
1529	2476659W	HAV	JANAK RAJ	01-11-2009
1530	2478628P	HAV	KARNAIL SINGH	01-01-2010
1531	2476806N	HAV	MALKIT SINGH	01-12-2009
1532	2476749X	HAV	NARINDER PAUL	01-12-2009
1533	2478451M	HAV	RAKESH KUMAR	01-09-2009
1534	8031467K	HAV	RAM NIWAS	01-09-2009
1535	2476760W	HAV	RAM PAL	01-12-2009
1536	2478470X	HAV	RANDHIR SINGH	01-10-2009
1537	2478638Y	HAV	SHAMSHER SINGH	01-01-2010
1538	2476553K	HAV	SODAGAR RAM	01-10-2009
1539	2478489W	HAV	SOM DUTT	01-11-2009
1540	2476595W	HAV	SUBHASH CHANDER	01-11-2009
1541	2476896A	HAV	SURESH SINGH	01-01-2010
1542	2478583A	HAV	SURJIT SINGH	01-12-2009
1543	2478472H	HAV	SURJIT SINGH	01-10-2009
1544	2478555N	HAV	TARLOK SINGH	01-12-2009
1545	2478614P	HAV	VARYAM SINGH	01-01-2010
1546	2476733M	HAV	VINOD SINGH	01-12-2009

THE MADRAS REGIMENT

1547	2590425M	HAV	A ANBALAGAN	01-01-2010
1548	2589801H	HAV	A SAMIKKANNU	01-09-2009
1549	2590185A	HAV	A SUBRAMANI	01-12-2009
1550	2586672H	HAV	A VETHAMANI	01-10-2009
1551	2586462H	HAV	ALEXANDER V J	01-10-2009
1552	2590384N	HAV	ANNAMALAI R	01-01-2010
1553	2590273W	HAV	B SUBRAMANIAN	01-12-2009
1554	2589844X	HAV	BABU V C	01-09-2009
1555	2586317L	HAV	BALAKRISHANAN P	01-10-2009
1556	2590250P	HAV	BENNY D	01-12-2009
1557	2587524K	HAV	BOBBILI PAPA RAO	01-01-2010
1558	2586144Y	HAV	C MURUGESAN	01-09-2009
1559	2587263F	HAV	CHANDRA SEGAR N	01-12-2009
1560	2587122M	HAV	G JAGDEESAN	01-11-2009
1561	8031526L	HAV	G MADHAIYAN	01-09-2009
1562	2590098M	HAV	GANGADHARAN PALLAYAKODI	01-11-2009
1563	2590082F	HAV	GEORGE JOSERH S	01-11-2009
1564	2589847L	HAV	HARIDASAN O	01-09-2009
1565	8031464W	HAV	JAGADESH A	01-09-2009
1566	2589838K	HAV	JOGI M MARKOSE	01-09-2009
1567	2590358M	HAV	JOSHIMON K K	01-12-2009

1568	2590368W	HAV	K CHOKKALINGAM	01-01-2010
1569	2590152P	HAV	K DHAMOTHARAN	01-11-2009
1570	2589916W	HAV	KADESHA KANKANWADI	01-09-2009
1571	2590401H	HAV	KR SANJEEVAN RAO	01-01-2010
1572	2589959L	HAV	M JAYARAJ	01-09-2009
1573	2590149P	HAV	M KAMALANATHAN	01-11-2009
1574	2587356W	HAV	M KANNUSAMY	01-12-2009
1575	2589780X	HAV	M MANIMARAN	01-09-2009
1576	2586355F	HAV	M RAMACHANDRAN	01-10-2009
1577	2586307F	HAV	MANOHARAN K	01-10-2009
1578	2586060L	HAV	MODALVALSA APPA RAO	01-09-2009
1579	2590275F	HAV	MOHANAN PILLAI B	01-12-2009
1580	2589786Y	HAV	N CHINNADURAI	01-09-2009
1581	2590029W	HAV	N KANDHAN	01-10-2009
1582	2590203X	HAV	N KUMAR PILLAI	01-12-2009
1583	2590060H	HAV	N RAJU	01-10-2009
1584	2586926P	HAV	P ARJUNAN	01-11-2009
1585	2590191N	HAV	P MANOHARAN	01-12-2009
1586	2587489M	HAV	P MOHAN	01-01-2010
1587	2590238N	HAV	P SIMHACHALAM	01-12-2009
1588	2587062H	HAV	P SUVARNAN	01-11-2009
1589	2590210N	HAV	PALANIVELU M	01-12-2009
1590	8031604X	HAV	PRADEEP KUMAR EDAKKEN	01-10-2009
1591	2590394X	HAV	PULI PITCHAIAH	01-01-2010
1592	2590446H	HAV	R FRANCIS	01-01-2010
1593	2589893A	HAV	RADHAKRISHNAN KATTIL	01-09-2009
1594	2590440F	HAV	RAJEEVAN C M	01-01-2010
1595	2590110H	HAV	RAJENDRA KUMAR G	01-11-2009
1596	2590245K	HAV	RAJENDRAN G	01-12-2009
1597	2590259K	HAV	REHIM T	01-12-2009
1598	2589800A	HAV	S GOSE	01-09-2009
1599	2589792M	HAV	S PARAMASIVAN	01-09-2009
1600	2589932N	HAV	S PRABHAKARAN	01-09-2009
1601	8031408X	HAV	S SIDHAN	01-09-2009
1602	2586675W	HAV	SARANGAPPANI G	01-10-2009
1603	7430540H	HAV	SATIAN P K	01-12-2009
1604	2590159Y	HAV	SIVA KUMAR VM	01-12-2009
1605	2586327P	HAV	SIVADASAN V	01-10-2009
1606	2590373F	HAV	SURESH KUMAR	01-01-2010
1607	8031393A	HAV	T ANNADURAI	01-09-2009
1608	2586152X	HAV	T CHINNA SWAMY	01-09-2009
1609	2590371W	HAV	T DEVA KUMAR	01-01-2010
1610	2590260Y	HAV	TITUS G	01-12-2009
1611	2589931L	HAV	V M RAVICHANDRAN	01-09-2009
1612	2590086X	HAV	VALLERA RAMI REDDY	01-11-2009
1613	2590410K	HAV	VENKATESAN P	01-01-2010
1614	2589942X	HAV	VENKATESAN R	01-09-2009
1615	2587127L	HAV	VINCENT A	01-11-2009

THE GRENADIERS

1616	2678290Y	HAV	BALBIR SINGH	01-12-2009
1617	2678416N	HAV	BALDEV RAM	01-12-2009
1618	2677998M	HAV	HIMMAT SINGH	01-10-2009
1619	2680433M	HAV	JAGDISH CHAND	01-01-2010
1620	2680439N	HAV	JASWANT SINGH	01-01-2010
1621	2680361N	HAV	MUSTAK AHAMAD ANSARI	01-10-2009
1622	2678264X	HAV	NAGENDRA	01-12-2009
1623	2680367P	HAV	NANDA SINGH	01-11-2009
1624	2680385X	HAV	NARAYAN SINGH	01-11-2009
1625	2677757M	HAV	PHUL KUMAR	01-09-2009
1626	2677865W	HAV	RAGHUBIR SINGH	01-10-2009
1627	2680363Y	HAV	RAJ KUMAR	01-11-2009
1628	2678224W	HAV	RAJ MUKH	01-11-2009
1629	2678605X	HAV	RAJENDER KUMAR	01-01-2010
1630	2678075N	HAV	RAM DULARE SHARMA	01-10-2009
1631	2680375N	HAV	RAMESH CHAND	01-11-2009
1632	2680394Y	HAV	SETTU C	01-11-2009
1633	2677937P	HAV	SHIV CHARAN	01-10-2009
1634	2678084P	HAV	SUBHASH CHAND	01-10-2009
1635	2677870F	HAV	SUMER SINGH	01-10-2009
1636	2677900N	HAV	SURESH CHANDRA	01-10-2009
1637	2678484F	HAV	SURINDER PAL	01-01-2010
1638	2677733H	HAV	ZAKER HUSSAIN SHAH	01-09-2009

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

1639	2779308L	HAV	ANKUSH ANANDRAO SANAS	01-11-2009
1640	2782481A	HAV	DESAI SAYAJI KRISHNA	01-01-2010
1641	2782183K	HAV	GAWADE DILIP GOVIND	01-12-2009
1642	2781794M	HAV	JADHAV KALURAM KISAN	01-09-2009
1643	2782258W	HAV	KAKASO SHIVARAM D	01-12-2009
1644	2782497L	HAV	KOLEKAR MANOHAR NARASU	01-01-2010
1645	13966086A	HAV	M D FAZARAT ALI	01-12-2009
1646	2782266P	HAV	MAHAMULKAR VISHNU B	01-12-2009
1647	2781833A	HAV	MANOHAR RAMA SANE	01-09-2009
1648	2782482H	HAV	NAIK APPASAHEB P	01-01-2010
1649	2782471W	HAV	NIKAM ANILRAO V	01-01-2010
1650	2782438Y	HAV	NINGAN GOUDA PATIL	01-01-2010
1651	2781768L	HAV	OM PRAKASH	01-09-2009
1652	2782531A	HAV	PEDNEKAR PRAKASH K	01-01-2010
1653	2782025P	HAV	PISAL SUDHAKAR G	01-10-2009
1654	2779053W	HAV	PRABHAKAR RAVALU G	01-10-2009
1655	2782128N	HAV	R SAVARWADKAR	01-11-2009
1656	2782358F	HAV	SALUNKHE ASHOK K	01-01-2010
1657	2782188H	HAV	SHANTARAM BHIKAJI K	01-12-2009
1658	2782267X	HAV	SHINDE SAMHAJI R	01-12-2009
1659	2782199P	HAV	SUBHASH	01-12-2009
1660	2778977X	HAV	SUBHASH CHAND	01-10-2009

THE RAJPUTANA RIFLES

1661	2880602M	HAV	BALBIR SINGH	01-11-2009
1662	2883184N	HAV	BHOVAL SINGH	01-10-2009
1663	2880718H	HAV	BHUBAN RAM	01-11-2009
1664	2883221W	HAV	BINAL NARJINARY	01-11-2009
1665	2883269K	HAV	BODAN SINGH	01-01-2010
1666	2880806Y	HAV	BRAJ MOHAN LAL	01-11-2009
1667	2880629K	HAV	DHAN SINGH	01-11-2009
1668	2880516F	HAV	DILIP SINGH SHEKHAWAT	01-11-2009
1669	2883254F	HAV	FAKRUDDIN KHAN	01-12-2009
1670	2880416W	HAV	GIRAND SINGH	01-10-2009
1671	2880918Y	HAV	LAL CHAND	01-01-2010
1672	2880412A	HAV	LEKHRAJ SINGH	01-10-2009
1673	2880333L	HAV	MAHABIR SINGH	01-10-2009
1674	2880878H	HAV	MANJOOR AHMED	01-12-2009
1675	8031586A	HAV	MOHAMMAD USMAN	01-10-2009
1676	2880927A	HAV	POKH PAL	01-01-2010
1677	2881162W	HAV	RAMA KANT	01-01-2010
1678	2883260P	HAV	RAMESH CHAND	01-12-2009
1679	2880636A	HAV	RAMESH KUMAR	01-11-2009
1680	2883193P	HAV	SAHAYADHAS P	01-10-2009
1681	2881096Y	HAV	SUDHA KARAN V	01-01-2010
1682	2881531H	HAV	SUKHBIR SINGH	01-10-2009
1683	2880716X	HAV	SURESH KUMAR	01-11-2009
1684	2880916N	HAV	SURESH KUMAR	01-01-2010
1685	2880379N	HAV	SURESH KUMAR	01-10-2009
1686	2883230X	HAV	UCHHABANANDA MISHRA	01-11-2009
1687	2880606H	HAV	VED SINGH	01-11-2009

THE RAJPUT REGIMENT

1688	2985734Y	HAV	BASANT BALLABH JOSHI	01-01-2010
1689	2985711X	HAV	DHARAMVIR SINGH	01-12-2009
1690	2983480N	HAV	HOSHIAR SINGH	01-01-2010
1691	2983272Y	HAV	JAGDISH SINGH	01-01-2010
1692	2982553H	HAV	JAGMAL SINGH	01-10-2009
1693	8031444H	HAV	LEBA RAM HANSDA	01-09-2009
1694	2982402K	HAV	MATA DIN	01-09-2009
1695	2985721F	HAV	NAGA THAKUR	01-12-2009
1696	2985685F	HAV	NARPAT SINGH	01-11-2009
1697	2985723M	HAV	NATHU SINGH	01-12-2009
1698	2985674P	HAV	PHOOL SINGH	01-10-2009
1699	2982547P	HAV	PRITAM CHAND	01-10-2009
1700	2985696N	HAV	RAM PRASAD DHOBI	01-11-2009
1701	3179397N	HAV	SHEESH RAM	01-01-2010
1702	2982600P	HAV	SUNDER LAL	01-10-2009
1703	2983047K	HAV	VINOD KUMAR	01-11-2009

THE JAT REGIMENT

1704	3177428P	HAV	AJIT SINGH	01-11-2009
------	----------	-----	------------	------------

1705	3177282F	HAV	AJMER SINGH	01-10-2009
1706	3179683P	HAV	BAL MOHAN	01-11-2009
1707	3177269X	HAV	BHAGIRATH SINGH	01-10-2009
1708	3179315A	HAV	BIJENDRA	01-11-2009
1709	3179380A	HAV	CHANDER DEV RAM PASI	01-12-2009
1710	3177573F	HAV	MAHABIR SINGH	01-01-2010
1711	3177244L	HAV	MEWA RAM	01-10-2009
1712	3177175A	HAV	RAJ KUMAR	01-09-2009
1713	3179370W	HAV	RAM AVTAR	01-12-2009
1714	3177612P	HAV	RAM SINGH	01-01-2010
1715	3177387L	HAV	RAMESH KUMAR	01-11-2009
1716	3179324F	HAV	SUKRAM PAL	01-11-2009
1717	3177556F	HAV	VIJAY BHADUR PATEL	01-12-2009

THE SIKH REGIMENT

1718	3386099K	HAV	AJIT SINGH	01-01-2010
1719	3386043X	HAV	AMARJIT SINGH	01-01-2010
1720	3382317A	HAV	ANIL KUMAR	01-11-2009
1721	3386106P	HAV	BALBIR SINGH	01-01-2010
1722	3384060Y	HAV	BALDEV SINGH	01-12-2009
1723	3385991P	HAV	BHAJAN SINGH	01-01-2010
1724	3385630W	HAV	CHARAT SINGH	01-11-2009
1725	3386105M	HAV	DARSHAN SINGH	01-01-2010
1726	3385671A	HAV	DEVINDER SINGH	01-11-2009
1727	3386066Y	HAV	GURBACHAN SINGH	01-01-2010
1728	3385702P	HAV	GURMAL SINGH	01-11-2009
1729	3386079W	HAV	GURMUKH SINGH	01-01-2010
1730	3385612N	HAV	GURPRIT SINGH	01-10-2009
1731	3385701M	HAV	HANS RAJ	01-11-2009
1732	3385705H	HAV	HARI CHAND	01-11-2009
1733	3385458A	HAV	HOTE LAL	01-09-2009
1734	3385584M	HAV	IQBAL SINGH	01-10-2009
1735	3386091X	HAV	JASWANT SINGH	01-01-2010
1736	3385583K	HAV	JOGINDER SINGH	01-10-2009
1737	3385475A	HAV	JOGINDER SINGH	01-09-2009
1738	3382298A	HAV	KHIALI RAM	01-10-2009
1739	3385596F	HAV	KULDIP KUMAR	01-10-2009
1740	3384467P	HAV	LAL MANI	01-09-2009
1741	3385515W	HAV	LIL BAHADUR GURUNG	01-09-2009
1742	3383490W	HAV	MADAN LAL	01-11-2009
1743	3385874K	HAV	MANJIT SINGH	01-01-2010
1744	3382384L	HAV	MOHD JAMALUDDIN	01-12-2009
1745	3385731K	HAV	RAM PHAL	01-12-2009
1746	3385912P	HAV	RAM SINGH	01-01-2010
1747	3385817H	HAV	RATTAN SINGH	01-12-2009
1748	3385576N	HAV	SANTOKH SINGH	01-10-2009
1749	3385801X	HAV	SARBERENDER SINGH	01-12-2009
1750	3382354N	HAV	SATBIR SINGH	01-11-2009
1751	3385823W	HAV	SUKHWENDER SINGH	01-12-2009
1752	3385923F	HAV	TAJINDERJIT SINGH	01-01-2010

1753	3383948P	HAV	V. KUMAR	01-11-2009
1754	3385667X	HAV	VIDHYADHAR DWIVEDI	01-11-2009

THE SIKH LIGHT INFANTRY

1755	4466335K	HAV	AMJ SINGH	01-01-2010
1756	4466021H	HAV	B. S. MEETKAY	01-11-2009
1757	4466293H	HAV	BALDEV SINGH	01-01-2010
1758	4465871A	HAV	BALKAR SINGH	01-11-2009
1759	4466306P	HAV	BALWINDER SINGH	01-01-2010
1760	4465882M	HAV	BALWINDER SINGH	01-11-2009
1761	4464017F	HAV	BIRENDER SINGH	01-12-2009
1762	4465971L	HAV	BOHAR SINGH	01-11-2009
1763	4463871F	HAV	CHHEDA LAL	01-09-2009
1764	4466115A	HAV	GURCHARAN SINGH	01-12-2009
1765	4465953H	HAV	GURDEEP SINGH	01-11-2009
1766	4465888N	HAV	GURDEV SINGH	01-11-2009
1767	4466324X	HAV	GURNAM SINGH	01-01-2010
1768	4466249Y	HAV	HARWANT SINGH	01-01-2010
1769	4466234W	HAV	JAGJIT SINGH	01-01-2010
1770	4465826N	HAV	JAGTAR SINGH	01-10-2009
1771	4465985L	HAV	JARNAIL SINGH	01-11-2009
1772	4466346W	HAV	JASBIR SINGH	01-01-2010
1773	4466296W	HAV	KABAL SINGH	01-01-2010
1774	4466257X	HAV	KARAM SINGH	01-01-2010
1775	4466402K	HAV	KARNAIL SINGH	01-01-2010
1776	4465842L	HAV	MALKIT SINGH	01-11-2009
1777	4465837A	HAV	NARINDER SINGH	01-11-2009
1778	4465945K	HAV	PRAJAP SINGH	01-11-2009
1779	4466170W	HAV	RAMESH KUMAR	01-12-2009
1780	4466175P	HAV	RAMESH SINGH	01-12-2009
1781	4466006N	HAV	RANJIT SINGH	01-11-2009
1782	4465867X	HAV	RANJIT SINGH	01-11-2009
1783	4465942W	HAV	SALIM AHMED	01-11-2009
1784	4466128X	HAV	SANT SINGH	01-12-2009
1785	4465919H	HAV	SARWAN SINGH	01-11-2009
1786	4466110F	HAV	SURJIT SINGH	01-12-2009
1787	4466031M	HAV	SURJIT SINGH	01-11-2009
1788	4465844W	HAV	SURJIT SINGH	01-11-2009
1789	4466230A	HAV	SURJIT SINGH	01-01-2010
1790	446611611	HAV	SURJIT SINGH	01-12-2009
1791	4466292A	HAV	SWARN SINGH	01-01-2010
1792	4466348F	HAV	TARSEM SINGH	01-01-2010
1793	4466212X	HAV	UMAID SINGH	01-12-2009
1794	4466108K	HAV	VINDHYCHAL RAM	01-11-2009

THE DOGRA REGIMENT

1795	3984258P	HAV	AJEET	01-11-2009
1796	3986643X	HAV	ASHOK KUMAR	01-09-2009
1797	3984736N	HAV	ASHOK KUMAR	01-11-2009
1798	3986712H	HAV	ASHWANI KUMAR	01-09-2009

1799	3984092Y	HAV	BACHAN LAL	01-11-2009
1800	3986835P	HAV	BALKAR SINGH	01-11-2009
1801	3986888N	HAV	BARFI LAL SHARMA	01-12-2009
1802	3986689A	HAV	BHURYA RAM NAPIT	01-09-2009
1803	3984963N	HAV	BISHAMBER SINGH	01-01-2010
1804	3986633N	HAV	CHAMAN LAL	01-09-2009
1805	3986637K	HAV	DEV RAJ	01-09-2009
1806	3983909N	HAV	DINESH KUMAR	01-10-2009
1807	3986690P	HAV	HANS RAJ	01-09-2009
1808	3984427L	HAV	HARISH CHANDER	01-11-2009
1809	3986610M	HAV	HARMESH CHANDER	01-09-2009
1810	3984943A	HAV	JAGDISH CHAND	01-01-2010
1811	3986807H	HAV	JAGDISH CHAND	01-11-2009
1812	3985001W	HAV	JAGDISH CHAND	01-01-2010
1813	3986747Y	HAV	JEET RAM	01-10-2009
1814	3986691X	HAV	KAMAL DASS	01-09-2009
1815	3984890Y	HAV	KARAN SINGH	01-12-2009
1816	3986848M	HAV	KARNAIL SINGH	01-11-2009
1817	3984443H	HAV	KARNAIL SINGH	01-11-2009
1818	3983871P	HAV	KARTAR CHAND	01-10-2009
1819	3984497K	HAV	KASHMIR SINGH	01-11-2009
1820	3984815H	HAV	KESER SINGH	01-12-2009
1821	3983845N	HAV	KEWAL KRISHAN	01-09-2009
1822	3986760H	HAV	KRISHAN PAUL	01-10-2009
1823	3986745N	HAV	KULDEEP SINGH DYOUT	01-10-2009
1824	3984334W	HAV	KULDIP SINGH	01-11-2009
1825	3986916P	HAV	KULDIP SINGH	01-12-2009
1826	3986825L	HAV	KULVIR SINGH	01-11-2009
1827	3984790F	HAV	LAL SINGH	01-12-2009
1828	3984979Y	HAV	MAAN SINGH	01-01-2010
1829	3986908W	HAV	MANSA RAM	01-12-2009
1830	3984249N	HAV	MAST RAM	01-11-2009
1831	3986680L	HAV	MILAP CHAND	01-09-2009
1832	3984151A	HAV	MOHINDER SINGH	01-11-2009
1833	3984760K	HAV	NAND LAL	01-11-2009
1834	3986629L	HAV	NEEL CHAND	01-09-2009
1835	3986622F	HAV	NIHAL CHAND AZAD	01-09-2009
1836	3984021X	HAV	NIRMAL KUMAR	01-10-2009
1837	3986881K	HAV	OMKAR SINGH	01-10-2009
1838	3984718L	HAV	PAWAN KUMAR	01-11-2009
1839	3986900K	HAV	PRATAP CHAND	01-12-2009
1840	3984178X	HAV	PRITAM CHAND	01-11-2009
1841	3986718K	HAV	PURSHOTAM LAL	01-09-2009
1842	3986925W	HAV	R PARASURAMAN	01-01-2010
1843	3984063K	HAV	RAJ BHADUR	01-11-2009
1844	3986679W	HAV	RAJ KUMAR	01-09-2009
1845	3984142Y	HAV	RAJA RAM	01-11-2009
1846	2883206F	HAV	RAJENDER SINGH	01-11-2009
1847	3985283A	HAV	RAJINDER SINGH	01-01-2010
1848	3984186W	HAV	RAM KRISHAN	01-11-2009

1849	3984858X	HAV	RAM KRISHAN SHARMA	01-12-2009
1850	3986868A	HAV	RAM LAL	01-12-2009
1851	3984916W	HAV	RAMJEET YADAV	01-01-2010
1852	3986724X	HAV	RANJEET SINGH	01-09-2009
1853	3984311P	HAV	RANJIT SINGH	01-11-2009
1854	3986720F	HAV	RANJIT SINGH	01-09-2009
1855	3986684F	HAV	RAVINDER PRASAD SINGH	01-09-2009
1856	3986862Y	HAV	ROMESH SINGH	01-11-2009
1857	3986897P	HAV	SANT RAM SINGH	01-12-2009
1858	3984654L	HAV	SANTOKH SINGH	01-11-2009
1859	3984616P	HAV	SARWAN KUMAR	01-11-2009
1860	3983898M	HAV	SAT PAL	01-10-2009
1861	3986852P	HAV	SAT PAUL	01-11-2009
1862	3984796H	HAV	SEWAK RAM	01-12-2009
1863	3986623K	HAV	SHADI LAL	01-09-2009
1864	3984773F	HAV	SHER SINGH	01-11-2009
1865	7430560W	HAV	SOHAN LAL	01-01-2010
1866	3986767M	HAV	SOM RAJ	01-10-2009
1867	3986808L	HAV	SUBHASH CHAND	01-11-2009
1868	3986755X	HAV	SUBHASH CHANDER	01-10-2009
1869	3986739A	HAV	SUDERSHAN KUMAR CHANDEL	01-09-2009
1870	3984682X	HAV	SUKH PAL	01-11-2009
1871	3984457H	HAV	SUNIL DUTT	01-11-2009
1872	3986677L	HAV	SWAROOP CHAND	01-09-2009
1873	8031425X	HAV	THUMU DEVAVARA PRASAD	01-09-2009
1874	3986801F	HAV	TRILOK SINGH	01-11-2009
1875	3984081M	HAV	VIJAY KUMAR	01-10-2009
1876	3986675A	HAV	VINOD KUMAR	01-09-2009

THE GARHWAL RIFLES

1877	4066213M	HAV	AJAI PAL	01-11-2009
1878	4069007M	HAV	ANAND SINGH	01-12-2009
1879	4068906H	HAV	ANAND SINGH RAWAT	01-09-2009
1880	4068961Y	HAV	ANAND SINGH RAWAT	01-11-2009
1881	4069120F	HAV	ATAR SINGH	01-01-2010
1882	4068840X	HAV	BALBIR SINGH	01-09-2009
1883	4068813N	HAV	BALVIR SINGH	01-09-2009
1884	4065941A	HAV	BHAGWATI PRASAD	01-09-2009
1885	4068979P	HAV	BHARAT SINGH	01-12-2009
1886	4069068L	HAV	BHARAT SINGH	01-12-2009
1887	4068969L	HAV	BIR SINGH	01-12-2009
1888	4068971H	HAV	BIRENDRA SINGH	01-12-2009
1889	4069043Y	HAV	BIRENDRA SINGH	01-12-2009
1890	4068873H	HAV	CHANDAN SINGH	01-09-2009
1891	4066546Y	HAV	DALPAT SINGH NEGI	01-12-2009
1892	4068849M	HAV	DEV CHAND SINGH	01-09-2009
1893	4066592N	HAV	DEVANAND	01-12-2009
1894	4069074Y	HAV	DHAN SINGH	01-12-2009
1895	4068958Y	HAV	DHARAM SINGH	01-11-2009
1896	4069023L	HAV	DIGAMBAR SINGH	01-12-2009

1897	4068978M	HAV	GAJENDRA SINGH	01-12-2009
1898	4068827N	HAV	GOPAL SINGH	01-09-2009
1899	4069117H	HAV	GOVIND SINGH	01-01-2010
1900	4068831W	HAV	HAREE SINGH	01-09-2009
1901	4066177K	HAV	HARISH CHANDRA	01-10-2009
1902	4066653A	HAV	JAGTAMBA PRASAD	01-01-2010
1903	4066858P	HAV	JAI SINGH RAUTHAN	01-01-2010
1904	4066588L	HAV	JOGINDER SINGH	01-12-2009
1905	7430593F	HAV	KAMAL SINGH	01-01-2010
1906	4069104L	HAV	KAMLESH SINGH	01-01-2010
1907	4065846N	HAV	KEDAR SINGH	01-09-2009
1908	4066920W	HAV	KHARAK SINGH	01-01-2010
1909	4066791F	HAV	KHILAP SINGH	01-01-2010
1910	4068850F	HAV	KULDIP SINGH	01-09-2009
1911	4066647M	HAV	KUNDAN SINGH	01-01-2010
1912	4068963K	HAV	KUNDAN SINGH	01-11-2009
1913	4066597M	HAV	KUNWAR SINGH	01-10-2009
1914	4068974W	HAV	LAXMAN SINGH	01-12-2009
1915	4069053H	HAV	LAXMAN SINGH	01-12-2009
1916	8031468M	HAV	LOBAN KISKU	01-09-2009
1917	4065886P	HAV	MADAN MOHAN	01-09-2009
1918	4066442X	HAV	MAHABIR SINGH RAUTHAN	01-12-2009
1919	4068918X	HAV	MAHARAJ SINGH NEGI	01-09-2009
1920	4069022H	HAV	MAHENDER SINGH RANA	01-12-2009
1921	4068820K	HAV	MANBIR SINGH	01-09-2009
1922	4066117X	HAV	MOHAN PRASAD	01-10-2009
1923	4069109K	HAV	NARAIN SINGH	01-01-2010
1924	4068943W	HAV	PRATAP SINGH	01-10-2009
1925	4066158F	HAV	PREM SINGH	01-10-2009
1926	4066356M	HAV	PURAN SINGH	01-12-2009
1927	4069084H	HAV	RAGHUBIR SINGH GUSAIN	01-12-2009
1928	4068938L	HAV	RAGUBEER SINGH BHANDARI	01-10-2009
1929	4069029M	HAV	RAJ PAL SINGH	01-12-2009
1930	4068936A	HAV	RAJE SINGH	01-10-2009
1931	4068858N	HAV	RAJENDER PRASAD	01-09-2009
1932	4066805W	HAV	RAJNATH SINGH KUSHWAHA	01-01-2010
1933	4065949M	HAV	RAM DEO PAL	01-10-2009
1934	4066389X	HAV	RAM PRAKASH	01-12-2009
1935	4066310K	HAV	RAMBIR SINGH	01-12-2009
1936	4069054L	HAV	RAMENDER SINGH	01-12-2009
1937	4066149A	HAV	RAMESH LAL	01-10-2009
1938	4068965P	HAV	RANBIR SINGH	01-11-2009
1939	4068924L	HAV	RATAN SINGH	01-10-2009
1940	4066450W	HAV	SACHIDA NAND	01-12-2009
1941	4066545W	HAV	SAVDHAN SINGH	01-12-2009
1942	4069067H	HAV	SOBAN SINGH PANWAR	01-12-2009
1943	4066864H	HAV	SUNDAR SINGH	01-01-2010
1944	4068853P	HAV	SURENDRA SINGH	01-09-2009
1945	4069071L	HAV	SURENDRA SINGH NEGI	01-12-2009
1946	4065952M	HAV	TEK CHAND	01-10-2009

1947	4069035A	HAV	VINOD PRASAD	01-12-2009
1948	4068823X	HAV	VINOD SINGH	01-09-2009
1949	4068841A	HAV	YESPAL SINGH SAZWAN	01-09-2009
1950	4069050P	HAV	YOGAMBER SINGH	01-12-2009

THE KUMAON REGIMENT

1951	4180445L	HAV	A K SINGH YADAV	01-12-2009
1952	4178484L	HAV	ANAND SINGH	01-12-2009
1953	4180268W	HAV	BALWANT SINGH	01-10-2009
1954	4178573K	HAV	BALWANT SINGH BISHT	01-01-2010
1955	4180542H	HAV	BHARAT RAJ YADAV	01-01-2010
1956	14701125M	HAV	BRIDAY LAL SHARMA	01-10-2009
1957	4178427K	HAV	DALEEP KUNWAR CHAND	01-11-2009
1958	4180405K	HAV	DHARAM BIR	01-11-2009
1959	4178518N	HAV	DINESH CHAND DEOPA	01-12-2009
1960	14701156M	HAV	DINESH CHANDRA PATHAK	01-10-2009
1961	4180378L	HAV	GAGAN SINGH	01-11-2009
1962	4180193K	HAV	GAJENDER SINGH	01-09-2009
1963	4180363H	HAV	GANGA SINGH DHAMI	01-11-2009
1964	4178361Y	HAV	GOPAL SINGH	01-09-2009
1965	14701513K	HAV	GOPAL SINGH	01-11-2009
1966	4180235L	HAV	HARI OM SINGH	01-09-2009
1967	4180301H	HAV	HARISH RAM KOHLI	01-10-2009
1968	4178510F	HAV	INDER SINGH	01-12-2009
1969	4180223W	HAV	JAGAT SINGH	01-09-2009
1970	4180506X	HAV	JAGDISH SINGH	01-12-2009
1971	4178538F	HAV	KEDAR SINGH	01-12-2009
1972	4180226K	HAV	KEWAL SINGH	01-09-2009
1973	4180489H	HAV	KHUSHAL SINGH KANYAL	01-12-2009
1974	4180338K	HAV	KUMAR PAL SINGH	01-10-2009
1975	4178290H	HAV	KUNDAN SINGH	01-09-2009
1976	4180390M	HAV	KUNWAR SINGH	01-11-2009
1977	4178261N	HAV	LAL BAHADUR	01-09-2009
1978	4180326P	HAV	MADAN MOHAN	01-10-2009
1979	4180265H	HAV	MOHAN LAL	01-10-2009
1980	14701169K	HAV	NARHI RAM	01-11-2009
1981	4180525H	HAV	OMVEER SINGH YADAV	01-12-2009
1982	4180393A	HAV	PADAM SINGH	01-11-2009
1983	14701648L	HAV	PARMODH KUMAR	01-01-2010
1984	4178415P	HAV	PREM CHAND	01-10-2009
1985	4178503L	HAV	PREM SINGH	01-12-2009
1986	4178534L	HAV	PUASHKAR SINGH SAMANT	01-12-2009
1987	4180426A	HAV	RAJ KUMAR	01-11-2009
1988	4180348N	HAV	RAJENDER SINGH	01-11-2009
1989	4180431L	HAV	RAM SIHASN YADAV	01-11-2009
1990	4180460A	HAV	RAMBIR SINGH	01-12-2009
1991	4180529Y	HAV	RAMUGRAH SINGH	01-12-2009
1992	4180472P	HAV	RUKAM SINGH	01-12-2009
1993	4180537X	HAV	SHER SINGH MEHATA	01-01-2010
1994	4178473Y	HAV	SHYAM DATT BHATT	01-12-2009

1995	4180543L	HAV	SHYO CHAND YADAV	01-01-2010
1996	14701251Y	HAV	SURESH SINGH	01-11-2009
1997	4180174Y	HAV	UDAI BIR SINGH	01-09-2009
1998	4180294X	HAV	VIRENDRA SINGH YADAV	01-10-2009

THE ASSAM REGIMENT

1999	4426635H	HAV	ABDUL RASHID	01-12-2009
2000	4356699N	HAV	BAHADUR SINGH	01-10-2009
2001	8031572A	HAV	BANIK MARAK	01-09-2009
2002	4356612F	HAV	DAVID SAGAMA	01-09-2009
2003	4426691F	HAV	HIRALAL REE	01-10-2009
2004	4357116M	HAV	JANARDHAN PRASAD	01-12-2009
2005	4426700X	HAV	JAY NATH RAM	01-12-2009
2006	4356883Y	HAV	JOYMANI SINHA	01-11-2009
2007	10244743K	HAV	KALA SINGH	01-01-2010
2008	4357074L	HAV	L THANGSUMA	01-11-2009
2009	4358330F	HAV	LAL BHADUR CHETTRI	01-10-2009
2010	4357151P	HAV	LALZAMLIANA	01-12-2009
2011	4356568H	HAV	MHATHUNG LOTHIA	01-09-2009
2012	2880926X	HAV	MOHAMAD MOHTIN	01-01-2010
2013	4357411P	HAV	POSTA RAJ BARAL	01-01-2010
2014	4356650X	HAV	RANJIT KALAI	01-09-2009
2015	4426706Y	HAV	RISHI PAL	01-01-2010
2016	4357196P	HAV	SAMKHOHAO KUKI	01-01-2010
2017	4426629P	HAV	SEEKANDAR BAITHA	01-11-2009
2018	4357364H	HAV	TH SHEUNGAM KSEN LAMKANG	01-01-2010
2019	4356525N	HAV	THIANMINTHANG	01-09-2009

THE BIHAR REGIMENT

2020	4263357N	HAV	AKHAYA KUMAR BARIK	01-01-2010
2021	4262888Y	HAV	ANAND KUMAR	01-10-2009
2022	8031507A	HAV	ANIL KUMAR RAI	01-09-2009
2023	4263526K	HAV	ARJUN SAH	01-01-2010
2024	4263492F	HAV	ARJUN SAH	01-01-2010
2025	4262738H	HAV	ARVIND PRASAD	01-10-2009
2026	4262987F	HAV	ASHOK KUMAR	01-11-2009
2027	4263279F	HAV	AWADESH PRASAD	01-12-2009
2028	4263024F	HAV	BANSIDHAR PANDA	01-11-2009
2029	4263512K	HAV	BIMAL KUMAR SINGH	01-01-2010
2030	4264037L	HAV	BINAY KUMAR SINGH	01-12-2009
2031	4263481P	HAV	BIRENDRA PANDEY	01-01-2010
2032	4263177L	HAV	CHAUDHRY SINGH	01-11-2009
2033	4262743N	HAV	CHHATU RAM	01-10-2009
2034	4263475F	HAV	GUPTESWAR SINGH	01-01-2010
2035	4262771A	HAV	HARENDRA YADAV	01-10-2009
2036	8031496Y	HAV	HARI KISHOR PRASAD SINGH	01-09-2009
2037	8031432N	HAV	HARIDWAR SHARNA SHARMA	01-09-2009
2038	4263361W	HAV	JAY KUMAR RAM	01-11-2009
2039	4263330W	HAV	JHULAN YADAV	01-12-2009
2040	4265590A	HAV	KALINDRA SAHU	01-01-2010

2041	4263152Y	HAV	KAMESHWAR SINGH	01-12-2009
2042	4263428K	HAV	LAL BABU RAM	01-12-2009
2043	4263520H	HAV	LAXMAN RAM	01-01-2010
2044	4263207X	HAV	LAXMI PRASAD YADAV	01-10-2009
2045	8031489H	HAV	MAHENDRA KUMAR MUDULI	01-09-2009
2046	8031789K	HAV	MANDARADI DHARMA RAO	01-01-2010
2047	4263457Y	HAV	MANJAR SHARMA	01-01-2010
2048	4262756L	HAV	MORIS BASANT MINZ	01-10-2009
2049	4263135Y	HAV	MUNI LAL CHOUDHARY	01-11-2009
2050	4262760N	HAV	PRABHASH CHANDRA	01-10-2009
2051	4265550Y	HAV	RAGHAW DAS	01-12-2009
2052	4262608A	HAV	RAJ MANGAL SINGH	01-09-2009
2053	4265560H	HAV	RAJENDER PRASAD SINGH	01-10-2009
2054	4262796M	HAV	RAKESH KUMAR RANA	01-10-2009
2055	4263739X	HAV	RAKESH YADAV	01-01-2010
2056	4263427F	HAV	RAM DAS RAVIDAS	01-12-2009
2057	4263393Y	HAV	RAM ISHWAR SINGH	01-11-2009
2058	4263034L	HAV	SADHU SHARAN PRASAD	01-11-2009
2059	4265578Y	HAV	SHANKAR BARAIK	01-12-2009
2060	4263734Y	HAV	SHIV SHANKAR RAI	01-01-2010
2061	4263518L	HAV	SHYAM NATH YADAV	01-01-2010
2062	4263391N	HAV	SUDARSHAN SINGH	01-11-2009
2063	4263169M	HAV	SURENDRA KUMAR SINGH	01-11-2009
2064	4263478P	HAV	SURESH RAI	01-01-2010
2065	4263374N	HAV	TELESPHOR BECK	01-12-2009

THE MAHAR REGIMENT

2066	13965491L	HAV	ANOKHE LAL	01-12-2009
2067	4558152N	HAV	BACCH RAJ	01-11-2009
2068	4558078X	HAV	BHASKAR GAIKWAD	01-10-2009
2069	8031475H	HAV	BHOPAL SINGH	01-09-2009
2070	4558144P	HAV	BOLAKE PRALHAD GANAPATI	01-10-2009
2071	4558169F	HAV	DURGA SINGH	01-11-2009
2072	8031504M	HAV	GIRISH CHAND TIWARI	01-09-2009
2073	8031473X	HAV	JAGAT SINGH	01-09-2009
2074	4558177A	HAV	M D KAMREJ ALI	01-11-2009
2075	4558149N	HAV	PAWAR VIJAY RAM CHANDRA	01-11-2009
2076	4555052X	HAV	PRAHALLAD CHANDRA PRADHAN	01-11-2009
2077	8031619A	HAV	SAIN SINGH	01-10-2009
2078	4558546M	HAV	SEELAM NAGESWARA REDDY	01-10-2009
2079	4558211P	HAV	SHEKH SHAFI MAHMAD SIDIK BHAI	01-12-2009
2080	4558214H	HAV	SHIV THAKUR	01-01-2010
2081	4554766Y	HAV	SUDAM SHIVRAM NETKE	01-09-2009
2082	4558173K	HAV	SURENDER PRASAD SINGH	01-11-2009

THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES

2083	13750864M	HAV	AMAR BAHADUR SUNAR	01-09-2009
2084	13748628M	HAV	ARJAN SINGH	01-11-2009
2085	13748705W	HAV	BAL BIR SINGH	01-11-2009
2086	13750804X	HAV	BIKRAM SINGH	01-09-2009

2087	13750835X	HAV	DARSHAN KUMAR	01-09-2009
2088	13750836P	HAV	DARSHAN SINGH	01-09-2009
2089	13750986W	HAV	DHANI RAM	01-01-2010
2090	13748569L	HAV	JAG MOHAN	01-11-2009
2091	13750816M	HAV	JAGJIT SINGH	01-09-2009
2092	13748622L	HAV	JASWANT SINGH	01-11-2009
2093	13748696A	HAV	JEET SINGH	01-11-2009
2094	13750966H	HAV	KAMAL TAMANG	01-11-2009
2095	13750906N	HAV	KEDAR NATH ADHIKARI	01-10-2009
2096	13748794A	HAV	KEWAL KUMAR	01-12-2009
2097	13750868H	HAV	KULDEEP SINGH	01-09-2009
2098	13750847M	HAV	MOHINDER SINGH	01-09-2009
2099	13748611Y	HAV	PARAMJIT SINGH	01-11-2009
2100	13749055A	HAV	PRADEEP PRADHAN	01-12-2009
2101	13748929W	HAV	PRITHI CHAND	01-12-2009
2102	13749100F	HAV	RAM CHAND	01-01-2010
2103	13750817P	HAV	RAM PRASAD CHHETRI	01-09-2009
2104	13748986X	HAV	RAMESH CHANDER	01-12-2009
2105	13749162F	HAV	RAMESH SINGH	01-01-2010
2106	13748509W	HAV	ROMESH CHANDER	01-09-2009
2107	13750946P	HAV	SHADEEP KUMAR	01-10-2009
2108	13750949H	HAV	SHRI PRASAD GURUNG	01-10-2009
2109	13751246N	HAV	SHYAM NARAYAN RAM	01-11-2009
2110	13750938W	HAV	SNJEEV KUMAR BASNET	01-10-2009
2111	13750932P	HAV	SOHAN SINGH	01-10-2009
2112	13750869L	HAV	SURJEET SINGH	01-09-2009
2113	13750858Y	HAV	TARA SINGH	01-09-2009

THE LADAKH SCOUTS

2114	9923385Y	HAV	CHHERING ANGCHOK	01-10-2009
2115	9923401L	HAV	LOBZANG RINCHEN	01-11-2009
2116	9923390K	HAV	MURUP DORJE	01-10-2009
2117	9923398W	HAV	PHUNCHOK NAMGIAL	01-10-2009
2118	9923394A	HAV	TASHI TSERING	01-10-2009
2119	9923375P	HAV	THUKTAN ZANGBO	01-09-2009
2120	9923411P	HAV	TUNDUP WANGIAL	01-11-2009

THE NAGA REGIMENT

2121	14702083X	HAV	A NEKHINI	01-09-2009
2122	14701172K	DFR	BALBIR SINGH	01-11-2009
2123	14701368X	DFR	C YONGTHRONGSE	01-11-2009
2124	14701236K	HAV	DARWAN SINGH	01-11-2009
2125	14701217Y	DFR	GANGA SINGH	01-11-2009
2126	14701340X	DFR	I M I MANEN	01-11-2009
2127	14701120N	DFR	KALU RAM	01-10-2009
2128	14701253K	HAV	MADAN SINGH	01-12-2009
2129	14702128M	DFR	MAHENDRA DATT	01-01-2010
2130	14701544K	DFR	NARAYAN SINGH SHAHI	01-11-2009
2131	14701622W	DFR	S W REISHANGSOK	01-01-2010
2132	14702122L	DFR	VINOD KUMAR	01-01-2010

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

2133	9085568F	HAV	ASSIF JOO	01-09-2009
2134	9085720K	HAV	BHAG HUSSAIN	01-12-2009
2135	9085619K	HAV	HASSAIN DIN	01-10-2009
2136	9085584Y	HAV	KRISHNA PRASAD SHARMA	01-09-2009
2137	1473607Y	HAV	LEKH RAJ	01-01-2010
2138	9085727N	HAV	MOHD DIN	01-12-2009
2139	9085528A	HAV	MOHD HUSSAIN	01-09-2009
2140	9085607P	HAV	PHOOL KUMAR	01-10-2009
2141	9088018K	HAV	RAM AVTAR	01-11-2009
2142	9085630H	HAV	TALIB HUSSAIN	01-10-2009

1 GORKHA RIFLES

2143	5043826W	HAV	BIRPAL BALMIKI	01-12-2009
2144	5043407Y	HAV	CHAMAK LAL MANDAL	01-01-2010
2145	5043264K	HAV	DHARAM DEO	01-12-2009
2146	5043808N	HAV	DIL BAHADUR THAPA	01-11-2009
2147	5043823H	HAV	KASHI RAM THAPA	01-12-2009
2148	5043270X	HAV	PURNA BAHADUR THAPA	01-12-2009
2149	5043803P	HAV	YAM BAHADUR PUN	01-11-2009

3 GORKHA RIFLES

2150	5245347X	HAV	AJAY GURUNG	01-01-2010
2151	5245358K	HAV	BIDYA DHAR BISWAL	01-10-2009
2152	5244946L	HAV	GOVIND SWAROOP	01-11-2009
2153	5245348A	HAV	GURU PRASAD SINGJALI	01-01-2010
2154	5244929L	HAV	JHAL BAHADUR THAPA	01-09-2009
2155	5245041P	HAV	KASHI RAM THAPA	01-01-2010
2156	5245344K	HAV	LAL BAHADUR PUN	01-01-2010
2157	5245341W	HAV	LAXMI BAHADUR THAPA	01-01-2010
2158	5244944A	HAV	RUDRA MALLA	01-10-2009

4 GORKHA RIFLES

2159	5345202F	HAV	BALAK RAM	01-10-2009
2160	5345733Y	HAV	BORALLE TAVITAYYA	01-12-2009
2161	5345691X	HAV	GOBARDHAN RANA	01-09-2009
2162	5345730L	HAV	JHUM BAHADUR THAPA	01-01-2010
2163	5345167K	HAV	KASHMIR THAPA	01-09-2009
2164	5345244N	HAV	KRISHNA BAHADUR GURUNG	01-11-2009
2165	5345229Y	HAV	M D KASIM	01-12-2009
2166	5345703F	HAV	PURAN SINGH	01-10-2009
2167	5345205P	HAV	RAM BARAN	01-11-2009
2168	5345164W	HAV	RAM KISHAN	01-09-2009
2169	5345195W	HAV	SAUKAT ALI	01-10-2009
2170	5345294Y	HAV	SHYAM KUMAR	01-01-2010

5 GORKHA RIFLES

2171	5450037A	HAV	BIRENDRA KUMAR	01-10-2009
2172	5450008L	HAV	DEVENDRA BAHADUR GURUNG	01-10-2009

2173	5450007H	HAV	DIL BAHADUR GURUNG	01-10-2009
2174	5450013W	HAV	DURGA BAHADUR THAPA	01-11-2009
2175	5450081K	HAV	GUMAN SINGH PUN	01-01-2010
2176	5450004P	HAV	HOTA BAHADUR THAPA	01-10-2009
2177	5450017M	HAV	HUM BAHADUR RANA	01-11-2009
2178	5449986A	HAV	KEDAR SINGH	01-10-2009
2179	5450204L	HAV	LALIT BAHADUR THAPA	01-01-2010
2180	5450030W	HAV	LAXMAN THAPA	01-11-2009
2181	5449992N	HAV	MAN BAHADUR GURUNG	01-10-2009
2182	5450077F	HAV	MIN BAHADUR THAPA MAGAR	01-01-2010
2183	5450203H	HAV	NARA BAHADUR THAPA	01-01-2010
2184	5450086H	HAV	OM RAJ SHRESTHA	01-01-2010
2185	5450054A	HAV	RAM BAHADUR GURUNG	01-10-2009
2186	5450045A	HAV	RAM BAHADUR THAPA	01-10-2009
2187	5449610Y	HAV	RAM PRASAD	01-12-2009
2188	5449611F	HAV	SAMBHU SAH	01-01-2010
2189	5450078K	HAV	SHER BAHADUR RANA	01-01-2010
2190	5449557Y	HAV	TEK BAHADUR SUNAR	01-10-2009
2191	5450071A	HAV	THARKA BAHADUR THAPA	01-12-2009
2192	5449993W	HAV	VES BAHADUR THAPA	01-10-2009

8 GORKHA RIFLES

2193	5751256M	HAV	BUDHU PRASAD TIWARI	01-11-2009
2194	5751296N	HAV	CHANDAR BAHADUR GURUNG	01-12-2009
2195	5751285F	HAV	DAL BAHADUR THAPA	01-10-2009
2196	5751254F	HAV	DEV BAHADUR BARAL	01-10-2009
2197	5751381W	HAV	DHAN BAHADUR THAPA	01-01-2010
2198	5751280H	HAV	HEM BAHADUR THAPA	01-10-2009
2199	5751252W	HAV	HOM BAHADUR PUN MAGAR	01-10-2009
2200	5751385M	HAV	JIT BAHADUR THAPA	01-01-2010
2201	5751318F	HAV	KAMAL PRASAD BURATHOKI	01-01-2010
2202	5751315N	HAV	KUL BAHADUR GURUNG	01-01-2010
2203	5751407A	HAV	KUL BAHADUR THAPA	01-01-2010
2204	5751247L	HAV	MEKH BAHADUR GURUNG	01-10-2009
2205	5751233L	HAV	NARESH KUMAR	01-10-2009
2206	5750832Y	HAV	RAJENDER PRASAD	01-11-2009
2207	5751396Y	HAV	RUH BAHADUR THAPA CHHETRI	01-01-2010
2208	5751269K	HAV	SANTA BAHADUR GURUNG	01-11-2009
2209	5750900F	HAV	SUBORNA ROY	01-12-2009
2210	5750912W	HAV	YAM BAHADUR THAPA	01-01-2010

9 GORKHA RIFLES

2211	5845632N	HAV	BHADRA BAHADUR CHARMAKAR	01-01-2010
2212	5845654M	HAV	DIL BAHADUR NEPALI	01-01-2010
2213	5845552N	HAV	RAGHUBAR SINGH	01-10-2009
2214	5845609A	HAV	RAJ PAL	01-12-2009
2215	5846255P	HAV	TARA VIKRAM SEN	01-01-2010

11 GORKHA RIFLES

2216	9417892N	HAV	BHIM BAHADUR PRADHAN	01-11-2009
------	----------	-----	----------------------	------------

2217	9418501K	HAV	CHANDRA BHAKTA RAI	01-11-2009
2218	9418543W	HAV	DEO KUMAR RAI	01-01-2010
2219	9418493W	HAV	DINESH SINGH	01-11-2009
2220	9418498P	HAV	GIR BAHADUR TAMAN	01-11-2009
2221	9417933M	HAV	GYAN BAHADUR RAI	01-01-2010
2222	9417914F	HAV	JAGDISH CHANDRA	01-12-2009
2223	9418534P	HAV	NAIN BAHADUR PRADHAN	01-11-2009
2224	9418495F	HAV	PASANG LAMA	01-11-2009
2225	9417894Y	HAV	RAJ KUMAR	01-11-2009
2226	9418494Y	HAV	SUKH DEV SHARMA	01-09-2009
2227	9418483M	HAV	SURENDER	01-10-2009
2228	9418492N	HAV	SURENDRA PASWAN	01-10-2009
2229	9418527Y	HAV	VIJAYA KUMARAN P	01-12-2009

ARMY SERVICE CORPS(SOUTH)

2230	6379187A	HAV	A VELAYUTHAM	01-09-2009
2231	13897035Y	HAV	ADAM CHANDRA DAS	01-12-2009
2232	13894071Y	HAV	AMAR SINGH	01-01-2010
2233	6379520N	HAV	ANUP KUMAR MURMU	01-12-2009
2234	13891078X	HAV	ARBINDRA NATH	01-11-2009
2235	6381268Y	HAV	ARUN KUMAR CHOWDHURY	31-10-2009
2236	6379251M	HAV	ASHA RAM	01-10-2009
2237	13891501M	HAV	ASHOK KUMAR PRADHAN	01-01-2010
2238	13890844W	HAV	ASHOK KUMAR SHARMA	01-09-2009
2239	6381172W	HAV	ASHOKAN P V	01-10-2009
2240	13887774X	HAV	BABULAL	01-12-2009
2241	13891606W	HAV	BABY C	01-01-2010
2242	13887186K	HAV	BAHADUR SINGH	01-12-2009
2243	6381167L	HAV	BALJIT SINGH KHAPRA	01-10-2009
2244	6379292W	HAV	BALKHIRA RAM	01-11-2009
2245	6379388Y	HAV	BALLABH DAS	01-11-2009
2246	13891299K	HAV	BHAGWAN SINGH	01-11-2009
2247	6379622K	HAV	BIJENDER SINGH	01-01-2010
2248	13887125M	HAV	BIKASH RANJAN SIKDAR	01-09-2009
2249	13887983P	HAV	BIRPAL SINGH	01-01-2010
2250	13895852Y	HAV	BRAJ MOHAN BARI	01-09-2009
2251	6379233K	HAV	BRIJ BHAN	01-10-2009
2252	13891361L	HAV	BRIJ MOHAN	01-12-2009
2253	13891391H	HAV	BYAS DEV SINGH	01-12-2009
2254	13887712X	HAV	C ANANDAN	01-12-2009
2255	6379510K	HAV	CHACKO M J	01-12-2009
2256	6379516L	HAV	CHANDRAMA RAM	01-12-2009
2257	13887534A	HAV	DADAN BHARTI	01-12-2009
2258	6380766Y	HAV	DADAN PRASAD	01-10-2009
2259	6379188H	HAV	DHAN SINGH GURUNG	01-09-2009
2260	6379190A	HAV	DINA NATH RAM	01-09-2009
2261	13894151W	HAV	DINESH UPADHYAY	01-01-2010
2262	13887499H	HAV	DOCTOR SINGH KUSHWAHA	01-12-2009
2263	6379466L	HAV	EISAD HUSAIN	01-12-2009
2264	13887069Y	HAV	G SAVARI RAJ	01-09-2009

2265	13891204Y	HAV	GIRIDHAR DEWRI	01-11-2009
2266	6379646N	HAV	GOPAL	01-01-2010
2267	13887442N	HAV	GOVIND	01-11-2009
2268	6379227W	HAV	GULAB RAM	01-10-2009
2269	13891371P	HAV	HANS NATH THAKUR	01-12-2009
2270	13890880F	HAV	HANS RAJ YADAV	01-09-2009
2271	6379607P	HAV	HARIKESH PRASAD	01-01-2010
2272	6379334X	HAV	HARISH CHANDRA PATHAK	01-11-2009
2273	6379649F	HAV	HIRE MAHTO	01-01-2010
2274	13894022W	HAV	INDER SINGH	01-12-2009
2275	13894039K	HAV	INDRAJIT PANDEY	01-01-2010
2276	13894159H	HAV	JAG MOHAN SINGH BHANDARI	01-01-2010
2277	13894054Y	HAV	JAGANNATH PRASAD	01-01-2010
2278	6381292P	HAV	JAGJEEVAN SINGH BIST	01-11-2009
2279	13887354X	HAV	JAI KISHAN	01-11-2009
2280	6379430M	HAV	JALALUDEEN M	01-12-2009
2281	6472868P	HAV	JAWAHAR LAL SINGH	01-11-2009
2282	13887150L	HAV	JAY PRAKASH TIWARI	01-10-2009
2283	6381282L	HAV	JAYA PRAKASH T S	01-11-2009
2284	6472783Y	HAV	KALI CHARAN	01-10-2009
2285	13891378Y	HAV	KANHAIYA LAL YADAV	01-12-2009
2286	13891429F	HAV	KAPIL DEV RAI	01-12-2009
2287	13894016H	HAV	KAVRPAL	01-12-2009
2288	13891476A	HAV	KAWLESHWAR RAM	01-01-2010
2289	13891301W	HAV	KESHAV PRASAD	01-11-2009
2290	6379194W	HAV	KIRTI RANJAN ROY	01-09-2009
2291	6380433M	HAV	KOLI MADHUKAR ANANDA	01-11-2009
2292	6379269H	HAV	KOORA RAM	01-10-2009
2293	6379264K	HAV	KRISHNA GOPAL	01-10-2009
2294	13887377Y	HAV	KSHETRABASI NAYAK	01-11-2009
2295	6379537F	HAV	KULDEEP SINGH	01-01-2010
2296	13897978X	HAV	KUMAR LAL	01-11-2009
2297	6379514A	HAV	KUMAR PAWAR MADHUKAR SOPAN	01-12-2009
2298	13887608K	HAV	LAL BABU THAKUR	01-11-2009
2299	13891242P	HAV	LAL BIHARI RAM	01-12-2009
2300	13887724M	HAV	LAL CHAND	01-12-2009
2301	6379330F	HAV	LALTA PRASAD	01-11-2009
2302	13887441L	HAV	LAXMAN SINGH	01-11-2009
2303	6379557P	HAV	LAXMANA PATRA	01-01-2010
2304	13887121W	HAV	M SADURA GIRI	01-09-2009
2305	6381257M	HAV	MADHU SUDAN BHUNIA	01-11-2009
2306	13891145X	HAV	MAHAVIR SINGH	01-11-2009
2307	13894360N	HAV	MAHESH CHANDRA	01-01-2010
2308	13891103L	HAV	MAHESH KUMAR BAGHEL	01-11-2009
2309	6379602W	HAV	MAHESWAR BEHERA	01-01-2010
2310	13887275H	HAV	MAKHAN SINGH	01-11-2009
2311	13890842L	HAV	MAN PAL	01-09-2009
2312	6379496H	HAV	MANDAGA LA CHAYYA	01-12-2009
2313	13890914K	HAV	MANSA UPADHYAY	01-10-2009
2314	13894408W	HAV	MATHUR THAKUR	01-10-2009

2315	6379363M	HAV	MOHAN SINGH	01-11-2009
2316	13891293H	HAV	MOTI RAM	01-11-2009
2317	13887897K	HAV	MURALEEDHARAN P	01-01-2010
2318	6379599F	HAV	MURLIDHAR MALLIK	01-01-2010
2319	13891543Y	HAV	NAKUL BARMAN	01-12-2009
2320	6379636K	HAV	NAND KISHORE SINGH	01-12-2009
2321	13887636W	HAV	NARENDRA NAHT BORO	01-12-2009
2322	13895923P	HAV	PARIMAL PRADHAN	01-01-2010
2323	13890803M	HAV	PARMATHMA SINGH	01-09-2009
2324	6379208L	HAV	POPAT KUNDLIK GASTE	01-09-2009
2325	6379333P	HAV	PRATAP SINGH	01-11-2009
2326	13890997A	HAV	PREM PRAKASH MAURYA	01-11-2009
2327	13890856L	HAV	PURNA BAHADUR PUKHROL	01-10-2009
2328	6381160F	HAV	RABIN TALUKDAR	01-10-2009
2329	6379250K	HAV	RABINDRA KUMAR SAHOO	01-10-2009
2330	13891730X	HAV	RABINDRA SINGH	01-12-2009
2331	13897937N	HAV	RADHA KRISHNAN PAROTH KANDU	01-09-2009
2332	13887648L	HAV	RAJ PAL SINGH	01-12-2009
2333	13887799K	HAV	RAJEEV KUMAR MISHRA	01-12-2009
2334	6381392A	HAV	RAJENDRA SINGH	01-01-2010
2335	6379590M	HAV	RAJINDER PRASAD	01-01-2010
2336	13890893Y	HAV	RAJWALI YADAV	01-10-2009
2337	13894374N	HAV	RAKESH BABOO	01-01-2010
2338	6379616W	HAV	RAM ASHISH SHARMA	01-01-2010
2339	13891113P	HAV	RAM BINOD THAKUR	01-11-2009
2340	13887951M	HAV	RAM DHARI	01-12-2009
2341	6379465H	HAV	RAM PRAKASH	01-12-2009
2342	6379539M	HAV	RAMAN KUMAR SINGH	01-01-2010
2343	13891294L	HAV	RAMAYODHYA SINGH	01-11-2009
2344	13887546P	HAV	RAMESHWAR SINGH	01-12-2009
2345	13891381Y	HAV	RAMJI SINGH	01-12-2009
2346	6476884K	HAV	RATI RAM YADAV	01-09-2009
2347	6379530X	HAV	RAVINDER NATH RAM	01-12-2009
2348	8031555A	HAV	SABYA SACHI GHOSH.	01-09-2009
2349	13887320K	HAV	SADHU RAM	01-10-2009
2350	6381319F	HAV	SAILEN GOGOI	01-12-2009
2351	6379464A	HAV	SALIG RAM	01-12-2009
2352	6472810X	HAV	SANJAY KUMAR	01-11-2009
2353	13891835F	HAV	SANTOSH KUMAR	01-01-2010
2354	13894035N	HAV	SASHEENDRAN KARUVACHALIL	01-01-2010
2355	13891308A	HAV	SHAHID ALI	01-11-2009
2356	6472675P	HAV	SHAILENDRA SINGH	01-10-2009
2357	13891700A	HAV	SHAJI C S	01-12-2009
2358	6379351X	HAV	SHER SINGH DHANAK	01-11-2009
2359	6379441Y	HAV	SHIV CHANDRA PANDIT	01-12-2009
2360	13887536L	HAV	SHIV JANAM SINGH	01-12-2009
2361	13887410L	HAV	SHIV SAGAR	01-11-2009
2362	13891115A	HAV	SHIV SHANKAR SAH	01-11-2009
2363	6379652F	HAV	SHIVAJI BAPU RAO GUTTE	01-01-2010
2364	13887414F	HAV	SHRIDHAR KR MISHRA	01-11-2009

2365	13891807P	HAV	SRI KENA RAM PAN	01-01-2010
2366	6379593A	HAV	SUBHASH CHAND	01-01-2010
2367	6379494X	HAV	SUJAN SINGH	01-12-2009
2368	13887398P	HAV	SUMANDER SINGH	01-11-2009
2369	13890828Y	HAV	SUMOD KUMAR	01-09-2009
2370	6379582N	HAV	SURAJIT RAY TALUKDAR	01-01-2010
2371	13887540N	HAV	SURENDER KUMAR SINGH	01-12-2009
2372	6472718Y	HAV	SURENDRA SINGH	01-10-2009
2373	6381337K	HAV	SURESH	01-12-2009
2374	13887405A	HAV	SURESH BABU	01-11-2009
2375	13891884K	HAV	SURESH BABU K	01-01-2010
2376	6379275W	HAV	SURESH CHANDER	01-10-2009
2377	6381310M	HAV	SWANT NAMDEV GUNAJI	01-12-2009
2378	6379271A	HAV	THAN SINGH	01-10-2009
2379	13891137Y	HAV	TUKEE RAM	01-11-2009
2380	6379490F	HAV	UDDHAB CH KHATANAR	01-12-2009
2381	6379521W	HAV	UMA KANT BARIK	01-12-2009
2382	6472731H	HAV	VASANT YADAO WANKHEDE	01-10-2009
2383	6379541K	HAV	VERMA SINGH	01-01-2010
2384	13894110M	HAV	VINDHYACHAL SINGH	01-01-2010
2385	6379217M	HAV	VIRENDER KUMAR	01-10-2009
2386	6379201F	HAV	VISHWA NATH RAM	01-09-2009
2387	6379242L	HAV	VRISHBHAN	01-10-2009
2388	6379492M	HAV	WAKIL DAS	01-12-2009
2389	13891502P	HAV	Y NILADRI	01-01-2010
2390	13895313H	HAV	YUGAL KISHORE PASWAN	01-10-2009

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

2391	6472857H	HAV	AKHILESWAR TIWARI	01-11-2009
2392	6472874H	HAV	ANANDA MOHAN KARMAKAR	01-12-2009
2393	6472727A	HAV	ANANDA SAHA	01-10-2009
2394	6472928Y	HAV	ASHOK KUMAR	01-12-2009
2395	6476008Y	HAV	ASHOK KUMAR N	01-01-2010
2396	6472945Y	HAV	BADRI GUPTA	01-01-2010
2397	6472785K	HAV	BAIJ NATH	01-10-2009
2398	6476986A	HAV	BALA KRISHNAN T	01-12-2009
2399	6476934K	HAV	BALJIT SINGH	01-11-2009
2400	6472979M	HAV	BHAGIRATHI	01-12-2009
2401	6379751K	HAV	BIJAYA KUMAR SETHI	01-01-2010
2402	6472689P	HAV	BIRENDER SINGH	01-09-2009
2403	6472761A	HAV	BRIJ KISHOR PRASAD	01-11-2009
2404	6476993W	HAV	C R R REDDY	01-01-2010
2405	6472848F	HAV	CHANCHAL SINGH DESILA	01-12-2009
2406	6472643M	HAV	DAYA SHANKAR	01-09-2009
2407	6472859N	HAV	DEVI KUMAR SINGH	01-11-2009
2408	6472836M	HAV	DEW NATH RAM	01-12-2009
2409	6476064X	HAV	DINBANDHU SAHU	01-01-2010
2410	6472828N	HAV	GOBINDA CHANDRA JENA	01-11-2009
2411	6472795N	HAV	JAGAT SINGH	01-11-2009
2412	6472687K	HAV	JAI SHANKAR OJHA	01-09-2009

2413	6476898K	HAV	JAI SINGH	01-09-2009
2414	6472970X	HAV	K RAMA CHANDRAN	01-01-2010
2415	6476013K	HAV	KANHIYA LAL SONI	01-01-2010
2416	6472786M	HAV	KASI RAM	01-10-2009
2417	6472882F	HAV	KISHAN LAL	01-12-2009
2418	6476895W	HAV	M D DILDAR SHAIKH	01-09-2009
2419	6472904P	HAV	M D FAYAJ ALI	01-12-2009
2420	6379587M	HAV	M N SUNCHWAR	01-01-2010
2421	6472942L	HAV	MAHADEV KUMAR YADAV	01-01-2010
2422	6472837P	HAV	MAHINDER RAM	01-11-2009
2423	6472974N	HAV	MOHAMMED JAMEED KHAN	01-01-2010
2424	6472995K	HAV	MUNNA RAM	01-01-2010
2425	6472674M	HAV	MURALEEDHARAN NAIR B	01-10-2009
2426	6472697N	HAV	NAND LAL SINGH	01-10-2009
2427	6476912L	HAV	PROMOD CH RABHA	01-10-2009
2428	6472846W	HAV	RABIN DEBNATH	01-12-2009
2429	6482021Y	HAV	RADHA KRISHNA KURUP B	01-01-2010
2430	6472766Y	HAV	RAM BISHAL BHAGAT	01-11-2009
2431	6379311W	HAV	RAM NARESH SINGH	01-11-2009
2432	6472897K	HAV	RAWADA MOHAN REDDY	01-12-2009
2433	6379384H	HAV	RUDAL SINGH	01-11-2009
2434	6472801W	HAV	RUP SINGH	01-11-2009
2435	6472876N	HAV	S K DARESH	01-12-2009
2436	6472896F	HAV	SAIDALAVI K	01-12-2009
2437	6476985X	HAV	SANTOSH KUMAR SWAIN	01-12-2009
2438	6472935P	HAV	SASI KUMAR T	01-01-2010
2439	6476011Y	HAV	SHAMBU MISHRA	01-01-2010
2440	6379658H	HAV	SHIVANAND G HIEMATH	01-12-2009
2441	6472946F	HAV	SHRI KANT SAW	01-01-2010
2442	6472722F	HAV	SHYAM KUMAR	01-10-2009
2443	6472750N	HAV	SITA RAM HARIJAN	01-10-2009
2444	6472982M	HAV	TRINATH JENA	01-12-2009
2445	6379407Y	HAV	TULSI PRASAD SINGH	01-11-2009

ARMY MEDICAL CORPS

2446	13955566K	HAV	A B KOLI	01-11-2009
2447	13955245M	HAV	A K MUKHERJEE	01-10-2009
2448	13965423X	HAV	A S LAXMAN	01-12-2009
2449	13955990M	HAV	ABDUL MAJEED P T	01-12-2009
2450	13955130Y	HAV	AJAY KUMAR SINGH	01-10-2009
2451	13960240X	HAV	AJIJUR RAJAMAN	01-11-2009
2452	13956174H	HAV	ALI HUSSAIN AHMED	01-01-2010
2453	13956238H	HAV	ANAND BALLABH	01-01-2010
2454	13960239H	HAV	ASHIS CHAKRABORTY	01-11-2009
2455	13955247X	HAV	ASHOK DEWAN	01-10-2009
2456	13955124L	HAV	AWADESH PRATAP	01-10-2009
2457	13955423K	HAV	B B TAMANG	01-11-2009
2458	13955181M	HAV	B M MARUTI	01-10-2009
2459	13955172L	HAV	BAL KISHAN	01-10-2009
2460	13955989X	HAV	BALAKRISHANAN A	01-12-2009

2461	13955149X	HAV	BALBIR	01-10-2009
2462	13956080L	HAV	BALWANT SINGH	01-12-2009
2463	13955254M	HAV	BANI SHANKAR ADHURYA	01-10-2009
2464	13955797A	HAV	BANKA CHAND ROY	01-12-2009
2465	13955392P	HAV	BASAVA RAJ	01-11-2009
2466	13954791M	HAV	BASUDEV	01-09-2009
2467	13955388M	HAV	BHANU PRATAP SINGH	01-11-2009
2468	13955861M	HAV	BHIMSEN PATEL	01-12-2009
2469	13955049M	HAV	BHUP SINGH	01-10-2009
2470	13956230W	HAV	BHUWAN CHANDRA	01-01-2010
2471	13955836N	HAV	BIHARI SINGH	01-12-2009
2472	13955322W	HAV	BIPADTARAN ROY	01-11-2009
2473	13955603M	HAV	BIRENDER KUMAR MISRA	01-11-2009
2474	13955556A	HAV	BIRENDER SINGH	01-11-2009
2475	13955956M	HAV	BIRENDRA SINGH	01-12-2009
2476	13955669H	HAV	BISWA NATH NANDI	01-11-2009
2477	13955522M	HAV	C K MISRA	01-11-2009
2478	13955525A	HAV	C P VISWAKARAMA	01-11-2009
2479	13955817H	HAV	C PURUSOTAMAN	01-12-2009
2480	13956048W	HAV	C S POONIA	01-12-2009
2481	13955054X	HAV	C SELLADURAI	01-10-2009
2482	13956138X	HAV	CHANDRA PRAKASH	01-12-2009
2483	13955004M	HAV	CHANDRAN V V	01-10-2009
2484	13956468W	HAV	CHANNA BASAPPA G	01-01-2010
2485	13955372F	HAV	CHHANU RAM	01-11-2009
2486	13955461A	HAV	D C PATHAK	01-11-2009
2487	13956027A	HAV	D JANARDHANAN	01-12-2009
2488	13955807Y	HAV	D P MAHAPATRA	01-12-2009
2489	13964104Y	HAV	D P TIWARI	01-09-2009
2490	13955432L	HAV	D S R S SHEKHWAT	01-11-2009
2491	13955831P	HAV	DADAN RAM	01-12-2009
2492	13957778N	HAV	DAL CHAND SOROT	01-08-2009
2493	13955975X	HAV	DALPAT RAM BHIL	01-12-2009
2494	13955472M	HAV	DAYA KISHAN TEWARI	01-11-2009
2495	13965041N	HAV	DAYA RAM	01-11-2009
2496	13956239L	HAV	DAYARAM ARYA	01-01-2010
2497	13955656L	HAV	DEV NARAYAN SINGH	01-11-2009
2498	13955262M	HAV	DEVENDRA RAJAK	01-10-2009
2499	13955373K	HAV	DEVI DAYAL	01-11-2009
2500	13956429X	HAV	DHARMVIR SINGH	01-01-2010
2501	13956165F	HAV	DILBAG SINGH	01-01-2010
2502	13955911M	HAV	DILIP KUMAR PAUL	01-12-2009
2503	13955894X	HAV	DURJAN SINGH	01-12-2009
2504	13955169L	HAV	EBRAHIM KURRY I	01-10-2009
2505	13955762K	HAV	GADE GOVIND RAMRAO	01-11-2009
2506	13955273Y	HAV	GOLAK CHANDRA SAHOO	01-10-2009
2507	13955991P	HAV	GOPALA KRISHAN S	01-12-2009
2508	13955871W	HAV	GOPINATH NALLACHERY	01-12-2009
2509	13956097Y	HAV	GULJAR SINGH	01-12-2009
2510	13955939M	HAV	GURLINGAPPA	01-12-2009

2511	13956447A	HAV	GURPAL SINGH	01-01-2010
2512	13955748X	HAV	H BISWAS	01-11-2009
2513	13956013A	HAV	H J SINGH	01-12-2009
2514	13964567N	HAV	H N MOHANTY	01-10-2009
2515	13956469Y	HAV	HANUMANTH L KULKARNI	01-01-2010
2516	13955945A	HAV	HARA GOCHHAYAT	01-12-2009
2517	13955587A	HAV	HARI SHANKAR	01-11-2009
2518	13955545N	HAV	HARIDAS NIRGULE	01-11-2009
2519	13955822N	HAV	HEMANTA CHANDRA DAS	01-12-2009
2520	13956107X	HAV	HOTE LAL	01-12-2009
2521	13956010M	HAV	J BHEEMAN	01-12-2009
2522	13954905M	HAV	JABBAR KHAN	01-09-2009
2523	13955832X	HAV	JAGADEESAN K	01-12-2009
2524	13955675W	HAV	JAGAT RAM	01-11-2009
2525	13954747H	HAV	JAGDISH	01-09-2009
2526	13955849L	HAV	JAGVEER SINGH	01-12-2009
2527	13955347H	HAV	JAI CHAND	01-11-2009
2528	13956012X	HAV	JAY NARAYAN RAM	01-12-2009
2529	13955329A	HAV	K C NAIK	01-11-2009
2530	13955551F	HAV	K C PANT	01-11-2009
2531	13955819N	HAV	K KUTTIAPPANAN	01-12-2009
2532	13964846Y	HAV	K MAYALAGU	01-11-2009
2533	13955826K	HAV	KAMAL KUMAR BEL WAL	01-12-2009
2534	13955200M	HAV	KAPIL NATH VERMA	01-10-2009
2535	13956079W	HAV	KARNAIL SINGH	01-12-2009
2536	13955315A	HAV	KATHI BHASKAR	01-11-2009
2537	13956270X	HAV	KHARAK SINGH	01-01-2010
2538	13955743Y	HAV	KIRODI LAL	01-11-2009
2539	13956167M	HAV	KISHAN AMRUSKAR	01-12-2009
2540	13955012L	HAV	KRISHNA KUMAR SINGH	01-10-2009
2541	13954816N	HAV	KRISHNA NAND RAI	01-09-2009
2542	13955321N	HAV	KRISHNA RAY	01-11-2009
2543	13954743M	HAV	KUNJU RAMAN PILLAI G	01-09-2009
2544	13954923P	HAV	L D SOPAN	01-09-2009
2545	13955833A	HAV	L JOHN KENNEDY	01-12-2009
2546	13954793X	HAV	LACHHURAM MEENA	01-09-2009
2547	13955793K	HAV	LAKHIKANTA BORAH	01-12-2009
2548	13955974P	HAV	LAKSHMAN GOVIND RAJ	01-12-2009
2549	13955343M	HAV	LAKSHMAN YADAV	01-10-2009
2550	13956263F	HAV	LAL SINGH	01-01-2010
2551	13955662Y	HAV	LALAN JHA	01-11-2009
2552	13956459P	HAV	LOVELESH KUMAR	01-01-2010
2553	13955966W	HAV	M C HAZRA	01-12-2009
2554	13955598M	HAV	M C RAO	01-11-2009
2555	13955965N	HAV	M D MONIRUDDIN	01-12-2009
2556	13955772N	HAV	M D MOSAREF MONDAL	01-11-2009
2557	13955229P	HAV	M D MUKHTAR ALAM	01-10-2009
2558	13955803H	HAV	M K DALVE	01-12-2009
2559	13956011P	HAV	M P SHARMA	01-12-2009
2560	13956037K	HAV	M RAJA LINGAM	01-12-2009

2561	13955119M	HAV	M VEDNAYAGAM	01-10-2009
2562	13956482H	HAV	MAHENDERA RAM	01-01-2010
2563	13955546W	HAV	MAHENDRA SINGH	01-11-2009
2564	13955279A	HAV	MANAN SINGH	01-10-2009
2565	13955102M	HAV	MANCHAND	01-10-2009
2566	13956006K	HAV	MANDRUP SINGH	01-12-2009
2567	13955410M	HAV	MANESH	01-11-2009
2568	13956248M	HAV	MANOHARAN BASKHETI	01-01-2010
2569	13965602X	HAV	MARIA VINCENT A	01-12-2009
2570	13955560H	HAV	MISHRI SINGH	01-11-2009
2571	13954810M	HAV	MITHLESH KUMAR RAI	01-09-2009
2572	13955163K	HAV	MOJEE RAM	01-10-2009
2573	13954755F	HAV	NANDA BAHADUR THAPA	01-09-2009
2574	13955078F	HAV	NARENDER SINGH	01-10-2009
2575	13955316H	HAV	NARENDER SINGH	01-11-2009
2576	13955030N	HAV	NATHMAL HARIJAN	01-10-2009
2577	13955117P	HAV	NIRANJAN SINGH	01-10-2009
2578	13955924K	HAV	OM PRAKASH TIWARI	01-12-2009
2579	13955367W	HAV	OMKAR SINGH	01-11-2009
2580	13955973M	HAV	OMKAR SINGH	01-12-2009
2581	13955338F	HAV	ONKAR SINGH	01-10-2009
2582	13955720X	HAV	P PERUMAL	01-11-2009
2583	13954944L	HAV	P S MEENA	01-09-2009
2584	13956197K	HAV	P SHANKARLAL HADUJI	01-01-2010
2585	13955442P	HAV	P UDAYA SURIYAN	01-11-2009
2586	13955903N	HAV	PAILY Y M	01-12-2009
2587	13955056H	HAV	PANNA LAL	01-10-2009
2588	13955420W	HAV	PAWAN DEV VERMA	01-11-2009
2589	13954824M	HAV	PLANI RAJ V	01-09-2009
2590	13965162P	HAV	PRABHAKAR CHOUGULE	01-11-2009
2591	13956289W	HAV	PRAKASH YADAV	01-01-2010
2592	13956237A	HAV	PRAKESH CHANDRA	01-01-2010
2593	13955590A	HAV	PRATAP SINGH	01-11-2009
2594	13955272W	HAV	PRESAN KUMAR V V	01-10-2009
2595	13955697P	HAV	PURAN CHAND	01-11-2009
2596	13955340Y	HAV	PURCHIYA SUNDI	01-11-2009
2597	13955585P	HAV	PUTTAN LAL	01-11-2009
2598	13956052Y	HAV	R C PANIGRAHI	01-12-2009
2599	13955099X	HAV	R CHANDRAN PILLAI	01-10-2009
2600	13961005L	HAV	R N DATTA	01-11-2009
2601	13956186X	HAV	RAJ KUMAR SINGH	01-01-2010
2602	13956411F	HAV	RAJBHOR TIWARI	01-01-2010
2603	13955007A	HAV	RAJENDRA KUMAR	01-10-2009
2604	13955984Y	HAV	RAJNI KANTA RAY	01-12-2009
2605	13954752N	HAV	RAM AYODHYA PRASAD	01-09-2009
2606	13955369F	HAV	RAM CHANDRA	01-11-2009
2607	13956491K	HAV	RAM DHANI SINGH	01-01-2010
2608	13955210W	HAV	RAM DULAR RAM	01-10-2009
2609	13955278X	HAV	RAM KRISHAN ROY	01-10-2009
2610	13955282A	HAV	RAM KUMAR	01-10-2009

2611	13955470F	HAV	RAM KUSUN PRASAD	01-11-2009
2612	13955140H	HAV	RAM LADATE SAXENA	01-10-2009
2613	13956118K	HAV	RAM NATH	01-01-2010
2614	13955692W	HAV	RAM PHALI	01-11-2009
2615	13955934N	HAV	RAM RATHI RAM	01-12-2009
2616	13955132K	HAV	RAMADHAR SINGH	01-10-2009
2617	13955023X	HAV	RAMAKANT KUSHWAHA	01-10-2009
2618	13955798H	HAV	RAMAKANT SHARMA	01-12-2009
2619	13955543H	HAV	RAMASHANKAR PRASAD	01-11-2009
2620	13954802N	HAV	RAMBIR SINGH	01-09-2009
2621	13954776X	HAV	RAMESH	01-09-2009
2622	13955699A	HAV	RAMESH CHANDER	01-11-2009
2623	13956261W	HAV	RAMESH RAM TAMATA	01-01-2010
2624	13955722H	HAV	RANJIT KUMAR SINHA	01-11-2009
2625	13955266H	HAV	RAVENSHA NAIK	01-10-2009
2626	13955693Y	HAV	RAVINDRA SINGH	01-11-2009
2627	13965887P	HAV	S K BHARADWAJ	01-01-2010
2628	13955530L	HAV	S P SINGH	01-11-2009
2629	13956200Y	HAV	S P ZALA	01-01-2010
2630	13954842P	HAV	S SHANMUGAM	01-09-2009
2631	13956576A	HAV	SADHAN CHANDRA NATH	01-01-2010
2632	13955782X	HAV	SAMBHU CHARAN MURMU	01-12-2009
2633	13956155X	HAV	SANJU GOWALA	01-12-2009
2634	13955203A	HAV	SARIDEV NAGESWAR RAO	01-10-2009
2635	13954889A	HAV	SATYA NARAYAN	01-09-2009
2636	13954786F	HAV	SEKH MERAJUL	01-09-2009
2637	13955897L	HAV	SETTU	01-12-2009
2638	13965626F	HAV	SHAJI PAMICKER P O	01-12-2009
2639	13955558L	HAV	SHAM SHER SINGH	01-11-2009
2640	13954888X	HAV	SHAM SUNDER	01-09-2009
2641	13955726Y	HAV	SHANKAR LAL VERMA	01-11-2009
2642	13954748L	HAV	SHANKAR RAM	01-09-2009
2643	13954938X	HAV	SHANKER LAL	01-09-2009
2644	13954893H	HAV	SHAYAM LAL	01-09-2009
2645	13956272H	HAV	SHEKHAR CHANDRA	01-01-2010
2646	13955801X	HAV	SHIV MOHAN SINGH	01-12-2009
2647	13955658W	HAV	SHIV NATH SINGH	01-11-2009
2648	13955083M	HAV	SHOUKAT ALI	01-10-2009
2649	13956551N	HAV	SHRIDHAR SHARMA	01-01-2010
2650	13955996N	HAV	SHYAM SUNDAR BEHERA	01-12-2009
2651	13955147M	HAV	SOBINATH SINGH	01-10-2009
2652	13956281K	HAV	SRINIVASAN P	01-01-2010
2653	13955869Y	HAV	STEPHEN C A	01-12-2009
2654	13955986K	HAV	STEPHEN P S	01-12-2009
2655	13955673L	HAV	SUDHAKAR SAHA	01-11-2009
2656	13954737Y	HAV	SUFAL KUMAR BISWAS	01-09-2009
2657	13954937P	HAV	SUKHBIR	01-09-2009
2658	13954783N	HAV	SULINDER SINGH	01-09-2009
2659	13955345X	HAV	SUNDER LAL	01-09-2009
2660	13955035M	HAV	SUNIL KUMAR SINGH	01-10-2009

2661	13955927X	HAV	SURENDER SHARMA	01-12-2009
2662	13955751X	HAV	SURESH MISHRA	01-11-2009
2663	13955913X	HAV	SURESHA GOCHHAYAT	01-12-2009
2664	13954713P	HAV	SURIA NATH SINGH	01-09-2009
2665	13955098P	HAV	T DHARAKURUP C B	01-10-2009
2666	13956176N	HAV	TARACHAND	01-01-2010
2667	13964404A	HAV	THOMAS MATHEW	01-10-2009
2668	13955067P	HAV	UDAY BHAN	01-10-2009
2669	13955606A	HAV	UDAY RAJ DHAKAR	01-11-2009
2670	13955609N	HAV	UMA SAIKIA	01-11-2009
2671	13955777M	HAV	UMA SHANKER RAM	01-12-2009
2672	13955371Y	HAV	UTTAM KUMAR DEBANSHI	01-11-2009
2673	13956231Y	HAV	V K DARMWAL	01-01-2010
2674	13955564Y	HAV	VENKATA SWAMY	01-11-2009
2675	13956162N	HAV	VENU GOPALAN NAIR S	01-01-2010
2676	13955314X	HAV	VENUGOPAL C	01-11-2009
2677	13955153A	HAV	VIRENDRA SINGH	01-10-2009
2678	13955648M	HAV	VISHMVAR PANDEY	01-11-2009
2679	13965720L	HAV	Y R S DHANIRAM	01-12-2009
2680	13955331X	HAV	YOGESWAR SETHI	01-10-2009

ARMY ORDNANCE CORPS

2681	6923858K	HAV	A BOJA RAJ	01-11-2009
2682	6919060L	HAV	ABDUL JABBAR MIYAN	01-09-2009
2683	6919641H	HAV	AJAY KUMAR	01-12-2009
2684	6923655A	HAV	AJIT SINGH	01-11-2009
2685	6919380A	HAV	AMAR PAL	01-11-2009
2686	6923733M	HAV	ANANDI YADAV	01-11-2009
2687	6919913X	HAV	ANIL KUMAR SHARMA	01-01-2010
2688	6923528L	HAV	ANILL KUMAR GR	01-10-2009
2689	6923917L	HAV	ANUL HUK	01-11-2009
2690	6924205P	HAV	ARBIND KUMAR YADAV	01-12-2009
2691	6919262M	HAV	AVADESH KUMAR NAI	01-10-2009
2692	6923489X	HAV	B BASANAİK MALAPPA NAIK	01-10-2009
2693	6923997N	HAV	B D SHIVA	01-12-2009
2694	6919226F	HAV	B SUBRAMANYAM	01-10-2009
2695	6919267L	HAV	BACHA RAM BAGHEL	01-10-2009
2696	6919733P	HAV	BAHADUR SINGH	01-01-2010
2697	6919298L	HAV	BALAKRISHNAN P	01-11-2009
2698	6924088P	HAV	BALJEET SINGH	01-12-2009
2699	6919272W	HAV	BALWANT SINGH	01-10-2009
2700	6924032H	HAV	BIJAY BAHADUR	01-12-2009
2701	6919826K	HAV	BIJAY KUMAR MOHANTY	01-01-2010
2702	6919580W	HAV	BIJAYA CHANDRA BEHERA	01-12-2009
2703	6923663Y	HAV	BINOD KUMAR SHUKLA	01-11-2009
2704	6924002L	HAV	BINOD KUMAR SINGH	01-12-2009
2705	6919577W	HAV	BIRA KISHOR BEHERA	01-12-2009
2706	6923926M	HAV	BRIJESH SINGH GAUR	01-11-2009
2707	6923691L	HAV	C V MANIKANDAN	01-11-2009
2708	6923772L	HAV	CHANDRAN KUNNUMMAL	01-11-2009

2709	6919970Y	HAV	CHINNAPPA P	01-01-2010
2710	6923282X	HAV	CHITTARANJAN PATTNAYAK	01-09-2009
2711	6924012P	HAV	DALAVI POPAT SHRIRANG	01-12-2009
2712	6919097M	HAV	DARBAN SINGH	01-09-2009
2713	6919452Y	HAV	DEBENDRA NATH LOYING	01-12-2009
2714	13955727F	HAV	DHIRAJ SINGH NEGI	01-11-2009
2715	6924444K	HAV	DIBAKAR BISWAS	01-01-2010
2716	6919671A	HAV	DINESH SINGH	01-01-2010
2717	6924440N	HAV	DIPAK KUMAR CHAKRABORTY	01-01-2010
2718	6920420H	HAV	DIWAKAR	01-11-2009
2719	6924173X	HAV	DWARKA PRASAD	01-12-2009
2720	6924455W	HAV	G N RAO	01-01-2010
2721	6924192H	HAV	GANGA DUTT KAUSHIK	01-12-2009
2722	6924412F	HAV	GANGADHARA ROUL	01-01-2010
2723	6923841W	HAV	JAI KARANA SINGH	01-11-2009
2724	6924419L	HAV	JIT NANDAN SAHU	01-01-2010
2725	6919978L	HAV	JOTHI S	01-01-2010
2726	6924085F	HAV	KARAMVIR	01-12-2009
2727	6919875M	HAV	KARAN SINGH	01-01-2010
2728	6924331F	HAV	KARE GORAKH DINA	01-01-2010
2729	6923166P	HAV	KASID GANPAT APPA	01-09-2009
2730	6923124H	HAV	KHAGEN CHANDRA RAI	01-09-2009
2731	6924021W	HAV	KILU RAMA RAO	01-12-2009
2732	6923770A	HAV	KOSHY G	01-11-2009
2733	6919488X	HAV	LAJJA RAM	01-12-2009
2734	6924236P	HAV	LALAN PRASAD	01-12-2009
2735	6923278P	HAV	LAXMI NARAYAN	01-09-2009
2736	6923685X	HAV	M BALASUBRAMANI	01-11-2009
2737	6923408M	HAV	M GOVINDAN KUTTY	01-10-2009
2738	6919401L	HAV	M I ANSARY	01-11-2009
2739	6924263Y	HAV	M L EKNATH	01-01-2010
2740	6919225Y	HAV	M S J CHANDRA	01-10-2009
2741	6924308N	HAV	M S KUMAR APPANA	01-01-2010
2742	6919901H	HAV	MAHESH CHANDRA	01-01-2010
2743	6919530L	HAV	MOHAMMAD KHURSHID	01-12-2009
2744	6924452H	HAV	MOHITOSH DUTTA	01-01-2010
2745	6919439P	HAV	MOR SINGH	01-12-2009
2746	6923689N	HAV	NARAYAN BHOI	01-11-2009
2747	6921584L	HAV	NARESH SHARMA	01-12-2009
2748	6924126A	HAV	P BASAPPA	01-12-2009
2749	6924399H	HAV	P BASKAR	01-01-2010
2750	6924340H	HAV	P D DHANA SING	01-01-2010
2751	6924346K	HAV	P G KRISHNA	01-01-2010
2752	6923306W	HAV	P SANKAR RAO	01-09-2009
2753	6919772N	HAV	PAPPALA SAMALA RAO	01-01-2010
2754	6924424W	HAV	PARIMAL ROY	01-01-2010
2755	6924203K	HAV	PODUGU NARAYANA RAO	01-12-2009
2756	6919245M	HAV	PRABHU NARAIN SINGH	01-10-2009
2757	6919835L	HAV	PRASANNA KUMAR MALLICK	01-01-2010
2758	6919132K	HAV	PREM CHAND SHARMA	01-09-2009

2759	6919303L	HAV	PRITAM SINGH	01-11-2009
2760	13956558X	HAV	PYARA LAL	01-01-2010
2761	6923533W	HAV	RAJ KUMAR SINGH CHAUHAN	01-10-2009
2762	6923206L	HAV	RAJ SINGH	01-09-2009
2763	6923417N	HAV	RAJA GOPALAN K	01-10-2009
2764	6919381H	HAV	RAJINDER KUMAR	01-11-2009
2765	6924156X	HAV	RAJINDER SINGH	01-12-2009
2766	6919509H	HAV	RAKESH KUMAR	01-12-2009
2767	6919373K	HAV	RAM GOPAL	01-11-2009
2768	6919340Y	HAV	RAM KISHOR	01-11-2009
2769	8030102H	HAV	RAM KRIPAL	01-10-2009
2770	6919805N	HAV	RAM KRISHNA NATH	01-01-2010
2771	6924146N	HAV	RAM SINGH	01-12-2009
2772	6923185A	HAV	RAMESH CHAND	01-09-2009
2773	6923093N	HAV	RAMESH CHANDRA	01-09-2009
2774	6923254L	HAV	RANVIR SINGH	01-09-2009
2775	6919963H	HAV	RAVI CHANDRAN C	01-01-2010
2776	6919910K	HAV	RAVI KUMAR K	01-01-2010
2777	6923717P	HAV	RAVINDRA SINGH	01-11-2009
2778	6919378H	HAV	REGI G	01-11-2009
2779	13956170M	HAV	ROMESH LAL	01-01-2010
2780	6919163K	HAV	ROOP SINGH	01-10-2009
2781	6919449Y	HAV	SAHUKAR	01-12-2009
2782	6923129F	HAV	SANJAY KUMAR	01-09-2009
2783	6923210N	HAV	SANTOSH KUMAR	01-09-2009
2784	6919473P	HAV	SATYA PAL	01-12-2009
2785	6919096K	HAV	SATYAPAL SINGH	01-09-2009
2786	6923567K	HAV	SHAM LAL	01-10-2009
2787	6919908M	HAV	SHRI KANT PRASAD	01-01-2010
2788	6923878X	HAV	SIVAN KUTTY NAIR R	01-11-2009
2789	6919162F	HAV	SURENDER KUMAR	01-10-2009
2790	6923460P	HAV	SURINDER SINGH	01-10-2009
2791	6924376F	HAV	T SAVARI MUTHU	01-01-2010
2792	6919728K	HAV	U P GUPTA	01-01-2010
2793	6923366L	HAV	UDAY SHANKAR GUPTA	01-09-2009
2794	6919040X	HAV	UMESH CHAND MISHAR	01-09-2009
2795	6919762K	HAV	UNNI KRISHNA KURUP K	01-01-2010
2796	6919912P	HAV	VIJAY KANT	01-01-2010
2797	6924130H	HAV	VIJAY SINGH PAL	01-12-2009
2798	6919903N	HAV	VIRENDRA MISHRA	01-01-2010

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

2799	14561750N	HAV	A K SAHOO	01-01-2010
2800	14560072M	HAV	ACHHE LAL SHARMA	01-11-2009
2801	14559386F	HAV	AGNI KUMAR SINGH	01-11-2009
2802	14560871H	HAV	AJAY KUMAR OJHA	01-12-2009
2803	14562232A	HAV	AJAY KUMAR SINGH	01-01-2010
2804	14558800H	HAV	AJIT KUMAR SINGH	01-10-2009
2805	14575976K	HAV	AMARNATH SINGH	01-10-2009
2806	14587166N	HAV	ANDONI S SAMY	01-12-2009

2807	14560592X	HAV	ANIL KUMAR	01-12-2009
2808	14560834F	HAV	ARUN KUMAR MENTA	01-12-2009
2809	14557919A	HAV	ASHOK GIRI	01-09-2009
2810	14562105Y	HAV	ASHOK KUMAR	01-01-2010
2811	14561842A	HAV	ASHOK KUMAR	01-01-2010
2812	14588553P	HAV	ASHOK KUMAR B	01-12-2009
2813	14559273Y	HAV	ASHOK KUMAR GUPTA	01-11-2009
2814	14559573A	HAV	ASHOK TRIPATHI	01-10-2009
2815	14590187P	HAV	ATUL KALITA	01-01-2010
2816	14560902X	HAV	BAHADUR SINGH	01-12-2009
2817	14559854W	HAV	BALAK RAM	01-11-2009
2818	14560075A	HAV	BALAN G	01-11-2009
2819	14560634Y	HAV	BALBIR SINGH	01-12-2009
2820	14559071X	HAV	BANNA RAM SAINI	01-10-2009
2821	14558219Y	HAV	BARGE UTTAM SHIVRAM	01-10-2009
2822	14558082X	HAV	BHABEN CHANDRA DEKA	01-09-2009
2823	14557349P	HAV	BHAGAT BAHADUR THAPA	01-09-2009
2824	14559967Y	HAV	BHAGWAN SINGH	01-11-2009
2825	14558760M	HAV	BHIKU HANUMANT MOHITE	01-10-2009
2826	14559008H	HAV	BHUWAN CHANDRA	01-10-2009
2827	14559467F	HAV	BIDHU BHUSHAN SARKAR	01-11-2009
2828	14560203M	HAV	BIJAYA KUMAR PANIGRAHI	01-11-2009
2829	14560789N	HAV	BINAYAKJI MISHRA	01-12-2009
2830	14561403P	HAV	BINOD KUMAR	01-12-2009
2831	14558040L	HAV	BIPIN BIHARI BEHURA	01-10-2009
2832	14560261W	HAV	BIR BABU SINGHA	01-11-2009
2833	14557470H	HAV	BIR CHANDRA SINGH	01-09-2009
2834	14561712X	HAV	BRAHMANAND	01-01-2010
2835	14586304X	HAV	C A BERNARD	01-10-2009
2836	14559168H	HAV	CHAKRADHAR TRIPATHY	01-10-2009
2837	14564978P	HAV	CHANDAN SINGH	01-08-2009
2838	14561183W	HAV	CHANDRA KESH	01-12-2009
2839	14560685M	HAV	CHANDRA SHEKHAR SINGH	01-12-2009
2840	14557560K	HAV	CHARAN SINGH	01-09-2009
2841	14560245Y	HAV	CHITTARANJAN BARIK	01-11-2009
2842	14559638H	HAV	CHOTE LAL	01-11-2009
2843	14561105Y	HAV	CHOTTU LAL PRAJAPATI	01-12-2009
2844	14557980K	HAV	DADASO BHAU NAIK	01-09-2009
2845	14557586Y	HAV	DADGE SUDHAKAR RAMCHANDRA	01-09-2009
2846	14561912N	HAV	DANARDAN MISHRA	01-01-2010
2847	14557746N	HAV	DARAPADA SINGHA	01-09-2009
2848	14562378N	HAV	DAYANAND KUNWAR	01-01-2010
2849	14560503N	HAV	DESH RAJ	01-12-2009
2850	14559492A	HAV	DEVI DATT ANDOLA	01-11-2009
2851	14587755K	HAV	DHANWANT SINGH	01-11-2009
2852	14558440X	HAV	DHURA RAM	01-10-2009
2853	14559360M	HAV	DILIP KUMAR JHA	01-11-2009
2854	14557741P	HAV	DILIP KUMAR SAMANTA	01-09-2009
2855	14557402P	HAV	DINESH SINGH	01-09-2009
2856	14560575X	HAV	DWARIKA PRASAD SAHU	01-09-2009
				01-12-2009

2857	14588392X	HAV	G VILVA NATHAN	01-12-2009
2858	14558402F	HAV	GANESH THAKUR	01-10-2009
2859	14561012K	HAV	GANGA PRASAD SINGH	01-12-2009
2860	14585553K	HAV	GHADGE J V	01-09-2009
2861	14558303Y	HAV	GHURAHU RAM	01-10-2009
2862	14559493H	HAV	GIRISH KUMAR	01-11-2009
2863	14561406H	HAV	GOPAL PANDIT	01-12-2009
2864	14558054L	HAV	HAR NARAYAN	01-10-2009
2865	14558382Y	HAV	HARBANS LAL	01-10-2009
2866	14589043A	HAV	HARBANS SINGH	01-12-2009
2867	14560192L	HAV	HARDEV NARAYAN DUBEY	01-11-2009
2868	14561098N	HAV	HAREKNATH THAKUR	01-12-2009
2869	14559964L	HAV	HARKANTA SWARIGIARY	01-11-2009
2870	14557205M	HAV	HINDIPAL SINGH	01-09-2009
2871	14586406N	HAV	HOSHIYAR SINGH	01-10-2009
2872	14561288A	HAV	HUKAM CHAND	01-12-2009
2873	14587159X	HAV	INDRAVIR SINGH TOMAR	01-12-2009
2874	14561182N	HAV	J S BHADORIA	01-12-2009
2875	14559092N	HAV	JAG NARAYAN PRASAD	01-10-2009
2876	14557080A	HAV	JAGDISH	01-09-2009
2877	14560306L	HAV	JAGMOHAN SINGH	01-11-2009
2878	14559835L	HAV	JAI PAL SINGH	01-11-2009
2879	14561706K	HAV	JAIPAL SINGH	01-01-2010
2880	14558204W	HAV	JALE SINGH	01-10-2009
2881	14558740Y	HAV	JAMUNA PRASAD	01-10-2009
2882	14558359L	HAV	JANGI BAHADUR	01-10-2009
2883	14560673X	HAV	JANNAT HUSSAIN	01-12-2009
2884	14557651N	HAV	JASPAL	01-09-2009
2885	14558443L	HAV	JASWANT SINGH	01-10-2009
2886	14557069F	HAV	JATIN CHANDRA BORA	01-09-2009
2887	14561282Y	HAV	JAY PRAKASH	01-12-2009
2888	14560957F	HAV	JOSE B	01-12-2009
2889	14560970L	HAV	JOSE D	01-12-2009
2890	14559270L	HAV	JOYDEB DEY	01-11-2009
2891	14560509P	HAV	K THIRUMALAI	01-12-2009
2892	14561290X	HAV	K VISWANATHAN	01-12-2009
2893	14560359K	HAV	KALU RAM	01-12-2009
2894	14558745X	HAV	KAMESHWAR MAHTO	01-10-2009
2895	14560660A	HAV	KAMESHWAR PRASAD	01-12-2009
2896	14562315L	HAV	KANHAYA LAL	01-01-2010
2897	14560947X	HAV	KARAM CHAND	01-12-2009
2898	14560568F	HAV	KARAN SINGH NAGAR	01-12-2009
2899	14559354Y	HAV	KEDAR NATH	01-11-2009
2900	14559902L	HAV	KESHAR SINGH KHANGROT	01-11-2009
2901	14558811P	HAV	KHARG NARAYAN JHA	01-10-2009
2902	14558395W	HAV	KISHAN KUMAR GIRI	31-08-2009
2903	14560243N	HAV	KISHAN LAL	01-11-2009
2904	14559063Y	HAV	KISHORE PRADHAN	01-10-2009
2905	14559636Y	HAV	KOMAL SINGH	01-11-2009
2906	14561734W	HAV	KRAPAL CHANDRA	01-01-2010

2907	14560166K	HAV	KRISHNA DEV MISHRA	01-11-2009
2908	14559161Y	HAV	KRISHNA KUMAR SINHA	01-10-2009
2909	14558858A	HAV	KRISHNA MURARI	01-10-2009
2910	14561150L	HAV	KRISHNA NANDAN SINGH	01-12-2009
2911	14558841M	HAV	KULVIR SINGH	01-10-2009
2912	14560814F	HAV	KUSHAL KUMAR MANDAL	01-12-2009
2913	14559382L	HAV	LALAN PRASAD SINGH	01-11-2009
2914	14561565A	HAV	LUKMAN ANSARI	01-01-2010
2915	14557907L	HAV	M D ANJAR ALAM	01-09-2009
2916	14560150Y	HAV	M D BABER ALI	01-11-2009
2917	14561462F	HAV	M D KALIM MOHD SARWAR	01-12-2009
2918	14586555F	HAV	M D MAHAMMAD ALI	01-09-2009
2919	14558748L	HAV	M DORASWAMY REDDY	01-10-2009
2920	14562356P	HAV	M H VITHAL RAO R A	01-01-2010
2921	14557817K	HAV	M K CHOUGULE	01-09-2009
2922	14558685N	HAV	M K VENKATRAMANA REDDY	01-10-2009
2923	14557455N	HAV	MADAN ADHAV	01-09-2009
2924	14557403X	HAV	MADAN LAL	01-09-2009
2925	14559972K	HAV	MADAN MOHAN	01-11-2009
2926	14561874H	HAV	MADAN MOHAN PANDEY	01-01-2010
2927	14560668M	HAV	MAHARUDRA JHA	01-12-2009
2928	14560913K	HAV	MAHASHIV RAM	01-12-2009
2929	14559173N	HAV	MAHENDRA KUMAR SAHOO	01-10-2009
2930	14557644X	HAV	MAHENDRA PAL SINGH	01-09-2009
2931	14557683W	HAV	MAHENDRA SIGH	01-09-2009
2932	14557182W	HAV	MAHENDRA SINGH	01-09-2009
2933	14560696Y	HAV	MAHESHA KANCHANA G	01-12-2009
2934	14559032Y	HAV	MAHIPAL SINGH RAWAT	01-10-2009
2935	14560692H	HAV	MALLIKARJUN K	01-12-2009
2936	14561401K	HAV	MANDLAL DAS	01-12-2009
2937	14557679N	HAV	MANE MADHUKAR LAXMAN	01-09-2009
2938	14560119M	HAV	MANGAL SINGH	01-11-2009
2939	14557151W	HAV	MANGAY RAM	01-09-2009
2940	14559061N	HAV	MANGI LAL	01-10-2009
2941	14587072W	HAV	MANOJ KUMAR	01-12-2009
2942	14556983L	HAV	MANORANJAN DAS	01-09-2009
2943	14557417X	HAV	MANTAI	01-09-2009
2944	14559102M	HAV	MAROTI HARIBHAU SARODE	01-10-2009
2945	14560555K	HAV	MATU RAM KASWAN	01-12-2009
2946	14560456F	HAV	MITHILESH KUMAR MISHRA	01-11-2009
2947	14560744M	HAV	MOHINDER SINGH	01-12-2009
2948	14560262Y	HAV	N JOY CHANDRAN SINGHA	01-11-2009
2949	14558478F	HAV	N R MOHAN	01-10-2009
2950	14559851H	HAV	NAFE SINGH	01-11-2009
2951	14560111A	HAV	NAGDU RAM	01-11-2009
2952	14557715N	HAV	NALAKAM SHIVA KUMAR	01-09-2009
2953	14557206P	HAV	NAND KUMAR SINGH	01-09-2009
2954	14560835X	HAV	NAND LAL	01-12-2009
2955	14557410N	HAV	NANDJI RAM	01-09-2009
2956	14560290L	HAV	NARENDER SINGH DAHIYA	01-11-2009

2957	14557485L	HAV	NARESH KUMAR	01-09-2009
2958	14559889M	HAV	NARESH KUMAR SHARMA	01-11-2009
2959	14560663N	HAV	NARINDER SINGH	01-12-2009
2960	14557985H	HAV	NASRUDEEN KHAN	01-09-2009
2961	14562319F	HAV	NATH SINGH	01-01-2010
2962	14560606L	HAV	NATHOL SINGH	01-12-2009
2963	14588786W	HAV	NIRANJAN KUMAR SINGH	01-12-2009
2964	14558985P	HAV	NIYAZUDDIN KHAN	01-10-2009
2965	14558543W	HAV	OM NARAYAN	01-10-2009
2966	14558332N	HAV	OM PRAKASH	01-10-2009
2967	14560644H	HAV	OM PRAKASH	01-12-2009
2968	14559437K	HAV	OM PRAKASH SAH	01-11-2009
2969	14561010Y	HAV	OM PRAKASH SHAHI	01-12-2009
2970	14561289H	HAV	P RAJA LINGAM	01-12-2009
2971	14558529K	HAV	P RAJENDRAN	01-10-2009
2972	14558231A	HAV	PARAS MAHARAJ	01-10-2009
2973	14557599W	HAV	PATIL AMRUTRAO RANGRAO	01-09-2009
2974	14557606F	HAV	PATIL BHUPESH SHRI RAM	01-09-2009
2975	14562224F	HAV	PAWAN SINGH	01-01-2010
2976	14559915H	HAV	POP SINGH	01-11-2009
2977	14561591F	HAV	PRABHAKARA PANDEY	01-01-2010
2978	14558848W	HAV	PRAHLAD SINGH	01-10-2009
2979	14560289W	HAV	PRAKASH SITARAM MAHOD	01-11-2009
2980	14560775N	HAV	PRAMOD KUMAR HOTA	01-12-2009
2981	14587677X	HAV	PRATAP RAM	01-12-2009
2982	14560273L	HAV	PREM BALLABH	01-11-2009
2983	14560933X	HAV	PREM KISHOR SINGH	01-12-2009
2984	14558460L	HAV	PREM KUMAR	01-10-2009
2985	14557670Y	HAV	PRITAM SINGH RANA	01-09-2009
2986	14562528Y	HAV	PRITHI CHAND	01-01-2010
2987	14560033N	HAV	PRITHVI SINGH	01-11-2009
2988	14558147A	HAV	PURAN KUMAR	01-10-2009
2989	14559515W	HAV	PUTUL CHAND MEDHI	01-11-2009
2990	14558970M	HAV	R B CHOUDHARY	01-10-2009
2991	14559613W	HAV	R C SINGH	01-11-2009
2992	14561907H	HAV	R J S KHOBE	01-01-2010
2993	14560329M	HAV	RABINDRA MEDI	01-11-2009
2994	14560275W	HAV	RADHESHYAM YADAV	01-11-2009
2995	14561142M	HAV	RAGHUBEER SINGH GULERIA	01-12-2009
2996	14559054X	HAV	RAGUBIR PRAKASH	01-10-2009
2997	14558336K	HAV	RAHIS PAL	01-10-2009
2998	14561399X	HAV	RAJ NARAYAN THAKUR	01-12-2009
2999	14557650L	HAV	RAJ SINGH	01-09-2009
3000	14562438X	HAV	RAJA KUMAR	01-01-2010
3001	14557341H	HAV	RAJENDRA KUMAR DEY	01-09-2009
3002	14559378H	HAV	RAJKISHORE SINGH	01-11-2009
3003	14557239A	HAV	RAJMANI SINGH GUJWAR	01-09-2009
3004	14561136Y	HAV	RAKESH KUMAR	01-12-2009
3005	14561291A	HAV	RAM AVTAR YADAV	01-12-2009
3006	14586525K	HAV	RAM BAHADUR	01-11-2009

3007	14589642A	HAV	RAM CHANDRA YADAV	01-12-2009
3008	14557328Y	HAV	RAM MANOHAR RATHORE	01-09-2009
3009	14562049X	HAV	RAM NIWAS	01-01-2010
3010	14559992X	HAV	RAM PRAKASH SHARMA	01-11-2009
3011	14559707N	HAV	RAM SHANKAR VERMA	01-10-2009
3012	14558734L	HAV	RAM SURAJ	01-10-2009
3013	14560989K	HAV	RAM SWAROOP YOGI	01-12-2009
3014	14560067F	HAV	RAMA NANDAN RAM	01-11-2009
3015	14559226F	HAV	RAMA SHRAY BHAGAT	01-11-2009
3016	14559251A	HAV	RAMACHANDRAN K	01-11-2009
3017	14559014W	HAV	RAMAKANT	01-10-2009
3018	14559850A	HAV	RAMESH CHANDER	01-11-2009
3019	14560779K	HAV	RAMESH KUMAR	01-12-2009
3020	14558790K	HAV	RAMESH KUMAR SINGH	01-10-2009
3021	14559286W	HAV	RAMESH SARKAR	01-11-2009
3022	14560665Y	HAV	RAMESHWAR SHARMA	01-12-2009
3023	14559394A	HAV	RANG LAL SINGH	01-11-2009
3024	14559594W	HAV	RANJIT SINGH	01-10-2009
3025	14560130W	HAV	RANVIR SINGH	01-11-2009
3026	14561761A	HAV	RASANANDA MOHANTA	01-12-2009
3027	14562496F	HAV	RAVENDRA SINGH	01-01-2010
3028	14558259A	HAV	RAVINDRA KUMAR TIWARI	01-07-2009
3029	14561188P	HAV	RAVINDRA NATH MALL	01-12-2009
3030	14558221W	HAV	RICHPAL SINGH	01-10-2009
3031	14558331L	HAV	RISHI PAL SINGH	01-10-2009
3032	14559115K	HAV	ROSHAN LAL	01-10-2009
3033	14589965H	HAV	ROSHAN LAMA	01-12-2009
3034	14561077X	HAV	RUKUM LAL	01-12-2009
3035	14560279M	HAV	RUP RAM	01-11-2009
3036	14558486A	HAV	S PETER	01-10-2009
3037	14590263W	HAV	S SRINIVAS	01-01-2010
3038	14562250H	HAV	SACHIDANAND SAH	01-12-2009
3039	14561136Y	HAV	SADANAND THAKUR	01-12-2009
3040	14561253K	HAV	SADANANDAN NAIR E	01-12-2009
3041	14557327W	HAV	SAHAB SINGH	01-09-2009
3042	14557210X	HAV	SAILESH KUMAR YADAV	01-09-2009
3043	14560566W	HAV	SAJAN SINGH BHADAURIA	01-12-2009
3044	14588150P	HAV	SAMAR JEET SINGH	01-11-2009
3045	14557654F	HAV	SAMJIT YADAV	01-09-2009
3046	14557152Y	HAV	SANJAY KUMAR SINGH	01-09-2009
3047	14558068L	HAV	SANTOSH KUMAR AHIRWAR	01-10-2009
3048	14557404A	HAV	SARYU PRASAD MISHRA	01-09-2009
3049	14557301F	HAV	SASI KURUP P K	01-09-2009
3050	14560068K	HAV	SATAYVIR SINGH	01-11-2009
3051	14560025P	HAV	SATBIR SINGH	01-11-2009
3052	14559018Y	HAV	SATISH KUMAR	01-10-2009
3053	14561440H	HAV	SATISH KUMAR	01-12-2009
3054	14557608M	HAV	SATISH KUMAR S M	01-09-2009
3055	14560559A	HAV	SATYABIR SINGH	01-12-2009
3056	14562046K	HAV	SATYA VIR SINGH	01-01-2010

3057	14562159M	HAV	SATYAWAN	01-01-2010
3058	14557111P	HAV	SHAJI JOSEPH	01-09-2009
3059	14560939Y	HAV	SHAM LAL	01-12-2009
3060	14557838A	HAV	SHANKREPPA	01-09-2009
3061	14557598N	HAV	SHAONA PAHAN	01-09-2009
3062	14585013L	HAV	SHARVESH GIRI	01-09-2009
3063	14560522Y	HAV	SHEO KUMAR SINGH	01-12-2009
3064	14561489Y	HAV	SHER SINGH	01-12-2009
3065	14558772F	HAV	SHES MANI PANDEY	01-10-2009
3066	14558122N	HAV	SHESH RAM VERMA	01-10-2009
3067	14562447Y	HAV	SHISHPAL	01-01-2010
3068	14561925Y	HAV	SHISHUPAL SINGH	01-01-2010
3069	14557352P	HAV	SHIV DATT JOSHI	01-09-2009
3070	14560896P	HAV	SHIV KUMAR SINGH	01-12-2009
3071	14562430L	HAV	SHRADDH KRISHAN LAL	01-01-2010
3072	14560676L	HAV	SHRI BHAGWAN SAH	01-12-2009
3073	14558476W	HAV	SHRI BHAGWAN SINGH	01-10-2009
3074	14559824Y	HAV	SHRI KRISHNA RAM	01-11-2009
3075	14562161K	HAV	SHRI RAM	01-01-2010
3076	14590013P	HAV	SHYAM BABU N. SHAD	01-01-2010
3077	14559396L	HAV	SHYAM NARAYAN SINGH	01-11-2009
3078	14559807Y	HAV	SHYAM NARAYAN SINGH	01-11-2009
3079	14558706Y	HAV	SIDHANATH SINGH	01-10-2009
3080	14557880Y	HAV	SITA SARAN PATEL	01-09-2009
3081	14558931N	HAV	SIYA RAM	01-10-2009
3082	14587401F	HAV	SOMAN PILLI MC	01-10-2009
3083	14560073P	HAV	SONELAL PRAJAPATI	01-11-2009
3084	14561185F	HAV	SRIRAM SUHAWAN DWIVEDI	01-12-2009
3085	14561356H	HAV	SUBASH CHANDRA DASH	01-12-2009
3086	14559387K	HAV	SUBE SINGH YADAV	01-11-2009
3087	14562406P	HAV	SUBH NARAYAN PANDEY	01-01-2010
3088	14557136F	HAV	SUBHAKARAN	01-09-2009
3089	14560062H	HAV	SUBHASH	01-11-2009
3090	14557725X	HAV	SUBHASH CHANDER	01-09-2009
3091	14559770H	HAV	SUBHASH KUMAR MISTRY	01-09-2009
3092	14559166X	HAV	SUDAM CHARAN MALLICK	01-10-2009
3093	14561530K	HAV	SUDHIR PRASAD SINGH	01-01-2010
3094	14556989M	HAV	SUKHLAL PRASAD PATEL	01-09-2009
3095	14557813N	HAV	SUKHRAM TOPNO	01-09-2009
3096	14585864X	HAV	SURAJ MAL SAINI	01-09-2009
3097	14557648N	HAV	SURENDER SINGH	01-09-2009
3098	14589979H	HAV	SURENDRA KUMAR	01-12-2009
3099	14562297N	HAV	SURENDRA SINGH	01-01-2010
3100	14559913X	HAV	SURENDRA SINGH	01-11-2009
3101	14561153Y	HAV	SURENDRA SINGH	01-12-2009
3102	14559891K	HAV	SURESH KUMAR	01-11-2009
3103	14557297K	HAV	SURESH KUMAR	01-09-2009
3104	14557795W	HAV	SURESH YADAV	01-09-2009
3105	14558126K	HAV	SUSANTA DEY	01-10-2009
3106	14585401H	HAV	SWAPAN KUMAR MANDAL	01-10-2009

3107	14559550Y	HAV	T BHARATHI	01-10-2009
3108	14588230M	HAV	TARSEM LAL	01-11-2009
3109	14558405P	HAV	TARU CH BASUMATRI	01-10-2009
3110	14587819K	HAV	TARUN KUMAR BISWAS	01-11-2009
3111	14559388M	HAV	TEZ BHANU PATEL	01-11-2009
3112	14560922L	HAV	THAKKAR MANUBHAI B	01-12-2009
3113	14557204K	HAV	TRILOKI NATH PAL	01-09-2009
3114	14558291P	HAV	U K CHAKRABORTY	01-10-2009
3115	14561860H	HAV	UDAIKANT MISHRA	01-01-2010
3116	14557557K	HAV	UMESH CHANDRA	01-09-2009
3117	14559930X	HAV	UNNIKRISHNAN K V	01-11-2009
3118	14560508M	HAV	V MUNIYAPPAN	01-12-2009
3119	14562007L	HAV	VADHIA ARAJAN BHAI DAYA BHAI	01-01-2010
3120	14560662L	HAV	VIJAY KUMAR PRASAD SINGH	01-12-2009
3121	14558937P	HAV	VIJAY KUMAR S	01-10-2009
3122	14560588P	HAV	VINOD KUMAR	01-12-2009
3123	14559976A	HAV	VINOD KUMAR	01-11-2009
3124	14585380X	HAV	VISHVEAHWAR SINGH	01-10-2009
3125	14559545N	HAV	W S UTTAM RAO	01-11-2009
3126	14557649W	HAV	YADRAM SWAMY	01-09-2009
3127	14560645L	HAV	YADUNATH SINGH	01-12-2009
3128	14559627W	HAV	YOGENDRA BHADUR SINGH	01-11-2009
3129	14558771Y	HAV	YOGENDRA PRASAD	01-10-2009
3130	14561179N	HAV	Z S ANSARI	01-12-2009

ARMY EDUCATION CORPS

3131	9509489F	HAV	S SRIKANT	01-01-2010
3132	9509647L	HAV	UMA SHANKAR BAN	01-01-2010

REMOUNT AND VETERINARY CORPS

3133	7239160F	DFR	BHAGIRATH CHAUDHARY	01-11-2009
3134	7239175K	HAV	KUNJ BIHARI PATEL	01-12-2009
3135	7239618A	HAV	LOKENDRA PAL SINGH	01-01-2010
3136	7239599A	DFR	MAHINDER SINGH	01-11-2009
3137	7239164X	DFR	NAKUL RAM	01-12-2009
3138	7239629M	DFR	PATEL DHULABHAI HARGOVIN DAS	01-01-2010
3139	7239180P	DFR	RAMESH PRASAD	01-01-2010
3140	7239614K	DFR	S H TALAWAR	01-01-2010

THE INTELLIGENCE CORPS

3141	3983954A	HAV	ASHOK KUMAR	01-10-2009
3142	14373603N	HAV	DHARAM CHAND	01-09-2009
3143	3984354K	HAV	PRABHAT SINGH	01-11-2009
3144	1477256M	HAV	UMAR PAL	01-10-2009
3145	4066051M	HAV	UMESH CHANDRA SHARMA	01-10-2009

CORPS OF MILITARY POLICE

3146	7774226N	HAV	AMAR SINGH	01-11-2009
3147	7774837H	HAV	ANIL KUMAR SINGH	01-11-2009
3148	7773474X	HAV	ANTHONY HORO	01-10-2009

3149	7773574H	HAV	ASOKAN K K	01-01-2010
3150	7773464N	HAV	BHAGWAN LAL	01-09-2009
3151	7774859F	HAV	DAULAT SINGH	01-11-2009
3152	7773545N	HAV	GOPALA KRISHNA KURUP S	01-01-2010
3153	7773571P	HAV	RAM ASHEESH THAKUR	01-11-2009
3154	7774812W	HAV	RAM KUMAR	01-10-2009
3155	7773473P	HAV	RAM NIWAS	01-10-2009
3156	7773541X	HAV	SANTOSH KUMAR	01-12-2009
3157	7773618P	HAV	SHARDA KUMAR SINGH	01-01-2010

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

3158	13748688F	HAV	DARBARI LAL	01-11-2009
3159	6923102K	HAV	M G NARENDER	01-09-2009

THE PIONEER CORPS

3160	8030215L	HAV	SHAKMIR	01-01-2010
3161	8030192P	HAV	HARIBUR RAHAMAN S K	01-12-2009
3162	8031469P	HAV	JAGDISH	01-09-2009
3163	8030095X	HAV	KAMONA BISWAS	01-09-2009
3164	8030116H	HAV	MATA PRASAD	01-11-2009
3165	8030124F	HAV	RAMAKANT AGNIHOTRI	01-11-2009
3166	8030186F	HAV	SASI K	01-12-2009
3167	8030103L	HAV	SHIV CHARAN	01-10-2009

BAND MASTERS

3168	13750967L	HAV	BIDHI CHAND	01-11-2009
------	-----------	-----	-------------	------------

ARMY POSTAL SERVICE

3169	8430176L	HAV	AGARCHAND RAM	01-10-2009
3170	8430253P	HAV	ANAND PURI GOSWAMI	01-01-2010
3171	8430190X	HAV	ASHWANI SINGH KUSHWAH	01-10-2009
3172	8430177N	HAV	BALWANT SINGH BISHT	01-10-2009
3173	8430282K	HAV	BASTI RAM YADAV	01-01-2010
3174	8430183F	HAV	BASWARAJ	01-10-2009
3175	8430189H	HAV	BHONDE RAJU HIRAMAN	01-10-2009
3176	8430174A	HAV	C P SHARMA	01-10-2009
3177	8430251K	HAV	HANSA DATT	01-01-2010
3178	8430264F	HAV	JAI KUMAR PRASAD	01-01-2010
3179	8430257L	HAV	KRISHAN KISHOR SINGH	01-01-2010
3180	8430224A	HAV	KULBIR SINGH	01-12-2009
3181	8430294Y	HAV	LANGUTE PRALHAD NANA	01-01-2010
3182	8430810H	HAV	MANJUNATH B N	01-09-2009
3183	8430181W	HAV	MUNNA LAL YADAV	01-10-2009
3184	8430217K	DFR	NAUNATH VISWAKARMA	01-12-2009
3185	8430167K	HAV	ROBINSON D	01-10-2009
3186	8430223X	HAV	SATYAVIR SINGH	01-12-2009
3187	8430260L	HAV	VIJAY KUMAR VERMA	01-01-2010

DEFENCE SECURITY CORPS

3188	10196690W	HAV	ASHOK KUMAR	01-02-2009
------	-----------	-----	-------------	------------

3189	4250366W	HAV	BHAIRAW SARAN SINGH	01-09-2009
3190	10180874L	HAV	KARAN SINGH YADAV	01-09-2009
3191	5038050K	HAV	PADAM BAHADUR THAPA	01-10-2009
3192	4250085A	HAV	RAJGIR ROY	01-09-2009

TERRITORIAL ARMY

3193	10166449P	HAV	A MURGAN	01-01-2010
3194	10374191L	HAV	ANANDA PRASAD	01-01-2010
3195	10227883A	HAV	ANANDRAO KARMAKAR	01-01-2010
3196	10291037N	HAV	ANOOP P	01-12-2009
3197	10361948K	HAV	ASHOK KUMAR	01-09-2009
3198	10479877	HAV	DILBAG SINGH	01-11-2009
3199	10291021H	HAV	GEE VARGHESE	01-05-2009
3200	10198105K	HAV	KALYAN SINGH	01-09-2009
3201	10452556K	HAV	M SELVARAJ	01-05-2009
3202	10198078	HAV	RATTAN SINGH	01-04-2009
3203	10302540N	HAV	SATYAVIR	01-06-2009

[No. B/43432/RD-10/AG/CW-2]

MUKESH SABHARWAL, Lt. Gen., Adjutant General

संशोधन

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2010

सं. 4(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2010.—राजपत्र अधिसूचना सं. 2(अ) (असाधारण)—दिनांक 26 जनवरी, 2008 के अवसर पर जे सी ओज को सेवानिवृत्त होने पर सेना विनियमावली, 1987 के पैरा 179 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है :—

हाशिया के नीचे **अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार मेजर के रूप में**

सेना चिकित्सा कोर

क्रमसंख्या 468 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

2 राजपत्र अधिसूचना संख्या 9 अ (असाधारण) दिनांक 15 अगस्त 2009 के अवसर पर जे सी ओज को सेवा में रहते हुए सेना विनियामावली 1987 के पैरा 177 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है।

हाशिया के नीचे **अवैतनिक कपतान के रूप में**

आर्टिलरी रेजीमेंट

क्रमसंख्या 18 के लिए — डिस्पिसेसभाकान्त शर्मा
पढ़े — सभाकान्त शर्मा

सिग्नल्स कोर

क्रमसंख्या 67 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

आसाम रेजीमेंट

क्रमसंख्या 153 के लिए — राम चंदा अचारजय
पढ़े — राम चंद्रा अचारजय

5 गोरखा राईफल्स

क्रमसंख्या 198 के लिए — जेसी 617470 वाई
पढ़े — जेसी 617470 एक्स

हाशिया के नीचे **अवैतनिक लेफिटनेंट के रूप में**

51 आर्मड रेजीमेंट

क्रमसंख्या 27 के लिए — राम कुमार सिंह
पढ़े — राम कुवर सिंह

राजपूत रेजीमेन्ट

क्रमसंख्या 480 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

5 गोरखा राईफल्स

क्रमसंख्या 786 के लिए — जेसी 617588 ए
पढ़े — जेसी 617588एल

8 गोरखा राईफल्स

क्रमसंख्या 800 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

इलेक्ट्रीनिक्स एवं मकेनिकल इंजीनियर्स कोर

क्रमसंख्या 988 के लिए — मल्लेशवरी राव चिल्मकुर्ती
पढ़े — मल्लेशवरा राव चिल्मकुर्ती

प्रदेशिक सेना

क्रमसंख्या 1067 के लिए — दलात कौशल
पढ़े — दौलत कौशल

3 राजपत्र अधिसूचना संख्या 10 अ (असाधारण) दिनांक 15 अगस्त 2009 के अवसर पर जे सी ओज को सेवा निर्मित होने पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 179 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है।

हाशिया के नीचे **अवैतनिक कप्तान के रूप में**

आर्टिलरी रेजीमेंट

क्रमसंख्या 24 के लिए — अबतार सिंह चौहान
पढ़े — अबतार सिंह चौहान

क्रमसंख्या 32 के लिए — जेसी 266459 डब्ल्यु
पढ़े — जेसी 266459 एच

क्रमसंख्या 82 के लिए — यश पाल सिंह
पढ़े — यशपाल सिंह

गार्डस

क्रमसंख्या 221 के लिए — 01.02.2009
पढ़े — 01.04.2009

मद्रास रेजीमेन्ट

क्रमसंख्या 293 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

राजपुताना राईफल्स

क्रमसंख्या 339 के लिए — जेसी 468931 डब्ल्यु
पढ़े — जेसी 468931 वाई

5 गोरखा राईफल्स

क्रमसंख्या 578 के लिए — जेसी 617604 एम
पढ़े — जेसी 617604 के

8 गोरखा राईफल्स

क्रमसंख्या 584 के लिए — दीलु गुरुंग
पढ़े — देलु गुरुंग

रक्षा सुरक्षा कोर

क्रमसंख्या 797 के लिए — अवध बिहार सिंह
पढ़े — अवध बिहारी सिंह

हाशिया के नीचे अवैतनिक लेफिटनेंट के रूप में

आर्टिलरी रेजीमेंट

क्रमसंख्या 16 के लिए — बालकिशन
पढ़े — बाल किशन

मद्रास इंजीनियर समूह

क्रमसंख्या 114 के लिए -- 01.05.2009
पढ़े — 01.08.2009

बोम्बे इंनियर समूह

क्रमसंख्या 225 के लिए — जेसी 34723 एफ
पढ़े — जेसी 347237 एफ

सिग्नल्स कोर

क्रमसंख्या 275 के लिए — 01.04.2009
पढ़े — 01.03.2009

पैराशूट रेजीमेन्ट

क्रमसंख्या 298 के लिए — कमल किशोर बेहेरा
पढ़े — कमल किशोर बेहेरा

क्रमसंख्या 298 के लिए — तिलोगी राम
पढ़े — तिलोगे राम

हाशिया के नीचे अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार मेजर के रूप में

53 आर्मड रेजीमेंट

क्रमसंख्या 172 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

आर्टिलरी रेजीमेंट

क्रमसंख्या 211 के लिए — असोकन पीडी
पढ़े — असोकन पीडी

क्रमसंख्या 215 के लिए — बालारामा नायक एन
पढ़े — बालरामन नायक एन

क्रमसंख्या 227 के लिए — बसवन्थप्पा करनावी
पढ़े — बसवन्थप्पा करनावी

क्रमसंख्या 248 के लिए — बुद्धी लाल
पढ़े — बुद्धी लाल

क्रमसंख्या 262 के लिए — देशमुख शेखर कैशल राव
पढ़े — देशमुख शेखर खुशल राव

क्रमसंख्या 263 के लिए — देविन्दर कुमार शर्मा
पढ़े — दिवेन्द्र कुमार शर्मा

क्रमसंख्या 291 के लिए — ईरप्पा सिद्धप्पा दुर्गान्नवर
पढ़े — ईरप्पा सिद्धप्पा दुर्गान्नावार

क्रमसंख्या 311 के लिए — कदम शंकर रामचंद्रा
पढ़े — कदम शंकर रामाचंद्रा

क्रमसंख्या 363 के लिए — निमाला पुरी प्रसादा राव
पढ़े — निमाला पुरी प्रसादा

क्रमसंख्या 389	के लिए पढ़े	-- पुरुषोत्तम कोल्लन वालापिल -- पुरुषोत्तम कोल्लन वईयापिल
क्रमसंख्या 411	के लिए पढ़े	-- राम नाथ सिंह -- रन नाथ सिंह
क्रमसंख्या 429	के लिए पढ़े	-- रनभीर सिंह -- रनबीर सिंह
क्रमसंख्या 432	के लिए पढ़े	-- रत्तन सिंह बंधू -- रतन सिंह बंधू
क्रमसंख्या 435	के लिए पढ़े	-- एस कुलाशेकरन -- एस कुलासेकाहन
क्रमसंख्या 439	के लिए पढ़े	-- सचिदा नन्द ठाकुर -- सचिदानन्द ठाकुर
क्रमसंख्या 443	के लिए पढ़े	-- सकांगापानी एस -- सरांगापानी एस
क्रमसंख्या 450	के लिए पढ़े	-- सत्या नरायण -- सत्या नरायन
क्रमसंख्या 459	के लिए पढ़े	-- जेसी 266501 के -- जेसी 266501 एक्स
क्रमसंख्या 462	के लिए पढ़े	-- श्री राम रे सिंग शिन्दे -- श्री राम राय सिंग शिन्दे
क्रमसंख्या 467	के लिए पढ़े	-- सुभाश चन्द्रा दोहारे -- सुभाष चन्द्रा दोहारे
क्रमसंख्या 468	के लिए पढ़े	-- सुभाश चन्द्रा मोहाला -- सुभाष चन्द्र माहाला
क्रमसंख्या 476	के लिए पढ़े	-- जेसी 255674 एफ -- जेसी 255674 पी
क्रमसंख्या 479	के लिए पढ़े	-- जेसी 262961 एन सुबेदार सुरेन्दर कल्लप्पा सेठपागोल -- जेसी 262961 एम सुबेदार सुरेन्दर कल्लप्पा सेठपागोल

बोम्बे इंजीनियर समूह

क्रमसंख्या 819	के लिए	—	कौशल किशोर बाजपल
	पढ़े	—	कौशल किशोर वाजपेयी

सिग्नल्स कोर

क्रमसंख्या 904	के लिए	—	भान सिंह चौहान
	पढ़े	—	भान सिंह चौहान

मेकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

क्रमसंख्या 1231 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

5 गोरखा राईफल्स

क्रमसंख्या 1806	के लिए	—	जेसी 617602 एफ
	पढ़े	—	जेसी 617602 पी

क्रमसंख्या 1813	के लिए	—	जेसी 617414 ए
	पढ़े	—	जेसी 617414 डब्ल्यू

क्रमसंख्या 1815	के लिए	—	जेसी 617603 के
	पढ़े	—	जेसी 617603 एफ

8 गोरखा राईफल्स

क्रमसंख्या 1829	के लिए	—	लाल साभ गुरुंग
	पढ़े	—	लाल सुब्बा गुरुंग

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

क्रमसंख्या 2542	के लिए	—	दिवाकर प्रसाद सिंह
	पढ़े	—	दिवाकर प्रसाद सिंह

हाशिया के नीचे

अवैतनिक रिसालदार/सुबेदार के रूप में

आर्टिलरी रेजीमेंट

क्रमसंख्या 63	के लिए	—	डी राम मूर्ती
	पढ़े	—	डी रामा मूर्ती

क्रमसंख्या 85	के लिए	—	एम सोमा सुन्दरम
	पढ़े	—	एम सोमा सुन्दाराम

क्रमसंख्या 115 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

क्रमसंख्या 218	के लिए	—	चरन जीत
	पदे	—	चरन जीत सिंह
क्रमसंख्या 219	के लिए	—	01.03.2009
	पदे	—	15.02.2009

सेना आयुध कोर

क्रमसंख्या 289	के लिए	—	भुपेन कौर दास
	पदे	—	भुपेन कुमार दास

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स

क्रमसंख्या 323	एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें		
क्रमसंख्या 330	के लिए	—	गोविन्दर सिंह
	पदे	—	गोविन्दर सिंह
क्रमसंख्या 332	के लिए	—	हरी राम गुरजर
	पदे	—	हरी राम गुर्जर
क्रमसंख्या 348	के लिए	—	01.08.2009
	पदे	—	01.03.2009
क्रमसंख्या 355	के लिए	—	01.04.2009
	पदे	—	01.07.2009
क्रमसंख्या 370	के लिए	—	01.02.2009
	पदे	—	01.04.2009

सेना शारिरिक प्रशिक्षण कोर

क्रमसंख्या 384	के लिए	—	01.04.2009
	पदे	—	01.06.2009

रक्षा सुरक्षा कोर

क्रमसंख्या 391	के लिए	—	भरत रान
	पदे	—	भरत राम

6 राजपत्र अधिसूचना संख्या 11 अ (असाधारण) दिनांक 15 अगस्त 2009 के अवसर पर एन सी ओज को सेवा निर्मित होने पर सेना विनियामावली 1987 के पैरा 180 के अधीन जो पद प्रदान किए गए उनमें निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है।

हाशिया के नीचे अवैतनिक नायब रिसलदार/नायब सुबेदार के रूप में

19 आर्मड रेजीमेंट

क्रमसंख्या 41 के लिए — सकुरान सिंह यादव
पढ़े — बलीराम सिंह यादव

आर्टिलरी रेजीमेंट

क्रमसंख्या 73 के लिए — दफादार
पढ़े — हवलदार

क्रमसंख्या 104 के लिए — 1483911 डब्ल्यु
पढ़े — 14483911 डब्ल्यु

क्रमसंख्या 127 के लिए — बिजेन्द्र सिंह तनवर
पढ़े — बिजेन्द्र सिंह तनवर

क्रमसंख्या 187 के लिए — गुमुख सिंह
पढ़े — गुर्मुख सिंह

क्रमसंख्या 205 के लिए — जगन सिंह
पढ़े — जंग सिंह

क्रमसंख्या 346 के लिए — रघुनाथन बाईथा
पढ़े — रघुनाथ बाईथा

क्रमसंख्या 364 के लिए — राकेश कुमार
पढ़े — राकेश राय

क्रमसंख्या 488 के लिए — तीरथ नाथ
पढ़े — तीरथ राज

क्रमसंख्या 505 के लिए — योगेन्द्रा सिंह
पढ़े — योगेन्द्र राम

वायु सुरक्षा आर्टिलरी कोर

क्रमसंख्या 524 के लिए — एच राजन
पढ़े — बी राजन

क्रमसंख्या 543	के लिए	— राजेन्द्र सिंह
	पदे	— राजेन्द्र सिंह
क्रमसंख्या 553	के लिए	— शलेन्द्रा सिंह राठौर
	पदे	— शलेन्द्र सिंह राठौर

मद्रास इंजीनियर समूह

क्रमसंख्या 594 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटाये

क्रमसंख्या 607	के लिए	— 31.03.2009
	पदे	— 01.04.2009
क्रमसंख्या 620	के लिए	— 01.04.2009
	पदे	— 01.02.2009
क्रमसंख्या 627	के लिए	— 29.03.2009
	पदे	— 01.03.2009

बोम्बे इंनियर समूह

क्रमसंख्या 916	के लिए	— शिवाजो पंडुरंग पावार
	पदे	— शिवाजी पंडुरंग पावार
क्रमसंख्या 917	के लिए	— शमसुद्धीन
	पदे	— शमसुद्धीन

सिग्नल्स कोर

क्रमसंख्या 972	के लिए	— बिशवा करम ठाकुर
	पदे	— विश्व कर्मा ठाकुर
क्रमसंख्या 994	के लिए	— धरेभारत सुर्याभान
	पदे	— धरे भारत सुर्याभान
क्रमसंख्या 1014	के लिए	— गनेश्याम केआरबी
	पदे	— धनश्याम केआरबी
क्रमसंख्या 1030	के लिए	— आईएम प्रकाश
	पदे	— ओम प्रकाश
क्रमसंख्या 1047	के लिए	— जेसेठी संकारा राव
	पदे	— सेट्टी संकारा राव

क्रमसंख्या 1049	के लिए पढ़े	— कदम हरराम विथोबा — कदम हरीराम विथोबा
क्रमसंख्या 1086	के लिए पढ़े	— महेंद्रा पाल दुब्बे — महेंद्र पाल दूबे
क्रमसंख्या 1096	के लिए पढ़े	— महोम्द एकरामुल हावुई — मोहम्मद एकरामुल हक
क्रमसंख्या 1109	के लिए पढ़े	— निरामल चन्द्रा सवाईन — निर्मल चन्द्र सवाईन
क्रमसंख्या 1157	के लिए पढ़े	— राम अवातार प्रसाद — राम अवतार प्रसाद
क्रमसंख्या 1182	के लिए पढ़े	— राठोड राजेन्द्रा सिंह दिलिप सिन्हा — राठोड राजेन्द्र सिंह दिलिप सिन्हा
क्रमसंख्या 1191	के लिए पढ़े	— 31.03.2009 — 01.07.2009
क्रमसंख्या 1204	के लिए पढ़े	— शैरी पी के — शेरी पी के
क्रमसंख्या 1226	के लिए पढ़े	— सुल अजोत नोवरुत्ती — सुल अजीत नोवरीत्ती

ब्रिगेड आफ गार्डस

क्रमसंख्या 1272	के लिए पढ़े	— चंदरप्पा अप्पान्ना — चंदरप्पा अप्पान्ना पाटिल
-----------------	----------------	--

क्रमसंख्या 1281 एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें

क्रमसंख्या 1297	के लिए पढ़े	— 1368400 ए — 13684000 ए
-----------------	----------------	-----------------------------

पैराशूट रेजीमेन्ट

क्रमसंख्या 1315	के लिए पढ़े	— एकबाल बजादुर सिंह — एकबाल बहादुर सिंह
क्रमसंख्या 1318	के लिए पढ़े	— काजी मन गुरुन — काजी मन गुरुंग
क्रमसंख्या 1325	के लिए पढ़े	— शिव शांदकर राम — शिव शंकर राम

मैकेनाइज्ड पैदल सेना रेजीमेन्ट

क्रमसंख्या 1327	के लिए पढ़े	— अजी मल सिंह — जय मल सिंह
क्रमसंख्या 1329	के लिए पढ़े	— अम्बका राम — अम्बीका राम
क्रमसंख्या 1376	के लिए पढ़े	— महोमद शारीख — मोहम्मद शफीक
क्रमसंख्या 1409	के लिए पढ़े	— 14907900 एक्स — 14907900 वाई
क्रमसंख्या 1424	के लिए पढ़े	— वोलकिल अहमद — वकील अहमद

पंजाब रेजीमेंट

क्रमसंख्या 1450	एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें	
क्रमसंख्या 1477	के लिए पढ़े	— सियाल सिंह — सीतल सिंह
क्रमसंख्या 1482	एवं सम्बन्धित प्रविष्टियां हटायें	

ग्रनेडियर्स रेजिमेन्ट

क्रमसंख्या 1546	के लिए पढ़े	— 31.07.2009 — 01.09.2009
-----------------	----------------	------------------------------

मराठा लघु सेना

क्रमसंख्या 1589	के लिए पढ़े	— शिन्दे उत्तम यशवन्त — शिव देव सिंह
-----------------	----------------	---

राजपुताना राईफल्स

क्रमसंख्या 1626	के लिए पढ़े	— योपगेश कुमार — योगेश कुमार
-----------------	----------------	---------------------------------

सिख रेजीमेन्ट

क्रमसंख्या 1686	के लिए पढ़े	— बलजोत सिंह — बलजीत सिंह
-----------------	----------------	------------------------------

क्रमसंख्या 1727	के लिए	- सुन्देर्हन प्रसाद
	पदे	- सुदर्शन प्रसाद

आसाम रेजीमेन्ट

क्रमसंख्या 1930	के लिए	- चन्द्र कान्त सिन्हा
	पदे	- चन्द्र कान्ता सिन्हा

क्रमसंख्या 1932	के लिए	- दानेशवर बोराह
	पदे	- धनेश्वर बरुआ

लद्दाख स्काउट

क्रमसंख्या 2033	के लिए	- 99233005 डबल्यू
	पदे	- 9923305 डबल्यू

जम्मू एवं कश्मीर लघु पैदल सेना

क्रमसंख्या 2057	के लिए	- छिजरिंग नामग्याल
	पदे	- छेरिंग नामग्याल

क्रमसंख्या 2103	के लिए	- साद्विक अहमद
	पदे	- साद्विक अहमद

5 गोरखा राईफल्स

क्रमसंख्या 2157	के लिए	- अमरसिंह सिंजालि थापा
	पदे	- अमरसिंह सिंजालि थापा

क्रमसंख्या 2161	के लिए	- बरिखा जंग गुरुंग
	पदे	- बिरखा जंग गुरुंग

क्रमसंख्या 2164	के लिए	- 5449332 डबल्यू
	पदे	- 5449332 एम

क्रमसंख्या 2168	के लिए	- खादक बहादुर राना
	पदे	- खडक बहारुर राणा

8 गोरखा राईफल्स

क्रमसंख्या 2176	के लिए	- 5750735एफ
	पदे	- 5750735पी

क्रमसंख्या 2177	के लिए	—	खिम बहादुर थापा
	पढ़े	—	खिन बहादुर थापा

आर्ची ऑर्बनेन्स कोर

क्रमसंख्या 2600	के लिए	—	आसोल लुमर दे
	पढ़े	—	अशोक कुमार डे
क्रमसंख्या 2611	के लिए	—	सी एस भारव
	पढ़े	—	चौधरी संताराम भाराव
क्रमसंख्या 2616	के लिए	—	13886660ए
	पढ़े	—	13886660ए
क्रमसंख्या 2635	के लिए	—	केशर जगन्नाथ
	पढ़े	—	केसकर जगन्नाथ
क्रमसंख्या 2637	के लिए	—	कृष्ण मारुति बमसोडे
	पढ़े	—	कृष्ण मारुति बानसोडे
क्रमसंख्या 2647	के लिए	—	मुयेश प्रसाद सिंह
	पढ़े	—	उमेश प्रसाद सिंह
क्रमसंख्या 2648	के लिए	—	मुलिधर
	पढ़े	—	मुरलीधर
क्रमसंख्या 2650	के लिए	—	एन सी प्रधान
	पढ़े	—	नरेश चन्द्र प्रधान
क्रमसंख्या 2659	के लिए	—	आर डी अंदने
	पढ़े	—	रविन्द्र दातारे अंदने
क्रमसंख्या 2661	के लिए	—	रगु राज सोमग यादव
	पढ़े	—	रगु राज सिंह यादव
क्रमसंख्या 2676	के लिए	—	31जुलाई 2009
	पढ़े	—	01 मई 2009
क्रमसंख्या 2685	के लिए	—	टी एन चौधरी
	पढ़े	—	त्रिलोकी नाथ चौधरी

कोर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकनिकल इंजीनियरस

क्रमसंख्या 2725	के लिए	—	8029870के
	पढ़े	—	8029870एक्स

क्रमसंख्या 2781	के लिए	-	14582928पी
	पदे.	-	14582926 एफ
क्रमसंख्या 2836	के लिए	-	14553318 वाई
	पदे	-	14553318 एक्स

[सं. बी/43432/संशोधन 2009/ए जी/सी डब्ल्यू-2]

मुकेश सभरवाल, लै. जनरल, एडजुटेंट जनरल

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26th January, 2010

No. 4(E) Dated 26 January, 2010.—The Gazette of India (Extra-ordinary) Notification No. 2(E), dated 26th January, 2008, notifying the grant of honorary ranks to JCOs on retirement under Para 179 of Regulation for the Army 1987 is amended as under :—

UNDER HEADING TO BE HONORARY RISALDAR MAJOR/SUBEDAR MAJOR

ARMY MEDICAL CORPS

DELETE SERIAL 1958 AND CONNECTED ENTRIES

2. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 09 (E) dated 15 August 2009, notifying the grant of honorary commission to JCOs on the active list under Para 177 of Regulations for the Army is amended as under : -

UNDER HEADING TO BE HONORARY CAPTAINS

REGIMENT OF ARTILLERY

SERIAL 18	FOR	-	DISPLAYSABHAKANT SHARMA
	READ	-	SABHAKANT SHARMA

CORPS OF SIGNALS

DELETE SERIAL 67 AND CONNECTED ENTRIES

ASSAM REGIMENT

SERIAL 153	FOR	-	RAM CHANDA ACHARJYA
	READ	-	RAM CHANDRA ACHARJYA

5 GORKHA RIFLES

SERIAL 198	FOR	-	JC 617470Y
	READ	-	JC 617470X

TO BE HONORARY LIEUTENANTS

51 ARMOURED REGIMENT

SERIAL 27	FOR	-	RAM KUMAR SINGH
	READ	-	RAM KUWAR SINGH

THE RAJPUT REGIMENT

DELETE SERIAL 480 AND CONNECTED ENTRIES

THE ASSAM REGIMENT**DELETE SERIAL 640 AND CONNECTED ENTRIES****5 GORKHA RIFLES**

SERIAL 786	FOR	-	JC 617588A
	READ	-	JC 617588L

8 GORKHA RIFLES**DELETE SERIAL 800 AND CONNECTED ENTRIES****CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS**

SERIAL 988	FOR	-	MALLESWARI RAO CHILAMKURTY
	READ	-	MALLESWARA RAO CHILAMKURTY

TERRITORIAL ARMY

SERIAL 1067	FOR	-	DALAT KAUSHAL
	READ	-	DAULAT KAUSHAL

3. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 10 (E) dated 15 August 2009, notifying the grant of honorary ranks to JCOs on retirement under Para 179 of Regulation for the Army 1987 is amended as under :-

UNDER HEADING**TO BE HONORARY CAPTAINS****REGIMENT OF ARTILLERY**

SERIAL 24	FOR	-	ABTAR SINGH CHAUHAN
	READ	-	ABTAR SINGH CHOUHAN

SERIAL 32	FOR	-	JC 266459W
	READ	-	JC 266459H

SERIAL 82	FOR	-	YASH PAL SINGH
	READ	-	YASHPAL SINGH

THE BRIGADE OF GUARDS

SERIAL 221	FOR	-	01.02.2009
	READ	-	01.04.2009

THE MADRAS REGIMENT**DELETE SERIAL 293 AND CONNECTED ENTRIES****THE RAJPUTANA RIFLES**

SERIAL 339	FOR	-	JC 468931W
	READ	-	JC 468931Y

5 GORKHA RIFLES

SERIAL 578	FOR	-	JC 617604M
	READ	-	JC 617604K

8 GORKHA RIFLES

SERIAL 584	FOR	-	DILU GURUNG
	READ	-	DELU GURUNG

DEFENCE SECURITY CORPS

SERIAL 797	FOR	-	AWADH BIHAR SINGH
	READ	-	AWADH BIHARI SINGH

UNDER HEADING**TO BE HONORARY LIEUTENANTS****REGIMENT OF ARTILLERY**

SERIAL 16	FOR	-	BALKISHAN
	READ	-	BAL KISHAN

MADRAS ENGINEER GROUP

SERIAL 114	FOR	-	01.05.2009
	READ	-	01.08.2009

BOMBAY ENGINEER GROUP

SERIAL 225	FOR	-	JC 34723F
	READ	-	JC 347237F

CORPS OF SIGNALS

SERIAL 275	FOR	-	01.04.2009
	READ	-	01.03.2009

THE PARACHUTE REGIMENT

SERIAL 298	FOR	-	KAMAL KISHOR BEHERA
	READ	-	KAMAL KISHORE BEHRA

SERIAL 298	FOR	-	TILOGI RAM
	READ	-	TILOGE RAM

UNDER HEADING**TO BE HONORARY RISALDAR MAJOR/SUBEDAR MAJOR****53 ARMOURD REGIMENT****DELETE SERIAL 172 AND CONNECTED ENTRIES****REGIMENT OF ARTILLERY**

SERIAL 211	FOR	-	ASOKAN PD
	READ	-	ASHOKAN PD

SERIAL 215	FOR	-	BALARAMA NAIK N
	READ	-	BALARAMAN NAIK N

SERIAL 227	FOR	-	BASAVANTAPPA KARANAVI
	READ	-	BASAVANTAPPA KARNAVI

SERIAL 248	FOR	-	BUDDHI LAL
	READ	-	BUDHI LAL

SERIAL 262	FOR	-	DESHMUKH SHEKHAR KHUSHAL RAO
	READ	-	DESHMUKH SHEKHAR KHUSAL RAO

SERIAL 263	FOR	-	DEVENDRA KUMAR SHARMA
	READ	-	DIVENDRA KUMAR SHARMA

SERIAL 291	FOR	-	IERAPPA SIDDAPPA DURGANNAVR
	READ	-	IERAPPA SIDDAPPA DURGANNAVAR

SERIAL 311	FOR READ	- -	KADAM SHANKAR RAMCHANDRA KADAM SHANKAR RAMACHANDRA
SERIAL 363	FOR READ	- -	NEMALA PURI PRASADA RAO NEMALA PURI PRASADA
SERIAL 389	FOR READ	- -	PURUSHOTHAMAN KOLLAN VALAPPIL PURUSHOTHAMAN KOLLAN VAIAPPIL
SERIAL 411	FOR READ	- -	RAM NATH SINGH RAN NATH SINGH
SERIAL 429	FOR READ	- -	RANBHIR SINGH RANBIR SINGH
SERIAL 432	FOR READ	- -	RATTAN SINGH BANDHU RATAN SINGH BANDHU
SERIAL 435	FOR READ	- -	S KULASEKARAN S KULASEKAHAN
SERIAL 439	FOR READ	- -	SACHIDA NAND THAKUR SACHIDAND THAKUR
SERIAL 443	FOR READ	- -	SAKANGAPANY S SARANGAPANY S
SERIAL 450	FOR READ	- -	SATYA NARYAIN SATYA NARAYAN
SERIAL 459	FOR READ	- -	JC 266501K JC 266501X
SERIAL 462	FOR READ	- -	SHRI RAM RAY SING SHINDE SHRI RAM RAI SING SHINDE
SERIAL 467	FOR READ	- -	SUBHASH CHANDRA DOHARAY SUBASH CHANDRA DOHERAY
SERIAL 468	FOR READ	- -	SUBHASH CHANDRA MAHALA SUBASH CHANDRA MAHALA
SERIAL 476	FOR READ	- -	JC 255674F JC 255674P
SERIAL 479	FOR READ	- -	JC 262961N SUB SURENDAR KALLAPPA SETTEPPAGOL JC 262961M SUB SURENDER KALLAPPA SETTEPAGOL

BOMBAY ENGINEER GROUP

SERIAL 819	FOR READ	- -	KAUSHAL KISHORE BAJPAL KAUSHAL KISHORE BAJPAI
------------	-------------	--------	--

CORPS OF SIGNALS

SERIAL 904	FOR READ	- -	BHAN SINGH CHOUHAN BHAN SINGH CHAUHAN
------------	-------------	--------	--

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**DELETE SERIAL 1231 AND CONNECTED ENTRIES****5 GORKHA RIFLES**

SERIAL 1806	FOR	-	JC 617602F
	READ	-	JC 617602P
SERIAL 1813	FOR	-	JC 617414A
	READ	-	JC 617414W
SERIAL 1815	FOR	-	JC 617603K
	READ	-	JC 617603F

8 GORKHA RIFLES

SERIAL 1829	FOR	-	LAL SABH GURUNG
	READ	-	LAL SUBBA GURUNG

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

SERIAL 2542	FOR	-	DIWAKAR PRASAD SINGH
	READ	-	DEWAKAR PRASAD SINGH

UNDER HEADING**TO BE HONORARY RISALDAR /SUBEDAR****REGIMENT OF ARTILLERY**

SERIAL 63	FOR	-	D RAM MURTHI
	READ	-	D RAMA MURTHI
SERIAL 85	FOR	-	M SOMA SUNDRAM
	READ	-	M SOMA SUNDARAM

DELETE SERIAL 115 AND CONNECTED ENTRIES**THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT**

SERIAL 218	FOR	-	CHARAN JIT
	READ	-	CHARAN JIT SINGH
SERIAL 219	FOR	-	01.03.2009
	READ	-	15.02.2009

ARMY ORDNANCE CORPS

SERIAL 289	FOR	-	BHUPEN KUAR DAS
	READ	-	BHUPEN KUMAR DAS

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS**DELETE SERIAL 323 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 330	FOR	-	GOVINDER SINGH
	READ	-	GOBINDER SINGH
SERIAL 332	FOR	-	HRI RAM GURJAR
	READ	-	HARI RAM GURJAR

SERIAL 348	FOR	-	01.08.2009
	READ	-	01.03.2009
SERIAL 355	FOR	-	01.04.2009
	READ	-	01.07.2009
SERIAL 370	FOR	-	01.02.2009
	READ	-	01.04.2009

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

SERIAL 384	FOR	-	01.04.2009
	READ	-	01.06.2009

DEFENCE SECURITY CORPS

SERIAL 391	FOR	-	BHARAT RAN
	READ	-	BHARAT RAM

6. The Gazette of India (Extraordinary) Notification No 11 (E) dated 15 August 2009, notifying the grant of honorary ranks of Nb Risaldar/Subedar to NCOs on retirement under Para 180 of Regulation for the Army 1987 is amended as under : -

UNDER HEADING**TO BE HONORARY NAIB RISALDARS/SUBEDARS****19 ARMOURED REGIMENT**

SERIAL 41	FOR	-	SAKURAN SINGH YADAV
	READ	-	BALIRAM SINGH YADAV

REGIMENT OF ARTILLERY

SERIAL 73	FOR	-	DFR
	READ	-	HAV
SERIAL 104	FOR	-	1483911W
	READ	-	14483911W
SERIAL 127	FOR	-	BIJENDER SINGHTANWAR
	READ	-	BIJENDER SINGH TANWAR
SERIAL 187	FOR	-	GUMUKH SINGH
	READ	-	GURMUKH SINGH
SERIAL 205	FOR	-	JAGAN SINGH
	READ	-	JANG SINGH
SERIAL 346	FOR	-	RAGHUNATHAN BAITHA
	READ	-	RAGHUNATH BAITHA
SERIAL 364	FOR	-	RAKESH KUMAR
	READ	-	RAKESH RAI
SERIAL 488	FOR	-	TIRATH NATH
	READ	-	TIRATH RAJ
SERIAL 505	FOR	-	YOGENDRA SINGH
	READ	-	YOGENDRA RAM

ARMY AIR DEFENCE

SERIAL 524	FOR READ	- -	H RAJAN B RAJAN
SERIAL 543	FOR READ	- -	RAJENDER SINGH RAJENDRA SINGH
SERIAL 553	FOR READ	- -	SHELNDRA SINGH RATHOR SHLENDRA SINGH RATHOR

MADRAS ENGINEER GROUP**DELETE SERIAL 594 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 607	FOR READ	- -	31.03.2009 01.04.2009
SERIAL 620	FOR READ	- -	01.04.2009 01.02.2009
SERIAL 627	FOR READ	- -	29.03.2009 01.03.2009

BOMBAY ENGINEER GROUP

SERIAL 916	FOR READ	- -	SHIVAJI PANDURANG PAWAR SHIVAJI PANDURANG PAWAR
SERIAL 917	FOR READ	- -	SHMSUDDIN SHAMSUDDIN

CORPS OF SIGNALS

SERIAL 972	FOR READ	- -	BISHWA KARAM THAKUR BISHWA KARMA THAKUR
SERIAL 994	FOR READ	- -	DHEREBHARAT SURYABHAN DHERE BHARAT SURYABHAN
SERIAL 1014	FOR READ	- -	GHANESHYAM KRB GHANSHYAM KRB
SERIAL 1030	FOR READ	- -	IM PRAKASH OM PRAKASH
SERIAL 1047	FOR READ	- -	JSETTI SANKARA RAO SETTI SANKARA RAO
SERIAL 1049	FOR READ	- -	KADAM HARRAM VITHOBA KADAM HARIRAM VITHOBA
SERIAL 1086	FOR READ	- -	MAHENDRA PAL DUBBEY MAHENDRA PAL DUBEY
SERIAL 1096	FOR READ	- -	MD EKRAMUL HAWUE MD EKRAMUL HAQUE

SERIAL 1109	FOR READ	- -	NIRAMAL CHANDRA SWAIN NIRMAL CHANDRA SWAIN
SERIAL 1157	FOR READ	- -	RAM AWATAR PRASAD RAM AWTAR PRASAD
SERIAL 1182	FOR READ	- -	RATHOD RAJENDRA SINGH DILIP SINH RATHOD RAJENDRA SINH DILIP SINH
SERIAL 1191	FOR READ	- -	31.03.2009 01.07.2009
SERIAL 1204	FOR READ	- -	SHERRY P K SHERY P K
SERIAL 1226	FOR READ	- -	SUL AJOT NOVRUTTI SUL AJIT NOVRITTI

BRIGADE OF THE GURADS

SERIAL 1272	FOR READ	- -	CHANDRAPPA APPANNA CHANDRAPPA APPANNA PATIL
-------------	-------------	--------	--

DELETE SERIAL 1281 AND CONNECTED ENTRIES

SERIAL 1297	FOR READ	- -	1368400A 13684000A
-------------	-------------	--------	-----------------------

THE PARACHUTE REGIMENT

SERIAL 1315	FOR READ	- -	EKBAL BAJADUR SINGH EKBAL BAHADUR SINGH
SERIAL 1318	FOR READ	- -	KAJI MAN GURUN KAJI MAN GURUNG
SERIAL 1325	FOR READ	- -	SHIW SHANDKAR RAM SHIW SHANKAR RAM

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

SERIAL 1327	FOR READ	- -	AJI MAL SINGH JAI MAL SINGH
SERIAL 1329	FOR READ	- -	AMBKA RAM AMBIKA RAM
SERIAL 1376	FOR READ	- -	MOHMMED SHARIQUE MOHMMED SHAFIQUE
SERIAL 1409	FOR READ	- -	14907900X 14907900Y
SERIAL 1424	FOR READ	- -	WOLKIL AHMAD WOKIL AHMAD

THE PUNJAB REGIMENT**DELETE SERIAL 1450 AND CONNECTED ENTRIES**

SERIAL 1477	FOR	-	SIYAL SINGH
	READ	-	SITAL SINGH

DELETE SERIAL 1482 AND CONNECTED ENTRIES**THE GRENADIERS REGIMENT**

SERIAL 1546	FOR	-	31.07.2009
	READ	-	01.08.2009

THE MARATHA LIGHT INFANTRY

SERIAL 1589	FOR	-	SHINDE UTTAM YASHWANT
	READ	-	SHIVDEV SINGH

THE RAJPUTANA RIFLES

SERIAL 1626	FOR	-	YOPGESH KUMAR
	READ	-	YOGESH KUMAR

THE SIKH REGIMENT

SERIAL 1686	FOR	-	BALJOT SINGH
	READ	-	BALJIT SINGH

SERIAL 1727	FOR	-	SUNDERHAN PRASAD
	READ	-	SUDERSHAN PRASAD

THE ASSAM REGIMENT

SERIAL 1930	FOR	-	CHANDRA KANT SINHA
	READ	-	CHANDRA KANTA SINHA

SERIAL 1932	FOR	-	DHANESHWAR BORUAH
	READ	-	DHANESWAR BORUAH

THE LADAKH SCOUTS

SERIAL 2033	FOR	-	99233005W
	READ	-	9923305W

THE JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY

SERIAL 2057	FOR	-	CHJERING NAMGIAL
	READ	-	CHHERING NAMGIAL

SERIAL 2103	FOR	-	SADIQ AHMAD
	READ	-	SADIQ MOHD

5 GORKHA RIFLES

SERIAL 2157	FOR	-	AMAR SINGH SINJALI THAPA
	READ	-	AMAR SINGH SINGJALI THAPA

SERIAL 2161	FOR READ	- -	BRIKHA JUNG GURUNG BIRKHA JUNG GURUNG
SERIAL 2164	FOR READ	- -	5449332W 5449332M
SERIAL 2168	FOR READ	- -	KHADKA BAHADUR RANA KHARKA BAHARUR RANA

8 GORKHA RIFLES

SERIAL 2176	FOR READ	- -	5750735F 5750735P
SERIAL 2177	FOR READ	- -	KHIM BAHADUR THAPA KHIN BAHADUR THAPA

ARMY ORDNANCE CORPS

SERIAL 2600	FOR READ	- -	ASHOL LUMAR DEY ASHOK KUMAR DEY
SERIAL 2611	FOR READ	- -	CS BHARAO CHOUDHARI SANTARAM BHARAO
SERIAL 2616	FOR READ	- -	13886660A 1388660A
SERIAL 2635	FOR READ	- -	KESHAR JAGANNATH KESKAR JAGANNATH
SERIAL 2637	FOR READ	- -	KRISHNA MARUTI BAMSODE KRISHNA MARUTI BANSODE
SERIAL 2647	FOR READ	- -	MUESH PRASAD SINGH UMESH PRASAD SINGH
SERIAL 2648	FOR READ	- -	MULIDHAR MURLIDHAR
SERIAL 2650	FOR READ	- -	NC PRADHAN NARESH CHANDRA PRADHAN
SERIAL 2659	FOR READ	- -	R D ANDANE RAVINDRA DATTATRAY ANDANE
SERIAL 2661	FOR READ	- -	RAGU RAJ SOMGJ YADAV RAGU RAJ SINGH YADAV
SERIAL 2676	FOR READ	- -	31.07.2009 01.05.2009
SERIAL 2685	FOR READ	- -	TN CHOUDHARY TRILOKI NATH CHOUDHARY

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS

SERIAL 2725	FOR READ	- -	8029870K 8029870X
-------------	-------------	--------	----------------------

SERIAL 2781	FOR - 14582928P
	READ - 14582926F
SERIAL 2836	FOR - 14553318Y
	READ - 14553318X

[No. B/43432/Corrigendum 2009/AG/CW-2]

MUKESH SABHARWAL, Lt. Gen., Adjutant General

(वायु शाखा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2010

सं. 5(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2010.— गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वायुसेना विनियमावली के पैरा 344 के अन्तर्गत निम्नलिखित ऑनरेरी फ्लाईंग अफसरों को 26 जनवरी 2010 से ऑनरेरी फ्लाईट लेफ्टिनेंट रैंक में पदोन्नत किया जाता है -

1.	616607एच	मा वा अ (आ फ अ)	युगेश्वर रॉय	एसीएच जीडी
2.	293374एन	मा वा अ (आ फ अ)	कृष्ण भारद्वाज	एसीएच जीडी
3.	616715बी	मा वा अ (आ फ अ)	देशाई दत्तात्रे रंगाराव	एडीएसओ
4.	615136ए	मा वा अ (आ फ अ)	निशान सिंह नियारिया	एडीएसओ
5.	293766बी	मा वा अ (आ फ अ)	इशरार अहमद शब्बू	ए एफ फिटर
6.	641001जी	मा वा अ (आ फ अ)	लल्लन प्रसाद उपाध्याय	ए एफ फिटर
7.	604454आर	मा वा अ (आ फ अ)	राम दुलार सिंह	एएफएसओ
8.	292847एल	मा वा अ (आ फ अ)	धर्मवीर सिंह दवास	कारपेंटर रीगर
9.	613485एन	मा वा अ (आ फ अ)	दिगम्बर सिंह नेगी	कैट सहायक
10.	611928एस	मा वा अ (आ फ अ)	बलकार सिंह	कैट सहायक
11.	612109एन	मा वा अ (आ फ अ)	अर्जुन सिंह चंदेल	क्लर्क एकाउंट
12.	612451एन	मा वा अ (आ फ अ)	राम चन्द्र कुशवाहा	क्लर्क एकाउंट
13.	613445आर	मा वा अ (आ फ अ)	राम नन्दन शर्मा	क्लर्क जीडी
14.	612349एस	मा वा अ (आ फ अ)	सुमेश चन्दर सैनी	क्लर्क जीडी
15.	611386आर	मा वा अ (आ फ अ)	राज कुमार यादव	किप्टो
16.	613034एन	मा वा अ (आ फ अ)	बिशव नाथ ठाकुर	किप्टो
17.	612957आर	मा वा अ (आ फ अ)	ब्रह्मा नंद शर्मा	शिक्षा अनुदेशक
18.	607605एस	मा वा अ (आ फ अ)	चन्द्र बोस	इलेक्ट फिटर
19.	608011ए	मा वा अ (आ फ अ)	मुपिन्दरजीत सिंह	इलेक्ट फिटर
20.	642251आर	मा वा अ (आ फ अ)	अशोक कुमार मेहता	इंजन फिटर

21.	293934एल	मा वा अ (आ फ अ)	जगदेव सिंह दलेह	इंजन फिटर
22.	612946एफ	मा वा अ (आ फ अ)	बुद्धिसागर त्रिपाठी	उपस्कर सहायक
23.	611780एच	मा वा अ (आ फ अ)	श्यामल बरन देब	उपस्कर सहायक
24.	292319एस	मा वा अ (आ फ अ)	रामप्रकाश सक्सेना	फ्लाइंट गनर
25.	293808ए	मा वा अ (आ फ अ)	अम्बुजाक्षण नायर एस	फ्लाइंट गनर
26.	613608एल	मा वा अ (आ फ अ)	शाहिद अली	जीटीआई
27.	616024एल	मा वा अ (आ फ अ)	ओमपरकाश असालिया	आई ए एफ (पी)
28.	616239एन	मा वा अ (आ फ अ)	अमर नाथ	आई ए एफ (पी)
29.	607845ए	मा वा अ (आ फ अ)	प्रताप नारायण तिवारी	इंस्ट फिटर
30.	607949टी	मा वा अ (आ फ अ)	नारायण सिंह	इंस्ट फिटर
31.	242634एस	मा वा अ (आ फ अ)	रोशन लाल पोखरियाल	चिकित्सा सहायक
32.	242619के	मा वा अ (आ फ अ)	राजेन्दर सिंह बलायन	चिकित्सा सहायक
33.	603479आर	मा वा अ (आ फ अ)	आशुतोष विश्वास	मौसम सहायक
34.	616057एफ	मा वा अ (आ फ अ)	सेल्वराज एस	एम टी फिटर
35.	616406जी	मा वा अ (आ फ अ)	गोविन्दा लहिरी	एम टी फिटर
36.	615057एन	मा वा अ (आ फ अ)	राज सिंह शर्मा	एम टी डी
37.	615197एफ	मा वा अ (आ फ अ)	मंगत राम	एम टी डी
38.	641232एल	मा वा अ (आ फ अ)	मंगल देव मिश्रा	फोटो फिटर
39.	293196के	मा वा अ (आ फ अ)	मोहम्मद शमीम सिद्दीकी	फोटो फिटर
40.	612734एल	मा वा अ (आ फ अ)	भानुप्रताप सिंह	पी जे आई
41.	607609बी	मा वा अ (आ फ अ)	उम्मेद सिंह रातौर	पी एम एफ ई
42.	616427एल	मा वा अ (आ फ अ)	अचल सिंह चौहान	रडार फिटर
43.	617893के	मा वा अ (आ फ अ)	अरामन गनम कुन्हीरमण	रडार फिटर
44.	604594जी	मा वा अ (आ फ अ)	बाबुलाल कुमावत	रेडियो फिटर
45.	631242एस	मा वा अ (आ फ अ)	भीम सिंह यादव	रेडियो फिटर
46.	631507टी	मा वा अ (आ फ अ)	जितेन्द्र नाथ सिंह	रेडियो टेक
47.	604826आर	मा वा अ (आ फ अ)	यारलगड्डा मुरलीकृष्णा राव	रेडियो टेक
48.	292006आर	मा वा अ (आ फ अ)	आत्माराम गोसाइ	एस ई डब्ल्यू
49.	604118एफ	मा वा अ (आ फ अ)	कुलदीप चन्द कटौच	टेलिस्ट आरटीओ
50.	603917टी	मा वा अ (आ फ अ)	चन्द्रशेखर पांडे	टेलिस्ट आरटीओ
51.	292855एन	मा वा अ (आ फ अ)	करनैल सिंह चम्बल	विपन फिटर
52.	641690एस	मा वा अ (आ फ अ)	मूषण गिरी	विपन फिटर
53.	292710ए	वा अ (आ फ अ)	चित्र बहादुर पुन	डब्ल्यू एस फिटर (बी)

54.	293398एच	मा वा अ (आ फ अ)	माधो सिंह चम्पावत	डब्ल्यू एस फिटर (सी)
55.	292800टी	वा अ (आ फ अ)	विश्वनाथ चकवर्ती	डब्ल्यू एस फिटर (सी)
56.	293938एस	मा वा अ (आ फ अ)	रामगोपाल यादव	डब्ल्यू एस फिटर (एम)

महायोग : 56 (छप्पन) नाम केवल

[सं. वा से मु/सी 40254/145/पीए (सीपीसी)]

के जे मैथ्यूस, एयर मार्शल कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

(AIR BRANCH)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2010

No. 5(E) Dated 26 January, 2010.— The undermentioned Honorary Flying Officers are promoted as Honorary Flight Lieutenants with effect from 26 January 2010 on occasion of Republic Day under para 344 of Regulations for the Air Force :-

1.	616607H	MWO (Hony Fg Offr)	YUGESHWAR ROY	ACH GD
2.	293374N	MWO (Hony Fg Offr)	KRISHAN BHARDWAJ	ACH GD
3.	616715B	MWO (Hony Fg Offr)	DESAI DATTATRAY RANGARAO	ADSO
4.	615136A	MWO (Hony Fg Offr)	NISHAN SINGH NIARIYA	ADSO
5.	293766B	MWO (Hony Fg Offr)	ISRAR AHMAD SABBU	AF FIT
6.	641001G	MWO (Hony Fg Offr)	LALLAN PRASAD UPADHYAY	AF FIT
7.	604454R	MWO (Hony Fg Offr)	RAM DULAR SINGH	AFSO
8.	292847L	MWO (Hony Fg Offr)	DHARAM BIR SINGH DABAS	CARP RIG
9.	613485N	MWO (Hony Fg Offr)	DIGAMBER SINGH NEGI	CAT ASST
10.	611928S	MWO (Hony Fg Offr)	BALKAR SINGH	CAT ASST
11.	612109N	MWO (Hony Fg Offr)	ARJUN SINGH CHANDEL	CLK ACCTS
12.	612451N	MWO (Hony Fg Offr)	RAM CHANDRA KUSHWAHA	CLK ACCTS
13.	613445R	MWO (Hony Fg Offr)	RAM NANDAN SHARMA	CLK GD
14.	612349S	MWO (Hony Fg Offr)	SUMESH CHANDER SAINI	CLK GD
15.	611386R	MWO (Hony Fg Offr)	RAJ KUMAR YADAV	CRYPTO
16.	613034N	MWO (Hony Fg Offr)	BISHAW NATH THAKUR	CRYPTO

17.	612957R	MWO (Hony Fg Offr)	BRAHMA NAND SHARMA	ED INST
18.	607605S	MWO (Hony Fg Offr)	CHANDRA BOSE	ELECT FIT
19.	608011A	MWO (Hony Fg Offr)	BHUPINDERJIT SINGH	ELECT FIT
20.	642251R	MWO (Hony Fg Offr)	ASHOK KUMAR MEHTA	ENG FIT
21.	293934L	MWO (Hony Fg Offr)	JAGDEV SINGH DALEH	ENG FIT
22.	612946F	MWO (Hony Fg Offr)	BUDDHISAGER TRIPATHI	EQPT ASST
23.	611780H	MWO (Hony Fg Offr)	SHYAMAL BARAN DEB	EQPT ASST
24.	292319S	MWO (Hony Fg Offr)	RAM PRAKASH SAXENA	FLT GUN
25.	293808A	MWO (Hony Fg Offr)	AMBUJAKSHAN NAIR S	FLT GUN
26.	613608L	MWO (Hony Fg Offr)	SHAHID ALI	GTI
27.	616024L	MWO (Hony Fg Offr)	OM PERKASH ASSALIA	IAF(P)
28.	616239N	MWO (Hony Fg Offr)	AMAR NATH	IAF(P)
29.	607845A	MWO (Hony Fg Offr)	PRATAP NARAIN TEWARI	INST FIT
30.	607949T	MWO (Hony Fg Offr)	NARAYAN SINGH	INST FIT
31.	242634S	MWO (Hony Fg Offr)	ROSHAN LAL POKHARIYAL	MED ASST
32.	242619K	MWO (Hony Fg Offr)	RAJENDER SINGH BALAYN	MED ASST
33.	603479R	MWO (Hony Fg Offr)	ASHUTOSH BISWAS	MET ASST
34.	616057F	MWO (Hony Fg Offr)	SELVARAJ S	MT FIT
35.	616406G	MWO (Hony Fg Offr)	GOBINDA LAHIRI	MT FIT
36.	615057N	MWO (Hony Fg Offr)	RAJ SINGH SHARMA	MTD
37.	615197F	MWO (Hony Fg Offr)	MANGAT RAM	MTD
38.	641232L	MWO (Hony Fg Offr)	MANGAL DEO MISHRA	PHOTO FIT
39.	293196K	MWO (Hony Fg Offr)	MD SHAMIM SIDDIQUI	PHOTO FIT
40.	612734L	MWO (Hony Fg Offr)	BHANU PRATAP SINGH	PJI
41.	607609B	MWO (Hony Fg Offr)	UMMAID SINGH RATHORE	PMF(E)

42.	616427L	MWO (Hony Fg Offr)	ACHAL SINGH CHOUHAN	RAD FIT
43.	617893K	MWO (Hony Fg Offr)	ARAMAN GANAM KUNHIRAMAN	RAD FIT
44.	604594G	MWO (Hony Fg Offr)	BABU LAL KUMAWAT	RDO FIT
45.	631242S	MWO (Hony Fg Offr)	BHIM SINGH YADAV	RDO FIT
46.	631507T	MWO (Hony Fg Offr)	JITENDRA NATH SINGH	RDO TECH
47.	604826R	MWO (Hony Fg Offr)	YARLAGADDA MURALI KRISHNARAO	RDO TECH
48.	292006R	MWO (Hony Fg Offr)	ATMA RAM GOSSAIN	SEW
49.	604118F	MWO (Hony Fg Offr)	KULDEEP CHAND KATOCH	TELST RTO
50.	603917T	MWO (Hony Fg Offr)	CHANDRA SHEKHER PANDEY	TELST RTO
51.	292855N	MWO (Hony Fg Offr)	KARNAIL SINGH CHAMBAL	WPN FIT
52.	641690S	MWO (Hony Fg Offr)	BHUSHAN GIRI	WPN FIT
53.	292710A	WO (Hony Fg Offr)	CHITRA BAHADUR PUN	WS FIT(B)
54.	293398H	MWO (Hony Fg Offr)	MADHO SINGH CHAMPAWAT	WS FIT(C)
55.	292800T	MWO (Hony Fg Offr)	BISWANATH CHAKRABORTY	WS FIT(C)
56.	293938S	MWO (Hony Fg Offr)	RAM GOPAL YADAW	WS FIT(M)

Grand total : 56 (Fifty Six) only.

[No. AIR HQ/C 40254/145/PA (CPC)]

K J MATHEWS, Air Mshl. Air Officer-in-charge Personnel

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2010

सं. 6(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2010.—गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वायुसेना विनियमावली के पैरा 344 के अन्तर्गत निम्नलिखित मास्टर वारंट अफसरों और वारंट अफसरों को 26 जनवरी 2010 से फ्लाईंग अफसर रैंक में आनरेरी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

1.	617519एन	मा वा अ	बोम्मला नागुलू	एसीएच जीडी
2.	614098एस	मा वा अ	मुराला सुभाष चन्द्र बोस	एसीएच जीडी
3.	613290ए	मा वा अ	इन्द्र देव यादव	एसीएच जीडी

4.	613379एल	मा वा अ	गुरुचरन सिंह पेलिया	एसीएच जीडी
5.	611736एन	मा वा अ	बिदया भूषण सिंह यादव	एसीएच जीडी
6.	613610आर	मा वा अ	सरोज नाथ तिवारी	एसीएच जीडी
7.	613438के	म वा अ	इन्द्रजीत सिंह	एसीएच जीडी
8.	611936टी	वा अफ	अजमेर सिंह सेनी	एसीएच जीडी
9.	613436एस	मा वा अ	विक्रम राम	एसीएच जीडी
10.	293186आर	म वा अ	ब्रिज भूषण प्रसाद	एसीएच जीडी
11.	613099बी	व अ	थामस नादुथोटिवडक अथिल चाको	एसीएच जीडी
12.	616967एन	मा वा अ	बिशेश्वर नाथ सिंह	ए डी एस ओ
13.	616480एफ	मा वा अ	शिव सिंह रावत	ए डी एस ओ
14.	617575आर	मा वा अ	शक्ति पदा रॉय	ए डी एस ओ
15.	616738ए	मा वा अ	अंशु कुमार मुखर्जी	ए डी एस ओ
16.	642855एस	मा वा अ	ज्ञान सिंह	ए एफ फिटर
17.	641019एल	मा वा अ	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	ए एफ फिटर
18.	642241ए	मा वा अ	सैयद सुलतान अहमद	ए एफ फिटर
19.	641612एन	मा वा अ	सतबीर सिंह शिवरैण	ए एफ फिटर
20.	293195एन	मा वा अ	सुभाष चन्द्र	ए एफ फिटर
21.	641608एस	मा वा अ	महाराज सिंह त्यागी	ए एफ फिटर
22.	293350टी	मा वा अ	धुला राम पालीवाल	ए एफ फिटर
23.	641875आर	मा वा अ	दीना नाथ शर्मा	ए एफ फिटर
24.	641297ए	मा वा अ	अमर जीत सिंह	ए एफ फिटर
25.	292830बी	मा वा अ	शिव ओम	ए एफ फिटर
26.	292812जी	मा वा अ	प्रीतम सिंह	ए एफ फिटर
27.	641272के	मा वा अ	कैलाश चन्द्र पाणिगृही	ए एफ फिटर
28.	641295एच	मा वा अ	बिशन दास	ए एफ फिटर
29.	641975एच	मा वा अ	शौकत अली सिद्दीकी	ए एफ फिटर
30.	604411एच	मा वा अ	सत्य पाल शर्मा	ए एफ एस ओ
31.	631472जी	मा वा अ	फताराम	ए एफ एस ओ
32.	631757एस	मा वा अ	मोहन लाल	ए एफ एस ओ
33.	631605टी	वा अ	करतार सिंह	ए एफ एस ओ
34.	603289एफ	मा वा अ	घनश्याम प्रधान	ए एफ एस ओ
35.	293257ए	मा वा अ	देव नारायण यादव	कारपेटर रीगर
36.	292747टी	मा वा अ	श्रीनिवास दास	कारपेटर रीगर
37.	613773एफ	मा वा अ	अजीज मुहम्मद शेरानी	कैट सहायक
38.	613605बी	मा वा अ	उदयवीर सिंह शिशोदिया	कैट सहायक
39.	613405एस	मा वा अ	थनकचन पुतुपरमपिल डेनियल	कैट सहायक
40.	610041जी	मा वा अ	जसमेर सिंह	क्लर्क एकाउंट

41.	613930बी	मा वा अ	राम कुमार	क्लर्क एकाउंट
42.	613292एन	मा वा अ	राम मनोरथ तिवारी	क्लर्क एकाउंट
43.	612394एच	मा वा अ	रतन कुमार मुखोपाध्याय	क्लर्क एकाउंट
44.	611534आर	मा वा अ	निरजंन शर्मा	क्लर्क एकाउंट
45.	612623एच	मा वा अ	मुक्ति कांता महापात्रा	क्लर्क एकाउंट
46.	612561ए	मा वा अ	कुलदीप सिंह	क्लर्क एकाउंट
47.	611049एच	मा वा अ	ओम प्रकाश भारद्वाज	क्लर्क एकाउंट
48.	612839जी	वा अ	सुरेन्द्र कुमार	क्लर्क एकाउंट
49.	641418जी	मा वा अ	जयराज आर	क्लर्क जी डी
50.	613248टी	मा वा अ	नारथ गोविंदन	क्लर्क जी डी
51.	611172के	मा वा अ	राजिन्द्र प्रसाद	क्लर्क जी डी
52.	611148एफ	मा वा अ	विजय त्रयंबक कुमावत	क्लर्क जी डी
53.	611751ए	मा वा अ	गोविंद चन्द्र परीदा	क्लर्क जी डी
54.	631682जी	मा वा अ	देवराज	क्लर्क जी डी
55.	612205ए	मा वा अ	लल्लू सिंह	क्लर्क जी डी
56.	299479एन	मा वा अ	गिरीश चन्द्र मिश्र	क्लर्क जी डी
57.	611959एस	मा वा अ	कन्हैया लाल पाण्डेय	क्लर्क जी डी
58.	612787एन	मा वा अ	चंदर सिंह फार्शवान	क्लर्क जी डी
59.	612876आर	मा वा अ	सुखबीर सिंह गुवालिया	क्लर्क जी डी
60.	612870एस	मा वा अ	ब्रिजनंदन ठाकुर	क्लर्क जी डी
61.	613297आर	मा वा अ	श्याम सुंदर प्रसाद	क्लर्क जी डी
62.	613575एल	मा वा अ	राजरखन प्रसाद कुर्मी	क्लर्क जी डी
63.	611731एल	मा वा अ	सतीश कुमार उपाध्याय	क्लर्क जी डी
64.	631408बी	मा वा अ	सदानंदन कुन्नुमल	किप्टो
65.	612133टी	मा वा अ	साहू प्रफुल्ल कुमार	किप्टो
66.	670678आर	मा वा अ	राम करन शर्मा	शिक्षा अनुदेशक
67.	670817एस	मा वा अ	सुशील कुमार सिंह	शिक्षा अनुदेशक
68.	608649एल	मा वा अ	ई मॉनी	इलेक्ट फिटर
69.	608710एन	मा वा अ	ओम प्रकाश मौर्य	इलेक्ट फिटर
70.	608512ए	मा वा अ	नेत्र पाल सिंह	इलेक्ट फिटर
71.	608161जी	मा वा अ	छतर लाल	इलेक्ट फिटर
72.	608689के	मा वा अ	जगरूप सिंह	इलेक्ट फिटर
73.	607993एन	मा वा अ	जसवंत सिंह	इलेक्ट फिटर
74.	608675के	मा वा अ	सुबदार राम	इलेक्ट फिटर
75.	608542ए	मा वा अ	प्रहलाद शिवचरनलाल परदेशी	इलेक्ट फिटर
76.	608048टी	मा वा अ	इंदर जीत सिंह	इलेक्ट फिटर
77.	641812टी	मा वा अ	गौरी चरन बोस	इंजन फिटर
78.	293967एफ	मा वा अ	अतीक अहमद सिद्की	इंजन फिटर
79.	641581जी	मा वा अ	दलजीत सिंह लखमन	इंजन फिटर
80.	642082के	मा वा अ	निर्मल सिंह	इंजन फिटर
81.	641526ए	मा वा अ	हिरेंद्र कुमार दास	इंजन फिटर
82.	293050ए	मा वा अ	हेमेंद्र कुमार पटेल	इंजन फिटर

83.	293949एच	मा वा अ	हरीश्री केश सिंह	इंजन फिटर
84.	641302ए	मा वा अ	देवेन्द्र सिंह ग्रेवाल	इंजन फिटर
85.	613153टी	मा वा अ	त्रिलोक चंद रोजी चंद	इंजन फिटर
86.	293907एस	मा वा अ	रघुवीर सिंह	इंजन फिटर
87.	612761जी	मा वा अ	पांडेय कृष्ण कुमार	उपस्कर सहायक
88.	611359ए	मा वा अ	बदर सिंह मलिक	उपस्कर सहायक
89.	613306ए	मा वा अ	धुबेन्द्र कुमार शुक्ल	उपस्कर सहायक
90.	612924बी	मा वा अ	फकरुद्दीन मोहम्मद नजीर	उपस्कर सहायक
91.	612981ए	मा वा अ	वीर सिंह राजेन	उपस्कर सहायक
92.	613492टी	मा वा अ	गर्जेन्द्र पाल सिंह	उपस्कर सहायक
93.	613881टी	मा वा अ	अशोक कुमार	उपस्कर सहायक
94.	612768ए	मा वा अ	शेखरन टी	उपस्कर सहायक
95.	611063टी	मा वा अ	सत्यनारायण शर्मा	उपस्कर सहायक
96.	611722एन	मा वा अ	केशव एसाद सिंह	उपस्कर सहायक
97.	613822एच	मा वा अ	सिद्ध नाथ तिवारी	उपस्कर सहायक
98.	611790बी	मा वा अ	राजज्वल कुमार मोहर्ती	उपस्कर सहायक
99.	642640आर	मा वा अ	चनन सिंह धीमन	प्लाइट इंजीनियर
100.	293997एच	मा वा अ	दयाराम	प्लाइट रनर
101.	612491एल	मा वा अ	शोभानन शिवादासन	जी टी आई
102.	612884एस	मा वा अ	बल बीर सिंह	जी टी आई
103.	612940जी	मा वा अ	राम राज वर्मा	जी टी आई
104.	616526एच	मा वा अ	युधिष्ठिर बेहुरा	आई ए एफ (पी)
105.	616507आर	मा वा अ	कुलदीप सिंह बिस्ट	आई ए एफ (पी)
106.	616767एच	मा वा अ	पिनोद कुमार	आई ए एफ (पी)
107.	617297टी	मा वा अ	माजी ईश्वरराव	आई ए एफ (पी)
108.	615314एफ	मा वा अ	जी बराती दासन	आई ए एफ (पी)
109.	617027एल	मा वा अ	नारायण सिंह	आई ए एफ (पी)
110.	616025एच	मा वा अ	अमर सिंह	आई ए एफ (पी)
111.	617948एल	मा वा अ	परष्पा जलाष्पा घटनाअट्टी	आई ए एफ (पी)
112.	617022के	मा वा अ	छोटे लाल सिंह	आई ए एफ (पी)
113.	617891एस	मा वा अ	भुपेन्द्र नाथ शर्मा	आई ए एफ (पी)
114.	615975एफ	मा वा अ	राज पाल सिंह तुषीर	आई ए एफ (पी)
115.	608116आर	मा वा अ	फौज दार सिंह	इंस्ट फिटर
116.	608991एल	मा वा अ	रामेन्द्र सिंह सचान	इंस्ट फिटर
117.	607853बी	मा वा अ	काडली रामा राव	इंस्ट फिटर
118.	608527एस	मा वा अ	लाल खान	इंस्ट फिटर
119.	608046जी	मा वा अ	प्रेम नाराण	इंस्ट फिटर
120.	608526ए	मा वा अ	कप्तान सिंह	इंस्ट फिटर
121.	242848बी	मा वा अ	सैयद बशीर अहमद एस	चिकित्सा सहायक
122.	242872एच	मा वा अ	तिवारी सुर्य कुमार	चिकित्सा सहायक

123.	242785टी	वा अ	बिरेन डेका	चिकित्सा सहायक
124.	604360एल	मा वा अ	अरुण बिकास धर	मौसम सहायक
125.	604638एस	मा वा अ	स्वदेशी प्रसाद	मौसम सहायक
126.	616572आर	मा वा अ	अर्जुन	एम टी फिटर
127.	287849के	मा वा अ	अनिल कुमार दत्ता	एम टी फिटर
128.	615740एन	मा वा अ	हिमांशु कुमार दास मोहापात्र	एम टी फिटर
129.	615211बी	मा वा अ	गंगा सिंह	एम टी फिटर
130.	618054एस	मा वा अ	राघवन नायर टी वी	एम टी डी
131.	615485आर	मा वा अ	शिव पूजन	एम टी डी
132.	617383एल	मा वा अ	अरविंद कुमार	एम टी डी
133.	618021एफ	मा वा अ	हनुमान मल	एम टी डी
134.	287667ए	मा वा अ	बिरेन्द्र प्रसाद चौधरी	एम टी डी
135.	617076एच	मा वा अ	कोर्डे बोस बाबू	एम टी डी
136.	617150एन	मा वा अ	आनन्दा भीमा पोवार	एम टी डी
137.	615382एन	मा वा अ	रमेश चंद शर्मा	एम टी डी
138.	616074एफ	मा वा अ	मुरली धर जेना	एम टी डी
139.	615391एल	मा वा अ	रईस अहमद	एम टी डी
140.	615270एन	मा वा अ	राज किशोर सिंह	एम टी डी
141.	287627बी	मा वा अ	नरेन्द्र सिंह लुबाना	एम टी डी
142.	616383ए	मा वा अ	राम किशोर त्रिपाठी	एम टी डी
143.	616576ए	मा वा अ	चन्द्र प्रकाश	एम टी डी
144.	616314आर	वा अ	चंदेश्वर प्रसाद सिंह	एम टी डी
145.	617393जी	वा अ	उमेश प्रसाद पाठक	एम टी डी
146.	616608एफ	मा वा अ	हरे कृष्णा दास	एम टी डी
147.	617769एल	मा वा अ	दिनाकर शंकर गाडे	एम टी डी
148.	617765जी	मा वा अ	दिव्य लोचन दास	एम टी डी
149.	616571टी	वा अ	सुरेश चन्द्र सिंह	एम टी डी
150.	615019एच	मा वा अ	बोरी बन्धु सामल	एम टी डी
151.	616374बी	वा अ	पी पलानी चमी	एम टी डी
152.	615283एस	मा वा अ	नत्थूराम शर्मा	एम टी डी
153.	293258एस	मा वा अ	रामचन्द्र राठौर	एम टी डी
154.	616586आर	मा वा अ	नेल्लिकंडी सहादेवन	एम टी डी
155.	615917के	मा वा अ	राम केवल	एम टी डी
156.	620444आर	वा अ	वट्टापारामफिल फासिस एन्टोनी	संगीतकार
157.	641330एल	वा अ	रघु राज सिंह	फोटो फिटर
158.	292719एच	मा वा अ	ओम प्रकाश सिंह	फोटो फिटर
159.	615683एच	मा वा अ	ब्रिजपाल सिंह ग्रेड	पी जे आई
160.	616327टी	मा वा अ	सुरत सिंह यादव	पी जे आई
161.	608975एच	मा वा अ	राम सजीवन यादव	पी एम एफ(ई)
162.	608112के	मा वा अ	लाल देव प्रसाद सिंह	पी एम एफ(ई)
163.	617954ए	मा वा अ	पंकज कुमार दत्ता	रडार फिटर

164.	617696एन.	मा वा अ	बिकास रॉय	रडार फिटर
165.	620062ए	मा वा अ	महेन्द्र कुमार शर्मा	रडार फिटर
166.	619071एच	मा वा अ	मारिया एन्टोनी जेसू अलवर्ट मोनी	रडार फिटर
167.	616448एस	मा वा अ	हिमांगशु रंजन चक्रवर्ती	रडार फिटर
168.	631584जी	मा वा अ	विक्रम जीत रॉय	रेडियो फिटर
169.	604681आर	मा वा अ	निर्मल सिंह	रेडियो फिटर
170.	602891एन	मा वा अ	ओम प्रकाश	रेडियो फिटर
171.	631502एस	मा वा अ	गिरीश चन्द्र रावत	रेडियो फिटर
172.	603753जी	मा वा अ	गुरदीप सिंह	रेडियो फिटर
173.	631510टी	मा वा अ	सुरेश यादव	रेडियो फिटर
174.	604890टी	मा वा अ	पी. ए. राम चौधरी	रेडियो फिटर
175.	631983ए	मा वा अ	राजेश्वर मस्तान	रेडियो फिटर
176.	621791एस	मा वा अ	जगत प्रियंव	रेडियो फिटर
177.	604010ए	मा वा अ	अरविन्दा भट्टाचार्यी	रेडियो फिटर
178.	631313बी	मा वा अ	सुखर मोहम्मद	रेडियो फिटर
179.	631039एन	मा वा अ	राजेश कुमार चतुर्वेदी	रेडियो फिटर
180.	631521के	मा वा अ	मिश्री सिंह	रेडियो फिटर
181.	604908एल	मा वा अ	सुरेश प्रताप सिंह	रेडियो फिटर
182.	631621बी	मा वा अ	एडीप कुमार पराशर	रेडियो टेक
183.	631566के	मा वा अ	ओम प्रकाश शर्मा	रेडियो टेक
184.	631762के	मा वा अ	निरंजन चौधरी	रेडियो टेक
185.	631243एन	मा वा अ	सीता राम शर्मा	रेडियो टेक
186.	604975एफ	मा वा अ	शरत चन्द्र रे	रेडियो टेक
187.	604735ए	मा वा अ	विश्वनाथ बैठा	रेडियो टेक
188.	631795बी	मा वा अ	अनिरुद्ध शर्मा	रेडियो टेक
189.	641444एफ	मा वा अ	रोहिताश्व यादव	एस ई डब्लू
190.	293696एन	मा वा अ	स्वरूप शर्मा	एस ई डब्लू
191.	631388जी	मा वा अ	हर कुमार तिवारी	टैलेस्ट आर टी ओ
192.	604866एन	मा वा अ	थोडिकापोकेईयल नानू ससी धरन	टैलेस्ट आर टी ओ
193.	603408एस	मा वा अ	धरनिधर मिश्रा	टैलेस्ट आर टी ओ
194.	641825बी	मा वा अ	नंद किशोर पांडा	टैलेस्ट आर टी ओ
195.	602744एस	मा वा अ	नरेन्द्र कुमार पाण्डेय	टैलेस्ट आर टी ओ
196.	602998ए	मा वा अ	मणि लाल भाटिया	टैलेस्ट आर टी ओ
197.	604526एस	मा वा अ	राम शंकर सिंह	टैलेस्ट आर टी ओ
198.	631689ए	मा वा अ	अशोक कुमार	टैलेस्ट आर टी ओ
199.	631780जी	वा अ	गुरदीप सिंह सलाथिया	टैलेस्ट आर टी ओ

200.	641958एच	मा वा अ	शैव गुलाम गुप्ता	वेपन फिटर
201.	293889एन	मा वा अ	वर्गिस पी टी	वेपन फिटर
202.	641014के	वा अ	बिनोद कुमार सिंह	वेपन फिटर
203.	641498बी	मा वा अ	मविलाकाडि नरायाण जयन्दन	वेपन फिटर
204.	641914एफ	मा वा अ	हरपाल सिंह	वेपन फिटर
205.	641961एच	मा वा अ	हरिबाबू द्विवेदी	वेपन फिटर
206.	293231एन	मा वा अ	मानू भूषण सरकार	वेपन फिटर
207.	293446आर	मा वा अ	देवनाथ प्रसाद सिंह	वेपन फिटर
208.	292357बी	मा वा अ	कनक कुमार चौधुरी	वेपन फिटर
209.	293600एफ	मा वा अ	मोहब्बत सिंह भाटी	वेपन फिटर
210.	642153आर	मा वा अ	भगवाना राम बाजिया	वेपन फिटर
211.	293493टी	मा वा अ	नागेश कुमार सिंह	वेपन फिटर
212.	293660एल	मा वा अ	म्यान सिंह मोर	वेपन फिटर
213.	612738एस	मा वा अ	रबिन्द्र नाथ चटर्जी	वेपन फिटर
214.	641968बी	वा अ	अजय सेन गुप्ता	डब्लू एस फिटर (बी)
215.	641450एन	मा वा अ	रुद्र प्रताप सिंह श्रीनते	डब्लू एस फिटर (बी)
216.	641277एल	वा अ	सुभाष चन्द्र बेहरा	डब्लू एस फिटर (बी)
217.	292707ए	मा वा अ	बलबीर सिंह	डब्लू एस फिटर (सी)
218.	293655टी	मा वा अ	हरमेश कुमार चौहान	डब्लू एस फिटर (सी)
219.	293275एस	वा अ	रघवीर सिंह दहिया	डब्लू एस फिटर (सी)
220.	641012एस	मा वा अ	रामाशीष पंडित	डब्लू एस फिटर (एम)
221.	641517बी	मा वा अ	राजेश्वर प्रसाद	डब्लू एस फिटर (एम)
222.	642066जी	वा अ	शशी भूषण महारत	डब्लू एस फिटर (एम)

[सं. वा से मु/सी 40254/145/पीए (सीपीसी)]

के जे मैथ्यूस, एयर मार्शल कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2010

No. 6(E) Dated 26 January, 2010.—The undermentioned MWOs and WOs are granted Honorary Commission in the rank of Flying Officer with effect from **26 January 2010** on occasion of Republic Day under para 344 of Regulations for the Air Force :-

Sl. No.	Service Number	Rank	Name & initials	Trade
1.	617519N	MWO	BOMMALA NAGULU	ACH GD
2.	614098S	MWO	MURALA SUBHAS CHANDRA BOSE	ACH GD
3.	613290A	MWO	INDRA DEV YADAV	ACH GD
4.	613379L	MWO	GURCHARAN SINGH PELIA	ACH GD

5.	611736N	MWO	BIDYA BHUSHAN SINGH YADAV	ACH GD
6.	613610R	MWO	SAROJ NATH TIWARI	ACH GD
7.	613438K	MWO	INDRAJIT SINGH	ACH GD
8.	611936T	WO	AJMER SINGH SAINI	ACH GD
9.	613436S	MWO	BIKRAM RAM	ACH GD
10.	293186R	MWO	BRIJ BHUSHAN PRASAD	ACH GD
11.	613099B	WO	THOMAS NADUTHOTTIVADAK-ATHIL CHACKO	ACH GD
12.	616967N	MWO	BISHESHWAR NATH SINGH	ADSO
13.	616480F	MWO	SHIV SINGH RAWAT	ADSO
14.	617575R	MWO	SAKTI PADA ROY	ADSO
15.	616738A	MWO	ANSHU KUMAR MUKHERJEE	ADSO
16.	642855S	MWO	GYAN SINGH	AF FIT
17.	641019L	MWO	SURENDRA PRASAD SINGH	AF FIT
18.	642241A	MWO	SYED SULTAN AHMAD	AF FIT
19.	641612N	MWO	SATBIR SINGH SHIVRAIN	AF FIT
20.	293195N	MWO	SUBHASH CHANDRA	AF FIT
21.	641608S	MWO	MAHARAJ SINGH TYAGI	AF FIT
22.	293350T	MWO	DHULA RAM PALIWAL	AF FIT
23.	641875R	MWO	DINA NATH SHARMA	AF FIT
24.	641297A	MWO	AMAR JIT SINGH	AF FIT
25.	292830B	MWO	SHIV OM	AF FIT
26.	292812G	MWO	PRITAM SINGH	AF FIT
27.	641272K	MWO	KAILAS CHANDRA PANIGRAHI	AF FIT
28.	641295H	MWO	BISHAN DASS	AF FIT
29.	641975H	MWO	SHAUKAT ALI SIDDIQUI	AF FIT
30.	604411H	MWO	SATYA PAL SHARMA	AFSO
31.	631472G	MWO	FATARAM	AFSO
32.	631757S	MWO	MOHAN LAL	AFSO
33.	631605T	WO	KARTAR SINGH	AFSO
34.	603289F	MWO	GHANASHYAMA PRADHAN	AFSO
35.	293257A	MWO	DEO NARAIN YADAV	CARP RIG
36.	292747T	MWO	SRINIBAS DASH	CARP RIG
37.	613773F	MWO	AZIZ MUHAMMAD SHERANI	CAT ASST

38.	613605B	MWO	UDAIVEER SINGH SESODIA	CAT ASST
39.	613405S	MWO	THANKACHAN PUTHUPARAMPIL DANIEL	CAT ASST
40.	610041G	MWO	JASMER SINGH	CLK ACCTS
41.	613930B	MWO	RAM KUMAR	CLK ACCTS
42.	613292N	MWO	RAM MANORATH TIWARI	CLK ACCTS
43.	612394H	MWO	RATAN KUMAR MUKHOPADHYAY	CLK ACCTS
44.	611534R	MWO	NIRANJAN SARMA	CLK ACCTS
45.	612623H	MWO	MUKTI KANTA MAHAPATRA	CLK ACCTS
46.	612561A	MWO	KULDIP SINGH	CLK ACCTS
47.	611049H	MWO	OM PARKASH BHARDWAJ	CLK ACCTS
48.	612839G	WO	SURENDRA KUMAR	CLK ACCTS
49.	641418G	MWO	JAYARAJ R	CLK GD
50.	613248T	MWO	NARATH GOVINDAN	CLK GD
51.	611172K	MWO	RAJINDER PARSHAD	CLK GD
52.	611148F	MWO	VIJAY TRYAMBAK KUMAWAT	CLK GD
53.	611751A	MWO	GOVINDACHANDRA PARIDA	CLK GD
54.	631682G	MWO	DEV RAJ	CLK GD
55.	612205A	MWO	LALLU SINGH	CLK GD
56.	299479N	MWO	GIRISH CHANDRA MISHRA	CLK GD
57.	611959S	MWO	KANHAIYA LAL PANDEY	CLK GD
58.	612787N	MWO	CHANDAR SINGH PHARSWAN	CLK GD
59.	612876R	MWO	SUKHBIR SINGH GUWALIA	CLK GD
60.	612870S	MWO	BRIJNANDAN THAKUR	CLK GD
61.	613297R	MWO	SHYAM SUNDER PRASAD	CLK GD
62.	613575L	MWO	RAJRAKHAN PRASAD KURMI	CLK GD
63.	611731L	MWO	SATISH KUMAR UPADHYAY	CLK GD
64.	631408B	MWO	SADANANDAN KUNNUMAL	CRYPTO
65.	612133T	MWO	SAHU PRAFULL KUMAR	CRYPTO
66.	670678R	MWO	RAM KARAN SHARMA	ED INST
67.	670817S	MWO	SUSHIL KUMAR SINGH	ED INST
68.	608649L	MWO	E MONY	ELECT FIT
69.	608710N	MWO	OM PRAKASH MAURYA	ELECT FIT
70.	608512A	MWO	NETRA PAL SINGH	ELECT FIT

71.	608161G	MWO	CHATTAR LAL	ELECT FIT
72.	608689K	MWO	JAGRUP SINGH	ELECT FIT
73.	607993N	MWO	JASWANT SINGH	ELECT FIT
74.	608675K	MWO	SUBE DAR RAM	ELECT FIT
75.	608542F	MWO	PRALHAD SHIVCHARANLAL PARDESHI	ELECT FIT
76.	608048T	MWO	INDER JEET SINGH	ELECT FIT
77.	641812T	MWO	GOURI CHARAN BOSE	ENG FIT
78.	293967F	MWO	ATIQUE AHMED SIDDIQUI	ENG FIT
79.	641581G	MWO	DALJIT SINGH LAKHMAN	ENG FIT
80.	642082K	MWO	NIRMAL SINGH	ENG FIT
81.	641526A	MWO	HIRENDRA KUMAR DAS	ENG FIT
82.	293050A	MWO	HEMENDRA KUMAR PATEL	ENG FIT
83.	293949H	MWO	HRISHI KESH SINGH	ENG FIT
84.	641302A	MWO	DEVINDER SINGH GREWAL	ENG FIT
85.	613153T	MWO	TRILOK CHAND ROJI CHAND	ENG FIT
86.	293907S	MWO	RAGHUVIR SINGH	ENG FIT
87.	612761G	MWO	PANDAY KRISHNA KUMAR	EQPT ASST
88.	611359A	MWO	BADAR SINGH MALIK	EQPT ASST
89.	613306A	MWO	DHRUVENDRA KUMAR SHUKLA	EQPT ASST
90.	612924B	MWO	FAKHRUDDIN MOHAMMEDNAZFER	EQPT ASST
91.	612981A	MWO	BHIM SINGH RAJAIN	EQPT ASST
92.	613492T	MWO	GAJENDRA PAL SINGH	EQPT ASST
93.	613881T	MWO	ASHOK KUMAR	EQPT ASST
94.	612768A	MWO	SEKARAN T	EQPT ASST
95.	611063T	MWO	SATYANARAYAN SHARMA	EQPT ASST
96.	611722N	MWO	KESHOW PRASAD SINGH	EQPT ASST
97.	613822H	MWO	SIDH NATH TIWARI	EQPT ASST
98.	611790B	MWO	UJJWAL KUMAR MOHANTY	EQPT ASST
99.	642640R	MWO	CHANAN SINGH DHIMAN	FLT ENG
100.	293997H	MWO	DAYARAM	FLT GUN
101.	612491L	MWO	SOBHANAN SIVADASAN	GTI
102.	612884S	WO	BAL BIR SINGH	GTI
103.	612940G	MWO	RAM RAJ VERMA	GTI

104.	616526H	MWO	YUDHISTIR BEHURA	IAF (P)
105.	616507R	MWO	KULDIP SINGH BISHT	IAF (P)
106.	616767H	MWO	VINOD KUMAR	IAF (P)
107.	617297T	MWO	MAJJI ESWARARAO	IAF (P)
108.	615314F	MWO	G BARATHI DASAN	IAF (P)
109.	617027L	MWO	NARAIN SINGH	IAF (P)
110.	616025H	MWO	AMAR SINGH	IAF (P)
111.	617948L	MWO	PARAPPA JALAPPA GHATANATTI	IAF (P)
112.	617022K	MWO	CHHOTE LAL SINGH	IAF (P)
113.	617891S	MWO	BHUPENDRA NATH SARMA	IAF (P)
114.	615975F	MWO	RAJ PAL SINGH TUSHIR	IAF (P)
115.	608116R	MWO	FAUJ DAR SINGH	INST FIT
116.	608991L	MWO	RAMENDRA SINGH SACHAN	INST FIT
117.	607853B	MWO	KADALI RAMA RAO	INST FIT
118.	608527S	MWO	LAL KHAN	INST FIT
119.	608046G	MWO	PREM NARAIN	INST FIT
120.	608526A	MWO	KAPTAN SINGH	INST FIT
121.	242848B	MWO	SYED BASHEER AHAMED S	MED ASST
122.	242872H	MWO	TIWARI SURYA KUMAR	MED ASST
123.	242785T	WO	BIREN DEKA	MED ASST
124.	604360L	MWO	ARUN BIKASH DHAR	MET ASST
125.	604638S	MWO	SWADESHI PRASAD	MET ASST
126.	616572R	MWO	ARJUN	MT FIT
127.	287849K	MWO	ANIL KUMAR DUTTA	MT FIT
128.	615740N	MWO	HIMANSHU KUMAR DAS MOHAPATRA	MT FIT
129.	615211B	MWO	GANGA SINGH	MT FIT
130.	618054S	MWO	RAGHAVAN NAIR TV	MTD
131.	615485R	MWO	SHIV PUJAN	MTD
132.	617383L	MWO	ARVIND KUMAR	MTD
133.	618021F	MWO	HANUMAN MAL	MTD

134.	287667A	MWO	BIRENDRA PRASAD CHOUDHARY	MTD
135.	617076H	MWO	KONDE BOSE BABU	MTD
136.	617150N	MWO	ANANDA BHIMA POWAR	MTD
137.	615382N	MWO	RAMESH CHAND SHARMA	MTD
138.	616074F	MWO	MURALI DHAR JENA	MTD
139.	615391L	MWO	RAIS AHMAD	MTD
140.	615270N	MWO	RAJ KISHOR SINGH	MTD
141.	287627B	MWO	NARINDER SINGH LUBANA	MTD
142.	616383A	MWO	RAMKISHOR TRIPATHI	MTD
143.	616576A	MWO	CHANDRA PRAKASH	MTD
144.	616314R	WO	CHANDESHWAR PRASAD SINGH	MTD
145.	617393G	WO	UMESH PRASAD PATHAK	MTD
146.	616608F	MWO	HARE KRISHNA DAS	MTD
147.	617769L	MWO	DINKAR SHANKAR GADE	MTD
148.	617765G	MWO	DIBYA LOCHAN DAS	MTD
149.	616571T	WO	SURESH CHANDRA SINGH	MTD
150.	615019H	MWO	BAURI BANDHU SAMAL	MTD
151.	616374B	WO	P PALANI CHAMY	MTD
152.	615283S	MWO	NATHOORAM SHARMA	MTD
153.	293258S	MWO	RAMCHANDRA RATHORE	MTD
154.	616586R	MWO	NELLIKKANDI SAHADEVAN	MTD
155.	615917K	MWO	RAM KEWAL	MTD
156.	620444R	WO	VATTAPARAMPHIL FRANCIES ANTONY	MUSN
157.	641330L	WO	RAGHU RAJ SINGH	PHOTO FIT
158.	292719H	MWO	OM PRAKASH SINGH	PHOTO FIT
159.	615683H	MWO	BRIJPAL SINGH GRADE	PJI
160.	616327T	MWO	SURAT SINGH YADAV	PJI
161.	608975H	MWO	RAM SAJIWAN YADAW	PMF(E)
162.	608112K	MWO	LAL DEO PRASAD SINGH	PMF(E)

163.	617954A	MWO	PANKAJ KUMAR DUTTA	RAD FIT
164.	617696N	MWO	BIKASH ROY	RAD FIT
165.	620062A	MWO	MAHENDRA KUMAR SHARMA	RAD FIT
166.	619071H	MWO	MARIA ANTHONY JESU ALBERT MONI	RAD FIT
167.	616448S	MWO	HIMANGSHU RANJAN CHAKRABORTY	RAD FIT
168.	631584G	MWO	BIKRAM JIT ROY	RDO FIT
169.	604681R	MWO	NIRMAL SINGH	RDO FIT
170.	602891N	MWO	OM PRAKASH	RDO FIT
171.	631502S	MWO	GIRISH CHANDRA RAWAT	RDO FIT
172.	603753G	MWO	GURDIP SINGH	RDO FIT
173.	631510T	MWO	DHARAM DEO YADAV	RDO FIT
174.	604890T	MWO	PEE RA RAM CHOUDHARY	RDO FIT
175.	631983A	MWO	SHAIK KHADAR MASTHAN	RDO FIT
176.	631791S	MWO	SAM CHERIAN	RDO FIT
177.	604010A	MWO	ARABINDA BHATTACHARJEE	RDO FIT
178.	631313B	MWO	SATTAR MOHAMMAD	RDO FIT
179.	631039L	MWO	RAJESH KUMAR CHATURVEDI	RDO FIT
180.	631521K	MWO	MISHRI SINGH	RDO FIT
181.	604908L	MWO	DHARM PAL SINGH	RDO FIT
182.	631621B	MWO	PARDIP KUMAR PRASHAR	RDO TECH
183.	631566K	MWO	OM PRAKASH SHARMA	RDO TECH
184.	631762K	MWO	NIRANJAN CHOUDHURY	RDO TECH
185.	631243N	MWO	SITA RAM SHARMA	RDO TECH
186.	604975F	MWO	SARATA CHANDRA RAY	RDO TECH
187.	604735A	MWO	BISHWANATH BAITHA	RDO TECH
188.	631795B	MWO	ANIRUDHA SHARMA	RDO TECH
189.	641444F	MWO	ROHITASW YADAV	SEW
190.	293696N	MWO	SWARUPA SHARMA	SEW

191.	631388G	MWO	HAR KUMAR TIWARY	TELST RTO
192.	604866N	MWO	THONDIKKAPOIKEYIL NANU SASI DHARAN	TELST RTO
193.	603408S	MWO	DHARNIDHAR MISHRA	TELST RTO
194.	641825B	MWO	NANDA KISHORE PANDA	TELST RTO
195.	602744S	MWO	NARENDRA KUMAR PANDEY	TELST RTO
196.	602998A	MWO	MANI LAL BHATTA	TELST RTO
197.	604526S	MWO	RAMA SHANKAR SINGH	TELST RTO
198.	631689A	MWO	ASHOK KUMAR	TELST RTO
199.	631780G	WO	GURDIP SINGH SLATHIA	TELST RTO
200.	641958H	MWO	SHEO GULAM GUPTA	WPN FIT
201.	293889N	MWO	VARGHEESE P T	WPN FIT
202.	641014K	WO	BINOD KUMAR SINGH	WPN FIT
203.	641498B	MWO	MAVILAKANDY NARAYANAN JAYANDRAN	WPN FIT
204.	641914F	MWO	HARPAL SINGH	WPN FIT
205.	641961H	MWO	HARIBABU DWIVEDI	WPN FIT
206.	293231N	MWO	BHANU BHUSAN SARKAR	WPN FIT
207.	293446R	MWO	DEONATH PRASAD SINGH	WPN FIT
208.	292357B	MWO	KANAK KUMAR CHAUDHURI	WPN FIT
209.	293600F	MWO	MOHABBAT SINGH BHATI	WPN FIT
210.	642153R	MWO	BHAGWANA RAM BAJIA	WPN FIT
211.	293493T	MWO	NAGESHKUMAR SINGH	WPN FIT
212.	293660L	MWO	MIAN SINGH MOR	WPN FIT
213.	612738S	MWO	RABINDRA NATH CHATTERJEE	WPN FIT
214.	641968B	WO	AJOY SEN GUPTA	WS FIT(B)
215.	641450N	MWO	RUDRA PRATAP SINGH SHRINATE	WS FIT(B)
216.	641277L	WO	SUBAS CHANDRA BEHERA	WS FIT(B)
217.	292707A	MWO	BALBIR SINGH	WS FIT(C)
218.	293655T	MWO	HARMESH KUMAR CHOUHAN	WS FIT(C)

219.	293275S	WO	RAGHVIR SINGH DAHIYA	WS FIT(C)
220.	641012S	MWO	RAMASHISH PANDIT	WS FIT (M)
221.	641517B	MWO	RAJESHWAR PRASAD	WS FIT(M)
222.	642066G	WO	SASI BHUSAN MAHARTHA	WS FIT(M)

Grand total : 222 (two hundred twenty two) only.

[No. AIR HQ/C 40254/145/PA (CPC)]

K J MATHEWS, Air Mshl. Air Officer-in-charge Personnel

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2010

सं. 7(अ) दिनांक 26 जनवरी, 2010.—गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वायुसेना विनियमावली के पैरा 345 के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवा निवृत्त मास्टर वारंट अफसरों को 26 जनवरी 2010 से आनरेरी फ्लाईंग अफसर रैंक प्रदान किया जाता है :-

1.	641986टी	भूतपूर्व— मा वा अ	विश्वमोहन त्रिपाठी	इंजन फिटर
2.	293188एच	भूतपूर्व— मा वा अ	जगन्नाथ प्रसाद सिंह	वेफन फिटर
3.	604985टी	भूतपूर्व— मा वा अ	बिपिन कुमार बेहरा	रेडियो फिटर
4.	615555एफ	भूतपूर्व— मा वा अ	योगेन्द्र मिश्रा	ए डी एस ओ

[सं. वा से मु/सी 40254/145/पीए (सीपीसी)]

के जे मैथ्यूस, एयर मार्शल कार्मिक प्रभारी वायु अफसर

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2010

No. 7(E) Dated 26 January, 2010.— The undermentioned retired MWOs are granted the Honorary rank of Flying Officer with effect from 26 January 2010 on occasion of Republic Day under para 345 of Regulations for the Air Force :-

Sl. No.	Service Number	Rank	Name & Initials	Trade
1.	641986T	Ex-MWO	VISHWA MOHAN TRIPATHI	ENG FIT
2.	293188H	Ex-MWO	JAGANNATH PRASAD SINGH	WPN FIT
3.	604985T	Ex-MWO	BIPIN KUMAR BEHERA	RDO FIT
4.	615555F	Ex-MWO	YOGENDRA MISRA	ADSO

[No. AIR HQ/C 40254/145/PA (CPC)]

K J MATHEWS, Air Mshl. Air Officer-in-charge Personnel

भारतीय नौसेना

स्थाई काडर

विशेष ड्यूटी सूची

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2010

सं. 8(अ), दिनांक 26 जनवरी, 2010.— राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करती हैं :—
निम्नलिखित मास्टर चीफ पेटी अफसरों को विशेष ड्यूटी सूची पर 26 जनवरी 2010 से अवैतनिक कमीशन प्रदान किया जाता है।

अवैतनिक लेफ्टिनेंट (विशेष ड्यूटी) के पद पर

क्रमांक नाम	रैंक	नम्बर
1. जेम्स पीटर एक्का	एम सी पी ओ 1 क्यु ए 1	202821-एच
2. चन्द्रपती	एम सी पी ओ 1	202137-बी
3. अलोक समाददार	एम सी पी ओ 1 आर पी 1	106641-टी
4. महावीर सिंह	एम सी पी ओ 1 क्यु ए 1	203179-वाई
5. उत्पल कुमार चौधुरी	एम सी पी ओ 1 क्यु ए 1	105332-टी
6. आनन्द किशोर	एम एस सी पी ओ 1	106096-बी
7. सतिंदरजीत सिंह	एम सी पी ओ डब्ल्यू टी आर 1	106411-डब्ल्यू
8. एस बी बोलकर	एम सी पी ओ एस टी डी 1	143694-बी
9. नरेश कुमार यादव	एम सी ए पी एच 1	202281-एफ
10. राजन टी चन्द्रोथ	एम सी ए ए एच 1	202920-एच
11. मातुरी बाला प्रसाद	एम सी ए एस ई 1	202553-जेड
12. सुंकर्री नुरुल्ला	एम सी ए एस ई 1	202566-बी
13. मोहन सिंह	एम सी ए मेट 1	202549-आर
14. श्याम बिहारी मिश्र	एम सी ए एम 1	202389-ए
15. वेद प्रकाश	एम सी मैक ए आर 1	203775-ए
16. दिनेश चन्द्र नौटियाल	एम सी पी ओ ए एफ 1	202547-के
17. के नटराजन चेटियार	एम सी पी ओ आर टेल 1	105232-आर
18. राम पलट यादव	एम सी मैक 1	106356-डब्ल्यू
19. विल्लिंगला चेल्लया नायडू	एम सी एम ई 1	202607-वाई
20. पोसा सुब्बा राव	एम सी एम ई 1	201984-एफ
21. किशन सिंह बिष्ट	एम सी मैक 1	106243-एन

22.	जोगिन्दर कुमार	एम सी एम ई 1	202704-टी
23.	कृष्ण देव सिंह	एम सी एम ई 1	106284-एफ
24.	कन्हैया लाल	एम सी एम ई 1	201937-जेड
25.	दयाराम सिंह यादव	एम सी मैक 1	106170-वाई
26.	बिरेन्द्र सिंह यादव	एम सी मैक 1	108663-एन
27.	जगदीश चन्द्र	एम सी मैक पी 1	202211-वाई
28.	कवंर सिंह रावल	एम सी डब्ल्यु एम 1	105483-के
29.	बलदेव	एम सी ई एल आर 1	202344-जेड
30.	आबासाहेब र पाटील	एम सी मैक पी 1	106318-एच
31.	मुन्द्रिका सिंह	एम सी मैक पी 1	108900-ए
32.	दयाल सिंह गुलेरिया	एम सी ई एल पी 1	203668-एच
33.	एस सुन्दर राज	एम सी मैक आर 1	145000-वाई
34.	राम कुमार साह	एम सी ई एल आर 1	110686-के
35.	केन्द्रपाल सिंह	एम सी पी ओ एम ए 1	106865-ए
36.	बलबीर सिंह	एम सी एट आर्मश 1	203185-के

अवैतनिक सब लेफ्टिनेंट विशेष ड्यूटी के पद पर

क्रमांक	नाम	रैंक	नम्बर
1.	धुरहू सिंह	एम सी पी ओ 1 सी डी 1	202347-एफ
2.	जी के रत्नम	एम सी पी ओ 1 यु सी 1	203249-एफ
3.	जय कृष्ण महान्ति	एम सी पी ओ 11 सी डी 1	142405-जेड
4.	नगिन्द्र सिंह जमवाल	एम सी पी ओ 1 आर पी 1	201548-आर
5.	जगमोहन सिंह	एम सी पी ओ 1 क्यु ए 1	104316-एफ
6.	कृष्ण चन्द	एम सी पी ओ 1 आर पी 1	202749-डब्ल्यु
7.	ढाल सिंह	एम सी पी ओ 1 पी टी आई	106484-के
8.	शयो सिंह	एम सी पी ओ 1 यु सी 1	106858-के
9.	बीजु प्रसाद	एम सी पी ओ 1 आर सी 1	106879-एच
10.	हीरा सिंह	एम सी पी ओ 11 यु सी 1	143262-वाई
11.	सतीन्दर कुमार	एम सी पी ओ 1 आर सी 1	141032-बी
12.	कृष्ण कुमार	एम सी पी ओ 1 क्यु ए 1	203819-ए
13.	जबार खान	एम सी पी ओ 1 क्यु ए 1	141287-एच
14.	बिनय कुमार सिंह	एम सी पी ओ 1 यु डब्ल्यु 1	203559-के
15.	दिनेश्वर सिंह	एम सी पी ओ 1 यु डब्ल्यु 1	109787-टी
16.	माथे अभिमन्यु अम्बादास	एम सी पी ओ 11 आर पी 1	142782-एफ

17.	ईदल सिंह राजपूत	एम सी पी ओ ॥ आर सी 1	142365-एच
18.	सजीव सुकुमारन	एम सी पी ओ ॥ आर पी 1	108967-बी
19.	बलवंत सिंह, एन एम	एम सी पी ओ 1 पी टी आई	202542-जेड
20.	ललित कुमार काठात	एम सी पी ओ 1 यु सी 1	142649-बी
21.	राकेश सिंह	एम सी पी ओ 1 आर पी 1	203699-बी
22.	राजेन्द्र मोहन	एम सी पी ओ 1 पी टी आई	202512-एफ
23.	उमेश कुमार श्रीवास्तव	एम सी पी ओ ॥ आर पी 1	109152-जेड
24.	रघुबीर सिंह	एम सी पी ओ ॥ आर सी 1	143101-एफ
25.	शीशीरा कुमार होता	एम सी पी ओ ॥ आर सी 1	109047-के
26.	दास अशोक रामाचन्द्रा	एम सी पी ओ ॥ यु सी 1	143421-एच
27.	मिलाप चन्द कपूर	एम सी पी ओ ॥ यु सी 1	142611-टी
28.	नरेश चन्द शर्मा	एम सी पी ओ ॥ आर सी 1	146030-एन
29.	तरसेम चन्द	एम सी पी ओ ॥ आर सी 1	108803-एफ
30.	अत्तर सिंह चन्देल	एम सी पी ओ ॥ आर सी 1	143394-वाई
31.	भगवान प्रसाद गुप्ता	एम सी पी ओ ॥ जी आई एस	148041-एच
32.	मोहर पाल सिंह	एम सी पी ओ ॥ क्यु ए 1	143099-ए
33.	गोपाल सिंह	एम सी ओ ॥ आर सी 1	109921-वाई
34.	नन्दलाल प्रसाद यादव	एम सी पी ओ ॥ यु डब्ल्यु 1	108866-जेड
35.	राजेन्द्र कुमार	एम सी पी ओ ॥ क्यु ए 1	109879-ए
36.	सुनील पंडित	एम सी पी ओ ॥ सी डी 1	110527-जेड
37.	सुरेश कुमार शर्मा	एम एस सी पी ओ 1	106747-एच
38.	बिल्वा नाथ पाल	एम सी पी ओ डब्ल्यु टी आर 1	106305-बी
39.	भाना राम	एम एस सी पी ओ 1	106853-जेड
40.	रामवीर सिंह	एम सी पी ओ डब्ल्यु टी आर 1	106174-एफ
41.	राज कुमार सिंह	एम एस सी पी ओ 1	106508-आर
42.	सोहन सिंह शेखावत	एम सी पी ओ डब्ल्यु टी आर 1	106802-एच
43.	मनतोष साहु	एम एस सी पी ओ 1	106434-वाई
44.	टी के समाचन्द्रन	एम सी पी ओ डब्ल्यु टी आर 1	141405-ए
45.	मोहम्मद अयुब	एम एस सी पी ओ ॥	143268-के
46.	वर्गीस चाको	एम सी पी ओ डब्ल्यु टी आर 1	106954-बी
47.	सम्भूराम वर्मा	एम एस सी पी ओ ॥	143158-के
48.	ज्ञान सिंह	एम एस सी पी ओ ॥	107903-के
49.	सेल्वराज	एम सी पी ओ डब्ल्यु टी आर 1	146004-बी
50.	गोकुल चन्द्रा साहा	एम सी पी ओ एस टी डी ॥	108100-एच
51.	नारायण चन्द	एम सी पी ओ सी के (ओ)1	106307-एच

52.	मानस कुमार माईति	एम सी पी ओ एस टी डी ॥	143801-वाई
53.	राज पति	एम सी पी ओ सी के (एस) 1	106787-जेड
54.	सपन कुमार नाथ	एम सी पी ओ सी के (ओ) ॥	108061-डब्ल्यु
55.	वीर सिंह	एम सी पी ओ एस टी डी ।	143738-बी
56.	राम बृक्ष सिंह यादव	एम सी पी ओ सी के (एस) ॥	107317-बी
57.	गिर्राज सिंह	एम सी पी ओ सी के (एस) ॥	107219-एफ
58.	ईन्द्र पाल सिंह	एम सी पी ओ एस टी डी ॥	107718-आर
59.	त्रिभुवन सिंह	एम सी पी ओ सी के (ओ) ॥	108080-एन
60.	मदन सिंह शेखावत	एम सी पी ओ सी के (एस) 1	106795-टी
61.	भवान सिंह	एम सी पी ओ सी के (एस) ॥	107739-एन
62.	शिशपाल सिंह	एम सी पी ओ सी के (ओ) ॥	108034-एच
63.	गणेश मुन्सीलाल घेंगट	एम सी पी ओ टौप ॥	107831-वाई
64.	सहजानन्द राय	एम सी पी ओ सी के (एस) ॥	143790-वाई
65.	ओ जोय कुटी	एम सी पी ओ टौप ॥	107854-जेड
66.	श्याम लाल	एम सी पी ओ टौप ॥	108017-डब्ल्यु
67.	चीन्नु राजेन्द्रन	एम सी पी ओ टौप ॥	108070-आर
68.	मदन लाल	एम सी पी ओ एस टी डी ॥	107750-एन
69.	ए के एस जाधव	एम सी पी ओ टौप ॥	107956-एफ
70.	सत्यप्रकाश	एम सी ए (ए एच) ॥	107813-एफ
71.	सत्येन्द्र नारायण शर्मा	एम सी ए (मैट) ॥	109989-ए
72.	करतार चन्द	एम सी ए (ए एच) ॥	142264-बी
73.	राम चन्द्र यादव	एम सी ए (एस ई) ॥	143319-ए
74.	सुधीर कुमार कुँवर	एम सी ए (मैट) ॥	108436-वाई
75.	उदय नारायण पाण्डेय	एम सी ए (ए एच) ।	140909-जेड
76.	जय प्रकाश यादव	एम सी मैक ए एल 1	202849-वाई
77.	देश राज राणा	एम सी ए एम डब्ल्यु 1	204116-ए
78.	वेद प्रकाश सिंह	एम सी ई एल ए 1	141369-डब्ल्यु
79.	अशोक कुमार सिंह	एम सी पी ओ ए एफ 1	203781-आर
80.	शिवमुरत यादव	एम सी ए ए डब्ल्यु 1	191227-एच
81.	श्रीमन्त कुमार मिश्रा	एम सी ए ए 1	192422-जेड
82.	राधाकृष्णन नायर पी	एम सी ई एल ए आर 1	107275-एच
83.	रामचन्द्र यादव	एम सी ई ए ए ॥	192393-एच

84.	मदन लाल	एम सी पी ओ आर एस पी एल ।	202945-आर
85.	सुरेश कुमार सिंह	एम सी पी ओ आर टेल 1	202275-टी
86.	ओम प्रकाश	एम सी पी ओ आर एस पी एल ॥	143435-आर
87.	चार्लस माणिकम आर जे, विसेमे	एम सी पी ओ आर टेल 1	201973-एफ
88.	सुरेश चन्द	एम सी पी ओ आर एस पी एल ।	106661-एन
89.	अमिरचौंद सिंह यादव	एम सी पी ओ आर टेल 1	202642-ए
90.	चन्द्रपति	एम सी पी ओ आर एस पी एल ॥	107875-वाई
91.	सुरेन्द्र प्रसाद	एम सी पी ओ आर एस पी एल ।	106774-डब्ल्यु
92.	राम स्वरूप	एम सी पी ओ आर टेल ॥	143215-आर
93.	अनिल कुमार राय	एम सी पी ओ आर टेल ॥	111245-एफ
94.	नरसी राम शर्मा	एम सी मैक ॥	112343-ए
95.	राजेन्द्र सिंह	एम सी एम ई 1	203110-आर
96.	जैमोन चाको	एम सी मैक ॥	112341-वाई
97.	कदम आवासाहेब डी	एम सी मैक ।	108280-टी
98.	प्रमोद कुमार सिंह	एम सी एम ई ॥	143332-एफ
99.	पंचानन प्रधान	एम सी मैक ।	149367-वाई
100.	राम कुमार	एम सी एस डब्ल्यु ए 1	203924-आर
101.	लक्ष्मण सिंह	एम सी मैक पी ।	110902-ए
102.	अशोक सिंह	एम सी ई ए पी सी 1	190752-बी
103.	अनन्त प्रकाश मिश्र	एम सी मैक आर 1	144953-आर
104.	अमजद अली	एम सी मैक आर 1	149470-एफ
105.	अम्बिका प्रसाद एस यादव	एम सी ई एल आर 1	202691-एन
106.	लाल सिंह रावत	एम सी ई एल आर 1	141614-ए
107.	हीरा सिंह बोरा	एम सी मैक पी 1	110908-आर
108.	के ससिकुमारन नायर	एम सी ई एल पी ॥	148545-बी
109.	राधेश्याम मिश्रा	एम सी ई ए पी 1	203683-टी
110.	उमेश कुमार	एम सी पी ओ एम 1	141452-एच
111.	राजेन्द्र सिंह	एम सी पी ओ एम ए ॥	108015-आर
112.	राजवीर सिंह	एम सी पी ओ एम ए ॥	144135-एफ

113.	बीर सिंह	एम सी पी ओ एम ए II	143967-जेड
114.	अशोक कुमार	एम सी पी ओ एम I	141726-एफ
115.	लेख राम	एम सी पी ओ एम ए II	142957-बी
116.	विनोद कुमार चौहान	एम सी एट आर्मश II	143515-वाई
117.	धर्मपाल	एम सी एट आर्मश II	142440-बी
118.	जगदीश चाँद	एम सी एट आर्मश II	110020-वाई
119.	बलवन्त सिंह कौशल	एम सी एट आर्मश I	204202-वाई
120.	चमन लाल	एम सी एट आर्मश II	143505-जेड
121.	वी आर मुरुगेशन	एम सी पी ओ मुस 1	188019-टी

[फा. सं. एच ए/2504/जनवरी 2010-ऑनरेरी कमीशन - जनवरी 2010]

एम. पी. मुरलीधरन, वाईस एडमिरल, कार्मिक अध्यक्ष, एकीकृत मुख्यालय

INDIAN NAVY

PERMANENT CADRE

SPECIAL DUTIES LIST

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2010

No. 8(E), dated 26 January, 2010.— The President is pleased to make the following appointments :—

The following Master Chief Petty Officers are granted Honorary Commission on the Special Duties List on 26th Jan. 2010 :—

TO BE HONORARY LIEUTENANT (SPECIAL DUTIES)

<u>SER</u>	<u>NAME</u>	<u>RANK</u>	<u>P NO</u>
1.	JAMES PETER EKKA	MCPO I QA 1	202821 H
2.	CHANDRAPATI	MCPO I RC 1	202137 B
3.	ALOKE SAMADDAR	MCPO I RP 1	106641 T
4.	MAHAVIR SINGH	MCPO I QA 1	203179 Y
5.	UTPAL KUMAR CHOWDHURY	MCPO I RC 1	105332 T
6.	ANAND KISHORE	MSCPO I	106096 B
7.	SATINDER JIT SINGH	MCPO WTR I	106411 W
8.	SB BHOLKAR	MCPO STD I	143694 B
9.	NARESH KUMAR YADAV	MCA PH I	202281 F
10.	RAJAN T CHANDROTH	MCA(AH) I	202920 H
11.	MATURI BALA PRASAD	MCA(SE) I	202553 Z
12.	SUNKARI NOORULLA	MCA(SE) I	202566 B
13.	MOHAN SINGH	MCA(MET) I	202549 R

14.	SHYAM BIHARI MISHRA	MC AM I	202389 A
15.	VED PRAKASH	MC MECH(AR) I	203775 A
16.	DINESH CHANDRA NAUTIYAL	MCPO AF I	202547 K
17.	K NATARAJAN CHETTIAR	MCPORTEL I	105232 R
18.	RAM PALAT YADAV	MC MECH I	106356 W
19.	VULLINGLA CHELLAYYA NAIDU	MC ME I	202607 Y
20.	POSA SUBBA RAO	MC ME I	201984 F
21.	KISHAN SINGH BISHT	MC MECH I	106243 N
22.	JOGINDER KUMAR	MC ME I	202704 T
23.	KRISHNA DEO SINGH	MC ME I	106284 F
24.	KANHIYA LAL	MC ME I	201937 Z
25.	DAYARAM SINGH YADAV	MC MECH I	106170 Y
26.	BIRENDER SINGH YADAV	MC MECH I	108663 N
27.	JAGDISH CHANDRA	MC MECH P I	202211 Y
28.	KANWAR SINGH RAWAL	MC WM I	105483 K
29.	BALDEO	MC ELR I	202344 Z
30.	ABASAHEB R PATIL	MC MECH P I	106318 H
31.	MUNDRIKA SINGH	MC MECH P I	108900 A
32.	DAYAL SINGH GULERIA	MC ELP I	203668 H
33.	S SUNDARA RAJ	MC MECH R I	145000 Y
34.	RAM KUMAR SAH	MC ELR I	110686 K
35.	KENDRAPAL SINGH	MCPO MA I	106865 A
36.	BALBIR SINGH	MC AT ARMS I	203185 K

TO BE HONORARY SUB LIEUTENANT (SPECIAL DUTIES)

<u>Sl</u>	<u>NAME</u>	<u>RANK</u>	<u>P NO</u>
1.	GHURAHU SINGH	MCPO I CD I	202347 F
2.	GORRE KASI RATNAM	MCPO I UC I	203249 F
3.	JAY KRUSHNA MOHANTY	MCPO II CD I	142405 Z
4.	NAGINDER SINGH JAMWAL	MCPO I RP1	201548 R
5.	JAGMOHAN SINGH	MCPO I QA1	204316 F
6.	KRISHAN CHAND	MCPO I RP1	202749 W
7.	DHAL SINGH	MCPO I PTI	106484 K
8.	SHAYO SINGH	MCPO I UC1	106858 K
9.	BIJU PRASAD	MCPO I RC1	106879 H
10.	HEERA SINGH	MCPO II UC1	143262 Y
11.	SATINDER KUMAR	MCPO I RC1	141032 B
12.	KRISHAN KUMAR	MCPO I QA1	203819 A
13.	JABAR KHAN	MCPO I QA1	141287 H
14.	BINAY KUMAR SINGH	MCPO I UW1	203559 K
15.	DINESHWAR SINGH	MCPO I UW1	109787 T
16.	MATHE ABHIMANYU AMBADAS	MCPO II RP1	142782 F
17.	INDAL SINGH RAJPUT	MCPO II RC1	142365 H
18.	SAJEEV SUKUMARAN	MCPO II RP1	108967 B
19.	BALWANT SINGH, NM	MCPO I PTI	202542 Z

20.	LALIT KUMAR KATHAT	MCPO I UC1	142649 B
21.	RAKESH SINGH	MCPO I RP1	203699 B
22.	RAJENDER MOHAN	MCPO I PTI	202512 F
23.	UMESH KUMAR SRIVASTAVA	MCPO II RP1	109152 Z
24.	RAGHUVIR SINGH	MCPO II RC1	143101 F
25.	SHISHIRA KUMAR HOTA	MCPO II RC1	109047 K
26.	DHAS ASHOK RAMACHANDRA	MCPO II UC1	143421 H
27.	MILAP CHAND KAPOOR	MCPO II UC1	142611 T
28.	NARESH CHAND SHARMA	MCPO II RC1	146030 N
29.	TARSEM CHAND	MCPO II RC1	108803 F
30.	ATTAR SINGH CHANDEL	MCPO II RC1	143394 Y
31.	BHAGWAN PRASAD GUPTA	MCPO II GI (S)	148041 H
32.	MOHAR PAL SINGH	MCPO II QA1	143099 A
33.	GOPAL SINGH	MCPO II RC1	109921 Y
34.	NANDLAI PRASAD YADAV	MCPO II UW1	108866 Z
35.	RAJENDRA KUMAR	MCPO II QA1	109879 A
36.	SUNIL PANDIT	MCPO II CD1	110527 Z
37.	SURESH KUMAR SHARMA	MSCPO I	106747 H
38.	BILWA NATH PAL	MCPO WTR I	106305 B
39.	BHANA RAM	MSCPO I	106853 Z
40.	RAMVIR SINGH	MCPO WTR I	106174 F
41.	RAJ KUMAR SINGH	MSCPO I	106508 R
42.	SOHAN SINGH SHEKHAWAT	MCPO WTR I	106802 H
43.	MONOTOSH SAHU	MSCPO I	106434 Y
44.	TK RAMACHANDRAN	MCPO WTR I	141405 A
45.	MOHMMED AYUB	MSCPO II	143268 K
46.	VARGHESE CHACKO	MCPO WTR I	106954 B
47.	SAMBHURAM VERMA	MSCPO II	143158 K
48.	GIAN SINGH	MSCPO II	107903 K
49.	SELVARAJ	MCPO WTR I	146004 B
50.	GOKUL CHANDRA SAHA	MCPO STD II	108100 H
51.	NARAYAN CHANDA	MCPO CK(O) I	106307 H
52.	MANAS KUMAR MAITY	MCPO STD II	143801 Y
53.	RAJ PATI	MCPO CK(S) I	106787 Z
54.	SAPAN KUMAR NATH	MCPO CK(O) II	108061 W
55.	VIR SINGH	MCPO STD I	143738 B
56.	RAM BRIKSH SINGH YADAV	MCPO CK(S) II	107317 B
57.	GIRRAJ SINGH	MCPO CK(S) II	107219 F
58.	INDER PAL SINGH	MCPO STD II	107718 R
59.	TRIBHUWAN SINGH	MCPO CK(O) II	108080 N
60.	MADAN SINGH SHEKHAWAT	MCPO CK(S) I	106795 T
61.	BHAWAN SINGH	MCPO CK(S) II	107739 N
62.	SISPAL SINGH	MCPO CK(O) II	108034 H
63.	GANESH MUNSILAL GHENGAT	MCPO TOP II	107831 Y
64.	SAHJANAND RAI	MCPO CK(S) II	143790 Y

65.	O JOY KUTTY	MCPO TOP II	107854 Z
66.	SHAM LAL	MCPO TOP II	108017 W
67.	CHINNU RAJENDRAN	MCPO TOP II	108070 R
68.	MADAN LAL	MCPO STD II	107750 N
69.	AKS JADHAV	MCPO TOP II	107956 F
70.	SATYA PRAKASH	MCA(AH) II,	107813 F
71.	SATYENDRA NARAIN SHARMA	MCA(MET) II	109989 A
72.	KARTAR CHAND	MCA(AH) II	142264 B
73.	RAM CHANDER YADAV	MCA(SE) II	143319 A
74.	SUDHIR KUMAR KUER	MCA(MET) II	108436 Y
75.	UDAI NARAYAN PANDEY	MCA (AH) I	140909 Z
76.	JAI PRAKASH YADAV	MC MECH(AL) I	202849 Y
77.	DESH RAJ RANA	MC AM(W) I	204116 A
78.	VED PRAKASH SINGH	MC ELA I	141369 W
79.	ASHOK KUMAR SINGH	MCPO AF I	203781 R
80.	SHIV MURATH YADAV	MC AA(W) I	191227 H
81.	SHRIMANT KUMAR MISHRA	MC AA I	192422 Z
82.	RADHAKRISHNAN NAIR P	MC ELAR I	107275 H
83.	RAMCHANDER YADAV	MC EAA II	192393 H
84.	MADAN LAL	MCPORSPL I	202945 R
85.	SURESH KUMAR SINGH	MCPORTEL I	202275 T
86.	OM PRAKASH	MCPORSPL II	143435 R
87.	CHARLES MANICKAM RJ, VSM	MCPORTEL I	201973 F
88.	SURESH CHAND	MCPORSPL I	106661 N
89.	AMIRCHAND SINGH YADAV	MCPORTEL I	202642 A
90.	CHANDRAPATI	MCPORSPL II	107875 Y
91.	SURENDER PRASAD	MCPORSPL I	106774 W
92.	RAM SWAROOP	MCPORTEL II	143215 R
93.	ANIL KUMAR RAI	MCPORTEL II	111245 F
94.	NARSI RAM SHARMA	MC MECH II	112343 A
95.	RAJENDER SINGH	MC ME I	203110 R
96.	JAIMON CHACKO	MC MECH II	112341 Y
97.	KADAM ABASAHEB DNYANU	MC MECH I	108280 T
98.	PRAMOD KUMAR SINGH	MC ME II	143332 F
99.	PANCHANAN PRADHAN	MC MECH I	149367 Y
100.	RAM KUMAR	MC SWA I	203924 R
101.	LAKSHMAN SINGH	MC MECH P I	110902 A
102.	ASHOK SINGH	MCEAP C I	100752 B
103.	ANANT PRAKASH MISHRA	MC MECH R I	144953 R
104.	AMJAD ALI	MC MECH R I	149470 F
105.	AMBIKA PRASAD S YADAV	MC ELR I	202691 N
106.	LAL SINGH RAWAT	MC ELR I	141614 A
107.	HIRA SINGH BORA	MC MECH P I	110908 R
108.	K SASIKUMARAN NAIR	MC ELP II	148545 B
109.	RADHESHYAM MISHRA	MC EAP I	203683 T

110.	UMESH KUMAR	MCPO M I	141452 H
111.	RAJINDER SINGH	MCPO M II	108015 R
112.	RAJVEER SINGH	MCPO M II	144135 F
113.	BIR SINGH	MCPO M II	143967 Z
114.	ASHOK KUMAR	MCPO M I	141726 F
115.	LEKH RAM	MCPO M II	142957 B
116.	VINOD KUMAR CHAUHAN	MC AT ARMS II	143515 Y
117.	DHARAM PAL	MC AT ARMS II	142440 B
118.	JAGDISH CHAND	MC AT ARMS II	110020 Y
119.	BALWANT SINGH KAUSHAL	MC AT ARMS I	204202 Y
120.	CHAMAN LAL	MC AT ARMS II	143505 Z
121.	V R MURUGESAN	MCPO MUS I	188019 T

[F. No. HA/2504/Jan 2010-Hony Commission - Jan. 2010]

M. P. MURLIDHARAN, Vice Admiral, Chief of Personnel, Integrated Headquarters